CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

शूद्रों का प्राचीन इतिहास

रामशरण शर्मा

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

शूद्रों का प्राचीन इतिहास

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

शूद्रों का प्राचीन इतिहास

रामशरण शर्मा

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

दि मैकमिलन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड
नई दिल्ली बंबई कलकत्ता मद्रास
समस्त विश्व में सहयोगी कंपनियां

© भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद
प्रथम हिंदी संस्करण : 1979
अनुवाद : विजयनाथ ठाकुर

State Museum Library
Lucknow
5297

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद द्वारा प्रवर्तित

एस जी वसानी द्वारा दि मैकमिलन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड
के लिए प्रकाशित तथा ग्रंथ भारती, दिल्ली-110032 में मुद्रित।
R.S. Sharma : SHOODRON KA PRACHIN ITIHAS

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

अनुसंधान परिषद की ओर से

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के अनेक उद्देश्यों में से एक है शोध की उपलब्धियों को उस पाठक वर्ग तक पहुंचाना जो हमसे यह अपेक्षा रखता है कि हम भारतीय भाषाओं के इतिहास संबंधी रचनाएं तैयार तथा प्रकाशित करें। अंगरेजी भाषा के माध्यम से भारतीय इतिहासविद अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पहुंच सकते हैं, नाम और प्रतिष्ठा अर्जित कर सकते हैं, किंतु भारतीय पाठक वर्ग का एक छोटा अंश ही इससे लाभ उठा पाता है। शिक्षण और अनुसंधान के माध्यम के रूप में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग की प्रकृति बल पकड़ रही है। ऐसी स्थिति में इतिहास की स्तरीय पुस्तकों की कमी गंभीर रूप से अनुभव की जा रही है। सबसे पहले हमें भारतीय इतिहास की ओर ध्यान देना है। अतः भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ने कुछ गौरवग्रंथों (क्लासिक्स) तथा इतिहास विषयक शोध की निर्दोष पद्धतियों पर आदृत और इतिहास की समकालीन प्रवृत्तियों को प्रतिबिंबित करने वाली कुछ अन्य पुस्तकों का अनुवाद कराने का निश्चय किया है।

प्रस्तुत मौलिक एवं विस्तार से लिखी गई पुस्तक 'शूद्रों का प्राचीन इतिहास' में प्राचीन भारत पर काम करने वाले प्रमुख इतिहासकार डा० रामशरण शर्मा ने उन परिस्थितियों की जटिलता के विश्लेषण का प्रयत्न किया है जिनके कारण शूद्र वर्ग का निर्माण हुआ। इस पुस्तक में लगभग 500 ई० तक अन्य सामाजिक समूहों की तुलना में शूद्रों की स्थिति में होने वाले विविध परिवर्तनों का व्यवस्थित लेखाजोखा दिया गया है। साथ ही यहां प्राचीन भारतीय समाज की संरचना में संबंधों की सिद्धांतनिष्ठ प्रकृति की पड़ताल भी की गई है। प्रो० शर्मा ने अपनी प्राक्कल्पना और निष्कर्षों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर साहित्यिक आंकड़ों—वैदिक तथा शास्त्रीय, ब्राह्मण तथा अब्राह्मण—का सावधानीपूर्वक तथा आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण किया है। ऐसा करते समय विभिन्न कालों की भौतिक दशाओं को उन्होंने ध्यान में रखा है।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

पुस्तक का प्रकाशन पटना यूनिट के प्रयासों का परिणाम है, जिसके लिए अनुवादक श्री विजयनाथ ठाकुर, और यूनिट प्रमुख डा० एन० पी० वर्मा और अन्य सहयोगियों के प्रति हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं।

1 मार्च 1979
नई दिल्ली

ए० आर० कुलकर्णी
अध्यक्ष
भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

हिंदी संस्करण की भूमिका

प्रस्तुत पुस्तक का अंगरेजी संस्करण बीस साल पहले निकला था। यद्यपि इस बीच शूद्रों के इतिहास पर कोई अधिक खोज नहीं हुई है, किंतु हिंदी संस्करण में जहां तहां आवश्यक परिवर्तन किए हैं। पुस्तक में शूद्र समुदाय की उत्पत्ति और उनके प्राचीन इतिहास के विभिन्न चरणों को उजागर करने की चेष्टा की गई है और इसमें बदलते भौतिक परिवेश का भी ध्यान रखा गया है। यह बतलाने का प्रयास किया गया है कि दास और कर्मकर की स्थिति में रहने वाले शूद्र गुप्तकाल का अंत होते होते अधिकांशतः कैसे कृषक बन गए। आशा की जाती है कि इस पुस्तक से केवल शूद्रों की व्यवस्था की ही जानकारी नहीं होगी बल्कि वर्णव्यवस्था और प्राचीन भारतीय समाज के इतिहास पर भी प्रकाश पड़ेगा।

रामशरण शर्मा

फरवरी 1979
इतिहास विभाग,
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

आमुख

मैंने इस विषय का अध्ययन लगभग दस वर्ष पहले आरंभ किया किंतु भारतीय विश्वविद्यालय के शिक्षक की कार्यव्यस्तता और पुस्तकालय की समुचित सुविधा के अभाव के कारण कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं कर सका। इस ग्रंथ का अधिकांश स्कूल आफ ओरियंटल ऐंड अफ्रीकन स्टडीज में दो शिक्षासत्रों (1954-56) में पूरा किया गया, जहां जाने के लिए पटना विश्वविद्यालय ने मुझे उदारतापूर्वक अध्ययन-अवकाश प्रदान किया। यह पुस्तक मुख्यतया मेरे उस शोधप्रबंध पर आधारित है जो लंदन विश्वविद्यालय में 1956 ई० में पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ था।

डा० एफ० आर० आलचिन, प्रो० एच० डब्ल्यू बेली, डा० टी० एन० दवे, डा० जे० डी० एम० डेरेट, प्रो० सी० वान फुरस्हैमेनडार्फ, प्रो० डी० डी० कोसांबी, प्रो० आर० एन० शर्मा और डा० ए० के० वार्डर और अनेक अन्य मित्रों को मैं धन्यवाद देता हूं, जिनसे मुझे इस कार्य में अनेक प्रकार की सहायता मिली है। डा० एल० डी० बार्नेट ने मुझे जो बहुमूल्य सुझाव दिए हैं, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। अपने प्रिय मित्र डा० देवराज को मैं अवश्य धन्यवाद दूंगा जिनकी सहायता यदि प्रमाणीवाचन और आनुषंगिक कार्य में नहीं मिलती तो पुस्तक के प्रकाशन में कुछ और विलंब हो जाता। डा० उपेंद्र ठाकुर का भी आभारी हूं जिन्होंने अनुक्रमणी तैयार की है और प्रमाणीवाचन में भी मेरी सहायता की है। सबसे बढ़कर, इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे प्रो० ए० एल० बैशम के साथ कार्य करने का अवसर मिला जिनके अविचल वैदुष्य मानदंड, छात्रों की बौद्धिक स्वतंत्रता के प्रति स्नेह और सुहृद संमित मार्गदर्शन से इस ग्रंथ की रचना में बहुत सहारा मिला है। इसमें तथ्य और निर्णय संबंधी जो भूलें अथवा अन्य तकनीकी अनियमितताएं रह गई हों उनका दायित्व मैं अपने ऊपर लेता हूं।

रामशरण शर्मा

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

अनुक्रम

भूमिका : 1
उत्पत्ति : 8
जनजाति से वर्ण की ओर : 42
दासता और अशक्तता : 82
मौर्यकालीन राज्यनियंत्रण और सेवि वर्ग : 143
प्राचीन व्यवस्था का कमजोर पड़ना : 174
रूपांतरण की प्रक्रिया : 220
सारांश और निष्कर्ष : 279
ग्रंथ सूची : 284
अनुक्रमणी : 302

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

भूमिका

प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था का आधुनिक अध्ययन ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रयासों से आरंभ हुआ। कंपनी एक विदेशी जाति की संव्यवस्थाओं से परिचित हुए बिना उस पर शासन नहीं कर सकती थी। भारत के आरंभिक सामाजिक इतिहास की दृष्टि से जिन आंग्ल रचनाओं का कुछ महत्व है उनमें से एक है : अ कोड आफ जेंटू लाज (1776), जिसकी भूमिका में बताया गया है कि 'भारत के व्यापार और बंगाल में स्थानीय सत्ता की स्थापना' के लाभ तभी कायम रह सकते हैं जब 'उस देश की उन मौलिक संव्यवस्थाओं को अपना लिया जाए तो विजेताओं के कानूनों और हितों के प्रतिकूल नहीं हैं।'[1] मनुस्मृति के अनुवाद की भूमिका (1794) में आधुनिक भारतीय विद्या (इंडोलोजी) के जन्मदाता सर विलियम जोंस ने लिखा है कि यदि इस नीति का अनुसरण किया जाए तो 'करोड़ों हिंदू प्रजा' का 'सुनिर्दिष्ट श्रम' 'ब्रिटेन की श्रीवृद्धि में सहायक होगा'।[2] चार वर्ष बाद इन स्रोतों के आधार पर कोलब्रुक ने 'एन्युमरेशन आफ इंडियन क्लासेज' पर निबंध लिखा।[3] उसके अनुसार भारत का सामाजिक वर्गीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण, विशिष्ट संव्यवस्था है।[4] उसके शीघ्र ही बाद अपनी पुस्तक दि हिस्ट्री आफ इंडिया (1818) में मिल ने वर्ण व्यवस्था का विवरण प्रस्तुत करने के लिए इन स्रोतों का उपयोग किया। शूद्रों की आशक्तताओं की चर्चा करते हुए वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हिंदुओं में जातिजन्य पराधीनता की विभीषिका किसी भी अन्य समाज की अपेक्षा अधिक विनाशात्मक थी।[5] उसने यह भी कहा कि हिंदू समाज की यह वीभत्सता अभी भी बनी हुई है। किंतु इन्हीं स्रोतों के आधार पर एलफिंस्टन (1841) का निष्कर्ष था कि 'शूद्रों की स्थिति' कुछ प्राचीन गणराज्यों के लोक-दासों की स्थिति से अच्छी थी। उसका ख्याल था कि शूद्र मध्य युग के कृषि दासों या अन्य पराश्रित वर्गों से, जिनसे हम परिचित हैं, अच्छी हालत में तो अवश्य थे।[6] उसका यह भी विचार था कि उसके समय वैसे पराश्रित वर्ग अब विद्यमान नहीं थे।[7]

इसमें संदेह नहीं कि बहुत सी अति पुरातन सामाजिक प्रथाएं उन्नीसवीं

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

शताब्दी में भी प्रचलित थीं। इंग्लैंड के विकासोन्मुख औद्योगिक समाज और भारत के पुराने तथा पतनोन्मुख समाज के बीच की गहरी विषमता ने राष्ट्रीय भावना से प्रेरित भारत के शिक्षित और बुद्धिजीवी वर्ग का ध्यान आकर्षित किया।[8] उन्होंने महसूस किया कि सती प्रथा, आजीवन वैधव्य, बाल विवाह और सजातीय विवाह की प्रथा राष्ट्र की प्रगति में बाधक हैं। चूंकि ये प्रथाएं धर्मशास्त्रों के बल पर चल रही थीं, इसलिए यह अनुभव किया गया कि उनमें आवश्यक सुधार आसानी से लाए जा सकते हैं, यदि यह सिद्ध किया जा सके कि वे सुधार धार्मिक ग्रंथों के अनुरूप हैं। इस प्रकार सन 1818 ई० में राममोहन राय ने सती प्रथा के विरोध में प्रकाशित अपनी प्रथम पुस्तिका (ट्रैक्ट) के द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि शास्त्रों के अनुसार, नारी के मोक्ष का सर्वोत्तम साधन सती प्रथा नहीं है।[9] इसी शताब्दी के पांचवें दशक में स्मृति ग्रंथों के आधार पर ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का समर्थन किया।[10] सातवें दशक में आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद ने मूल संस्कृत ग्रंथों के उद्धरणों का संकलन सत्यार्थ प्रकाश के नाम से प्रकाशित किया। उनके जरिए उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया, जन्म पर आधारित जाति प्रथा के बहिष्कार की घोषणा की,[11] और शूद्रों को भी वेदाध्ययन का अधिकारी माना।[12] हमें मालूम नहीं कि आरंभ में समाज सुधारकों को म्यूर की समकालीन रचनाओं[13] से कहां तक प्रेरणा मिली। उसने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि प्राचीन युग में यह विश्वास प्रचलित नहीं था कि चारों वर्णों की उत्पत्ति आदि मानव से हुई है।[14] हम यह भी नहीं जानते कि वेबर की उन रचनाओं का भी उन पर कोई प्रभाव पड़ा या नहीं जिनमें उसने ब्राह्मणों और सूत्रों के आधार पर वर्ण व्यवस्था का प्रथम महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत किया है।[15]

1891 ई० में, जब सम्मति आयु विधेयक (एज आफ कंसेंट बिल) प्रस्तुत किया जा रहा था, सर आर० जी० भंडारकर ने एक प्रामाणिक पुस्तिका प्रकाशित की जिसमें संस्कृत ग्रंथों का उद्धरण देकर उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि वयस्क होने पर ही किसी लड़की का विवाह किया जाना चाहिए। दूसरी ओर बाल गंगाधर तिलक ने, जो विदेशी शासकों के विरुद्ध किसी भी हथियार का प्रयोग करने को तैयार रहते थे, प्राचीन संदर्भग्रंथों से उद्धरण प्रस्तुत करके इस विधेयक का विरोध किया।[16]

आधुनिक सुधारों के समर्थन में प्राचीन ग्रंथों का उद्धरण देने की प्रवृत्ति कितनी व्यापक थी इसका कुछ अनुमान आर० जी० भंडारकर (1895) के इन शब्दों से किया जा सकता है : 'प्राचीन काल में लड़कियों का विवाह वयस्क होने पर किया जाता था, अब उनका विवाह उसके पूर्व ही हो जाता है; तब विधवा विवाह का प्रचलन था, अब वह बिल्कुल उठ गया है···विभिन्न जातियों के लोग उन दिनों

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

साथ मिलकर खाते थे और इस बात पर कोई रोक नहीं थी, लेकिन अब इन असंख्य जातियों में...इस प्रकार का कोई पारस्परिक संपर्क नहीं है।'[17]

भारतीय विद्वानों ने समाज के पुराने रीति रिवाजों को इस ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि वे नए युग के लोगों को अधिक ग्राह्य हों, पर पश्चिम के लेखकों को यह बात रुचिकर नहीं लगी है। सेनार्ट (1896) का कथन है कि अंगरेजी रंग ढंग में पले हिंदुओं ने जातिप्रथा की तुलना यूरोपवासियों में प्रचलित सामाजिक भेदभावों से की है, पर पश्चिमी सामाजिक वर्गों के साथ यदि उनमें कुछ समानता दीखती भी है तो बहुत कम ही।[18] इसी प्रकार हापकिंस (1881) का विचार है कि शूद्रों की स्थिति 1860 के पहले अमरीकी गृह दासों से भिन्न नहीं थी।[19] हापकिंस के इस मंतव्य की समीक्षा करते हुए हिलब्रांट (1896) ने कहा है कि शूद्रों की तुलना पुराने जमाने के दासों से की जानी चाहिए, न कि बाद में विकसित ऐतिहासिक तथ्यों के संदर्भ में।[20]

हापकिंस की आलोचना करते हुए केतकर (1911) की शिकायत है कि हब्शियों के प्रति बरते जाने वाले जातीय भेदभाव से प्रभावित होने के कारण यूरोपीय लेखक भारतीय जातिप्रथा का नाहक बढ़ा-चढ़ाकर चित्रण करते हैं।[21] केतकर, दत्त, घुर्ये तथा अन्य नवीन भारतीय लेखकों की रचनाओं की मुख्य प्रवृत्ति यह है कि जातिप्रथा को इस रूप में चित्रित किया जाए कि वह नए ढांचे में ढलकर वर्तमान आवश्यकताओं के अनुकूल बन सके।[22] इससे यह आभास मिलता है कि प्राचीन भारतीय सामाजिक समस्याओं का अध्ययन अधिकतर सुधारवादियों और कट्टरपंथियों के बीच झगड़े की पृष्ठभूमि में किया गया है। सुधार और राष्ट्रीयता की सशक्त प्रेरणाओं ने भारत के आरंभिक सामाजिक जीवन के बारे में निस्संदेह अनमोल रचनाओं को जन्म दिया है। किंतु आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार जो कुछ बातें अरुचिकर और कलुषित लगीं, उनकी या तो उपेक्षा कर दी गई या उनकी ऐसी व्याख्या की गई जो युक्तिसंगत नहीं लगती। उदाहरणार्थ, यह कहा गया है कि अशक्तताओं के कारण शूद्रों के सुख या कल्याण में कोई कमी नहीं आई।[23]

आरंभिक सामाजिक जीवन के अनुकूल पहलुओं पर विशेष ध्यान देने की इस प्रवृत्ति के कारण प्राचीन भारतीय शूद्रों की स्थिति के बारे में ग्रंथों का सर्वथा अभाव है। यूरोपीय लेखकों का भी ध्यान मुख्यतः हिंदू समाज के उच्च वर्गों के अध्ययन पर ही केंद्रित रहा है। इस प्रकार म्यूर ने ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच के संघर्ष के आख्यानों का वर्णन 188 पृष्ठों में किया[24] और हापकिंस (1889) ने भी 'प्राचीन भारत में शासक जातियों की स्थिति' का विशद विवरण दिया है।[25] उत्तर पूर्व भारत के सामाजिक संगठन पर फिक्र (1897) की सराहनीय रचना भी मुख्यतया क्षत्रियों, ब्राह्मणों और गहपतियों या सेट्ठियों के वर्णन में ही सिमटी

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

रही। निम्न वर्णों की स्थिति के प्रति इन लेखकों की अरुचि का कोई कारण नहीं हो सकता, सिवाय इसके कि उनकी दृष्टि स्वयं उनके अपने युग के प्रबल, प्रमुख वर्ग के जीवन दर्शन से परिसीमित थी।

शूद्रों के बारे में प्रथम स्वतंत्र रचना वी० एस० शास्त्री (1922) का एक छोटा सा निबंध है जिसमें उन्होंने 'शूद्र' शब्द के दार्शनिक आधार की चर्चा की है।[26] इसी विषय पर एक अन्य लेख में उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि शूद्र वैदिक अनुष्ठान कर सकते हैं।[27] घोषाल (1947) ने हाल के अपने एक निबंध में धर्मसूत्रों में शूद्रों के स्थान की विवेचना की है।[28] इस विषय पर नवीनतम रचना रूसी लेखक जी० एफ० इलिन ने (1950) की है[29] जिन्होंने धर्मशास्त्रों के आधार पर[30] सिद्ध किया है कि शूद्र गुलाम नहीं थे। शूद्रों के संबंध में एकमात्र प्रबंध रचना (1946) सुविख्यात भारतीय राजनीतिज्ञ अंबेदकर की है। यह शूद्रों के उद्‌भव के प्रश्न तक ही सीमित है।[31] लेखक ने पूरी सामग्री अनुवादों[32] से जुटाई है और इससे भी बुरी बात यह है कि उनके लेखन से यह आभास मिलता है कि उन्होंने शूद्रों को उच्च वंश का सिद्ध करने का दृढ़ संकल्प लेकर अपनी यह पुस्तक लिखी है। यह उस मनोवृत्ति का परिचायक है, जो हाल में नीची जाति के पढ़े लिखे लोगों में उत्पन्न हुई है। शांति पर्व के मात्र एक स्थल पर शूद्र पैजवन द्वारा किए गए यज्ञ की चर्चा को शूद्रों के मूलतया क्षत्रिय होने का पर्याप्त प्रमाण मान लिया गया है।[33] लेखक ने विभिन्न परिस्थितियों की उस पेचीदगी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है जिसके कारण शूद्र नामक श्रमजीवी वर्ग बना। हमारे विषय से संबंधित एक बहुत हाल की रचना (1957) में[34] प्राचीन भारत के श्रमिकों से संबंधित छिटपुट सूचनाएं एकत्र की गई हैं किंतु इससे हमारी समझदारी में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होती। इस पुस्तक का प्रधान उद्देश्य है प्राचीन भारत में श्रम संबंधी अर्थशास्त्र के क्रियाकलाप की छानबीन करना। इस क्रम में लेखक ने पाया है कि पहले भी आज की तरह पारिश्रमिक बोर्ड, मध्यस्थता, सामाजिक सुरक्षा आदि की व्यवस्था थी। फलस्वरूप यह पुस्तक 'आधुनिकता' से ग्रस्त है। इतना ही नहीं, यह पुस्तक प्रधानतया कौटिल्य के अर्थशास्त्र के आधार पर लिखी गई है, अपूर्ण है और इसमें ऐतिहासिक समझदारी का अभाव है।

प्रस्तुत ग्रंथ की रचना का उद्देश्य मात्र प्राचीन भारत में शूद्रों की स्थिति का विस्तृत विवेचन करना ही नहीं बल्कि उसके ऐसे आधुनिक विवरणों का मूल्यांकन करना भी है जो या तो अपर्याप्त आंकड़ों के आधार पर अथवा सुधारवादी या सुधार विरोधी भावनाओं से प्रेरित होकर लिखे गए हैं। इसमें लगभग पांच सौ ई० तक हुए शूद्रों के विकास को सुसंबद्ध और क्रमानुसार रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा।

इस ग्रंथ की सामग्री के लिए मुख्यतः साहित्यिक स्रोतों पर निर्भर करना

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

पड़ा है जिनका या जिनके कुछ अंशों का काल निर्धारण कठिन है। हमने साहित्यिक ग्रंथों का साधारणतया स्वीकृत कालक्रम अपनाया है, किंतु जहां इस पर मतभेद है, वहां परपंरा से भिन्न रचनातिथि अपनाने के बारे में हमने अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं।

यद्यपि ये ग्रंथ विभिन्न कालावधियों के हैं फिर भी इनमें एक ही प्रकार के सूत्र और समरूप शब्दावली का ऐसा आधिक्य है कि इनके चलते समाज में हुए परिवर्तनों का पता लगाना कठिन है। इसलिए पाठभेदों पर पूरा ध्यान रखा गया है। इनमें से बहुतेरे ग्रंथों को टीकाकार की सहायता के बिना समझ सकना संभव नहीं है, किंतु टीकाकार अधिकतर अपने युग के विचारों को आरंभिक युगों पर आरोपित कर देते हैं।

यह भी ध्यातव्य है कि ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर ग्रंथों में ब्राह्मणों या क्षत्रियों या दोनों की प्रभुता को प्रामाणिक सिद्ध करने का प्रयास किया गया है और उनमें शायद ही कहीं शूद्रों के प्रति सहानुभूति की भावना है। यह दलील दी जाती है कि धर्मशास्त्र और अन्यान्य ग्रंथों के लेखक शूद्रों के शत्रु थे, अतः प्रमाण की दृष्टि से इनका महत्व नहीं है।[35] किंतु अन्य प्राचीन समाजों के विधिग्रंथों में भी भारतीय धर्मशास्त्रों की तरह ही वर्ग के आधार पर विधान बनाने का सिद्धांत अपनाया गया है। दुर्भाग्यवश पर्याप्त आंकड़ों के अभाव में निश्चित रूप से यह बताना कठिन है कि धर्मशास्त्र के न्यायसूत्रों का कहां तक अनुपालन होता था।

चूंकि शूद्र श्रमिक वर्ग के थे, अतः इस पुस्तक में उनकी मालीहालत और उच्च वर्ग के लोगों के साथ उनके आर्थिक और सामाजिक संबंधों का स्वरूप निश्चित करने पर विशेष ध्यान रखा गया है। स्वाभाविक रूप से इसमें दासों की स्थिति का भी अध्ययन करना पड़ा है क्योंकि शूद्रों को उनके सदृश माना जाता था। अछूतों को सिद्धांततः शूद्रों की कोटि में रखा गया है और यही कारण है कि उनकी उत्पत्ति और स्थिति की भी चर्चा विस्तारपूर्वक की गई है।

शूद्रों की स्थिति में हुई प्रगति की सुचारु व्याख्या और उसे सोदाहरण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से, जहां कहीं संभव हुआ है, उसकी तुलना प्राचीन काल के उन समाजों और आदिकालीन लोगों की स्थिति में हुई उसी तरह की प्रगति के साथ की गई है जिनकी जानकारी मानवशास्त्रवेत्ताओं को प्राप्त है।

संदर्भ

1. विवादार्णवसेतु, अनुवाद की भूमिका, पृ० IX. इस ग्रंथ का अंगरेजी से जर्मन भाषा में अनुवाद 1778 ई० में हुआ.
2. इंस्टीट्यूट्स आफ हिंदू ला, भूमिका, पृ० XIX. देखें रायल एशियाटिक सोसाइटी की

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

प्रथम साधारण सभा (15 मार्च, 1823) में कोलब्रुक का भाषण, एसेज I, पृ० 1-2.
3. वही, ii, पृ० 157-70.
4. वही, ii, पृ० 157.
5. जेम्स मिल : 'दि हिस्ट्री आफ इंडिया', ii, पृ० 166; i, पृ० 166-9, पृ० 169, पाद-टिप्पणी 1. ऐसा प्रतीत होता है कि मिल ने भारत के इतिहास में जो साधारणीकरण, जो सामान्य विवेचन प्रस्तुत किया, उसका ब्रिटिश इतिहासकारों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा.
6. वही, i, पृ० 34.
7. वही, पृ० 107.
8. जे० सी० घोष : 'ब्राह्मणिज्म ऐंड शूद्र', पृ० 46. 1902 ई० में एक पुराने भारतीय लेखक ने खेद प्रकट किया है कि ब्राह्मणों को यूरेसियन (आंग्ल भारतीय) उद्योगपतियों से नीचे स्थान दिया गया.
9. सं०—जे० सी० घोष : 'दि इंगलिश वर्क्स आफ राममोहन राय', i, प्रस्तावना, पृ० XVIII; ii, पृ० 123-192.
10. आर० जी० भंडारकर : 'कलेक्टेड वर्क्स', ii, पृ० 498.
11. स्वामी दयानंद सरस्वती : 'सत्यार्थ प्रकाश', चतुर्थ समुल्लास, पृ० 83-92, 113-122.
12. वही, तृतीय समुल्लास, पृ० 39, 73-74.
13. जे० म्यूर : 'ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट्स', i, लंदन, 1872.
14. वही, पृ० 159-60
15. इंडिसे स्टुडियन, X, 1-160.
16. आर० जी० भंडारकर : 'कलेक्टेड वर्क्स', ii, पृ० 538-83. 'हिस्ट्री आफ चाइल्ड मैरिज' पर जाली के निबंध की भंडारकर द्वारा की गई आलोचना भी देखें, वही, पृ 584-602.
17. वही, पृ० 522-23.
18. एमिल सेनार्ट : 'कास्ट इन इंडिया', पृ० 12-13.
19. ई० डब्ल्यू० हापकिंस : 'म्यूचुअल रिलेशंस आफ दि फोर कास्ट्स इन मनु', पृ० 102.
20. हिलब्रांट : 'ब्राह्मणेन ऐंड शूद्राज, फेस्टशिफ्ट फ्यूर कार्ल वेनहोल्ड', पृ० 57.
21. केतकर : 'हिस्ट्री आफ कास्ट', पृ० 78, पाद-टिप्पणी-3.
22. वही, पृ० 9. बल्वलकर की पुस्तक 'हिंदू सोशल इंस्टीट्यूशंस' में राधाकृष्णन का प्राक्कथन. दत्त और घुर्ये की रचनाओं में अपेक्षाकृत अच्छा ऐतिहासिक दृष्टिकोण लक्षित हुआ है; पर देखें, दत्त : पूर्व निर्दिष्ट, भूमिका, पृ० VI.
23. सरकार : 'हिंदू सोशियालजी', पृ० 92-95; शुक्रनीति सार के आधार पर, देखें के० वी० रंगस्वामी अयगंर : 'इंडियन कैमरेलिज्म', पृ० 85.
24. जे० म्यूर : 'ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट्स', i, अध्याय IV.
25. (जरनल आफ दि अमेरिकन ओरिएंटल सोसायटी), बाल्टी मोर, XIII, पृ० 57-376.
26. वी० एस० शास्त्री (इंडियन एंटीक्वेरी), li, पृ० 137-9.
27. वी० एस० भट्टाचार्य : 'दि स्टेटस आफ शूद्राज इन एनशिएंट इंडिया', (विश्वभारती क्वार्टरली), i, पृ० 268-278.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

28. यू० एन० घोषाल (इंडियन कल्चर), XIV, पृ० 21-27.
29. जी० एफ० इलिन : 'शूद्राज उण्ड स्कर्लेवेन इन डेन अल्टिनडिस्चेन गेसेत्सबुचेन, (सोवेटिवसेनशैफ्ट, 1952), वेस्तनिक ड्रेवेनीय इस्तोरी से अनूदित, 1950, सं० 2, पृ० 94-107.
30. काणे ने शूद्रों के बारे में धर्मशास्त्र से जो उद्धरण संकलित किए हैं, उनमें शूद्रों की स्थिति का ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन करने के लिए मूल्यवान सामग्री प्राप्त होती है.
31. अंबेडकर : वेयर दि शूद्राज ?
32. वही, भूमिका, पृ० IV.
33. यह ध्यान देने की बात है कि हाल के जातीय आंदोलन में कई शूद्र जातियों ने क्षत्रिय होने का दावा किया. दुसाध दु:शासन के और ग्वाले यदु के वंशज होने का दावा करते हैं.
34. के० एम० शरण : 'लेबर इन एनशिएंट इंडिया'.
35. अंबेडकर : पूर्व निर्दिष्ट, 114.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्पत्ति

1847 ई० में रौथ ने संकेत किया था कि शूद्र आर्यों के समाज से बाहर के रहे होंगे।[1] उस समय से सामान्यतया यह विचारधारा चली आ रही है कि ब्राह्मण-कालीन समाज का चौथा वर्ण मुख्यतया आर्येतर लोगों का था जिनकी वैसी स्थिति आर्य विजेताओं ने बना रखी थी।[2] यूरोप के गौरांग और एशिया तथा अफ्रीका के गौरांगेतर लोगों के बीच हुए संघर्ष से साम्य के आधार पर इस विचार-धारा की पुष्टि की जाती रही है।

यदि दास और दस्यु दोनों आर्येतर भाषा बोलने वाले भारत के मूल निवासी हों,[3] तो उपर्युक्त विचारधारा के पक्ष में ऋग्वेद से प्रमाण प्रस्तुत करना संभव है। इस ग्रंथ के अनेक सूक्तों में, जिन्हें अथर्ववेद में भी दुहराया गया है, आर्यों के देवता इंद्र को दासों के विजेता के रूप में चित्रित किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये दास मनुष्य ही रहे होंगे। वेदों में कहा गया है कि इंद्र ने अधम दास वर्ण को गुफाओं में रहने को बाध्य कर दिया था।[4] विश्व-नियंता की हैसियत से दासों को पराधीन बनाने का भार उनके ऊपर है[5], और उनसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे इन दासों का विनाश करने के लिए तैयार रहें।[6] ऋग्वैदिक स्तुतियों में बार बार इंद्र से अनुरोध किया गया है कि वे दास जनजाति (विश्) का विध्वंस करें।[7] इंद्र के बारे में यह भी कहा गया है कि उसने दस्युओं को सभी अच्छे गुणों से वंचित रखा है और दासों को अपने वश में किया है।[8]

वेदों में दासों की अपेक्षा दस्युओं के विनाश और उन्हें पराधीन बनाने की चर्चा अधिक है। कहा गया है कि दस्युओं को मारकर इंद्र ने आर्य वर्ण की रक्षा की है।[9] स्तुतियों में उससे अनुरोध किया गया है कि वह दस्युओं से युद्ध करे ताकि आर्यों की शक्ति बढ़ सके।[10] महत्व की बात है कि दस्युओं की हत्या की चर्चा कम से कम बारह जगहों पर हुई है जिनमें से अधिकांश हत्याएं इंद्र के द्वारा ही बताई गई हैं।[11] इसके विपरीत यद्यपि दासों की हत्या के अलग अलग प्रसंग भी आए हैं किंतु 'दासहत्या' शब्द कहीं नहीं मिलता है। इससे पता चलता है कि दास और दस्यु पर्यायवाची नहीं थे और आर्य दस्युओं का विनाश निर्ममतापूर्वक करते

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

थे, पर दासों के प्रति उनकी नीति नरम थी।

आर्यों और उनके शत्रुओं के बीच जो संघर्ष हुए उनमें मुख्यतः शत्रुओं के किलों और दीवारों से घिरी बस्तियों को ध्वस्त किया गया। दासों और दस्युओं, दोनों ही के कब्जे में अनेक किलाबंद बस्तियां थीं[12], जिनका संबंध भी सामान्यतया आर्यों के शत्रुओं के साथ जोड़ा जाता है।[13] मालूम होता है कि घुमक्कड़ आर्यों की आंखें दुश्मनों की बस्तियों में संचित संपत्ति पर लगी हुई थीं और उन्हें हड़पने के लिए दोनों में निरंतर संघर्ष होता रहता था।[14] उपासक की कामना रहती थी कि सभी ऐसे लोगों को मार दिया जाए जो यज्ञ, हवन आदि नहीं करते हैं और उन्हें मार देने के बाद उनकी सारी संपत्ति लोगों में बांट दी जाए।[15] दस्युओं को संपत्तिशाली (धनिनः) होने पर भी यज्ञ न करने वाला (अक्रतु) कहा गया है।[16] दो ऐसे दासप्रमुखों का उल्लेख किया गया है जो धनलोलुप माने गए हैं।[17] कामना की गई है कि इंद्र[18] दासों की शक्ति को क्षीण करें और उनकी एकत्रित संपत्ति लोगों में बांट दें। दस्युओं के पास स्वर्ण और हीरा-जवाहरात भी थे, जिनके चलते प्रायः आर्यों का मन और भी ललच गया।[19] किंतु आर्य जैसी पशुपालक जाति को मुख्यतया अपने दुश्मनों के पशुधन का अधिक लोभ था। तर्क दिया जाता है कि 'कीकट' (हरियाणा में रहने वाली एक जनजाति) गाय रखने के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि वे यज्ञ में गव्य (दुग्धोत्पादित वस्तुओं) का उपयोग नहीं करते।[20] दूसरी ओर यह भी संभव है कि आर्यों के शत्रु उनके घोड़ों और रथों को अधिक महत्व देते थे। ऋग्वेद में एक कथा आई है कि असुरों ने राजर्षि दभीति के नगर पर कब्जा कर लिया था किंतु जब असुर लौट रहे थे तो इंद्र ने उन्हें घेरकर पराजित किया और उनसे मवेशी, घोड़े तथा रथ छीनकर राजर्षि को वापस कर दिए।[21]

दस्युओं के रहन-सहन के ढंग से भी आर्य उनके बैरी बन गए। ऐसा लगता है कि आर्यों का पशुपालन पर आधारित जनजातीय और अस्थायी जीवनक्रम देशीय संस्कृति के स्थायी एवं शहरी जीवन से बेमेल था।[22] आर्यों का जीवन प्रधानतया जनजातीय जीवन था, जो गण, सभा, समिति और विदथ जैसी विभिन्न सामुदायिक संस्थाओं के माध्यम से रूपायित हुआ है और जिसमें यज्ञ का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। किंतु दस्युओं को यज्ञ से कोई सरोकार नहीं था। दासों के साथ भी यही बात थी, क्योंकि इंद्र के बारे में बताया गया है कि वह दास और आर्य का विभेद करते हुए यज्ञस्थल में आता था।[23] ऋग्वेद के सातवें मंडल का एक संपूर्ण सूक्त अक्रतुन्, अश्रद्धान्, अयज्ञान् और अयज्वानः जैसे विशेषणों की शृंखला मात्र है। इनका प्रयोग दस्युओं के लिए पुरजोर तौर पर यह सिद्ध करने के लिए किया गया है, कि उनको यज्ञ पसंद नहीं था।[24] इंद्र से कहा गया है कि वे यज्ञपरायण आर्य और यज्ञविमुख दस्युओं के बीच अंतर करें।[25] 'अनिंद्र' (इंद्र

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

को न मानने वाला) शब्द का प्रयोग भी कई स्थलों पर किया गया है,[26] और अनुमानतः इससे दस्युओं, दासों और संभवतः कुछ भिन्न मतावलंबी आर्यों का बोध होता है। आर्यों के कथनानुसार दस्यु तिलस्मी जादू करते थे।[27] ऐसा मत अथर्ववेद में विशेष रूप से व्यक्त किया गया है। यहां दस्युओं को भूत-पिशाच के रूप में प्रस्तुत किया गया है और इन्हें यज्ञ स्थल से भगाने की चेष्टा की गई है।[28] कहा जाता है कि 'अंगिरस्' मुनि के पास एक परम शक्तिशाली रक्षाकवच (ताबीज) था जिससे वे दस्युओं के किले ध्वस्त कर सकते थे।[29] ऋग्वैदिक काल में उन्होंने जो लड़ाइयां लड़ी थीं, उनके कारण ही अथर्ववेद में दस्युओं को दुष्टात्मा के रूप में चित्रित किया गया है। अथर्ववेद में कहा गया है कि ईश्वर के निंदक दस्युओं को बलिवेदी पर चढ़ा दिया जाना चाहिए।[30] ऐसा विश्वास था कि दस्यु विश्वासघाती होते हैं, वे आर्यों की तरह धर्म-कर्म नहीं करते और उनमें मानवता नहीं होती।[31]

आर्यों और दस्युओं के रहन-सहन में जो अंतर है, उससे आर्यों के व्रत, जिसका अर्थ सामान्यतया जीवन का सुनिश्चित ढंग होता है, के प्रति दस्युओं की क्या दृष्टि थी इसका पता चलता है।[32] यदि व्रत और व्रात, जिसका अर्थ जन-जातीय दल या समूह होता है, के बीच संबंध स्थापित करना संभव हो तो यह कहा जा सकता है कि व्रत शब्द का अर्थ जनजातीय कानून या प्रथा है। दस्युओं को साधारणतः अव्रत[33] और अन्यव्रत[34] कहा गया है। 'अपव्रत' शब्द का प्रयोग दो स्थलों पर हुआ है जो प्रायः दस्युओं और भिन्न मत रखने वाले आर्यों के लिए है।[35] ध्यान देने की बात है कि दासों के लिए इस प्रकार के विशेषणों का प्रयोग नहीं हुआ है जिससे मालूम होता है कि वे दस्युओं की अपेक्षा आर्यों के तौर-तरीके अधिक पसंद करते थे।

ऐसा लगता है कि आर्यों और उनके शत्रुओं में रंग का अंतर था। आर्य, जो मानव (मानुषी प्रजा) कहे जाते थे और अग्नि वैश्वानर की पूजा करते थे, कभी कभी काले रंग वाले मनुष्यों (असिक्नीविशः) की बस्तियों में आग लगा देते थे और वे लोग संघर्ष किए बिना ही अपना सर्वस्व छोड़कर भाग खड़े होते थे।[36] आर्य देवता सोम को काले वर्ण के लोगों का हिंसक कहा गया है, जो दस्यु होते थे।[37] इंद्र को भी काले रंग के राक्षसों (त्वचमसिक्नीम्) से संघर्ष करना पड़ा था,[38] और एक स्थल पर उन्हें पचास हजार काले वर्ण वालों (कृष्ण) की हत्या का श्रेय दिया गया है जिन्हें सायण काले वर्ण का राक्षस मानते हैं।[39] इंद्र का असुरों की काली चमड़ी उधेड़ते हुए भी चित्रण किया गया है।[40] इंद्र का एक वीरतापूर्ण कार्य, जिसका कुछ ऐतिहासिक आधार हो सकता है, कृष्ण नामक योद्धा के साथ उनका युद्ध है। कहा जाता है कि जब कृष्ण ने अपनी दस हजार सेना के साथ अंशुमती या यमुना पर खेमा गिराया तब इंद्र ने मरुतों (आर्यविश्) को संगठित किया और पुरोहित देव बृहस्पति की सहायता से अदेवीः विशः के

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

साथ युद्ध किया।[41] अदेवी: विश: का अर्थ सायण ने काले रंग का असुर बताया है (कृष्णरूपा: असुरसेना:)। कृष्ण को श्याम वर्ण का आर्येतर योद्धा बताया गया है जो यादव जाति का था।[42] यह संभव मालूम पड़ता है, क्योंकि परवर्ती अनुश्रुति है कि इंद्र और कृष्ण में बड़ी शत्रुता थी। ऐसा प्रसंग आया है जिसमें कृष्णगर्भा के मारे जाने की चर्चा है जिसका अर्थ संशयपूर्वक सायण ने कृष्ण नामक असुर की गर्भवती पत्नियां बताया है।[43] इसी प्रकार इंद्र द्वारा कृष्णयोनि: दासी: के विनाश का भी उल्लेख है।[44] सायण की उर्वर कल्पना ने उन्हें निकृष्ट जाति की आसुरी सेना (निकृष्ट जाती:···आसुरी: सेना:) माना है, किंतु विल्सन कृष्ण को श्याम वर्ण का द्योतक मानते हैं। यदि विल्सन का अर्थ सही माना जाए तो यह स्पष्ट है कि दास काले रंग के होते थे। किंतु हो सकता है कि उन्हें उसी प्रकार काले रंग का कहा गया हो, जिस प्रकार दस्युओं और आर्यों के अन्य शत्रुओं को कहा गया है। उपर्युक्त प्रसंगों से निस्संदेह यह स्पष्ट होता है कि अग्नि और सोम के उपासक आर्यों को भारत के काले लोगों से युद्ध करना पड़ा था। ऋग्वेद में एक प्रसंग आया है जिसमें 'पुरुकुत्स' का पुत्र 'त्रसदस्यु' नामक वैदिक योद्धा काले रंग के लोगों के नेता के रूप में वर्णित है।[45] इससे यह स्पष्ट होता है कि उसने उन लोगों पर अपनी धाक जमा रखी थी।

यदि दस्युओं के संबंध में प्रयुक्त अनास[46] शब्द का अर्थ नासाविहीन या चिपटी नाक वाला किया जाए और दासों के प्रसंग में प्रयुक्त वृषशिप्र शब्द[47] का अर्थ 'वृषभ ओष्ठ वाला' या उभरे ओठों वाला माना जाए तो यह मालूम पड़ेगा कि मुखाकृतियों की दृष्टि से आर्यों के शत्रु उनसे भिन्न प्रकार के थे।

ऋग्वेद में 'मृध्रवाक' शब्द का प्रयोग विभिन्न रूपों में छ: स्थलों पर हुआ है,[48] जिससे पता चलता है कि आर्यों और उनके शत्रुओं में बोलचाल की रीति भिन्न थी। यह दो स्थलों पर दस्युओं का विशेषण है।[49] सायण ने इसका अर्थ 'विद्वेषपूर्ण वचन' वाला किया है, और गेल्डनर ने इसे 'झूठ बोलने वाले' का पर्याय माना है।[50] इससे पता चलता है कि आर्यों और दस्युओं में कोई भाषाजन्य अंतर था और दस्यु अपनी अनुचित वाणी से आर्यों की भावना को चोट पहुंचाते थे। अत: आर्यों और उनके दुश्मनों के बीच युद्ध में यद्यपि मुख्य प्रश्न पशु, रथ और अन्य प्रकार की संपत्ति को दखल करने का रहता था, फिर भी जाति, धर्म और बोलचाल की रीति में अंतर होने के कारण भी उनके संबंध कटु बने रहते थे।

यदि ऋग्वेद में दास और दस्यु शब्द के प्रयोग की आपेक्षिक मात्रा से कोई निष्कर्ष निकाला जा सके, तो जान पड़ता है कि दस्युगण, जिनकी चर्चा चौरासी बार हुई है, स्पष्टत: दासों से अधिक संख्या में थे जिनका उल्लेख इकसठ बार हुआ है।[51] दस्युओं के साथ युद्ध में अधिक रक्तपात हुआ। अपने विस्तार की आरंभिक अवस्था में आर्यों को जीविकोपार्जन के लिए पशुधन की आकांक्षा रहती थी।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

इसलिए स्वभावतया उन्होंने नागर जीवन और संगठित कृषि का महत्व समझा।[52] ऐसा जान पड़ता है कि आर्यों के आने के पहले की नगर बस्तियां पूर्णतः ध्वस्त हो गई थीं। युद्ध में शत्रुओं से अपहृत वस्तुओं, खासकर मवेशियों के कारण सरदारों और पुरोहितों की शक्ति बढ़ी होगी और वे 'विश्' से ऊपर उठे होंगे। बाद में क्रमशः उन्होंने समझा होगा कि पुरानी संस्कृति के किसानों से श्रमिकों का काम लिया जा सकता है और उनसे कृषिकार्य कराया जा सकता है; साथ ही अपनी जनजाति के लोगों से भी श्रमिकों का काम लेना उन्होंने धीरे धीरे आरंभ किया होगा।

आर्यों और उनके शत्रुओं के बीच तो संघर्ष चल ही रहा था, आर्य जनजातीय समाज में भी आंतरिक द्वंद्व विद्यमान था। एक युद्धगीत में 'मन्यु,' 'मूर्तिमान क्रोध' से याचना की गई है कि वे आर्य और दास दोनों तरह के शत्रुओं को पराजित करने में सहायक हों।[53] इंद्र से अनुरोध किया गया है कि वे ईश्वर में आस्था नहीं रखने वाले दासों और आर्यों से युद्ध करें; ये इंद्र के अनुयाइयों के शत्रु के रूप में वर्णित हैं।[54] ऋग्वेद में एक स्थल पर कहा गया है कि इंद्र और वरुण ने सुदास् के विरोधी दासों और आर्यों का संहार कर उसकी रक्षा की।[55] सज्जन और धर्मपरायण लोगों की ओर से दो मुख्य ऋग्वैदिक देवताओं, अग्नि और इंद्र से प्रार्थना की गई है कि वे आर्यों और दासों के दुष्टतापूर्ण कार्यों और अत्याचारों का शमन करें।[56] चूंकि आर्य खुद मानव जाति के मुख्य दुश्मन थे, अतः आश्चर्य नहीं कि इंद्र ने दासों के साथ साथ आर्यों का भी विनाश किया होगा।[57] विलसन ने ऋग्वेद के एक परिच्छेद का जैसा अनुवाद किया है उसे यदि स्वीकार किया जाए तो उसमें इंद्र की भरपूर प्रशंसा की गई है, क्योंकि उन्होंने सप्तसिंधु (सात नदियों) के तट पर राक्षसों और आर्यों से लोगों की रक्षा की। उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि वे दासों को अस्त्र-शस्त्र विहीन कर दें।[58]

ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग छत्तीस बार हुआ है जिनमें से नौ स्थलों पर बताया गया है कि खुद आर्यों में भी आपसी मतभेद थे।[59] शत्रु आर्यों की दस्युओं के साथ एक स्थल पर चर्चा है और पांच स्थलों पर दासों के साथ, जिससे यह पता चलता है कि आर्यों के एक समूह से दस्युओं की अपेक्षा दासों का संबंध अच्छा था। आर्यों के अपने आपसी संघर्ष में दास स्वभावतः आर्यों के मित्र और सहयोगी थे। इसलिए आर्यों के समाज का जनजातीय आधार धीरे धीरे क्षीण होने लगा और आर्यों तथा दासों के विलयन की क्रिया को बल मिला। ऋग्वेद के आरंभिक भाग में ऐसे पांच प्रसंग आए हैं जिनसे पता चलता है कि आंतरिक संघर्षों की परंपरा बहुत ही पुरानी थी।

आर्यों में बहुत पहले जो आंतरिक संघर्ष हुए थे उनका सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण 'दाशराज्ञ' युद्ध है, जो ऋग्वेद में एक मात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

है। गेल्डनर के अनुसार ऋग्वेद, मंडल सात का तैंतीसवां सूक्त जिसमें इस युद्ध की चर्चा की गई है, प्रारंभिक काल से संबंधित है।[60] दस राजाओं का युद्ध मुख्यतः ऋग्वेदकालीन आर्यों की दो मुख्य शाखाओं 'पूरुओं' और 'भारतों' के बीच हुआ था, जिसमें आर्येतर लोग भी सहायक के रूप में सम्मिलित हुए होंगे।[61] ऋग्वेद की सुविख्यात नायक सुदास् भारतों का नेता था और पुरोहित वसिष्ठ उसके सहायक थे। इनके शत्रु थे पांच प्रसिद्ध जनजातियों यथा 'अनु', 'द्रुह्यु', 'यदु', 'तुर्वशस्' और 'पूरु' तथा पांच गौण जनजातियों यथा 'अलिन', 'पक्थ', 'भलानस्', 'शिव' और 'विषाणिन' के दस राजा। विरोधी गुट के सूत्रधार ऋषि विश्वामित्र थे और उसका नेतृत्व पूरुओं ने किया था।[62] ऐसा प्रतीत होता है कि इस युद्ध में आर्यों की लघुतर जनजातियों ने अपना अलग अस्तित्व बनाए रखने का स्मरणीय प्रयास किया। पर सुदास् के नेतृत्व में भारतों ने पुरुष्णि (रावी) के किनारे उन्हें पूरी तरह हरा दिया। इन पराजित आर्यों के साथ कैसा व्यवहार किया गया, इसका कोई संकेत नहीं मिलता, किंतु अनुमान है कि उनके प्रति भी वैसा ही व्यवहार किया गया होगा जैसा आर्येतर लोगों के साथ किया गया था।

यह असंभव नहीं कि इस तरह के और भी कई अंतर्जातीय संघर्ष हुए हों जिनका कोई वृत्तांत हमें उपलब्ध नहीं। एसे संघर्षों के संकेत उन प्रसंगों में मिलते हैं जिनमें आर्यों को देवताओं द्वारा प्रतिष्ठित व्रतों का भंजक माना गया है। काणे ने ऋग्वेद से पांच अंश उद्धृत किए हैं जिनका ऐसा अर्थ लगाया जा सकता है।[63] आदियुगीन ऋषि अथर्वन ने वरुण के साथ हुए संभाषण में यह दावा किया है कि मैं जो नियम बनाऊंगा उसका उल्लंघन कोई भी दास, जो आर्य से भिन्न हो, नहीं कर सकता चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो।[64]

म्यूर ने ऋग्वेद से ऐसे अठ्ठावन अंश उद्धृत किए हैं जिनमें आर्य समुदाय के सदस्यों की धार्मिक शत्रुता या उदासीनता की भर्त्सना की गई है।[65] इनमें से बहुत से परिच्छेद ऋग्वेद के मूल भाग (मंडल दो से आठ) में उपलब्ध हैं और उनसे पता चलता है कि आदिकाल में आर्यों की स्थिति कैसी थी। इनमें से कई अंश उन अनुदार व्यक्तियों के विरुद्ध हैं, जिन्हें अराधसम्[66] या अपृणतः[67] कहा गया है। एक स्थल पर इंद्र को समृद्ध व्यक्तियों (एथमानद्विट्) का, संभवतः उन समृद्ध आर्यों का जिन्होंने उसकी कोई सेवा नहीं की थी, दुश्मन बताया गया है।[68] दास और आर्य अपनी संपत्ति छिपाकर रखते थे, जिसके चलते उनका विरोध होता था।[69] कहा जाता है कि अग्नि ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए समतल भूमि और पहाड़ियों में स्थित संपत्ति को अपने कब्जे में कर लिया और अपनी प्रजा के दास तथा आर्य शत्रुओं को हराया।[70] इन अंशों में यह बताया गया है कि जो आर्य दुश्मन समझे जाते थे उनकी भी संपत्ति (अनुमानतः मवेशी) छीन ली जाती थी और उन्हें आर्येतर लोगों की भांति कंगाल बना दिया जाता था।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

कई अनुच्छेदों में पणियों के रूप में विख्यात लोगों के प्रति सामान्यत: शत्रुतापूर्ण भाव देखने को मिलता है ।[71] म्यूर ने उन्हें कंजूस माना है ।[72] 'वेदिक इंडेक्स' के प्रणेताओं के अनुसार ऋग्वेद में 'पणि' शब्द उस व्यक्ति का द्योतक है जो संपत्तिवान हो, पर न तो ईश्वर को हव्य अर्पित करता हो और न पुरोहितों को दक्षिणा देता हो, फलतः संहिता के रचयिताओं की घृणा का पात्र हो ।[73] एक अनुच्छेद में उन्हें 'बेकनाट' या सूदखोर (?) बताया गया है जिन्हें इंद्र ने पराजित किया था ।[74] पणि यज्ञ करने के लिए सक्षम थे और वैरदेय (वरगेल्ड) पाने के अधिकारी भी थे । इन तथ्यों से ज्ञात होता है कि वे आर्य समुदाय के ही सदस्य थे ।[75] हिलब्रांट उन्हें पर्णियों से अभिन्न मानते हैं ।[76] पर्णि दहे अर्थात अश्वारोही और लड़ाकू सीथियन जनजातियों के विशाल समुदाय के अंग ।[77] 'वेदिक इंडेक्स' के प्रणेता समझते हैं कि यह शब्द इतना व्यापक है कि इससे आदिवासी या विद्वेषी आर्य जनजातियों का भी बोध होता है ।[78]

जिन परिच्छेदों में पणियों को कंजूस बताया गया है और साधारणत: अनुदार व्यक्तियों की निंदा की गई है उनमें से कुछ दान लोभी पुरोहितों के इशारे पर लिखे गए होंगे । किंतु उनसे सामान्यतया पता चलता है कि अपने बांधवों का गला दबाकर भी संपत्ति इकट्ठी करने की प्रवृत्ति कुछ आर्यों में पाई जाती थी । ऐसे लोगों से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी एकत्रित संपत्ति में से इंद्र तथा अन्य देवताओं को यज्ञ में धनराशि अर्पित करें जिससे इस धन में फिर दूसरों को कुछ हिस्सा मिल सके[79] और जनसमुदाय को बार बार सहभोज का अवसर मिले । पर लूट के धन का अधिकांश अंश जब वे लोग अपने पास रखने लगे तो आर्थिक और सामाजिक विषमता का जन्म हुआ ।

आर्यों के अन्य जनजातियों के साथ और उनके अंतर जनजातीय संघर्षों के कारण समाज विशृंखल होता गया और जैसे जैसे पशुपालन की अपेक्षा कृषि जोर पकड़ता गया, सामाजिक वर्गों की स्थापना हुई । यद्यपि ऋग्वेद में 'वर्ण' शब्द का प्रयोग आर्य[80] और दास[81] के लिए हुआ है किंतु इससे किसी ऐसे श्रम-विभाजन का संकेत नहीं मिलता जो परवर्ती काल में समाज के व्यापक वर्गीकरण का आधार हुआ । आर्य वर्ण और दास वर्ण दो वृहद जनजातीय समूह थे जो सामाजिक वर्गों के रूप में विघटित हो रहे थे । आर्यों के संबंध में इसके पर्याप्त प्रमाण हैं । सेनार्ट की आलोचना करते हुए ओल्डेनबर्ग ने ठीक ही कहा है कि ऋग्वेद में जाति (कास्ट) की चर्चा नहीं है,[82] किंतु इस संकलन से आरंभिक अवस्था में सामाजिक वर्गभेद के धीरे धीरे पनपने का आभास मिलता है । उसमें 'ब्राह्मण' शब्द का प्रयोग पंद्रह बार और 'क्षत्रिय' शब्द का प्रयोग नौ बार हुआ है । फिर भी, 'जन' और 'विश्'[83] जैसे शब्दों के बार बार दुहराए जाने और उनके रीति-रिवाजों से पता चलता है कि ऋग्वैदिक समाज जनजातीय था । हमें मालूम

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

नहीं कि जब आर्य भारत में पहली बार आए तो उनके पास दास थे या नहीं। कीथ का विचार है कि वैदिक युग के भारतीय प्रधानतया पशुचारी थे।[84] कम से कम ऋग्वेद के आरंभिक भागों में वर्णित आर्यों के बारे में यह समीचीन है। मानव विज्ञान संबंधी अनुसंधानों से पता चलता है कि कुछ पशुचारी जनजातियां भी दास रखती हैं, हालांकि अपेक्षित अर्थ में दासप्रथा का अधिक विकसित रूप कृषक जनजातियों में दिखाई पड़ता है।[85]

इसमें संदेह नहीं कि हड़प्पा समुदाय की शहरी आबादी में जो आर्थिक विषमता थी, वह लगभग वर्गभेद जैसी थी।[86] ह्वीलर की राय है कि हड़प्पा और मेसोपोटामिया के निवासियों के बीच दास व्यापार भी हुआ करता था।[87] यह मानना युक्तिसंगत है कि हड़प्पा की शहरी आबादी का विकास निकटवर्ती देहातों के किसानों द्वारा अतिरिक्त कृषि उत्पादनों की आपूर्ति के बिना नहीं हो सकता था। सिंधु घाटी का राजनीतिक ढांचा सुमेर के राजनीतिक ढांचे जैसा माना गया है, जहां पुरोहित राजा आज्ञाशील प्रजा पर सुगठित अफसरशाही के माध्यम से शासन करता था।[88] हमें मालूम नहीं कि हड़प्पा समाज के विभिन्न वर्गों और लोगों के साथ दस्युओं और दासों का कैसा संबंध था। जो भी हो, ऋग्वैदिक आर्यों के आने के पहले सैंधव सभ्यता प्रायः नष्ट हो चुकी थी। गंगा की घाटी में आर्य ज्यों ज्यों पूरब की ओर बढ़ते गए, उन्हें संभवतया तांबे के हथियार रखने वाले लोगों का मुकाबला करना पड़ा जो उस क्षेत्र के प्राचीन निवासी थे।[89] हो सकता है कि ताम्रयुग के अन्य लोगों की भांति ये लोग भी वर्गों में बंटे रहे होंगे।

तथ्य उपलब्ध न रहने के कारण हड़प्पा समाज के बचे-खुचे लोग और आर्यों के बीच क्या आदान-प्रदान हुए, यह कहना कठिन है। चाहे ये अनार्य जो भी हों, ऋग्वेद से तो लगता है कि उनके धन को आर्यों ने अवश्य लूटा। युद्ध में अपहरण की गई संपत्ति से जनजाति के नेताओं का ऐश्वर्य और सामाजिक दर्जा अवश्य बढ़ा होगा और उन्होंने मवेशी और दासियों का दान कर पुरोहितों का संरक्षण किया होगा। ऋग्वेद की दानस्तुति से यह स्पष्ट है। इस प्रकार ऋग्वेद में रथ पर जाते हुए एक यजमान को 'धनवान, दाता, और सभाओं में संस्तुत' के रूप में चित्रित किया गया है।[90]

ऐसा प्रतीत होता है कि आर्यों के विस्तार के पहले दौर में बस्तियों और दस्युओं जैसे लोगों का विनाश इतना अधिक किया गया कि नए समाज में आर्यों के विलयन हेतु उत्तर पश्चिमी भारत में बहुत कम ही लोग बच रहे होंगे, हालांकि बाद में उनके विस्तार के क्रमों में ऐसी स्थिति नहीं भी रही होगी। एक ओर तो बचे हुए लोगों में से अधिकांश लोगों और विशेषतः अपेक्षाकृत पिछड़े वर्ग के लोगों को दासता स्वीकार करनी पड़ी होगी तथा दूसरी ओर आर्यों के समाज में 'विश्' की सहज प्रवृत्ति यही रही होगी कि निम्न वर्ग में विलयन करें। आर्य पुरोहितों और

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

योद्धाओं की प्रवृत्ति प्राचीन समाज के उच्च वर्ग से मिल जाने की रही होगी। दो ऐसे प्रसंग मिले हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि कुछ मामलों में आर्य के दुश्मनों को इस नए और मिश्रित समाज में ऊंचा दर्जा दिया गया था। एक स्थल पर कहा गया है कि इंद्र ने दासों को आर्य में परिवर्तित किया।[91] सायण की टीका के अनुसार उन्हें आर्यों के जीवन के तौर-तरीके सिखाए जाते थे। एक अन्य प्रसंग में चर्चा आई है कि इंद्र ने दस्युओं को आर्य की उपाधि से वंचित कर दिया।[92] क्या इससे यह अनुमान किया जाए कि कुछ दस्युओं को आर्य की हैसियत देकर फिर उन्हें अपने आर्यविरोधी कार्यकलापों के कारण उससे वंचित कर दिया गया होगा ? इन तथ्यों के आधार पर हम अनुमान करते हैं कि बैरियों के बचे हुए पुरोहितों और प्रमुखों को आर्यों के नए समाज में उनके उपयुक्त स्थान (संभवतः निम्नतर कोटि का) दिया गया होगा।

कहा गया है कि ब्राह्मणवाद आर्यों से पूर्व की संस्था है।[93] सारे पुरोहितवर्ग के विषय में यह कहना कठिन है। लैटिन फ्लामेन जो रोमन राजाओं द्वारा स्थापित एक प्रकार के पुरोहित-पद का अभिधान है, का समीकरण ब्राह्मण शब्द से किया गया है।[94] इस समानता के अतिरिक्त वेदकालीन भारत के अथर्वन पुरोहित और ईरान के अथ्रवन की सुपरिचित समानता है। किंतु फिर भी एक प्रमुख आपत्ति का उत्तर देना शेष रह जाता है। कीथ का कथन है कि ऋग्वैदिक मान्यता और वैदिक देवताओं की अपेक्षाकृत बहुलता पुरोहितों के कठिन प्रयास और अपरिमित समन्वयवाद का परिणाम रही होगी।[95] इतना ही नहीं, वेदों और महाकाव्यों की परंपरा से पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं जिनसे पता चलता है कि इंद्र ब्राह्मणघाती थे और उनका मुख्य दुश्मन 'वृत्र' ब्राह्मण था।[96] इससे यह परिकल्पना पुष्ट होती है कि विकसित पुरोहितप्रथा आर्यों के पहले की प्रथा थी, जिससे निष्कर्ष निकल सकता है कि जो लोग पराजित हुए वे सभी दास या शूद्र नहीं बना लिए गए। अतएव, यद्यपि ब्राह्मणवाद भारोपीय संस्था था, फिर भी आर्य विजेताओं के पुरोहित वर्ग में अधिकांश विजित जाति के लोग लिए गए होंगे।[97] उनका अनुपात क्या रहा होगा यह बताने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है, किंतु प्रतीत होता है कि आर्यपूर्व पुरोहितों को इस नए समाज में स्थान मिला था। यह सोचना गलत होगा कि सभी काले लोगों को शूद्र बना लिया गया था, क्योंकि ऐसे प्रसंग आए हैं जिनमें काले ऋषियों की चर्चा है। ऋग्वेद में 'अश्विनी' के संबंध में जो वर्णन किया गया है उसके अनुसार उन्होंने काले वर्ण के (श्यावाय) कण्व को गौरवर्ण की स्त्रियां प्रदान की थीं।[98] संभवतः कण्व को कृष्ण भी कहा गया है[99] और वे इन युग्म देवों को संबोधित सूक्तों (ऋग्वेद के मंडल आठ, सूक्त पचासी और छियासी) के द्रष्टा हैं। शायद कण्व को ही पुनः ऋग्वेद के प्रथम मंडल में कृष्ण ऋषि के रूप में चित्रित किया गया है।[100] इसी

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

प्रकार ऋग्वेद की एक ऋचा में गायक के रूप में वर्णित 'दीर्घतमस्' काले रंग का रहा होगा, अगर यह नाम उसे काले वर्ण के कारण मिला हो।[101] यह महत्वपूर्ण है कि ऋग्वेद के कई अनुच्छेदों में वह केवल मातृमूलक नाम 'मामतेय' से ही चर्चित है। बाद की एक अनुश्रुति यह भी है कि उसने उशिज से विवाह किया जो एक दास की लड़की थी और उससे काक्षीवंत् उत्पन्न हुआ।[102] पुनः ऋग्वेद के प्रथम मंडल में ऋषि दिवोदास को, जिनके नाम से ही ध्वनित होता है कि वे दास वंश के थे,[103] नई ऋचाओं का रचयिता बताया गया है[104] तथा दसवें मंडल में उसके सूक्त बयालिस-चौवालिस के लेखक अंगिरस को कृष्ण कहा गया है।[105] चूंकि ऊपर बताए गए अधिकांश निर्देश ऋग्वेद के परवर्ती भागों में पड़ते हैं इसलिए यह स्पष्ट होगा कि ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण में नवगठित आर्य समुदाय में कुछ काले ऋषियों और दास पुरोहितों का प्रवेश हो रहा था।

इसी प्रकार मालूम पड़ता है कि कुछ पराजित सरदारों को नए समाज में उच्च स्थान दिया गया था। दास के प्रमुखों यथा, बलबूथ और तरुक्ष से पुरोहितों ने जो उपहार ग्रहण किया उसके चलते इन लोगों की बड़ी सराहना हुई और नए समाज में उनका दर्जा भी बढ़ा। दास उपहार प्रस्तुत करने की स्थिति में थे और उन्हें दानी समझा जाता था, यह निष्कर्ष दश् धातु के अर्थ से ही निकाला जा सकता है जिससे दास संज्ञा का निर्माण हुआ है।[106] बाद में भी विलयन की प्रक्रिया चलती रही, क्योंकि बाद के साहित्य में इस अनुश्रुति का उल्लेख है कि प्रतर्दन दैवोदासि इंद्रलोक गए[107], और ऐतिहासिक दृष्टि से इंद्र आर्य आक्रमणकारियों के नामधारी शासक थे।

प्राचीन ग्रंथ इस तथ्य पर विशेष प्रकाश नहीं डालते कि सामान्य आर्यजन (विश्) और प्राचीन समाज के अवशिष्ट लोगों का आत्मसात्करण किस प्रकार हुआ। संभवतः अधिकांश लोग आर्यों के समाज के चौथे वर्ण में मिला लिए गए। किंतु पुरुष सूक्त को छोड़कर ऋग्वेद में शूद्र वर्ण का कोई प्रमाण नहीं है। हां, ऋग्वैदिक काल के आरंभ में दासियों का छोटा सा आज्ञानुवर्ती समुदाय विद्यमान था। अनुमानतः, आर्यों के जो शत्रु थे उनमें पुरुषों के मारे जाने पर उनकी पत्नियां दासता की स्थिति में पहुंच गईं। कहा गया है कि पुरुकुत्स के बेटे त्रसदस्यु ने उपहार के रूप में पचास दासियां दीं।[108] अथर्ववेद के आरंभिक अंशों में भी दासियों के संबंध में प्रमाण मिलते हैं। उसमें दासी का जो चित्र उपस्थित किया गया है उसके अनुसार उसके हाथ भीगे रहते थे, वह ओखल-मूसल कूटती थी[109] तथा गाय के गोबर[110] पर पानी छिड़कती थी। इससे पता चलता है कि वह घरेलू कार्य करती थी। इस संहिता में काली दासी का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है।[111] संदर्भों से पता चलता है कि आरंभिक वैदिक समाज में दासियों से गृहकार्य कराया जाता था। दासी शब्द के प्रयोग से स्पष्ट है कि वे पराजित दासों की स्त्रियां थीं।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

गुलाम के अर्थ में दास शब्द का प्रयोग अधिकांशतः ऋग्वेद के परवर्ती भागों में पाया जाता है। प्रथम मंडल में दो जगह[112], दशम मंडल में एक जगह[113] और अष्टम मंडल में जो अतिरिक्त सूक्त (वालखिल्य), जोड़े गए हैं उनमें एक जगह[114] इसका प्रसंग आया है। इस प्रकार का एकमात्र प्राचीन प्रसंग आठवें मंडल में पाया जाता है।[115] ऋग्वेद में कोई दूसरा शब्द नहीं मिलता जिसका अर्थ दास लगाया जा सकता हो। इससे स्पष्ट है कि आरंभिक ऋग्वेद काल में शायद ही पुरुष दास रहे होंगे।

उत्तर ऋग्वेद काल में दासों की संख्या और स्वरूप के बारे में जो प्रसंग आए हैं उनसे केवल धुंधला सा चित्र उभरता है। वालखिल्य में सौ दासों की चर्चा आई है जिन्हें गदहे और भेड़ की कोटि में रखा गया है।[116] बाद के एक अन्य प्रसंग में आए 'दासप्रवर्ग' का अर्थ संपत्ति या दासों का समूह किया जा सकता है।[117] इससे यह स्पष्ट है कि ऋग्वेद काल के अंत में दासों की संख्या बढ़ रही थी। किंतु ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिससे सिद्ध हो सके कि उन्हें किसी उत्पादन कार्य में लगाया जाता था। संभवतः उन्हें घरेलू नौकर की तरह रखा जाता था, जिसका मुख्य कार्य अपने मालिक, जो या तो सरदार या पुरोहित होते थे, की सेवा करना था। सामान्यतः ऐसे मालिक दीर्घतमस् के पास दास थे।[118] इन दासों को मुक्त रूप से किसी के हाथ सौंपा जा सकता था।[119] ऐसा प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति ऋण नहीं चुका पाता, तो उसे दास बना लिया जाता था,[120] पर ऋण में पैसे नहीं दिए जाते थे क्योंकि सिक्के का प्रचलन नहीं था। वास्तव में 'दास' नाम से ही प्रकट होता है कि वैदिक काल में दासता का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत युद्ध था। दास जनजाति के लोग युद्ध में विजित होने पर भी दास के नाम से पुकारे जाते थे, पर इससे उनकी गुलामी का बोध होता था।

दास कौन थे? साधारणतः दासों और दस्युओं को एक मान लिया जाता है। किंतु दस्युहत्या शब्द के प्रयोग तो हैं, पर दासहत्या शब्द का प्रयोग नहीं मिलता; आर्यों के अंतर्जातीय युद्धों में दासों को सहायक सेना के रूप में दिखाया गया है; अपव्रत, अन्यव्रत आदि के रूप में उनका वर्णन नहीं किया गया है; तीन स्थलों पर 'दास विशों' का उल्लेख किया गया है;[121] और सबसे बढ़कर तो यह कि एक सीथियन जनजाति, ईरानी दहे[122] से उनको अभिन्न दिखाया गया है—इन सब तथ्यों से दासों और दस्युओं का अंतर स्पष्ट है : दस्युओं और वैदिक आर्यों में समानता की बात बहुत ही कम आती है।[123] इसके विपरीत, दास संभवतः उन मिश्रित भारतीय आर्यों के अग्रिम दस्ते थे जो उसी समय भारत आए जब केसाइट बेबीलोनिया पहुंचे थे (1750 ई० पू०)। पुरातात्विकों का अनुमान है कि उत्तर फारस से भारत की ओर लोगों का प्रस्थान या तो निरंतर होता रहा अथवा उनका आगमन मुख्यतः दो बार हुआ था, जिनमें पहला आगमन 2000 ई० पू०

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

के तुरंत बाद हुआ था।[124] शायद इसी कारण आर्यों ने दासों के प्रति मेलमिलाप की नीति अपनाई और दिवोदास, बलबुथ एवं तरुक्ष जैसे उनके सरदार आर्यों के दल में आसानी से आत्मसात किए जा सके। अंतर्जातीय संघर्षों में अधिकतर आर्यों के सहायक के रूप में दासों के उल्लेख का भी यही कारण है। इससे लगता है कि गुलाम के अर्थ में दास शब्द का प्रयोग भारत के आर्येतर निवासियों के बीच नहीं, बल्कि भारतीय आर्यों से संबद्ध लोगों के बीच प्रचलित था। ऋग्वेद के उत्तरवर्ती काल में दास शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में होने लगा होगा, जिससे न केवल मूल भारोपीय दासों के वंशजों बल्कि दस्यु और राक्षस जैसे आर्य पूर्व लोगों और आर्य समुदाय के उन सदस्यों का भी जो अपने आंतरिक संघर्षों के कारण अकिंचनता या गुलामी की स्थिति में पहुंच गए थे, बोध होता होगा।

यदि आर्यों की संख्या कम होती तो वे पराजित लोगों पर नए अल्पसंख्यक उच्चवर्गीय शासक के रूप में अपने को स्थापित करते जैसा कि हित्तियों (हिट्टाइट), कसाइटों और मितन्नी ने पश्चिम एशिया में किया था। किंतु ऋग्वैदिक प्रमाण इस बात के प्रतिकूल हैं।[125] न केवल पराजित लोगों की जन-हत्या बल्कि कितनी ही आर्य जनजातियों की बस्तियों का भी उल्लेख मिलता है।[126] फिर, भारत के बहुत बड़े हिस्से में आर्यभाषाओं के प्रचलन से भी यह अनुमान किया जा सकता है कि इन भाषाओं के बोलने वाले बड़ी तादाद में आए थे। आगे चलकर बताया गया है कि उत्तर भारत की आबादी में वैश्यों के साथ साथ शूद्रों की संख्या बहुत अधिक थी, किंतु इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि वे आर्येतर भाषाएं बोलते थे। दूसरी ओर, शूद्र के लिए यज्ञ में प्रयुक्त संबोधन से स्पष्ट है कि उत्तर वैदिक काल में शूद्र आर्यों की भाषा समझते थे।[127] इस संबंध में महाभारत की एक अनुश्रुति महत्वपूर्ण है: 'ब्रह्मा ने वेद के प्रतीक स्वरूप सरस्वती का निर्माण पहले चारों वर्णों के लिए किया किंतु शूद्र धनलिप्सा में पड़कर अज्ञानांधकार में डूब गए और वेद के प्रति उनका अधिकार जाता रहा।[128] वेबर की दृष्टि में इस कंडिका से यह ध्वनित होता है कि प्राचीन युग में शूद्र आर्य की भाषा बोलते थे।[129] संभव है कि कुछ स्वस्थानिक जनजातियों ने अपनी बोली के बदले आर्यों की बोलियां अपना ली हों, जैसे आधुनिक युग में बिहार की कई जनजातियों ने अपनी भाषा छोड़कर कुर्माली और सदाना जैसी आर्य-बोलियां अपना ली हैं। किंतु उन्होंने जिन लोगों की भाषा अपनाई, उनकी अपेक्षा इन आदिवासियों की संख्या अवश्य कम रही होगी। आधुनिक युग में भी जबकि आर्य भाषा बोलने वालों को अपनी भाषा और संस्कृति का प्रसार करने के लिए अधिक सुविधाएं प्राप्त हैं, वे आर्येतर भाषाओं को नहीं मिटा पाए हैं। इन आर्येतर भाषाओं में कुछ तो अपनी सशक्त वर्णनशीलता सिद्ध कर चुकी हैं।

ऊपर बताए गए तथ्यों के आधार पर यह कहना दुस्साहस नहीं होगा कि

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

आर्य बड़ी तादाद में भारत आए। बैरी जनजातियों के साथ मिश्रण के बावजूद, आर्य सरदारों और पुरोहितों की संख्या बहुत कम रही होगी। कालक्रम से आर्य जन-जातियों के अधिकांश लोग पशुपालक और किसान बन गए, और कुछ लोग श्रमिक बन गए। पर ऋग्वेद काल में आर्थिक और सामाजिक विशिष्टीकरण की प्रक्रिया अत्यंत आरंभिक अवस्था में थी। इस जनजाति प्रधान समाज में सैनिक नेताओं को अतिरिक्त अनाज या मवेशी प्राप्त करने के नियत और नियमित साधन प्रायः नहीं थे, जिससे वे और उनके धार्मिक समर्थक अपना निर्वाह और समुन्नति कर सकते। यह समाज मुख्यतः घुमंतु और पशुचारी था, और इसमें कृषि अथवा एक जगह बसने की प्रधानता नहीं थी। अतएव अनाज की चर्चा दान के रूप में भी नहीं आई है, और कर देने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। युद्ध में पराजित लोगों से उपहार के रूप में या लूटपाट से जो संपत्ति आर्य समुदायों को प्राप्त होती थी, वही उनकी आमदनी थी और प्रायः इस संपत्ति में भी उन्हें जनजाति के सदस्यों को हिस्सा देना पड़ता था।[130] ऋग्वेद में केवल बलि ही एक शब्द है जो एक प्रकार से कर का द्योतक है। साधारणतया इसका तात्पर्य है देवता को अर्पित चढ़ावा,[131] किंतु इसका प्रयोग राजा को दिए गए उपहार के रूप में भी किया जाता है।[132] अनुमान है कि बलि का भुगतान करना ऐच्छिक था,[133] क्योंकि लोगों से इसकी वसूली के लिए कोई करवसूली संगठन नहीं था। जनजातीय राजा द्वारा अपने योद्धाओं और पुरोहितों को अनाज या भूमि के दान का दृष्टांत नहीं मिलता। इसका कारण शायद यह था कि भूमि पूरे जनसमुदाय की संपत्ति थी। ऋग्वैदिक समाज एक प्रकार का समतावादी समाज था, यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि पुरुष या स्त्री, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक ही वैरदेय प्राप्त करने का परंपरासिद्ध अधिकार प्राप्त था,[134] जो एक सौ गायों के बराबर था।[135]

सारांश यह कि ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में वर्णित समाज में गहरे वर्गभेद का अभाव था जैसा सामान्यतया प्रारंभिक आदिम समाजों में देखने को मिलता है।[136] प्रायः पुराणों में वर्णव्यवस्था की उत्पत्ति के विषय में जो अनुमान किए गए हैं वे उस स्थिति का ही उल्लेख करते हैं। इन अनुमानों के अनुसार त्रेता युग का आरंभ होने तक न तो कोई वर्णव्यवस्था थी, न कोई व्यक्ति लालची था और न लोगों में दूसरे की वस्तु चुरा लेने की प्रवृत्ति ही थी।[137] किंतु अति प्राचीन काल में भी सैनिकों, नेताओं और पुरोहितों के मंथर उद्भव के साथ साथ खेति-हर किसान और कारीगर या शिल्पी, जो हस्तकलाओं का व्यवसाय करते थे, जैसे वर्गों का भी उद्भव हुआ। बुनकर (जुलाहे), चर्मकार, बढ़ई और चित्रकार के लिए एक ही ढंग के शब्दों का प्रयोग उनके भारोपीय उद्भव का संकेत देता है।[138] रथ के लिए एक भारोपीय शब्द के व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि भारोपीय लोग रथ का निर्माण करना जानते रहे होंगे।[139] किंतु ऋग्वेद में जहां

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

पहले के अनेकानेक परिच्छेदों में बढ़ई के कार्य की चर्चा हुई है, वहां रथकार शब्द का प्रयोग नहीं दिखाई पड़ता।[140] अथर्ववेद से संकेत मिलता है कि रथनिर्माता (रथकार) और धातुकर्म करने वाले (कर्मार) को समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इसी ग्रंथ के आरंभिक भाग में नवनिर्वाचित राजा पर्णमणि (पादपीय-ताबीज) से प्रार्थना करता है कि वह आसपास रहने वाले कुशल रथ निर्माताओं और धातुकर्म करने वालों के बीच उसकी स्थिति सुदृढ़ करने में सहायक हो। प्रार्थना का उद्देश्य राजा को शिल्पियों को उसका सहायक बनाना है[141] और इस दृष्टि से वे राजाओं, राजविधाताओं, सूतों और दलपतियों (ग्रामणी) के समकक्ष मालूम पड़ते हैं,[142] जो सब राजा के आसपास रहते हैं और जो राजा के सहायक माने जाते हैं।[143]

स्पष्ट है कि आर्य समुदाय के सदस्य (विश्) ऊपर बताए गए शिल्पों का व्यवसाय करते थे और उन्हें किसी तरह हीन नहीं समझा जाता था। ऋग्वेद की एक परवर्ती ऋचा में बढ़ई का वर्णन इस रूप में किया गया है कि वह सामान्यतया अपना काम तब तक झुककर करता रहता है, जब तक उसकी कमर टूटने न लग जाए।[144] इससे आभास मिलता है कि उसका कार्य कठिन था पर इससे हमारे मन में उसके प्रति घृणा के भाव नहीं जगते हैं। वैदिक काल के संदर्भ में यह नहीं कहा जा सकता कि बढ़ई नीची जाति के थे या उनका अपना पृथक वर्ग था।[145] किंतु कर्मार, बढ़ई (तक्षन्), चर्मम्[146], जुलाहे और अन्य लोग, जिनका व्यवसाय ऋग्वेद में सम्मानजनक माना गया है और जिनका विश् के सम्मानित सदस्य भी आदर करते थे, पालि ग्रंथों में शूद्र माने गए हैं।[147] संभव है कि आर्येतर लोगों ने भी स्वतंत्र रूप से इन शिल्पों को अपनाया हो,[148] पर इसमें कोई संदेह नहीं कि आर्य शिल्पियों के अनेक वंशज, जो अपने प्राचीन व्यवसाय में ही लगे रहे, शूद्र समझे जाने लगे।

चतुर्वर्ण की उत्पत्ति के बारे में प्राचीनतम अनुमान ऋग्वेद के पुरुषसूक्त में वर्णित सृष्टि संबंधी पुराकथा में पाया जाता है। समझा जाता है कि इस संहिता के दशम मंडल में यह विषय बाद में अंतर्वेशित किया गया है। लेकिन उत्तर वैदिक साहित्य[149] में और गाथाकाव्य,[150] पुराण[151] तथा धर्मशास्त्र[152] की अनुश्रुतियों में भी इसे कुछ हेरफेर के साथ प्रस्तुत किया गया है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति आदिमानव (ब्रह्मा) के मुंह से क्षत्रिय की उनकी भुजाओं से, वैश्य की उनकी जांघों से, और शूद्र की उनके पैरों से हुई थी।[153] इससे या तो यह स्पष्ट होता है कि शूद्र और अन्य तीन वर्ण एक ही वंश के थे और इसके फलस्वरूप वे आर्य समुदाय के अंग थे, अथवा इसके द्वारा विभिन्न जातियों को ब्राह्मणीय समाज में उत्पत्ति की कहानी के द्वारा मिलाने का प्रयास किया गया। पुरुषसूक्त अथर्ववेद के अंतिम अंश में है[154] और इसे कालक्रम

5297

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

की दृष्टि से अथर्ववैदिक युग के अंत का माना जा सकता है।[155] यह जनजातियों के सामाजिक वर्गों में विघटित होने का सैद्धांतिक औचित्य प्रस्तुत करता है। श्रम का विभाजन ऋग्वैदिक काल में ही काफी विकसित हो चुका था। किंतु, यद्यपि एक ही परिवार के विभिन्न सदस्य कवि, भिषक और पाठक (पिसाई करने वाले) का काम करते थे[156] इससे कोई सामाजिक भेदभाव उत्पन्न नहीं होता था। पर अथर्ववैदिक-काल के अंत में कार्यों की भिन्नता के आधार पर सामाजिक हैसियत में भी अंतर किया जाने लगा और इस प्रकार जनजातियों तथा कुनबों का सामाजिक वर्गों में विघटन शुरू हुआ। मालूम पड़ता है कि शूद्र जाति या दासकर्म करने वाले कुछ आर्य चतुर्थ वर्ण की श्रेणी में आ गए। इस अर्थ में चारों वर्णों की समान उत्पत्ति की कथा में सत्य का अंश है। किंतु यह परंपरा पूर्णतः सत्य नहीं मानी जा सकती। संभव है कि बाद में आर्य शूद्रों के वंशजों की संख्या गंगा की नई उर्वर घाटियों में बढ़ती गई हो। साथ ही वैदिक काल से लेकर आगे तक विभिन्न प्रकार के विभिन्न वर्णों के आर्येतर आदिवासी धीरे धीरे बड़ी संख्या में शूद्र वर्ण में सम्मि-किए गए।[157] वर्णों की समान उत्पत्ति के बारे में चली आ रही परंपरा से यह स्पष्ट नहीं हो सका कि आर्येतर जनजातियां किस प्रकार ब्राह्मणीय समाज में प्रवेश पा सकीं, लेकिन यह कल्पना उपयोगी सिद्ध हुई। यह विभिन्न प्रकार के लोगों को मिलाने और उन्हें साथ ले चलने में सहायक हो सकी, और चूंकि शूद्रों को प्रथम मानव के चरण से उत्पन्न माना गया है, इससे ब्राह्मणप्रधान समाज में उनकी गुलामों जैसी स्थिति को न्यायसिद्ध माना और बताया जा सका।

तीन उच्च वर्णों की सेवा करने वाले सामाजिक वर्ग के रूप में शूद्रों का सर्व-प्रथम उल्लेख कब किया गया है? ऋग्वेदकालीन समाज में कुछ दास-दासियां होती थीं, जो घरेलू नौकर के रूप में काम करती थीं पर उनकी संख्या इतनी नहीं थी कि उनको मिलाकर शूद्रों का दास वर्ण बन पाता। समाज के वर्ग के रूप में शूद्रों का प्रथम और एकमात्र उल्लेख ऋग्वेद के पुरुषसूक्त में आया है जिनकी पुनरा-वृत्ति अथर्ववेद के उन्नीसवें भाग में हुई है।[158] इसी भाग के दो अन्य परिच्छेदों में भी चार वर्णों का संकेत किया गया है। इनमें से एक परिच्छेद में दर्भ (घास) से प्रार्थना की गई है कि वह प्रार्थी को ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और आर्य का प्रियपात्र बनाए।[159] यहां आर्य शब्द का प्रयोग प्रायः वैश्य के लिए किया गया है। दूसरे परिच्छेद में देवों और राजाओं के साथ साथ शूद्र तथा आर्य दोनों के ही प्रियपात्र बनने की इच्छा व्यक्त की गई है।[160] मालूम पड़ता है कि यहां देव ब्राह्मण के लिए और आर्य वैश्य के लिए प्रयुक्त हुआ है।[161] हमें स्मरण रखना है कि ये सभी परिच्छेद उन्नीसवें भाग में आए हैं जो बीसवें भाग को मिलाकर अथर्ववेद के मुख्य संकलन का परिशिष्ट है।[162] इसके पूर्व के एक परिच्छेद में ब्राह्मण, राजन्य या शूद्र द्वारा किए गए जादू-टोने (या उनके द्वारा बनाए गए ताबीज) का उल्लेख

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

है और एक मंत्र में बताया गया है कि प्रयोग करने वाले को भी जादू का झटका लग सकता है।[133] यह परिच्छेद अथर्ववेद के द्वितीय खंड (भाग आठ-बारह) में है जिसके संबंध में व्हिटने की राय है कि इसकी रचना स्पष्टतः पुरोहितों ने की होगी।[164] इससे यह आभास मिलता है कि वर्णव्यवस्था का विकास पुरोहितों के प्रभाव में हुआ। हमारे काम का केवल एक प्रसंग ऐसा है जिसे व्हिटने के अनुसार अथर्ववेद के आरंभिक काल का कहा जा सकता है। इसमें ब्राह्मण, राजन्य और वैश्य का उल्लेख तो हुआ है,[165] किंतु शूद्र को छोड़ दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि अथर्ववेद काल के अंत में ही शूद्रों को समाज के एक वर्ग के रूप में चित्रित किया गया है। इसी अवधि में उनकी उत्पत्ति के संबंध में पुरुषसूक्त में उल्लिखित उक्ति का समावेश ऋग्वेद के दशम मंडल में किया गया होगा।

लोग जानना चाहेंगे कि चतुर्थ वर्ण शूद्र क्यों कहलाने लगा। मालूम होता है कि जिस प्रकार सामान्य यूरोपीय शब्द 'स्लेव' और संस्कृत शब्द 'दास' विजित जनों के नाम पर बने थे, उसी प्रकार शूद्र शब्द उक्त नामधारी पराजित जनजाति के नाम पर बना था। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में शूद्र नाम की जनजाति थी, क्योंकि डियोडोरस ने लिखा है कि सिकंदर ने आधुनिक सिंध के कुछ इलाकों में रहने वाली सोद्रई नामक जनजाति पर चढ़ाई की थी।[166] ग्रीक लेखकों ने जिन जातियों का उल्लेख किया है, उनका अस्तित्व अतिप्राचीन काल में भी देखा जा सकता है। उदाहरणार्थ, एरियन द्वारा चर्चित अबस्तनोई (जिसे डियोडोरस ने संवस्तई कहा है) को ऐतरेय ब्राह्मण के अंबष्ठों का समरूप माना गया है।[167] इस ब्राह्मण में एक अंबष्ठ राजा की चर्चा है।[168] यही बात शूद्र जाति पर भी लागू होती है और इस तरह लगभग ई० पू० 10वीं शताब्दी की शूद्र जाति और चौथी शताब्दी की शूद्र जनजाति में साम्य देखा जा सकता है।

अथर्ववेद के आरंभिक भाग में शूद्रों के तीन उल्लेखों की इस दृष्टि से विवेचना की जा सकती है। व्हिटने का कथन है कि ये अथर्ववेद के प्रथम खंड (भाग 1-7) में आते हैं जो परम लोकमूलक है और सभी प्रकार से उस संहिता का अत्यंत अभिलाक्षणिक अंश है।[169] इनमें से दो संदर्भों में पुजारी चाहता है कि हर किसी को, चाहे वह आर्य हो या शूद्र, जड़ी-बूटी की सहायता से परखे ताकि जादूगर का पता चल जाए।[170] इस संबंध में ब्राह्मण या राजन्य का कोई उल्लेख नहीं हुआ है। अब प्रश्न यह है कि यहां आर्य और शूद्र दो सामाजिक वर्गों (वर्णों) के प्रतीक हैं या दो जनजातियों के। इनमें से उत्तरवर्ती कल्पना युक्तियुक्त लगती है। पहले आर्य और दास या दस्यु के बीच जो विरोध रहता था वह अब बदलकर आर्य और शूद्र के बीच का हो गया। यह विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि ये निर्देश सामाजिक विभेद या अशक्तताओं का ऐसा आभास नहीं देते जो वर्ण की कल्पना में अंतर्निहित है। उनकी तुलना उसी संहिता के एक अन्य परिच्छेद से की जा

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

सकती है जिसमें आर्य और दास की चर्चा है और जिसमें पुरोहित या वरुण ने यह दावा किया है कि उसने जिस मार्ग का अनुसरण किया है उसे कोई दास या आर्य विनष्ट नहीं कर सकता।[171] ऋग्वेद में इसी तरह की अन्य ऋचाएं भी आई हैं, जिनमें पुरोहित चाहता है कि वह अपने दुश्मन आर्यों और दासों या दस्युओं को परास्त करे। वैदिक ग्रंथों में आए हुए सामाजिक संबंधों के प्रत्यक्ष निर्देशों का सही अर्थ लगाने में ब्राह्मण टीकाकार इसलिए सफल नहीं हो सके कि उनका ध्यान सदा बाद में होने वाली घटनाओं की ओर लगा रहता था। ऋग्वेद में आर्य और दास शब्दों का अर्थ जिस रूप में किया गया है वह इस आशय का उदाहरण कहा जा सकता है। सायण आर्य को प्रथम तीन वर्णों का और दास को शूद्र वर्ण का मानते हैं।[172] स्पष्ट है कि सायण ने यह टीका बाद में समाज के चार वर्णों में विभक्त होने के आधार पर की, जिनका औचित्य वह सिद्ध करना चाहते हैं। इसी प्रकार यहां जिस अथर्ववैदिक प्रसंग का विवेचन किया जा रहा है उसमें सायण ने आर्य की व्याख्या तीन वर्णों के सदस्य के रूप में की है,[173] जिससे सहज ही शूद्र चौथे वर्ण के प्रतिनिधि हो जाते हैं। किंतु धर्मशास्त्रों में आर्य और शूद्र के प्रति जो दृष्टि अपनाई गई है, उसके आधार पर पहले के ग्रंथों का सही अर्थ लगाना बहुत कठिन हो जाता है।

अथर्ववेद के आरंभिक भाग में शूद्र को जनजाति माना गया है। इस आशय का निष्कर्ष इसमें उपलब्ध तीसरे प्रसंग से भी निकाला जा सकता है जिसमें 'तक्मन्' ज्वर से कहा गया है कि वह मुजवंतों, बल्हिकों और महावृषों के साथ साथ कुलटा शूद्र महिलाओं को भी ग्रसित करे।[174] मालूम पड़ता है कि ये सभी जन उत्तरपूर्व भारत के निवासी थे।[175] जहां शूद्र जनजाति आभीरों के साथ रहती थी,[176] जैसा कि महाभारत में बताया गया है। एक अन्य ऋचा में भी इस इच्छा की पुनरावृति की गई है कि ज्वर विदेशियों को ग्रसित करे।[177] इससे आभास मिलता है कि शूद्र महिलाओं का उल्लेख जिस संदर्भ में हुआ है वह अथर्ववेद-कालीन आर्यों के उस वैरभाव का द्योतक है जो उनके मन में भारत के उत्तर पश्चिम भाग के विजातीय निवासियों के प्रति रहता था। अतः यहां संभवतः शूद्रा शब्द का अर्थ है शूद्र जाति की महिला। पैप्लाद शाखा की एक ऐसी ही ऋचा में शूद्रा की जगह 'दासी' शब्द का प्रयोग हुआ है,[178] जिससे लेखक की राय में यह प्रकट होता है कि ये दोनों शब्द पर्यायवाची हैं। अतः अथर्ववेद के आरंभिक भाग में जो शूद्र शब्द का प्रयोग हुआ है उसे वर्ण के अर्थ में नहीं, बल्कि जाति के अर्थ में लेना चाहिए जो प्रसंग की दृष्टि से अधिक समीचीन मालूम पड़ता है।

महाभारत में आभीरों के साथ शूद्रों की चर्चा बार बार जनजाति के रूप में हुई है, जिससे ई० पू० दसवीं शताब्दी की परंपराओं का आभास मिलता है। इस महाकाव्य में शूद्र कुल का उल्लेख क्षत्रिय और वैश्य कुल के साथ हुआ है,[179] और

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

शूद्र जनजाति का वर्णन आभीरों, दरदों, तुखारों, पह्लवों आदि के साथ हुआ है,[180] तथा कुल एवं जाति के बीच स्पष्ट भेद दिखाया गया है। नकुल ने अपनी दिग्विजय यात्रा के क्रम में जिन जातियों को पराजित किया उनकी सूची में[181] तथा राजसूय यज्ञ के अवसर पर युधिष्ठिर को जिन लोगों ने उपहार प्रस्तुत किए उनकी सूची में[182] भी शूद्र का उल्लेख जनजाति के रूप में हुआ है। इनका कालक्रम निर्धारित करने के लिए संभवत: एक ओर भारत युद्ध के समय विद्यमान शूद्रों और आभीरों तथा दूसरी ओर बाद में इस सूची में प्रक्षिप्त शकों, तुखारों, पह्लवों, रोमकों, चीनों और हूणों आदि जनों के बीच विभेद करना पड़ेगा।[183] भारतीयेतर स्रोतों से ऐसा कुछ पता नहीं चलता कि ईस्वी सन के पूर्व या पश्चात की कुछ आरंभिक शताब्दियों में शूद्रों और आभीरों को बाह्री देशों से भी कोई संबंध था। इस बात के समर्थक तथ्य शायद ही उपलब्ध हैं कि आभीर ईसा की आरंभिक शताब्दियों में भारत आए। मालूम पड़ता है कि भारत युद्ध के समय वे जनजाति के रूप में यहां रहते थे,[184] पर उस महायुद्ध के पश्चात जो अस्तव्यस्तता की अवधि आई उसमें वे पंजाब में बिखर गए।[185] आभीरों के साथ शूद्रों का जो बार-बार उल्लेख हुआ है उससे संकेत मिलता है कि वे पुरानी जनजाति के थे और युद्ध के समय सुखी एवं संपन्न थे। यह अथर्ववेद के आरंभिक अंश में शूद्र शब्द के जनजाति के रूप में किए गए अर्थ के सर्वथा उपयुक्त है।

दूसरा प्रश्न यह है कि शूद्र आर्य थे या आर्यों के आगमन के पहले की जनजाति थे और यदि वे आर्य थे तो भारत में किस समय आए। शूद्र जनजाति के मानवजातीय वर्गीकरण (एथनोलाजिकल क्लासीफिकेशन) के विषय में परस्पर-विरोधी विचार व्यक्त किए गए हैं। पहले यह माना जाता था कि पहले-पहल जो आर्य आए उनमें से कुछ शूद्र जनजाति के थे,[186] बाद में यह माना जाने लगा कि शूद्र आर्य पूर्व जनों की एक शाखा थे,[187] किंतु दोनों विचारों में से किसी के भी पक्ष में कोई सबल प्रमाण नहीं है। उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सोचा जा सकता है कि शूद्र जनजाति का आर्यों के साथ कुछ सादृश्य था। शूद्रों की चर्चा हमेशा आभीरों के साथ हुई है,[188] जो आर्यों की एक बोली आभीरी बोलते थे।[189] ब्राह्मणकाल में शूद्र आर्य की भाषा समझने में समर्थ थे जिससे परोक्ष रूप में सिद्ध होता है कि वे आर्यों की भाषा जानते थे। इतना ही नहीं, शूद्र को आर्य-पूर्व लोगों, यथा, द्रविड़, पुलिंद, शबर आदि की सूची में कभी शामिल नहीं किया गया है। उन्हें बराबर उत्तर-पश्चिम का निवासी माना गया है,[190] जहां आगे चलकर मुख्यत: आर्य ही निवास करते थे।[191] आभीर और शूद्र सरस्वती नदी के निकट रहते थे।[192] कहा जाता है कि इन लोगों के प्रति बैरभाव के कारण सरस्वती मरुभूमि में विलीन हो गई।[193] ये संदर्भ महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि दृषद्वती के साथ सरस्वती उस प्रदेश की एक सीमा स्थिर करती थी जो आर्य-देश कहलाता

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

था। ऊपर 'दहे' शब्द का हवाला दिया जा चुका है, जो भारतीय 'दास' शब्द का ईरानी पर्याय है, किंतु शूद्र के लिए ऐसा तादात्म्य स्थापन कठिन है। यह सुझाव दिया जा सकता है कि शूद्र ग्रीक 'कुद्रोस' शब्द का समानार्थक है,[194] जिसे होमर ने (ई० पू० दसवीं-नवीं शताब्दी) 'महान्' के अर्थ में प्रयुक्त किया है और इसका प्रयोग सामान्यतया मर्त्यलोक के प्राणियों के लिए नहीं बल्कि देवलोकवासियों की विशेषता बताने के लिए किया गया है।[195] भारत में, बाद में, शूद्र शब्द अपमानसूचक माना जाने लगा, और उन लोगों के लिए व्यवहृत होता था जिनसे ब्राह्मण अप्रसन्न थे। इसके विपरीत होमरकालीन ग्रीस में 'शूद्र' शब्द (कुद्रोस) प्रशंसावाचक था। हम यह कह सकते हैं कि 'कुद्र' नामक एक भारोपीय जनजाति थी जिसकी शाखाएं ग्रीस और भारत दोनों देशों में गईं। ग्रीस में इस शाखा को महत्व का स्थान मिला, लेकिन इस जाति के जो लोग भारतवर्ष आए उन्हें उनके सहआक्रमणकारियों ने हराकर अपने अधीन कर लिया। इस कारण ग्रीस में कुद्रों का ऊंचा स्थान हुआ और भारत में शूद्रों का नीचा स्थान हुआ। एक ही शब्द के विभिन्न संदर्भ में विपरीत अर्थ होते हैं जैसा कि असुर शब्द के उदाहरण से स्पष्ट है। भारत में असुर अनिष्टकर (शैतान) माना जाता है, किंतु उसके प्रतिरूप 'अहुर' को ईरान में देवता माना जाता है। भारत और ग्रीस में शूद्र शब्द का प्रयोग भेद भी इसी प्रकार का माना जा सकता है, किंतु उपरोक्त व्याख्या को तब तक निश्चयात्मक नहीं कहा जा सकता जब तक कि यह प्रमाणित न हो जाए कि 'कुद्रोस' ग्रीस की एक जनजाति थी। फिर भी, ऊपर जितनी बातें कही गई हैं, उनके आधार पर यह संभव प्रतीत होता है कि दासों के समान शूद्र भी भारतीय आर्यवंश के लोगों से संबंधित थे।

यदि शूद्र भारतीय आर्यों से संबद्ध थे, तो वे भारत में कब आए? कहा गया है कि वे भारत में आने वाले आर्यों के किसी आरंभ के दल के थे।[196] किंतु चूंकि ऋग्वेद में उनका उल्लेख नहीं हुआ है, इसलिए संभव है कि शूद्र उन विदेशी जन-जातियों में से थे जो ऋग्वैदिक काल का अंत होते होते उत्तर-पश्चिम भारत में आई। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के आधार पर ऐसा संभव मालूम पड़ता है कि 2000 ई० पू० के पश्चात हजार वर्षों तक लोगों का भारत में आना जारी रहा।[197] इस परिकल्पना का समर्थन भाषाजन्य प्रमाणों से भी होता है।[198] अतएव अनुमान किया जाता है कि शूद्र ई० पू० दूसरे सहस्राब्द के अंत में भारत आए, जबकि उन्हें वैदिक कालीन आर्यों ने पराजित किया और वैदिक काल के उत्तरवर्ती समाज ने उन्हें चतुर्थ वर्ण के रूप में अपनाया।

यह जोर देकर कहा गया है कि ब्राह्मणों के साथ दीर्घकाल तक संघर्ष करते रहने के फलस्वरूप क्षत्रियों को शूद्र की स्थिति में पहुंचा दिया गया और ब्राह्मणों ने अपने शत्रु क्षत्रियों को अंततः उपनयन (यज्ञोपवीत संस्कार) के अधिकार से

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

वंचित कर दिया।[199] महाभारत के शांतिपर्व में वर्णित एकमात्र अनुश्रुति के आधार पर कि पैजवन शूद्र राजा था, यह दावा किया जाता है कि शूद्र आरंभ में क्षत्रिय थे।[200] इस तरह की धारणा का कोई तथ्यगत आधार नहीं है। प्रथमतः, ऋग्वेद काल में क्षत्रियों का ऐसा वर्णन कहीं नहीं मिलता है जिससे पता चले कि उनका एक निश्चित वर्ण था तथा उनके कर्तव्य और अधिकार अलग थे। संपूर्ण जनजाति के लोग युद्ध और सार्वजनिक कार्यों के प्रबंध को अपना कर्तव्य समझते थे। यह कुछ गिने-चुने योद्धाओं का काम नहीं समझा जाता था। आरंभ से ही विकसित हो रहे योद्धाओं और पुरोहितों के समुदाय ने आर्यों और आर्येतर लोगों के साथ युद्ध में विश् का मार्गदर्शन किया और उन्हें सहायता दी। ज्यों ज्यों समय बीतता गया सरदार और योद्धागण पुरोहितों को उदारतापूर्वक भेंट उपहार देने लगे और धार्मिक कर्मकांड जटिल होता गया, जिससे उस कर्मकांड का निष्पादन करने वाले पुरोहितों और उन पुरोहितों को संरक्षण देने वाले योद्धाओं की शक्ति सामान्य जन की शक्ति की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ी। दूसरे, यद्यपि उत्तर वैदिक काल में, परशुराम और विश्वामित्र की कथाओं में पुरोहितों और योद्धाओं का संघर्ष ध्वनित होता है, फिर भी इसका कोई प्रमाण नहीं है कि विवाद का विषय उपनयन था, जिसका निर्णय क्षत्रियों के विपक्ष में हुआ। उत्तरवैदिक-काल के अंत में कृषि के आरंभ हो जाने से किसानों से अनाज वसूल किया जाना लगा। इस वसूली में किसका कितना हिस्सा होगा इसको लेकर सरदारों और पुरोहितों में संघर्ष अवश्यंभावी था। संघर्ष सामाजिक आधिपत्य को लेकर हुआ करता था, जिसके आधार पर विशेषाधिकारों का निर्णय होता था। ज्ञान के क्षेत्र में ब्राह्मणों के एकाधिकार के विषय में भी कुछ विवाद उठे और क्षत्रियों ने इसे चुनौती दी और उसमें सफल भी हुए। ऐसा जान पड़ता है कि अश्वपति कैकेय और प्रवाहण जैवलि संभवतः ब्राह्मणों के अध्यापक थे।[201] मिथिला के क्षत्रिय शासक जनक ने उपनिषदीय चिंतन को आगे बढ़ाने में योगदान दिया तथा क्षत्रिय राजा विश्वामित्र ने ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया। उत्तर-पूर्व भारत में क्षत्रियों का विद्रोह गौतम बुद्ध और वर्द्धमान महावीर के उपदेशों के रूप में अपनी चरम सीमा पर आया। उनके अनुसार समाज में प्रमुख स्थान क्षत्रियों का था और ब्राह्मण उसके बाद थे। झगड़ा इस प्रश्न को लेकर था कि समाज में प्रथम स्थान ब्राह्मणों को मिले या क्षत्रियों को। न तो उत्तर वैदिक और न मौर्य पूर्व ग्रंथों में ही कहीं ऐसा संकेत है कि ब्राह्मण चाहते थे कि क्षत्रियों को तृतीय या चतुर्थ वर्ण में रखा जाए, या क्षत्रियों की यह इच्छा थी कि ब्राह्मणों की वह गति हो।

तीसरी बात यह कि ऐसा सोचना गलत है कि आरंभ में उपनयन संस्कार का न होना शूद्रता का निश्चित प्रमाण माना जाता था। इस मामले में आज के न्यायालयों का निर्णय[202] उस समय की परिस्थितियों का द्योतक नहीं बन सकता

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

जब शूद्र वर्ण का उद्भव हुआ। शूद्रों को उपनयन-च्युत केवल उत्तर वैदिक काल के अंत से पाया जाता है और तब भी शूद्रों की दासतासूचक एकमात्र अशक्तता केवल यही नहीं थी कि उन्हें यज्ञोपवीत से वंचित रखा गया, इस तरह की अन्य कई अशक्तताएं थीं। आगे चलकर हम देखेंगे कि बात ऐसी नहीं थी कि उपनयन नहीं होने के कारण आर्य शूद्र में परिवर्तित हो गए थे, बल्कि आर्थिक और सामाजिक विषमताओं के चलते वे इस अधोगति में पहुंचे थे।

चौथी बात यह है कि शांतिपर्व की इस अनुश्रुति की प्रामाणिकता को दृढ़तापूर्वक स्वीकार करना कठिन है कि पैजवन शूद्र था। उसे सुदास् से अभिन्न माना गया है जो भारत जनजाति का प्रधान था, और कहा जाता है कि दस राजाओं के युद्ध का यह सुप्रसिद्ध नायक शूद्र ही था।[203] वैदिक ग्रंथों में ऐसे तथ्य नहीं हैं जिनसे इस विचार की पुष्टि होती हो और शांतिपर्व की अनुश्रुति को किसी अन्य स्रोत से, चाहे वह महाकाव्य हो या पुराण, बल नहीं मिलता है। इस अनुश्रुति के अनुसार शूद्र पैजवन यज्ञ करते थे, यह बात भी ऐसे प्रसंग में आई है, जहां कहा गया है कि शूद्र पांच महायज्ञ कर सकते थे और दान दे सकते थे।[204] यह निर्णय करना कठिन है कि यह अनुश्रुति सच है या झूठ, किंतु इसका उद्देश्य यह सिद्ध करना था कि शूद्र यज्ञ और दान पुण्य कर सकते थे। हम आगे यह देखेंगे कि ऐसा दृष्टिकोण शांतिपर्व की उदारवादी भावना के अनुकूल था, और तब पैदा हुआ जब शूद्र किसानों की संख्या बढ़कर काफी हो गई। यह भी ध्यातव्य है कि परवर्ती काल में ब्राह्मण ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए, जो उनका विरोध करता था, व्यापक रूप से शूद्र या वृषल शब्द का प्रयोग करने लगे थे। हमें मालूम नहीं कि शूद्र पैजवन के साथ भी ऐसी ही बात थी या नहीं। प्रायः ऐसे कथनों का यह अर्थ नहीं कि क्षत्रिय और ब्राह्मण शूद्र की स्थिति में पहुंच गए थे, बल्कि वे मात्र इतना संकेत देते हैं कि इन मान्य व्यक्तियों की उत्पत्ति शूद्रों से हुई थी, खासकर मातृकुल की ओर से।[205]

स्पष्ट है कि आर्य जनजातियों और उनकी संस्थाओं की ही तरह शूद्र जनजाति भी सैनिक कृत्यों का निर्वाह करती थी।[206] महाभारत में शूद्रों की सेना का उल्लेख अंबष्ठों, शिवियों, शूरसेनों आदि के साथ हुआ है।[207] किंतु, जैसा कि हम जानते हैं, इससे पूरी जनजाति क्षत्रिय वर्ण नहीं बन सकी और न उसके कर्तव्य और विशेषाधिकार सुनिश्चित हो सके। अतः इस सिद्धांत में शायद ही कोई बल है कि क्षत्रियों को शूद्र की स्थिति में पहुंचा दिया गया था।

शूद्र शब्द का व्युत्पत्यर्थ निकालने के जो प्रयास हुए हैं वे अनिश्चित से लगते हैं और उनसे वर्ण की समस्या सुलझाने में शायद ही कोई सहायता मिलती है। सबसे पहले वेदांत सूत्र में बादरायण ने इस दिशा में प्रयास किया था। इसमें शूद्र शब्द को दो भागों में विभक्त कर दिया गया है—'शुक्' (शोक) और 'द्र' जो

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

'द्रु' धातु से बना है और जिसका अर्थ है दौड़ना।[208] इसकी टीका करते हुए शंकर ने इस बात की तीन वैकल्पिक व्याख्याएं की हैं कि जानश्रुति[209] शूद्र क्यों कहलाया : (1) 'वह शोक के अंदर दौड़ गया',—'वह शोक-निमग्न हो गया' (शुचम् अभिदुद्राव), (2) 'उस पर शोक दौड़ आया',—'उस पर संताप छा गया' (शुचा वा अभिद्रुवे) और (3) 'अपने शोक के मारे वह रैकव दौड़ गया' (शुचा वा रैक्वम् अभिदुद्राव)।[210] शंकर का निष्कर्ष है कि शूद्र शब्द के विभिन्न अंगों की व्याख्या करने पर ही उसे समझा जा सकता है, अन्यथा नहीं।[211] बादरायण द्वारा शूद्र शब्द की व्युत्पत्ति और शंकर द्वारा उसकी व्याख्या दोनों ही वस्तुतः असंतोष-जनक हैं।[212] कहा जाता है कि शंकर ने जिस जानश्रुति का उल्लेख किया है, वह अथर्ववेद में वर्णित उत्तर-पश्चिम भारत के निवासी महावृषों पर राज्य करता था। यह अनिश्चित है कि वह शूद्र वर्ण का था। वह या तो शूद्र जनजाति का था या उत्तर-पश्चिम की किसी जाति का था, जिसे ब्राह्मण लेखकों ने शूद्र के रूप में चित्रित किया है।

पाणिनि के व्याकरण में उणादिसूत्र के लेखक ने इस शब्द की ऐसी ही व्युत्पत्ति की है जिसमें शूद्र शब्द के दो भाग किए गए हैं, अर्थात धातु शुच् या शुक्+र।[213] प्रत्यय 'र' की व्याख्या करना कठिन है और यह व्युत्पत्ति भी काल्पनिक और अस्वाभाविक लगती है।[214]

पुराणों में जो परंपराएं हैं उनसे भी शूद्र शब्द शुच् धातु से, जिसका अर्थ होता है संतप्त होना, संबद्ध जान पड़ता है। कहा जाता है कि 'जो खिन्न हुए और भागे, शारीरिक श्रम करने के अभ्यस्त थे तथा दीन-हीन थे उन्हें शूद्र बना दिया गया।'[215] किंतु शूद्र शब्द की ऐसी व्याख्या उसके व्युत्पत्यर्थ बताने की अपेक्षा पर-वर्ती काल में शूद्रों की स्थिति पर ही प्रकाश डालती है। बौद्धों द्वारा प्रस्तुत व्याख्या भी ब्राह्मणों की व्याख्या की ही तरह काल्पनिक मालूम पड़ती है। बुद्ध के अनुसार जिन व्यक्तियों का आचरण आतंकपूर्ण और हीन कोटि का था (लुदआचारा खुद्दाचाराति) वे सुद्द (संस्कृत शूद्र) कहलाने लगे और इस तरह सुद्द (सं० शूद्र) शब्द बना।[216] आदि मध्यकाल के बौद्ध शब्दकोश में शूद्र शब्द क्षुद्र का पर्याय बन गया,[217] और इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि शूद्र शब्द क्षुद्र से बना है।[218] दोनों ही व्युत्पत्तियां भाषाविज्ञान की दृष्टि से असंतोषजनक हैं, किंतु फिर भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उनसे प्राचीन काल में शूद्र वर्ण के प्रति प्रचलित धारणा का आभास मिलता है। ब्राह्मणों द्वारा प्रस्तुत व्युत्पत्ति में शूद्रों की दयनीय अवस्था का चित्रण किया गया है, किंतु बौद्ध व्युत्पत्ति में समाज में उनकी हीनता और न्यूनता का परिचय मिलता है। इन व्युत्पत्तियों से केवल इतना पता चलता है कि भाषा और व्युत्पत्ति संबंधी व्याख्याएं भी सामाजिक स्थितियों से प्रभावित होती हैं। हाल में एक लेखक ने शूद्र शब्द की व्युत्पत्ति इस रूप में की है—धातु

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

'श्वी' (मोटा होना)+धातु 'द्रु' (दौड़ना)। उसकी राय है कि इस शब्द का अर्थ है 'ऐसा व्यक्ति जो स्थूल जीवन की ओर दौड़े।' अतएव उसकी दृष्टि में शूद्र 'ऐसा गंवार है जो शारीरिक श्रम करने के लिए ही बना है।'[219] यह बहुत ही अद्भुत बात है कि यहां दो धातुओं के मेल से शूद्र शब्द की उत्पत्ति की गई है और तब जब उसका कोई पुराना व्युत्पत्यात्मक आधार नहीं है। इस शब्द को लेखक जो अर्थ देना चाहता है वह शूद्रों के प्रति केवल परंपरावादी मनोवृत्ति को चित्रित कर पाता है। उससे शूद्रों की उत्पत्ति पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता है।

उत्पत्ति के समय शूद्र वर्ण की स्थिति दयनीय और उपेक्षित थी, यह बात ऋग्वेद और अथर्ववेद में वर्णित समाज के चित्रण से शायद ही सिद्ध होती है। इन संहिताओं में कहीं भी न तो दास और आर्य के बीच और न शूद्र और उच्च वर्णों के बीच भोजन और वैवाहिक प्रतिबंध का प्रमाण मिलता।[220] वर्णों के बीच सामाजिक भेदभाव बताने वाला एकमात्र पूर्वकालीन संदर्भ अथर्ववेद में पाया जाता है जिसमें यह दावा किया गया है कि ब्राह्मण को, राजन्य और वैश्य की तुलना में, किसी नारी का पहला पति बनने का अधिकार प्राप्त है।[221] और भी कहीं कहीं ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की चर्चा की गई है, यथा कहा गया है कि उनकी गाय अथवा स्त्री को कोई हाथ नहीं लगा सकता। पर इस संबंध में कहीं शूद्र की चर्चा नहीं मिलती, क्योंकि प्रायः उस समय यह वर्ण विद्यमान नहीं था। इसका कोई आधार नहीं कि दास और शूद्र अपवित्र समझे जाते थे और न ही इसका ही कोई प्रमाण मिलता है कि उनके छू जाने से उच्च वर्णों के लोगों का शरीर और भोजन दूषित हो जाता था।[222] अपवित्रता का सारा ढकोसला बाद में खड़ा किया गया जब समाज कृषिप्रधान होने के बाद वर्णों में बंट गया और ऊपर के वर्ण अपने लिए तरह तरह की सुविधाएं और विशेषाधिकार मांगने लगे।[223]

शूद्र वर्ण के उद्भव के विषय में इस अध्याय का सारांश यह है कि आंतरिक और बाहरी संघर्षों के कारण आर्य या आर्य-पूर्व लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है।[224] चूंकि संघर्ष मुख्यतया मवेशी के स्वामित्व को लेकर और बाद में भूमि को लेकर होता था, अतः जिनसे ये वस्तुएं छीन ली जाती थीं और जो अशक्त हो जाते थे, वे नए समाज में चतुर्थ वर्ण कहलाने लगते थे। फिर जिन परिवारों के पास इतने अधिक मवेशी हो गए और इतनी अधिक जमीन हो गई कि वे स्वयं संभाल नहीं पाते थे, तो उन्हें मजदूरों की आवश्यकता हुई और वैदिककाल के अंत में ये शूद्र कहलाने लगे।

यह मंतव्य कि शूद्र वर्ण का निर्माण आर्य पूर्व लोगों से हुआ था, उतना ही एकांगी और अतिरंजित मालूम पड़ता है, जितना यह समझना कि उस वर्ण में मुख्यतः आर्य ही थे।[225] वास्तविकता यह है कि आर्थिक तथा सामाजिक विषम-

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

ताओं के कारण आर्य और आर्येत्तर, दोनों के अंदर श्रमिक समुदाय का उदय हुआ और ये श्रमिक आगे जाकर शूद्र कहलाए। साधारणतया मान्य समाजशास्त्रीय सिद्धांत है कि वर्गविभाजन बराबर संजातीय असमानताओं से मूलतया संबद्ध होता है,[226] किंतु इस सिद्धांत से शूद्रों और दासों की उत्पत्ति पर आंशिक प्रकाश ही पड़ता है। वहुत संभव है कि दासों और शूद्रों का नाम क्रमशः इन्हीं नामों की जनजातियों के आधार पर रखा गया हो जो भारतीय आर्यों के निकट संपर्क में रही हों। लेकिन कालक्रम से आर्यपूर्व आबादी के लोग और विपन्न आर्य भी इन वर्गों में शामिल हो गए होंगे। यह बहुत स्पष्ट है कि वैदिक काल के आरंभिक लोगों में शूद्रों और दासों की जनसंख्या बहुत सीमित थी और उत्तरवर्ती वैदिक काल के अंत से लेकर आगे तक शूद्र जिन अशक्तताओं के शिकार रहे हैं, वे आदिवैदिक काल में विद्यमान नहीं थीं।

संदर्भ

1. आर० रौथ : 'ब्रह्म ग्रंड डाइ ब्राह्मनेन साइटशिफ्ट डेर डोय्चेन मेर्गेनलेंडिशेन गेज़ेलशाफ्ट बर्लिन', I, पृ० 84.
2. वेदिक इंडेक्स, II, पृ० 265, 388; आर० सी० दत्त: 'ए हिस्ट्री आफ सिविलिजेशन इन एनशिएंट इंडिया', I, पृ० 12; सेनार्ट : 'कास्ट इन इंडिया', पृ० 83; एन० के० दत्त : 'ओरिजिन ऐंड ग्रोथ आफ कास्ट इन इंडिया', पृ० 151;52; घुर्ये : 'कास्ट ऐंड क्लास', पृ० 151-2; डी० आर० भंडारकर : 'सम आस्पेक्ट्स आफ एनशिएंट इंडियन कल्चर', पृ० 10.
3. जे० म्यूर : ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्टस', II, पृ० 387. म्यूर का विचार है कि यह बताने के लिए कोई प्रमाण नहीं है कि वे आर्यों से भिन्न थे.
4. ऋग्वेद, II, 12. 4, 'येनेमा विश्वा च्यवना कृतानि, यो दासं वर्णमधरं गुहाकः', अथर्ववेद, XX, 34. 4.
5. ऋग्वेद, V. 34 6, —'यथावशं नयति दासमार्यः'.
6. वही, II. 13.8, —'दासवेशाय चावः'. सायण ने इसकी टीका दासों के विनाश के रूप में की है, किंतु वेदिक इंडेक्स, I, 358, इसे दास का नाम मानता है.
7. ऋग्वेद, II. 11.4; VI. 25.2; और X. 148.2.
8. वही, IV. 28.4.
9. वही, III, 34.9, —हत्वी दस्यून् प्रार्यं वर्णमावत; अथर्ववेद, XX. 11.9 (पैप्पलाद संस्करण में नहीं).
10. I. 103.3; अथर्ववेद, XX. 20.4.
11. ऋग्वेद, I. 51.5-6, 103.4; X. 95.7, 99.7 में दस्युहत्या शब्द आया है. दस्युघ्न ऋग्वेद, X. 47.4 में दस्युहन्तम् शब्द ऋग्वेद, VI. 16.15, VIII. 39.8 में आया है

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

और वाजसनेयि संहिता, XI .34 में उसकी पुनरावृत्ति की गई है. आर्यों और दस्युओं में शत्रुता के कई अन्य प्रसंग आए हैं, यथा, ऋग्वेद, V. 7.10, VII. 5.6 आदि. ऋग्वेद, I. 100.12, VI. 45.24; VIII. 76.11, 77.3 में इंद्र को दस्युहा कहा गया है. इंद्र द्वारा दस्युओं की हत्या के ऐसे ही प्रसंग अथर्ववेद III. 10-12; VI III. 8.5, 7; IX. 2.17 और 18; X. 3.11; XIX. 46.2; XX. 11.6, 21.4, 29.4, 34.10, 37.4, 42.2, 64.3, 78.3 में आए हैं और अग्नि द्वारा दस्युओं की हत्या के प्रसंग अथर्ववेद में I. 7.1; XI. 1.2 में आए हैं. अथर्ववेद IV. 32.3 से मन्यु को दस्युहा कहा गया है.

12. ऋग्वेद, I. 103.3; II. 19.6; IV. 30.20; VI. 20.10, 31.4.
13. वही, I. 33.13, 53.8; VIII. 17.4.
14. वही, IV. 30.13; V. 40.6; X. 69.6.
15. वही, 176.4, अस्मभ्यमस्य वेदनं दद्धि सूरिश्चिदोहते.
16. वही, I. 33.4.
17. वही, VI. 47.21.
18. वही, VIII. 40.6, 'वयं तदस्य सम्भृतं वसु इन्द्रेण विभजेमहि'.
19. वही, I. 33.7-8.
20. वही, III. 53.14, 'किं ते कृण्वन्ति की कटेषु गावो नाशीरं दुहे न तपन्ति धर्मम्'.
21. वही, II. 15.4.
22. ह्वीलर : 'दि इंडस सिविलिजेशन', (सप्लीमेंट वाल्यूम टु केंब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया, I) पृ० 90-91.
23. ऋग्वेद, X, 89.19; अथर्ववेद, 126.19.
24. ऋग्वेद, VII. 6.3.
25. वही, I. 51.8.
26. वही, I. 133.1; V. 2.3; VII. 1.8. 16; X. 27.6; X. 48.7.
27. वही, IV. 16 9.
28. अथर्ववेद, II. 14.5.
29. वही, X. 6.20.
30. वही, XII. 1.37.
31. वही, X. 22.8.
32. पी० वी० काणे : 'दि वर्ड व्रत इन दि ऋग्वेद', जर्नल आफ दि बाम्बे ब्रांच आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी, न्यू सीरीज, XXIX, पृ० 12.
33. ऋग्वेद, I. 51.8-9; I. 101 2; I. 175.3; VI. 14.3; IX. 41.2. किंतु 'अव्रत' शब्द का प्रयोग कहीं भी दास के लिए नहीं किया गया है.
34. वही, VIII. 70.11; X 22.8.
35. वही, V. 42.9; V. 40.6. 'अपव्रत' शब्द का अर्थ 'काला' माना गया है.
36. वही, VII. 5.2-3. गेल्डनर का अनुवाद; बी० बी० लाल : एनशिएंट इंडिया, 9, पृ० 88. राणा घुंडई III में हड़प्पा संस्कृति का अंत भीषण अग्निकांड में हुआ.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

37. ऋग्वेद, IX, 41.1-2. 'घ्नन्तः कृष्णं आप त्वचं···साह्वाम्सो दास्युमव्रतम्'.
38. वही, IX. 73.5.
39. वही, IV. 16.13. किंतु गेल्डनर ने इस संदर्भ में राक्षस का जिक्र नहीं किया है.
40. वही, I. 130.8.
41. ऋग्वेद, VIII, 96.13-15.···'अध द्रप्सो अंशुमत्या उपस्थे धारयतत्न्वम् तित्विषाणः, विशो अदेविर्भ्या चरन्तिर् वृहस्पतिना युजेन्द्रःससाहे'.
42. कोसंबी : जर्नल आफ दि वाम्बे ब्रांच आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी, वम्बई, न्यू सीरीज, XXVII, 43.
43. ऋग्वेद, I. 101.1. 'यः कृष्णगर्भानिरहन्नृजिश्वाना'.
44. वही, II. 20.7. 'सवृत्रहेन्द्रः कृष्णयोनिः पुरन्दर ओदासीरैर्याद्वि'···सायण की टीका. किंतु गेल्डनर का सुझाव है कि दासी में पुरः अंतर्निहित है और कवि गर्भाधान की बात सोचता है.
45. वही, VIII. 19.36-37.
46. वही, V. 29.10. सायण अनास की व्याख्या वाणीविहीन (आस्यरहित) के अर्थ में करते हैं.
47. वही, VII. 99.4.
48. वही, I. 174.2; V. 29.10, 32.8; VII, 6.3, 18.13. चार स्थानों पर नहीं, जैसा कि 'हू वेयर दि शूद्राज', पृ० 71 में है.
49. वही, V. 29.10; VII. 6.3.
50. वही, I. 174.2.
51. यह गिनती विश्वबंधु शास्त्री के वैदिक कोश पर आधारित है.
52. व्हीलर : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 8. व्हीलर की राय है कि असभ्य खानाबदोशों (अर्थात आर्यों) की चढ़ाई के कारण संगठित कृषि बिखर गई, पर अभी तक ऐसे प्रमाण नहीं मिले हैं जिनके आधार पर कहा जाय कि सैंधव शहरी सभ्यता के लोगों और आर्यों के बीच बड़े पैमाने पर जमकर लड़ाई हुई.
53. ऋग्वेद, X. 83.1. 'साह्याम दासमार्यं, त्वयायुजा सहस्कृतेन सहसा सहस्वता', जो अथर्ववेद, IV. 32.1 जैसा ही है.
54. ऋग्वेद, X. 38.3; देखें अथर्ववेद, XX. 36.10.
55. ऋग्वेद, VII. 83.1. 'दासाच वृत्रा हतमार्याणि च सुदासम् इन्द्रावरुणावसावतम्'.
56. वही, VI. 60.6.
57. वही, VI. 33.3; देखें X. 102.3.
58. ऋग्वेद, VIII, 24.27, 'य ऋक्षादंहसो मुचद्योवार्यात् सप्तसिन्धुषु; वधर्दासस्य तुविनृम्ण नीनमः'. गेल्डनर इस परिच्छेद का अर्थ लगाते हैं कि इंद्र ने दासों के अस्त्रों को आर्यों से विमुख कर दिया.
59. ऋग्वेद, VI. 33.3; 60.6; VII. 83.1; VIII. 24.27 (विवादास्पद कंडिका); X. 38.3, 69.6, 83.1, 86.19, 102.3. इनमें से चार निर्देशों को अंबेडकर ने सही रूप में

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उद्धृत किया है. अंबेडकर : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 83-4.

60. वेदिक इंडेक्स, I, 356, दाशराज्ञ के ऊपर देखें पाद टिप्पणी 4.
61. ऋग्वेद, VII. 33.2-5, 83·8. वास्तविक युद्ध स्तुति ऋग्वेद, VII. 18 में है.
62. आर० सी० मजूमदार और ए० डी० पुसलकर : वेदिक एज, पृ० 245. अन्य आर्यों के प्रति वैरभाव के कारण पूरुओं को ऋग्वेद VII. 18.13 में मृध्रवाचः कहा गया है.
63. पी० वी० काणे : पूर्व निर्दिष्ट, (जर्नल आफ दि बाम्बे ब्रांच आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी, बंबई, न्यू सीरीज, XXIX) 11.
64. अथर्ववेद, V. 11.3; पैप्पलाद, VIII. 1.3. 'नमे दासोनार्यो महीत्वा व्रतं मीमाय यदहम् धरिष्ये'.
65. (जर्नल आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी आफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, लंदन, न्यू सीरीज, II पृ० 286-294.)
66. ऋग्वेद, I. 84.8.
67. वही, VI. 44.11.
68. वही, VI. 47.16; (जर्नल आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी आफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, लंदन, न्यू सीरीज, II, पृ० 286-294.)
69. ऋग्वेद, VIII. 51.9. 'यस्यायं विश्व आर्यो दासः शेवाधिपा अरिः' इस अनुच्छेद पर सायण की टिप्पणी वाजसनेयि संहिता, XXXIII के एक ऐसे ही अनुच्छेद पर उवट तथा महीधर की टिप्पणी में दास को 'आर्य' का विशेषण माना गया है, किंतु गेल्डनर (ऋग्वेद, VIII. 51.9) आर्य और दास को दो विभिन्न संज्ञा मानते हैं. हर हालत में यह स्पष्ट है कि आर्यों का भी विरोध होता था.
70. ऋग्वेद, X. 69.6. 'समज्रया पर्वत्या वसूनि दासा वृत्राण्यार्या जिगेथ'.
71. ऋग्वेद, I. 124.10; 182.3; IV. 25.7, 51.3; V. 34.7; VI. 13.3, 53. 6-7.
72. (जर्नल आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी आफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, लंदन, न्यू सीरीज, II, 286-294.)
73. वेदिक इंडेक्स, I, पृ० 471.
74. वही, ऋग्वेद VIII. 66.10.
75. वेदिक इंडेक्स I, 472.
76. वही.
77. गीर्समन, ईरान, पृ० 243.
78. वेदिक इंडेक्स, I, 472.
79. ऋग्वेद, VII, 40.6.
80. वही, III. 34.9.
81. ऋग्वेद, I. 104.2; III. 34.9. 'देवासो मन्युं दासस्य श्चमन्ते न आवक्षन्त्सुविताय वर्णम्'.
82. साइटश्रिफ्ट डेर डोय्चेन मेर्गेनलैंडिशेनगेज़ेलशाफ्ट, बर्लिन, II, 272.
83. जन का उल्लेख लगभग 275 बार और विश् का उल्लेख 170 बार हुआ है.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

84. ई० जे० रैप्सन : दि कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया, I, पृ० 99.
85. लैंटमैन : दि ओरिजिन्स आफ सोशल इनइक्वेलिटीज आफ दि सोशल क्लासेज, पृ० 230.
86. चाइल्ड : दि मोस्ट एनशिएंट ईस्ट, पृ० 175.
87. व्हीलर : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 94.
88. मैके; अर्ली इंडस सिविलिजेशंस, पृ० XII-XIII.
89. लाल : एनशिएंट इंडिया, सं० 9, पृ० 93.
90. ऋग्वेद, II. 27.12.
91. ऋग्वेद, VI. 22.10. 'यया दासान्यार्णि वृत्र करो वज्रिन्त्सुलूका नाहुषाणि'.
92. ऋग्वेद, X. 49.3. 'अहं शूष्णस्य श्नथिता वधर्यमं न यो रर आर्य नाम दस्यवे'.
93. पार्जिटर : एनशिएंट इंडियन हिस्टारिकल ट्रेडीशन, पृ० 306-8.
94. डयुमेजिल : फ्लामेन ब्राह्मण, अध्याय II और III. एक अन्य निर्देश के लिए देखें, पाल थिमे; (साइटश्रिफ्ट डेर डोय्चेन मेर्गेनलैंडिशेनगेजेलशाफ्ट, बर्लिन, एन० एफ०, 27, पृ० 91-129.
95. ई० जे० रैप्सन : पूर्व निर्दिष्ट, I, 103.
96. डब्ल्यू० र्‍यूबेन : इन्द्राज फाइट अगेन्स्ट वृत्र इन दि महाभारत (एस० के० कमेमोरेशन वाल्यूम, पृ० 116-8), धर्मानंद कोसंबी, भगवान बुद्ध, पृ० 24.
97. कोसंबी : (जर्नल आफ दि बाम्बे ब्रांच आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी, बम्बई, न्यू सीरीज, XXII, 35.
98. ऋग्वेद, I, 117-8. किंतु सायण 'श्यावाय को कुष्ठरोगेण श्यामवर्णाय' बताते हैं.
99. वही, VIII. 85.3-4. वही, VIII. 50.10 में भी कण्व का उल्लेख है.
100. वही, I. 116-23; देखें I. 117.7. पार्जिटर मानते हैं कि काण्वायन ही वास्तविक ब्राह्मण है : डायनेस्टीज आफ दि कलि एज, पृ० 35.
101. ऋग्वेद, I. 158.6. अंबेडकर : हू वेयर दि शूद्राज ?, पृ० 77.
102. वेदिक इंडेक्स, I. 366. शतपथ ब्राह्मण, XIV. 9.4.15 में एक ऐसी मां का वर्णन आया है जो काले रंग के बालक की आकांक्षा रखती है जिसे वेद का ज्ञान हो.
103. वेदिक इंडेक्स, I, 363, हिलब्रांट का सुझाव.
104. ऋग्वेद, I. 130.10.
105. कोसंबी : (जर्नल आफ दि बाम्बे ब्रांच आफ एशियाटिक सोसायटी, बम्बई, न्यू सीरीज, XXVI, 44).
106. मोनियर विलियम्स : संस्कृत-इंगलिश डिक्शनरी, देखें दास, दाश.
107. कौषतकि उप०, III. 1. वेदिक इंडेक्स में उद्धृत, II. 30.
108. ऋग्वेद, VIII. 19.36.
109. अथर्ववेद, XII. 3.13; पैप्प०, XVII. 37.3, 'यद्वा दास्यार्द्रहस्ता समंत उलूखलं मुसलम् शुम्भतापः'.
110. वही, XII. 4.9; पप्प० के एक ऐसे ही परिच्छेद XVII. 16.9 में दासी शब्द के स्थान पर देवी लिया गया है.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

111. अथर्ववेद, V. 13.8.
112. ऋग्वेद, I. 92.8, 158.5 गेल्डनर के अनुवाद के अनुसार.
113. वही, X. 62.10.
114. वही, VIII. 56.3.
115. वही, VII. 86.7. हिलब्रांट इसे संदिग्ध मानते हैं. उन्होंने गलत ढंग से VII. 86.3 में 'कदाचित्' जोड़ दिया है, जो होना चाहिए VII. 86.7. 'साइटश्रिफ्ट फ्यूर इंडोलोगिअ उंड ईरोनिस्टिक, लाइपत्सिख्, iii.16.
116. वही, VIII. 56.3. 'शतं में गर्दभानां शतमूर्णावतीनां, शतं दासा अति स्रजः'. 100 रूढ़ संख्या हो सकती है.
117. वही, I. 92.8. 'उषसिआमस्यां यशसंसुवीरं दासप्रवर्गं रयिमश्व बुध्यम्'.
118. वही, I. 158.5-6.
119. वही, X. 62.10. 'उत् दासा परिविषेऽस्मद् दिष्टि गोपरिणसाः यदुस् तुर्वश् च मामहे'.
120. वही, X. 34.4.
121. वही, II. 11.4, IV. 28.4 और VI. 25.2; दत्त : स्टडीज इन हिंदू सोशल पालिटी, पृ० 334, बी० एन० दत्त का विचार है कि ऋग्वेद VI. 25.2 में दासविश् का जो उल्लेख हुआ है, उसका तात्पर्य यह है कि दास को वैश्य कोटि में रखा गया है. किंतु चूंकि उस समय वैश्य समाज के एक वर्ग के रूप में नहीं थे, इसलिए यहां विश् को एक जनजाति विशेष माना जा सकता है.
122. वही, VI, I, 357, पाद टिप्पणी 20, जाति और भाषा की दृष्टि से दहे ईरानियों के बहुत निकट रहे होंगे, किंतु यह बहुत स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं हो पाया है; वही, त्सिम्मर ने हेरोडोट्स के दआई या दाअई, i, 126 को तूरानियन जनजाति का बताया है.
123. शेफर : एथनोग्राफी इन एनशिएंट इंडिया, पृ० 32, कहा गया है कि सामाजिक स्तर पर दास और आर्य का स्थान दस्यु भीलों से ऊपर था.
124. स्टुअर्ट पिगाट : एंटिक्विटी, जिल्द XXIV, सं० 96, 218. लाल : पूर्व निर्दिष्ट दिल्ली, सं० 9, पृ० 90-91, लाल का कथन है कि दूसरी सहस्राब्दी ई० पू० के पूर्वार्ध में शाही टुंप (आधुनिक बलूचिस्तान) में और दूसरी सहस्राब्दी ई० पू० के उत्तरार्ध में फोर्ट मुनरो (अफगानिस्तान) में लोग झुंड के झुंड आए.
125. वैदिक इंडेक्स, II, पृ० 255, पाद टिप्पणी 67 देखें, वर्ण शब्द.
126. आर० सी० मजूमदार और ए० डी० पुसलकर : पूर्व निर्दिष्ट, ऋग्वेदिक जातियों के लिए देखें, पृ० 245-248 और उत्तर वैदिककालीन जातियों के लिए पृ० 252-262.
127. शतपथ ब्राह्मण, I. 1.4.11-12.
128. महाभारत, शांति पर्व, 181.15, 'वर्णश्चत्वार : एते हि येषां ब्राह्मी सरस्वती, विहिता ब्रह्मणा पूर्वा लोभात्वज्ञानतां गतः'.
129. वेबर : इंडिश स्टुडियेन, II, 94 पाद टिप्पणी.
130. आर० एस० शर्मा : (जर्नल आफ दि बिहार रिसर्च सोसायटी, XXXVIII, 434-5; XXXIX, 418-9).
131. ऋग्वेद, I. 70.9; V. 1.10; VIII. 100.9.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

132. ऋग्वेद, VII. 6.5; X. 173.6, बलिहृत (कर देना).
133. वेदिक इंडेक्स, II, 62, त्सिम्मर के विचार.
134. मैक्समूलर : सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, XXXII, 361, ऋग्वेद का अनुवाद, V. 61.8.
135. वेदिक इंडेक्स, II. 331.
136. लैटमैन : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 5-12 में दिए गए उदाहरण. उन्होंने पूर्वीय भारत के नागाओं और कूकियों में वर्गभेद के अभाव का भी उल्लेख किया है (पृ० 11).
137. वायु पुराण, I, VIII. 60; देखें दीघ निकाय, अगञ्ञसुत्त, 'वर्णाश्रमव्यवस्थाश्च न तदासन्नसंकरः, न लिप्सन्ति हि तेऽन्योन्यन्नानुगृह्णन्ति चैव हि'.
138. कार्ल डार्लिंग : ए डिक्शनरी आफ सिलेक्टेड सिनोनिम्स इन दि प्रिंसिपल इंडो-यूरोपियन लैंग्वेजेज, चर्म (चर्मन्) के लिए देखें पृ० 40, बुनाई के लिए पृ० 408, तक्षन् के लिए पृ० 589-90 और वेणीकार के लिए पृ० 621-22; चाइल्ड : दि एरियंस, पृ० 86.
139. चाइल्ड : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 86 और 92.
140. ऋग्वेद, IV. 35.6, 36.5; VI. 32.1.
141. अथर्ववेद, III. 5.6; 'ये धीवानो रथकाराः कर्मारा ये मनीषीणः, उपस्तीन्पर्ण मह्यं त्वम् सर्वानकृण्वभितो जनान्'.

यहां ब्लूमफील्ड के अनुवाद का अनुसरण किया गया है. व्हिटने ने ब्लूमफील्ड जैसा ही अनुवाद प्रस्तुत किया है, किंतु उन्होंने सायण के विचारानुसार उपस्तिन् को प्रजा के अर्थ में लिया है. सायण धीवानः और मनीषिणः को अलग अलग संज्ञा मानते हैं जिनका अर्थ मछुआ और बुद्धिजीवी किया गया है. पैप्प०ग्रंथ में थोड़ा सा पाठभेद है, 'ये तक्षाणो रथकाराः कर्मारा ये मनीषिणः, सर्वांस तान्पर्ण रंधयोपस्तिं कृणु मेदिनम्'. III. 13.7.

142. वेदिक इंडेक्स, I, पृ० 247; संभवतः वह असैनिक और सैनिक, दोनों प्रकार के कार्यों के लिए गांव का प्रधान था.
143. अथर्ववेद, III, 5.7.
144. ऋग्वेद, I. 105.18.
145. वेदिक इंडेक्स, I, पृ० 297.
146. ऋग्वेद, VIII. 5.38.
147. वेदिक इंडेक्स, II. पृ० 265-6.
148. फिक : दि सोशल आर्गेनाइजेशन इन नार्थ ईस्ट इंडिया, पृ० 326-7.
149. पंचविंश ब्राह्मण, V. I. 6-10; वाजसनेयि संहिता, XXXI, 11; तैत्तिरीय आरण्यक, III. 12.5 और 6.
150. महाभारत, XII. 73.4-8.
151. वायु पुराण, I. VIII. 155.9; मार्क० पु०, अध्याय 49; विष्णु पुराण, I, अध्याय VI.
152. वसिष्ठ-धर्मसूत्र, IV. 2; बौधायन धर्मसूत्र, I. 10.19.5-6; देखें आपस्तम्ब धर्मसूत्र, I. 1.1.7; मनु०, I. 31; यजु० III. 126.
153. ऋग्वेद, X. 90-12.
154. व्हिटने : हार्वर्ड ओरिएंटल सिरीज, VII, पृ० CXLI; VIII. 895-898.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

155. अथर्ववेद, XIX. 6.6.
156. ऋग्वेद, IX. 112.3.
157. आल्डेनवर्ग; (त्साइटश्रिफ्ट डेर डोय्चेन में मेर्गेनलैंडिशेनगेजेलशाफ्ट, बर्लिन, li, 286.)
158. अथर्ववेद, XIX. 6.6.
159. वही, XIX. 32.8; पैप्पलाद., XII. 4.8.
160. वही, XIX. 62.1; पैप्पलाद, II, 32.5.
161. हार्वर्ड ओरिएंटल सिरीज, VIII, 1003; अथर्ववेद के अनुवाद पर व्हिटने की टिप्पणी, XIX. 62.1.
162. व्हिटने : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 28.
163. अथर्ववेद, X. 1.3.
164. व्हिटने : पूर्व निर्दिष्ट, VII, पृ० CLV.
165. अथर्ववेद, V. 17.9; पैप्प० IX. 16.7.
166. मैक्रिण्डल : इनवेजन आफ इंडिया, पृ० 293. एरियन सोगदोई (वही, पृ० 157) का उल्लेख करते हैं जो गलत हो सकता है. मैक्रिण्डल : एनशिएंट इंडिया ऐज डिस्क्राइब्ड बाइ टालमी, पृ० 317. फिर टालमी ने स्पष्टतः लिखा है (VI. 20.3) कि सिद्रोई आर्केसिया के मध्य भाग में रहते थे जिनके अंतर्गत पूर्वी अफगानिस्तान का काफी बड़ा हिस्सा पड़ता है और जिसकी पूर्वी सीमा पर सिंधु है.
167. एच० सी० रायचौधरी : पोलिटिकल हिस्ट्री आफ एनशिएंट इंडिया, पृ० 255.
168. ऐतरेय ब्राह्मण, VIII. 21.
169. हार्वर्ड ओरिएंटल सिरीज, VII, पृ० CXLVIII और CLV.
170. अथर्ववेद, IV. 20.4, 8; पैप्प०, VIII. 6.8. 'तयाहं सर्वं पश्यामि यश्च शूद्र उतार्यः'.
171. अथर्ववेद, V. 11.3.
172. ऋग्वेद की टीका, II. 12.4.
173. अथर्ववेद की टीका, IV. 20.4.
174. अथर्ववेद, V. 22.7 और 8.
175. मजूमदार और पुसलकर : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 258-9.
176. महाभारत, VI. 10.66, 46 जहां क्रिटिकल एडिशन आफ महाभारत में अपरान्ताः की जगह अशुद्ध पाठ अपरन्ध्राः है. 'शूद्राभीराथ दरदाः काश्मीरा पशुभिः सह'.
177. अथर्ववेद, V. 22.12, 14.
178. पैप्पलाद, XIII. 1.9.
179. वही, II. 29.8-9. पह्लव और बर्बर का भी उल्लेख हुआ है. वही, II, 29.15.
180. महाभारत, VI. 10.65.
181. वही, VI. 10.66.
182. वही, II. 47.7.
183. वही, II. 47.7 एवं आगे.
184. पी० बनर्जी : (जर्नल आफ दि बिहार रिसर्च सोसायटी, पटना, Xli, 160-1).

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

185. बुधप्रकाश : (जर्नल आफ दि बिहार रिसर्च सोसायटी, पटना, XI, 255, 260-3).
186. वेबर : (साइटश्रिफ्ट डेर डोय्चेन मेर्गेनलैंडिशेन गेज़ेलशाफ्ट, बर्लिन, IV, 301, पाद टिप्पणी 2) रौथ : वही, बर्लिन, I, 84.
187. फिक : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 315; कीथ : कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया, I, 86; लैसेन : इंडिश आल्टरटुम्स्कुंड, II, 174. देखें वेबर इंडिश स्टुडियेन, XVIII, 85-86 और 255. त्सिम्मर टालेमी द्वारा उल्लिखित शूद्रों को ब्राहुई से अभिन्न मानते हैं (अल्ट० लेबेन, पृ० 435), किंतु ऐसे अनुमान का कोई आधार नहीं दीखता : हापकिन्स; रिलिजन्स आफ इंडिया, पृ० 548, पाद टिप्पणी 3; मार्कण्डेय पुराण, अनुवाद, पृ० 313-14, पार्जिटर का मत है कि शूद्र और आभीर परस्पर सम्मिलित और संबद्ध आदिम जाति के थे.
188. महाभारत, VI. 10.45 और 46; 65 और 66; महाभारत के आलोचनात्मक संस्करण VII. 19.7 में शूराभीर पाठ अशुद्ध मालूम पड़ता है. यह शूद्राभीराः होना चाहिए जैसा कि अन्य हस्तलिपियों में पाया जाता है (VII. 19.7 पर पाद टिप्पणी),. पतंजलि आन पाणिनिज ग्रामर, I. 2.72.6; पतंजलि के महाभाष्य में शूद्रों और आभीरों का एक साथ उल्लेख हुआ है.
189. एफ० डी० गुने : भविसयत्तकहा, पृ० 50-51, आभीरोक्ति के प्राचीनतम उदाहरण भरत के नाट्यशास्त्र में मिलते हैं, जो ई० सन् की दूसरी या तीसरी शताब्दी की रचना है. ये स्पष्टतः संस्कृत के बहुत निकट हैं.
190. महाभारत की सूची लगभग उसी रूप में पुराणों में भी आई है, जिसमें शूद्रों को आभीरों, कालतोयकों, अपरांतों, पह्लवों (जिन्हें आलोचनात्मक संस्करण VI. 10.66 में गलत रूप में पल्लव कहा गया है) और अन्य लोगों के साथ एक जाति के रूप में चित्रित किया गया है. मार्कण्डेय पुराण, अध्याय 57. 35-36 और मत्स्य पुराण, अध्याय 113.40. मालूम पड़ता है कि गुप्त काल में शूद्र जनजाति का अपना एक नियत राज्यक्षेत्र था जिसे विष्णु पुराण (IV. 24.18) में सौराष्ट्र, अवंति और अर्बुद राज्यक्षेत्रों के साथ सूचीबद्ध किया गया है. दीक्षितार ने (गुप्त पालिटी, पृ० 3-4 में) सूर के रूप में जो पाठ प्रस्तुत किया है उसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ग्रंथ में शूद्र राज्यक्षेत्र का स्पष्ट उल्लेख है.
191. म्यूर : पूर्व निर्दिष्ट, II, 355-357.
192. महाभारत, II. 29.9 'शूद्राभीरगणाश्चैव ये चाश्रित्य सरस्वतीम्'.
193. महाभारत (कल०), IX. 37.1, 'शूद्रभीरान् प्रति द्वेषाद् यत्र नष्टा सरस्वती'.
194. वैकरनैगेल, इंड्वायरेनिश्चे : जितसुंगबेरिक्टे डेर कोनिग्लिश प्रेसिस्चेन अकैडेमी डर विसेनशाफ्टे, 1918, 410-411.
195. कुद्रोस : लिडेल ऐंड स्काट, ए ग्रीक-इंगलिश लेक्सिकन, I.
196. वेबर : (साइटश्रिफ्ट डेर डोय्चेन् मेर्गेनलैंडिशेनगेज़ेलशाफ्ट, बर्लिन, IV. 301, 1.2); रौथ, वही, बर्लिन, I, 84.
197. स्टुअर्ट पिगाट : पूर्व निर्दिष्ट, IV, सं० 96, 218.
198. टी० बरो : दि संस्कृत लैंग्वेज, पृ० 31.
199. अंबेडकर : पूर्वोद्धृत, पृ० 239.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

200. वही, पृ० 139-42. लैसेन ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट किया कि प्राचीन राजा सुदास् को महाभारत में शूद्र कहा गया है. इंडिश् अाल्टर० I, 969.
201. कोसंबी : (जर्नल आफ दि बाम्बे ब्रांच आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी, वम्बई, न्यू सीरीज, XXIII, 45).
202. अंबेडकर : पूर्वोद्धृत, पृ० 185-90.
203. वही, पृ० 139.
204. महाभारत, XII. 60.38-40.
205. ऐसे ऋषियों, जिनकी मां शूद्र वर्ण के किसी-न-किसी वर्ग की समझी जाती थी, की चर्चा भविष्य पुराण, I. 42.22-26 में की गई है. यह सूची कई अन्य पुराणों और महाभारत पृ० 63 में भी दी गई है.
206. आर० एस० शर्मा : (जर्नल आफ दि बिहार रिसर्च सोसायटी, XXXVIII, 435-7; XXXIX, 416-7).
207. महाभारत, VII. 6.6; देखें 19.7.
208. वेदांत सूत्र, 1.3.34, 'शुगस्य तदनादर श्रवणात् तदाद्रवणतः सूच्यते'.
209. छांदोग्य उपनिषद्, IV. 2.3 में राजा के रूप में वर्णित.
210. शंकर्स कमेंट्री टु वेदांतसूत्र, 1. 3.34.
211. वही, शूद्र अवयवार्थ-सम्भावात् रूढ़ार्थस्य चासम्भवात्.
212. (इंडियन ऐंटीक्वेरी बंबई, li, 137-8).
213. शुचेर् दश्च, II. 19.
214. (इंडियन ऐंटीक्वेरी बंबई, li, 137-8).
215. वायु पुराण, I. VIII. 158. 'शोचन्तश्च द्रवन्तश्च परिचर्यासु ये रताः, निस्तेजसो अल्पवीर्याश्च शूद्रांस्तानब्रवीन्तु सः'. भविष्य पुराण, I. 44.23 एवं आगे में कहा गया है कि शूद्रों को इसलिए शूद्र कहा जाता था कि उन्हें वैदिक ज्ञान का महज उच्छिष्ट प्राप्त होता था : 'ये ते श्रुतेर्द्रुतिं प्राप्ताः शूद्रास्तेनेह कीर्तिताः'.
216. दीघ निकाय, III, 95 'सुद्दा त्वेव अक्खरं उपनिब्बतम्'.
217. देखें शूद्र शब्द, 'महाव्युत्पत्ति'.
218. (इंडियन ऐंटीक्वेरी बंबई, li, 138-9).
219. सूर्यकांत : कीकट, फलिगा और पणि, (एस० के० बेल्वल्कर कमेमोरेशन वाल्यूम, पृ० 44).
220. (इंडियन कल्चर, कलकत्ता, XII, 179), एन० एन० घोष ने गलत कहा है कि आर्य और दास के बीच ऐसा प्रतिबंध ऋग्वेद द्वारा प्रमाणित है.
221. अथर्ववेद, V. 17.8-9.
222. दत्त : ओरिजिन एंड ग्रोथ आफ कास्ट सिस्टम, पृ० 20 और 62.
223 आजकल कई यूरोपीय समाजशास्त्री जैसे लूई दूगों अपवित्रता ही के कारण वर्ण या जातिप्रथा का उदय मानते हैं, पर किस आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति में अपवित्रता की भावना बढ़ी इस पर विचार करने का कष्ट नहीं करते.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

224. गेल्ड : एथनालजी आफ महाभारत, पृ० 89-95; बी० एन० दत्त : स्टडीज इन इंडियन सोशल पालिटी. पृ० 28-30; अंबेडकर : हू वेयर दि शूद्राज ? पृ० 239.

225. वेदिक इंडेक्स, II. 265.

226. लैटमेन : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 38.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

जनजाति से वर्ण की ओर

(लगभग 1000 ई॰ पू॰ से लगभग 600 ई॰ पू॰ तक)

उत्तरवैदिक साहित्य, जो शूद्रों की तत्कालीन स्थिति की जानकारी का एकमात्र साधन है, मुख्यतया जनजीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त कर्मकांड से संबंधित है। इस युग में हर सामाजिक या वैयक्तिक कार्य किसी उपयुक्त धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ा हुआ था, पर इन अनुष्ठानों में बहुधा सामाजिक विभेदों का ध्यान रखा जाता था।

कर्मकांडों का प्रचलन मुख्यतया कुरुपांचाल देश में था जहां उत्तरवैदिक साहित्य का अधिकांश भाग रचा गया था।[1] यह साहित्य सामान्यतया 1000 ई॰ पू॰ से 600 ई॰ पू॰ तक के काल से संबद्ध है। इसमें सामाजिक विकास के विभिन्न चरणों की कल्पना की गई है। कालक्रम के अनुसार सामाजिक विकास का पता उस बात से चलता है कि कौन सा पाठ किस विशेष समय का है। इस प्रकार कृष्ण यजुर्वेद संहिता शुक्ल यजुर्वेद संहिता से प्राचीन है।[2] ब्राह्मण ग्रंथों में शतपथ और ऐतरेय, जो वर्णों के पारस्परिक संबंध का महत्वपूर्ण विवरण प्रस्तुत करते हैं, 'अपेक्षाकृत नवीन' हैं, और पञ्चविंश एवं तैत्तिरीय प्राचीनतम हैं।[3] जैमिनीय ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण और ऐतरेय ब्राह्मण से भी बाद का है,[4] और उसी तरह कौषीतकि या शाङ्खायन ब्राह्मण भी।[5] कुछ मामलों में श्रौतसूत्र और ब्राह्मण ग्रंथों के बीच विभेद करना कठिन है, जैसे बौधायन श्रौतसूत्र बाद का ब्राह्मण ग्रंथ माना जा सकता है।[6] आपस्तम्ब श्रौतसूत्र भी उतना ही पुराना मालूम पड़ता है।[7] इनके अतिरिक्त अन्य प्रमुख श्रौतसूत्र (यथा, आश्वलायन, कात्यायन, शाङ्खायन, लाट्यायन, द्राह्यायन और सत्याषाढ़) आठ सौ ई॰ पू॰ और पांच सौ ई॰ पू॰ के बीच के माने गए हैं,[8] यद्यपि उनमें से अधिकांश छः सौ ई॰ पू॰ के बाद रचे हुए मालूम पड़ते हैं। अभी उपनिषदों की संख्या दो सौ से अधिक हो गई है, किंतु उनमें से केवल छः बुद्ध से पहले के माने जा सकते हैं।[9] उत्तरवैदिक साहित्य के विभिन्न भागों से उपलब्ध सामग्री की जांच करने में अलग अलग ग्रंथों के कतिपय अंशों के पारस्परिक तिथिनिर्धारण का भी ध्यान रखना होगा।[10]

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि ऋग्वेद और अथर्ववेद की अपेक्षा बाद की संहिताओं और खासकर ब्राह्मणों में इच्छासूचक क्रियापद का प्रयोग कहीं अधिक हुआ है।[11] अतएव परवर्ती वैदिक साहित्य में बहुत से संदर्भ वस्तुत: घटित तथ्यों के अभिलेख नहीं हैं, उनसे केवल वैचारिक स्थिति का पता चलता है। लेकिन महाभारत, जो उत्तरवैदिक काल की घटनाओं की कथा है, के विवरणात्मक अंशों से घटनाओं के साक्ष्य यदा कदा प्राप्त हो सकते हैं।[12]

चूंकि वैदिककाल के बाद शूद्रों का वर्णन मुख्यत: अनुचर वर्ग के रूप में हुआ है, इसलिए उत्तरवैदिक काल में उनकी स्थिति का अध्ययन आरंभ करने में उनकी आर्थिक दशा पर ध्यान देना होगा। एक आरंभिक प्रसंग में कहा गया है कि शूद्रों के पास मवेशी होते थे जिन्हें उच्च वर्ण के लोग यज्ञ के लिए पकड़ ले जाते थे।[13] इस तथ्य की पुष्टि पूर्ववर्ती ब्राह्मणग्रंथ के एक अन्य ऐसे प्रसंग से होती है जिसमें बताया गया है कि शूद्र का जन्म उस समाज में हुआ जहां ईश्वर का अस्तित्व नहीं माना जाता था और यज्ञ का आयोजन भी नहीं होता था परंतु उसके पास बहुत से मवेशी रहते थे (बहुपशु:)।[14] संभव है कि यहां उन शूद्रों का उल्लेख है जिन के बीच आर्य धर्म का प्रचार नहीं हुआ था और जिनके पशुधन पर यज्ञ करने वालों की आंख लगी रहती थी।

कुछ ऐसे भी प्रसंग आए हैं जिनमें शूद्रों के अनुचरजन्य कर्मों का उल्लेख है। जैमिनीय ब्राह्मण में कहा गया है कि शूद्र की उत्पत्ति प्रजापति के पांव से हुई है और उसका कोई देवता नहीं है। गृहस्वामी उसके देवता हैं और उनका चरण पखार कर ही उसे अपना जीवननिर्वाह करना है।[15] दूसरे शब्दों में, एक परवर्ती श्रोत के अनुसार उसे उच्च वर्ण के लोगों की सेवा करके अपना निर्वाह करना है।[16] ऊपर जिन दो श्रोतों की चर्चा है उनमें पहले वाले से यह भी सूचना मिलती है कि अश्वमेध यज्ञ के परिणामस्वरूप पोषक वैश्य संपत्तिशाली बनता था और कर्मठ शूद्र दक्ष कर्मकर्ता होता था।[17] संभवत: यहां कर्मकर्ता शब्द का प्रयोग भाड़े के मजदूर के अर्थ में नहीं हुआ है; इस अर्थ में 'कर्मकर' शब्द वैदिकोत्तर साहित्य में प्रयुक्त होता है।[18] उत्तरवैदिककाल में खेती का प्रचार अवश्य हुआ पर इतनी जमीन किसी परिवार के पास नहीं थी जिसके लिए उसे खेतिहर मजदूरों की आवश्यकता पड़े। अतएव शूद्र इस काल में खेत-मजदूर के रूप में नहीं पाए जाते हैं। एक पूर्वकालीन उपनिषद् में शूद्र को 'पूषन' या 'पोषक' कहा गया है,[19] जो ऐसी उपाधि (पोषयिष्णु:) है जिसका प्रयोग जैमिनीय ब्राह्मण में वैश्यों के लिए किया गया है।[20] इससे संकेत मिलता है कि वह जमीन जोतने वाला था,[21] और समाज को पोषाहार प्राप्त कराने के उद्देश्य से उत्पादन कार्य में लगा रहता था। संभवतया अपने परिवार का पोषण वह पशुपालन और खेती से करता था, और इस काल के उत्तरभाग में वैश्यों की तरह वह भी उत्पादन का हिस्सा करों

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

के रूप में चुकाता था।

किंतु यह धारणा कि शूद्र श्रमिक वर्ग के थे, कई अन्य प्रसंगों पर भी आधारित है। पुरुषमेध यज्ञ में ब्राह्मण ब्रह्मत्व को, राजन्य राज्य को, वैश्य मरुत (कृषक-समुदाय) को और शूद्र तप (शारीरिक श्रम) को बलि चढ़ाया जाना चाहिए।[22] यह समझा जाता था कि शूद्र श्रमसाध्य कार्य करने वाले हैं। यज्ञ में बलि दिए जाने वाले लोगों की सूची में चारों वर्णों के पश्चात विभिन्न प्रकार के पेशेवर लोगों का स्थान आता है; यथा, रथनिर्माता, बढ़ई, कुंभकार, लोहार, सर्राफ, चरवाहा, गड़ेरिया, किसान, मद्यनिर्माता, मछुआ और शिकारी। इन्हें वैश्य अथवा शूद्रों की कोटि में रखा जा सकता है। निषाद, किरात, पर्णक, पौलकस और बैंद[23] संभवतया शूद्र समझे जाते थे।[24] इस सूची से पता चलता है कि शिल्पों की संख्या बढ़ गई थी और लोग मानने लगे थे कि विभिन्न प्रकार के शिल्पी और मजदूर शूद्र थे। ऐसा लगता है कि शिल्पी जनजातीय सामाजिक इकाइयों के अभिन्न अंग थे। कुछ शिल्पी राजकीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, और अन्य कृषक समाज का काम चलाते थे।

शूद्र मजदूरों और उनके नियोजकों के बीच किस प्रकार का संबंध था? वेदिक इंडेक्स के लेखकों का कथन है कि 'शूद्र' शब्द से दास का भी बोध होता था।[25] किंतु दासों की संख्या बहुत कम थी। हमें यह भी पता चलता है कि अंग ने विभिन्न देशों से दस हजार दासियों को बंदी बनाया था और उन्हें अपने ब्राह्मण पुरोहित आत्रेय को समर्पित किया था।[26] लगता है कि यह आंकड़ा अतिरंजित और परंपरागत है। श्वेतकेतु का पिता आरुणि को इस बात का गर्व है कि उसके पास स्वर्ण, मवेशी, घोड़े, दासियां, अमले और बंदियां हैं, किंतु वह पुरुष दास की चर्चा नहीं करता।[27] परंपरा से यह बात चली आ रही है कि युधिष्ठिर के विशाल राज्याभिषेक यज्ञ में ब्राह्मणों को दासियां अर्पित की गई थीं।[28] यह यज्ञ संभवतः उत्तरवैदिक काल में हुआ था। इससे स्पष्ट है कि इस काल में शासक वर्ग और पुरोहित बड़े पैमाने पर दासियां रखते थे। यह इसलिए संभव था क्योंकि वैदिक सरदारों की विजययात्रा के कारण स्त्रियों की संख्या घटती जाती थी। युद्ध में विरोधी पक्ष के पुरुष मारे जाते थे और उनकी स्त्रियों को बड़ी संख्या में दासीगत किया जाता था।

'दास' शब्द का उल्लेख ऐतरेय और गोपथ ब्राह्मणों[29] में हुआ है, किंतु गुलाम के अर्थ में नहीं। ध्यान देने की बात यह है कि निघंटु में[30] चाकर का काम करने वालों (परिचरणकर्माणः) की जो सूची दी गई है, उसमें कहीं भी 'दास' शब्द का उल्लेख नहीं है, यद्यपि 'चाकर' शब्द के दस पर्याय दिए गए हैं। संभवतया दासों की संख्या इतनी कम थी कि उस ओर लोगों का ध्यान ही नहीं गया होगा। स्वभावतया शूद्रों के बड़े पैमाने पर गुलाम के रूप में नियोजित किए जाने की

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संभावना नहीं रह जाती। इसलिए कीथ का यह कथन वास्तविक स्थिति का संकेत नहीं देता कि किसान पहले स्वयं अपना खेत जोतते थे, पर ब्राह्मणकाल में उनकी जगह भूस्वामी लोग आ गए जो गुलाम मजदूरों के सहारे अपनी गृहस्थी संभालने लगे।[31] ब्राह्मणकाल में कहीं भी इस प्रकार के भूखंडों के होने का प्रमाण नहीं मिलता है जिनकी खेती लोग अपने घर के सदस्यों की सहायता से न कर पाएं। अतएव उन्हें दासों अथवा कर्मकरों की आवश्यकता नहीं थी। यह स्थिति वैदिकोत्तर काल में उत्पन्न हुई।

खेतों में काम करते हुए गुलामों का सर्वप्रथम प्रसंग श्रौतसूत्रों में आया है जिसकी रचना वैदिककाल के अंत और बाद में हुई थी। इन सूत्रों में से एक से हमें यह जानकारी मिलती है कि अन्न, हल और पशुओं के साथ दो गुलाम भी दिए जाते थे,[32] जिससे प्रतीत होता है कि गुलामों से हल जुतवाया जाता था और उनके मालिक उन्हें खुलेआम बेच सकते थे। किंतु बहुत से परिच्छेदों में जमीन और उस पर काम करने वाले लोगों को उपहार में देने की प्रथा का विरोध किया गया है। इस प्रकार कहा गया है कि अश्वमेध यज्ञ में भूमि और उस पर काम करने वाले लोग यज्ञशुल्क नहीं हो सकते थे (भूमिपुरुषवर्जम्)।[33] बताया गया है कि एकाह (एक दिन वाले) यज्ञ में भी भूमि और शूद्र उपहार में नहीं दिए जा सकते थे (भूमिशूद्रवर्जम्)।[34] यों, वैकल्पिक रूप से कभी कभी शूद्र भी दिए जा सकते थे,[35] हालांकि टीका के अनुसार ये शूद्र जन्मजात गुलाम ही होते थे।[36] शांखायन श्रौतसूत्र से इस आशय के दो प्रसंग उपलब्ध हैं। इनमें से एक में कहा गया है कि पुरुषमेध यज्ञ में भूमि और मनुष्य यज्ञशुल्क के रूप में दिए जाते थे।[37] दूसरा प्रसंग स्पष्ट नहीं है, पर उससे संकेत मिलता है कि सर्वमेध यज्ञ में 'मनुष्य के साथ' भूमि भी दी जाती थी।[38] इन प्रसंगों से वैदिककाल के अंतिम चरण में और बाद में हुए एक नए सामाजिक विकास का आभास मिलता है। शूद्रों से कुछ व्यक्तियों (अधिकतर शासक सरदारों) के खेतों में गुलाम के तौर पर काम कराया जाता था और उन्हें भूमि के साथ उपहार के रूप में भी अर्पित किया जा सकता था, यद्यपि आश्वलायन और कात्यायन श्रौतसूत्र के रचयिताओं को इससे आपत्ति थी।

कहा गया है कि वैदिककाल में शूद्र कृषिदास थे।[39] कृषिदास (कम्मी) शब्द अपने मालिक की भूमि में काम करने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। कृषिदास एक भूखंड का स्वामी होता था जिसके लिए वह अपने मालिक को कर चुकाता था, और उसके खेतों में काम करता था, पर उसे भूमि के साथ ही दूसरे मालिकों के नाम अंतरित किया जा सकता था। शूद्र शब्द का यह जो अर्थ लगाया गया है वह संबद्ध प्रसंगों के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। प्रथमतः, वैदिककाल में भूमि का निजी स्वामित्व बहुत ही सीमित था। स्वामित्व का तात्पर्य है संपत्ति

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

का मुक्त क्रय-विक्रय या हस्तांतरण। किंतु संहिताओं में भूमिदान के दृष्टांत नहीं हैं। छांदोग्य उपनिषद् में एक उदाहरण के अनुसार पूरे गांव को राजा जानश्रुति ने रैक्व को दान दिया था।[40] दो, परवर्ती ब्राह्मण ग्रंथों में एक अन्य दृष्टांत मिलता है।[41] इन दृष्टांतों से हमें पता चलता है कि भूमि का अंतरण कुटुंबों की सहमति से ही किया जा सकता था, किंतु इस पर भी धरती हस्तांतरित होने से इंकार कर सकती है।[42] पूर्वकाल में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता, जिसमें भूमि के साथ शूद्र का भी दान किया गया हो। कुछ श्रौतसूत्रों में ऐसे दृष्टांत मिलते हैं, किंतु ये बाद के हैं और एक टीका के अनुसार ऐसे शूद्रों को जन्मजात गुलाम (गर्भदास) माना गया है,[43] न कि भूसंबद्ध चाकर या कृषिदास।

वैदिक काल में, गुलामी या कृषिदासता की दृष्टि से, शूद्रों की स्थिति सुनिश्चित करना कठिन है। यद्यपि संदर्भों से धारणा बनती है कि मजदूर वर्ग को शूद्र की संज्ञा दी जा रही थी, फिर भी सामान्यतया ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वे किसी खास व्यक्ति के गुलाम या कृषिदास थे। स्पष्ट है कि जिस प्रकार भूमि पर समुदाय का सामान्य नियंत्रण रहता था, उसी प्रकार का नियंत्रण श्रमिक वर्ग पर भी रखा जाता था। इस दृष्टि से शूद्रों की तुलना स्पार्टा के गुलामों से की जा सकती है। अंतर इतना है कि उनके साथ उस हद तक बलप्रयोग नहीं किया जाता था और न उन्हें उस तरह तिरस्कृत ही किया जाता था।

यद्यपि परवर्ती वैदिक काल में 'विश्' का शिल्पी वर्ग शूद्र की स्थिति में पहुंच गया था, फिर भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता जिससे सिद्ध हो सके कि वे जिन शिल्पों या कृषिकर्मों से लगे हुए थे उनसे लोग घृणा करते थे। जहां तक कृषि का संबंध है, लोगों के मन में निश्चित भावना थी कि इस कार्य में सहायता दी जाए और इसमें संलग्न रहने वालों को प्रोत्साहन तथा सम्मान मिले। इसके लिए वे कई प्रकार के घरेलू कर्मकांड और तंत्र-मंत्र करते थे।[44] जहां तक शिल्प का प्रश्न है, चमड़े के काम के प्रति भी घृणा के प्रमाण नहीं मिलते।[45] इससे यह आभास मिलता है कि कोई भी कार्य अपने स्वरूप के कारण अपवित्र नहीं माना जाता था और यही धारणा बाद में भी चलती रही। श्रौतसूत्र में एक विशेष प्रकार का अनुष्ठान शिल्प कहलाता है, जिसका अर्थ हस्तकौशल भी है।[46] परवर्ती वैदिक काल में शारीरिक श्रम के प्रति घृणा का अभाव था। इसकी तुलना ग्रीस में हुए समानांतर विकास से की जा सकती है, जहां हेसियोद से लेकर सुकरात तक (800 ई० पू० के लगभग से 400 ई० पू० के लगभग तक) जनभावना शारीरिक श्रम के पक्ष में थी।[47] परवर्ती वैदिक काल में शारीरिक श्रम के प्रति निष्ठा संभवतः पुराने सीधे-सादे समाज से चली आ रही थी, जिसमें राजा भी खेत जोतने के काम में हाथ बंटाता था।[48] राजा जनक के हल चलाने की कथा प्रसिद्ध है।

उस काल के राजनैतिक जीवन में भी शूद्रों की भूमिका उनकी स्थिति के

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

अनुकूल महत्वपूर्ण ही जान पड़ती है। भारतीय आर्यों की राज्यव्यवस्था की निर्माणावस्था में उन्हें राजकाज में हाथ बंटाने का पर्याप्त अवसर मिला। ध्यान देने की बात यह है कि उन्हें राज्य के लगभग एक दर्जन उच्च कर्मचारियों के उन्नत निकाय में स्थान प्राप्त था,[49] जिन्हें रत्निन् (रत्नाधिकारी) कहा गया है। इसकी तुलना बारह व्यक्तियों के उस पर्षद से की जा सकती है जो प्राचीन सैक्सन, फ्रिजियन, केल्ट्स आदि जैसे कई भारोपीय जातियों की अति प्राचीन संस्था थी।[50] रत्निनों का चढ़ावा अर्पित करने का समारोह संपन्न करने के लिए राजा को इनके घर जाना पड़ता था। रत्निनों की सूची से पता चलता है कि उनमें सभी वर्णों के लोग रहते थे।[51] इनमें से दो रत्निन् रथकार और तक्षन्, जिनकी चर्चा विभिन्न ग्रंथों में हुई है,[52] शूद्र वर्ण के शिल्पी वर्ग के थे। इनके घरों पर होने वाले समारोहों में सभी प्रकार के धातु यज्ञशुल्क के रूप में विहित किए गए हैं,[53] जिससे पता चलता है कि वे अपने धातु संबंधी कार्य और व्यवसाय के कारण महत्वपूर्ण थे। पहले ही बताया जा चुका है कि अथर्ववेद में वर्णित एक राजा ने किस तरह कर्मार और रथकार की सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था। किंतु वर्तमान सूची में कर्मार का स्थान तक्षन् ने ले लिया है जो रथकार के साथ ही धातुकर्म और बैलगाड़ी के निर्माण संबंधी सभी कार्यों के प्रभारी रहे होंगे और जिनके बिना सुदूरपूर्व में आर्यों का विस्तार और उनकी बस्तियों की स्थापना नहीं हो पाती। किंतु शतपथ ब्राह्मण में इन दोनों रत्निनों का कोई उल्लेख नहीं है और उनके बदले गोविकर्तन (शिकारी) और पालागल (संवादवाहक) का उल्लेख हुआ है।[54] इन दोनों को भी शूद्र समझने के कारण मौजूद हैं। रत्न आदि अर्पित करने के समारोह के पश्चात राजा प्रायश्चित करता था, क्योंकि उसे यज्ञ के अनधिकारी शूद्रों को यज्ञ के संपर्क में लाने का दोषी समझा जाता था।[55] सायण ने तो सेनानी को भी शूद्र रत्निन् माना है, लेकिन उसकी यह स्थापना कपोल कल्पित लगती है।[56] अधिक संभावना यही है कि यज्ञ के अनधिकारी शूद्रों का जो उल्लेख आया है, वह केवल पालागल और गोविकर्तन पर ही लागू है। पालागल शूद्र था, यह निष्कर्ष इस तथ्य से निकाला जा सकता है कि पालागला को शूद्र के रूप में संबोधित किया गया है।[57] एक अन्य स्थान में पालागल शब्द मिथ्या दूत (अनृत-दूत) के रूप में परिभाषित किया गया है।[58] यहां पालागल की जो विशेषता बताई गई है, वह आगे चलकर सर्वथा शूद्र के बारे में लागू होती है।[59] गोविकर्तन जिसका वर्णन शतपथ के अतिरिक्त कई अन्य सूचियों में भी रत्निन् के रूप में किया गया है,[60] सायण द्वारा नीच जाति (हीन जाति) का बताया गया है।[61] संभवतया वह आखेटरक्षक और वन का प्रभारी था, जो शूद्र रहा होगा। कीथ क्षतृ को, जो रत्निन् था, मूर्तिकार मानता है,[62] जिसका आशय यह हुआ कि वह भी शूद्र था। किंतु यह संदेहास्पद लगता है, क्योंकि महाकाव्य में क्षतृ का अर्थ

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

प्रतिहार किया गया है,[63] और यह समझने का कोई विशेष कारण नहीं कि ब्राह्मणों में इसका प्रयोग भिन्न अर्थ में किया गया है। रत्निनों में तक्षन् को अधिक अधिकार के साथ मूर्तिकार कहा जा सकता है। इससे यह स्पष्ट है कि कुछ मामलों में शिल्पियों और कुछ में पशुपालकों तथा संदेशवाहकों (जो शूद्र वर्ण के थे) का इतना महत्व था कि राजसूय यज्ञ के अवसर पर राजा उनकी खोज करते थे।

किंतु शूद्र रत्निनों की स्थिति पर और भी प्रकाश डालना आवश्यक है। प्रथमतः, उन्हें वर्ण नाम से निर्दिष्ट नहीं किया गया है जैसे ब्राह्मण, राजन्य और वैश्य रत्निनों को किया गया है।[64] फिर, जहां तक प्रभाव, कृतित्व और प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, शूद्र रत्निनों के विरुद्ध पलड़ा भारी रहा होगा और राजनीतिक अनुष्ठानों में उनकी उपस्थिति कालांतर में मात्र एक औपचारिकता बनकर रह गई होगी। अलग अलग सूचियों में शूद्र रत्निनों की संख्या दो या तीन बताई गई है।[65] किसी भी बात से यह पता नहीं चलता कि उनकी उपस्थिति से संपूर्ण शूद्र वर्ण का प्रतिनिधित्व हो जाता था, किंतु इतनी बात तो अवश्य थी कि इस समुदाय के कुछ लोगों को राज्यव्यवस्था में स्थान मिल गया था।

जायसवाल ने रत्नार्पण समारोह (रंतहवींषि) को महान संवैधानिक परिवर्तन माना है, क्योंकि शूद्र की 'जो विजित गुलाम थे, राजा बनने वाला व्यक्ति पूजा करता था।'[66] इसका अर्थ यह हुआ कि विजित आर्यपूर्व जनों को आर्यों की राज्यव्यवस्था में जानबूझ कर ऊंचा दर्जा दिया गया था। किंतु आर्यों के राजनीतिक संगठन में कम से कम दो शूद्र रत्निन्, रथकार और तक्षन् का स्थान विजितों को जानबूझ कर उच्च स्थान देने की नीति के कारण नहीं था बल्कि उसका आधार तो यह था कि वे दोनों ऐसी आर्य जनजातियों के मूल सदस्य थे जो उस समय तक वर्गों में बिखर गई थीं। अथर्ववेद में रथकार और कर्मार (जिसका स्थान अब तक्षन् ने ले लिया है) को स्पष्टतः राजा के इर्द-गिर्द रहने वाले विश् के रूप में चित्रित किया गया है।[67] धातुकर्म और रथनिर्माण में उनकी नैपुण्यजन्य अपरिहार्यता के कारण भी प्राचीन समाज में उनका महत्व बढ़ गया होगा। इतना ही नहीं, यह भी असंभव नहीं कि इन शूद्र रत्निनों के कारण शूद्र वर्ण के अन्य वर्गों को भी परोक्ष रूप से महत्व मिल गया होगा।

उस समय के राजनीतिक जीवन में शूद्रों के सहयोग का तथ्य पासे के खेल से भी स्पष्ट है जो राजसूय यज्ञ में एक तरह के धार्मिक कृत्य के रूप में विहित है। हमें इसके बारे में दो तरह के पाठ मिलते हैं। पूर्ववर्ती पाठ में, जो कृष्ण यजुर्वेद में उपलब्ध है, बताया गया है कि ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य और शूद्र गाय को दाव पर रखकर पासा खेलते थे और उसमें राजा जीतता था।[68] परवर्ती पाठ में, जो शुक्ल यजुर्वेद में आया है, गाय के लिए होनेवाली प्रतियोगिता में से वैश्य और शूद्र को हटा दिया गया है। इस जुए के खेल में राजा का संबंधी (सजात) गाय

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

को दाव पर रखता है और कार्यकारी पुरोहित (अध्वर्यु) उसे राजा के लिए जीतता है।[69] जान पड़ता है कि गाय का यह जूआ मूलतः जनजातीय प्रथा थी, जिसका आयोजन नेता की विचक्षणता और वाक्चातुरी जांचने के लिए किया जाता था। अतः जनजातियों की समेकता और समरूपता की पुरानी परंपरा के ही कारण पासे के खेल में सभी वर्णों को भाग लेने दिया जाता था। किंतु कालांतर में इस प्रथा का स्वरूप बदल गया और वैश्य तथा शूद्र को इस खेल से बहिष्कृत कर दिया गया। इतना ही नहीं, यह महत्व की बात है कि पूर्वकाल में शूद्र भी एक प्रतियोगी के रूप में इस खेल में भाग ले सकता था, जो राजा के औपचारिक अभिषेक की प्रारंभिक क्रियाओं में से एक क्रिया थी।

राजसूय यज्ञ के एक अन्य समारोह में भी हमें शूद्र की चर्चा मिलती है, जिसमें यजमान प्रथमतः ब्राह्मण को स्वर्ण प्रदान करता है और उससे दीप्ति खरीदता है, तब राजन्य को तीन तीर के साथ धनुष देकर कांति खरीदता है। तत्पश्चात वैश्य को अंकुश देता है और उससे पुष्टि प्राप्त करता है और अंततः शूद्र को माषपात्र देता है जिससे दीर्घ आयु खरीदता है।[70] यहां वर्णभेद का चित्रण किया गया है। इससे पता चलता है कि वैश्य पशुपालन में लगे थे और शूद्र कृषिकर्म में। फिर भी उन्हें राजा के संपर्क में लाया गया है और यह माना गया है कि वे राजा को दीर्घ आयु प्रदान करने में सक्षम हैं।

संभवतया, शूद्र राजसूय यज्ञ के एक और समारोह से संबद्ध हैं, जिसमें नवाभिषिक्त राजा को आकाश की चारों दिशाओं में आरोहण करने को कहा जाता है और पूर्व दिशा में ब्रह्म से, दक्षिण में क्षत्र से, पश्चिम में विश् से तथा उत्तर में फल, वर्चस् और पुष्टम् से निवेदन किया जाता है कि वे राजा की रक्षा करें।[71] जायसवाल का कथन है कि फल स्पष्टतया शूद्र का पर्यायवाची है।[72] घोषाल इसे स्वीकार नहीं करते और वे इस समारोह को वैदिक राज्यव्यवस्था में तीन उच्च जातियों के प्रभाव का प्रतीक मानते हैं।[73] यह भी सुझाव दिया गया है कि फल शिल्पी वर्ग का द्योतक है।[74] हमारी राय है कि वैदिक साहित्य में[75] फल शब्द का प्रयोग उसके शाब्दिक अर्थ में किया गया है न कि उसके पश्चातवर्ती गौण अर्थ परिणाम के रूप में। अतः हो सकता है कि वह शूद्र के उत्पादन कार्यों से संबंधित रहा हो। किंतु वर्चस् (जिसका अर्थ है कांति) के बारे में भी ऐसा ही नहीं कहा जा सकता। जहां तक पुष्टम् शब्द का संबंध है, वह सामान्यतया वैश्यों से संबद्ध है, किंतु एक परिच्छेद में शूद्र को पूषण (पोषक) भी कहा गया है।[76] अतः यह सुझाव दिया जा सकता है कि फलम् और पुष्टम् शब्द शूद्र के उत्पादन कार्यों का संकेत देते हैं और शूद्र से यह अनुरोध किया जाता है कि वह उत्तर दिशा में राजा की रक्षा करे।

हमें ज्ञात है कि युधिष्ठिर के महान राजसूय यज्ञ में संभ्रांत शूद्रों को आमंत्रित

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

किया गया था।[77] ऐसा विरोधात्मक वक्तव्य कि उस अवसर पर यज्ञ का अनधिकारी एक भी शूद्र उपस्थित नहीं था,[78] संभवतया उस प्रयास का परिचायक है जो शूद्रों को राजनीतिक सत्ता से बहिष्कृत करने के लिए किया गया था। जो भी हो, इतना तो स्पष्ट है कि कम-से-कम शूद्र वर्ण के कुछ लोग राज्याभिषेकों में भाग लेते थे।

शुक्ल और कृष्ण दोनों यजु: संहिताओं में पाए जाने वाले एक मंत्र के अनुसार[79] राजसूय यज्ञ के अवसर पर 'विश्' के बीच प्रतिष्ठापित राजा[80] अर्य और शूद्र के प्रति किए गए पाप के प्रायश्चित के लिए सूर्य से प्रार्थना करता है। पाणिनि[81] को आधार मानकर, टीकाकार उवट और महीधर ने 'अर्य' शब्द की व्याख्या वैश्य के रूप में की हैं।[82] इससे स्पष्ट है कि राजा भी दो निम्न वर्णों को सताने के लिए स्वच्छंद नहीं था। यह स्थिति ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित स्थिति से बिल्कुल भिन्न है,[83] जहां राजा के इच्छानुसार वैश्य को सताया और शूद्र को पीटा जा सकता है।

माना गया है कि अश्वमेध यज्ञ करने से याजक को सर्वोच्च सत्ता प्राप्त होती है और कहा गया है कि शूद्र विश्वविजय के अभियान पर भेजे गए अश्व के साथ अस्त्र-शस्त्र लेकर रक्षक के रूप में जाता था।[84] शूद्र अस्त्र चला सकता था, यह निष्कर्ष एक प्राचीन परिच्छेद से भी निकाला जा सकता है, जिसमें लिखा गया है कि राजा के सहयोग से राजा, वैश्य के सहयोग से वैश्य, और शूद्र के सहयोग से शूद्र मारा जाता है।[85] महाभारत में दम्भोद्भव नाम के राजा की कथा है। वह प्रतिदिन क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ग के सशस्त्र सैनिकों को ललकार कर कहता था कि वे युद्ध करने में उसके समान बहादुर बनें।[86] युद्ध में भाग लेने वाले विभिन्न नेताओं और लोगों की गणना करते हुए इस महाकाव्य में बताया गया है कि चारों वर्ण युद्ध में भाग लेते थे और इससे उन्हें ख्याति, आनंद और मर्यादा की प्राप्ति होती थी।[87] शूद्र भी सैनिक के रूप में कार्य करते थे, यह तथ्य भी प्राचीन जनजातीय राज्यव्यवस्था के प्रभाव का परिचायक है। उस राज्यव्यवस्था में भी हर व्यक्ति शस्त्र ग्रहण कर सकता था।

यह भी ध्यान देने की बात है कि आयोगव, जिसे टीकाकारों ने वैश्य महिला से उत्पन्न शूद्रपुत्र बताया है, अश्वमेध यज्ञ में जागरूक कुत्ते जैसा काम करता है।[88] प्राय: यह उस प्रथा की ओर संकेत करता है जिसमें आदिम जाति के लोगों को प्रहरी के रूप में बहाल किया जाता था। शतपथ ब्राह्मण में एक आयोगव राजा मरुत आविक्षित का अद्वितीय विवरण मिलता है। वह अश्वमेध यज्ञ करता है और मरुत उसके अंगरक्षक, अग्नि उसके प्रतिहार और विश्वदेव उसके सभासद के रूप में कार्य करते हैं।[89] यह दृष्टांत शूद्र राजा का नहीं मालूम पड़ता; यह संभवतया ब्राह्मणप्रधान राज्यव्यवस्था में ब्राह्मणेतर शासक को समाविष्ट करने

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

का दृष्टांत है। आयोगव शब्द की परिभाषा धर्मसूत्रों के पहले नहीं मिलती और यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि मरुत आविक्षित हीन जाति का राजा था।

अश्वमेध यज्ञ में ऐसी व्यवस्था थी कि रथकार का घर यज्ञ के अश्व और उसके रक्षकों का विश्रामस्थान होगा।[90] इससे प्रकट होता है कि परवर्ती काल के अश्वमेध यज्ञ में भी रथकार को राजनीतिक महत्व प्राप्त था।

अश्वमेध यज्ञ का आयोजन चारों वर्णों को जीतने के उद्देश्य से किया जाता था, जिससे मालूम पड़ता है कि शासक आवश्यक समझता था कि समाज के सभी वर्गों की निष्ठा उसे प्राप्त हो।[91] एक अन्य परिच्छेद से भी ऐसी ही धारणा बनती है। इसके अनुसार राजसूय यज्ञ के अवसर पर पुरोहित राजा को दीप्ति, शक्ति, संतति और सुदृढ़ स्थिति की प्राप्ति में सफलता प्रदान कराता है। ये गुण क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में पाए जाते हैं।[92] इसी आशय का एक परिच्छेद तैत्तिरीय संहिता में मिलता है।[93] इसके अनुसार राजन्य को अग्न्याधानमन्त्र तीन बार पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उसे योद्धा की निष्ठा के अतिरिक्त तीन अन्य वर्णों, यथा, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र की आज्ञाकारिता भी प्राप्त करनी होती है। इन बातों से पता चलता है कि इस युग में परवर्ती ग्रंथों की तरह, शूद्रों की आज्ञाकारिता स्वयंसिद्ध ही थी। जैमिनीय ब्राह्मण के एक अनुच्छेद से भी स्पष्ट है कि राजा के लिए यह अनिवार्य था कि वह उनका भी समर्थन प्राप्त करे। इस ग्रंथ से हम जान पाते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ने क्रमशः गायत्री, त्रिष्टुभ्, जगती और अनुष्टुभ् छंदों के जरिए पांचालनरेश दर्भ शातानीकि का सम्मान किया था।[94]

सभी यजुः संहिताओं में एक महत्वपूर्ण परिच्छेद आया है, जिसमें अग्नि से प्रार्थना की गई है कि वह पुरोहितों, योद्धाओं, वैश्यों और शूद्रों को प्रभा प्रदान करे।[95] वाजसनेयि संहिता में यह परिच्छेद वसोर्धारा कर्म की विधि के प्रसंग में आया है, जिसमें अग्नि को राजा के रूप में अभिषिक्त किया जाता है। इस अवसर पर कार्यकारी पुरोहित (अध्वर्यु) इस आशय का मंत्रपाठ करता है कि याजक को सभी आधिभौतिक और आधिदैविक वर मिलें। यह स्पष्ट तो नहीं है किंतु इसे असंभव नहीं कहा जा सकता कि यह कर्म राजा के लिए विहित है, जो अग्नि से प्रार्थना करता है कि वह उसकी सभी वर्णों की प्रजा को, जिसमें शूद्र भी सम्मिलित है, दीप्ति प्रदान करें।

राजनीतिक ढंग के धर्मकर्म में शूद्रों का सहयोग किस प्रकार का और किस हद तक हो इसमें कोई एकरूपता नहीं थी। कुछ मामलों में समारोह की गौण बातों में वर्ण के अनुसार अंतर पड़ता था। स्वभावतया शूद्र को निम्नतम स्थान प्राप्त था। अन्य मामलों में शूद्र सहित सभी वर्ण समारोह में उसी प्रकार भाग

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

लेते थे और समान आशीष की आशा रख सकते थे। जो भी हो, धर्मशास्त्रों के नियमों से तुलना करने पर यह ध्यातव्य है कि उत्तरवैदिककाल में तीनों उच्च वर्णों के साथ शूद्रों को भी राजनीतिक सत्ता में कुछ हिस्सा मिल सका था।

किंतु इसका एक दूसरा पहलू भी है। इस काल में पहले ही यह प्रवृत्ति चल पड़ी थी कि शूद्रों को सामुदायिक जीवन में भाग लेने से बहिष्कृत किया जाए। इसीलिए अन्य तीन उच्च वर्ण के लोगों की भांति शूद्र राजसूय यज्ञ के अवसर पर अभिषेचन कर्म में भाग नहीं ले सकता था।[96] जायसवाल का मत है कि जन्य या जन्यमित्र, जिसे राजा को अभिषिक्त करने वाला चौथा व्यक्ति बताया गया है, बैरी जनजाति के सदस्य के रूप में शूद्र है[97], किंतु इस तरह का अर्थ प्रमाणहीन प्रतीत होता है। इस शब्द का वास्तविक अर्थ चाहे जो कुछ भी हो,[98] इतना तो स्पष्ट है कि उपलब्ध साहित्य में कहीं भी इस शब्द का शूद्र से कोई संबंध नहीं है। यह भी कहा गया है कि राजसूय यज्ञ के अवसर पर तीनों उच्च वर्ण के लोग राजा से ईश्वर की पूजा के लिए स्थान मांगें।[99] इसमें शूद्रों को छोड़ देना इस सिद्धांत का स्वाभाविक परिणाम है कि शूद्र देवपूजक नहीं थे, फिर भी यह राजनीतिक जीवन में उसके महत्व के घटते जाने का संकेत है।

शतपथ ब्राह्मण में कुछ ऐसे कर्मों का विधान है जो विश् (समुदाय) पर क्षत्र (शासन प्रमुख) का नियंत्रण स्थापित करते हैं।[100] यहां शूद्र का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि प्रायः यह निश्चित मान लिया गया है कि उस पर राजा का नियंत्रण था। एक दूसरे अनुच्छेद से भी ऐसा ही विचार व्यक्त होता है। इसके अनुसार ब्रह्म और क्षत्र विश् में सुस्थापित थे,[101] किंतु यहां भी शूद्र की चर्चा नहीं हुई है।

वाजपेय यज्ञ राजा की शक्ति बढ़ाने वाला यज्ञ था और उसमें शूद्र को भाग लेने की अनुमति नहीं थी। एक ग्रंथ के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इस यज्ञ में भाग ले सकते थे,[102] किंतु दूसरे ग्रंथों में वैश्यों को भी इस अधिकार से वंचित कर दिया गया है।[103]

तैत्तिरीय ब्राह्मण में एक छोटे समारोह के प्रसंग में संकेत मिलता है कि शूद्र को नागरिक की हैसियत प्राप्त नहीं थी। अमावस और पूर्णमासी को होने वाले दशपूर्णमास यज्ञ की विधिविशेष की व्याख्या करते हुए यह तर्क दिया गया है कि शूद्र अपने स्वामी के सामने उनकी आज्ञा लेकर ही कुछ कर सकता है, और जो कोई आज्ञा के बिना कुछ कर नहीं सकता, उसके साथ शूद्रवत व्यवहार किया जाए।[104] इससे पता चलता है कि शूद्र से यह उम्मीद की जाती थी कि वह अपने स्वामी के विरुद्ध नहीं बोलेगा। शूद्र पूर्णतया गुलाम समझा जाता था।

उत्तरवैदिककाल की राज्यव्यवस्था में जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, वह है वैश्य और शूद्र से विभेद करते हुए ब्राह्मण और क्षत्रियों को विशेष स्थान प्राप्त

कराने की प्रवृत्ति। घोषाल ने अनेक दृष्टांत देकर बताया है कि दो प्रभावशाली शक्तियों के रूप में ब्रह्म और क्षत्र का समाज में कितना महत्व था, उनमें परस्पर कितना विरोध था तथा उनकी राजनीतिक मित्रता कितनी गहरी थी।[105] संहिताओं[106] और ब्राह्मण ग्रंथों[107] में दो उच्च वर्णों की रक्षा के लिए प्रार्थनाओं का उल्लेख है। यदि इन निर्देशों का सूक्ष्म विवेचन किया जाए तो दो परिणाम निकल सकते हैं। प्रथमतः, उनमें से अधिकांश का उल्लेख परवर्ती साहित्य, खासकर शतपथ ब्राह्मण में ही हुआ है। दूसरा यह कि पूर्वकालीन ग्रंथों में जहां साधारणतया दोनों उच्च वर्णों के आपस में मिलेजुले रहने का संकेत मिलता है, वहां बाद के ग्रंथ वैश्य और शूद्र को अलग रखने का स्पष्ट संकेत देते हैं। शतपथ ब्राह्मण में साफ साफ बताया गया है कि वैश्य और शूद्र ब्राह्मणों और क्षत्रियों से घिरे हुए हैं।[108] वही ग्रंथ यह भी प्रमाणित करता है कि जो लोग न तो क्षत्रिय हैं और न ब्राह्मण वे अपूर्ण हैं।[109] पहले ही ध्यान आकृष्ट किया जा चुका है कि बाद में राजसूय यज्ञ के जो वृतांत आए हैं उनमें वैश्य और शूद्र को पांसा के खेल से छांट दिया गया है।[110] उसी राज्याभिषेक यज्ञ के संबंध में ऐतरेय ब्राह्मण का मत है कि ब्राह्मण को तो 'क्षत्र' से पहले स्थान मिलता है, किंतु वैश्य और शूद्र उसके बाद ही आते हैं।[111] अतः मालूम पड़ता है कि वैश्य को शूद्र के बराबर मानने और उसे जनजीवन में स्थान न देने की धारणा पूर्वकालीन ग्रंथों में तो परोक्ष थी, किंतु बाद के ग्रंथों में पूर्णतया स्पष्ट और प्रत्यक्ष हो गई।

उत्तरवैदिककाल के समाज में शूद्र के कार्य की समीक्षा ऐतरेय ब्राह्मण के एक ऐसे अनुच्छेद[112] की परीक्षा करके समाप्त की जा सकती है जिसके आधार पर कहा जाता है कि वेदकालीन राज्यव्यवस्था में शूद्र का स्थान सर्वथा गुलाम जैसा था। इस महत्वपूर्ण परिच्छेद के प्रसंग और तात्पर्य का विश्लेषण करने से मालूम होता है कि इस तरह का विचार न्यायोचित नहीं है। कहा जाता है कि विश्वंतर सौषद्मन नामक एक राजा ने पुरोहित कुल श्यापर्ण के बिना ही यज्ञ किया और उन पुरोहितों को यज्ञवेदी से उठा दिया। उनकी ओर से बोलते हुए उनके विद्वान नेता राम मार्गवेय ने पुरोहितों के निष्कासन का इस आधार पर विरोध किया कि उसे इस बात की जानकारी है कि राजसूय यज्ञ के अवसर पर सोमरस के बदले राजा को क्या खाना चाहिए।[113] प्रसंगाधीन परिच्छेद में उसके शब्दों में कहा गया है कि राजा द्वारा विभिन्न प्रकार के आहार ग्रहण करने के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं और इस सिलसिले में यह भी बतलाया है कि क्षत्रिय राजा का अन्य तीन वर्णों के साथ कैसा संबंध था। कहा जाता है कि यदि राजा सोम का पान करे जो ब्राह्मण का आहार है तो उसके वंशज ब्राह्मण होंगे और उनमें ब्राह्मण के सभी लक्षण रहेंगे। वे प्रतिग्रह लेंगे, सोमपायी होंगे, आजीविका की खोज करने वाले होंगे और इच्छानुसार कहीं भी भेजे जाने योग्य (यथाकामप्रयाप्य) होंगे।[114] यदि

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

राजा दही खाए जो वैश्य का आहार है तो उसका वंशज वैश्य होगा और उसमें वैश्य के सभी लक्षण होंगे। वह करदाता होगा, दूसरे का भोज्य होगा और इच्छानुसार सताया जा सकेगा। किंतु यहां हमारा विशेष प्रयोजन उन विशेषणों से है जिनसे शूद्र की स्थिति का पता चलता है। यह भी कहा गया है कि यदि राजा पानी पिए, जो शूद्र का आहार है तो वह शूद्र का पक्ष करेगा और उसकी संतान में शूद्र के सभी लक्षण रहेंगे।[115] वह (i) अन्यस्य प्रेष्यः, (ii) कामोत्थाप्यः और (iii) यथाकामवध्यः होगा। कीथ ने प्रथम विशेषण का अनुवाद किया है 'दूसरे का सेवक' जो सही है। किंतु अन्य दो विशेषणों का उसने जो अनुवाद किया है वह सही नहीं कहा जा सकता। उसने दूसरे विशेषण 'कामोत्थाप्यः' का अनुवाद किया है, ऐसा व्यक्ति जिसे 'इच्छानुसार हटाया जा सके'[116] और हेग ने उसका अनुवाद किया है, ऐसा व्यक्ति जिसे स्वामी के इच्छानुसार 'निकाल बाहर किया जा सके।'[117] इस आधार पर कहा जाता है कि शूद्र की स्थिति उस रैयत के समान थी जिसे उसका मालिक किसी भी समय अपनी भूमि से निष्कासित कर सकता था।[118] किंतु सायण ने इस शब्द की टीका करते हुए बताया है कि शूद्र को दिन या रात में किसी भी समय मालिक के इच्छानुसार काम करने के लिए उठाया जा सकता है।[119] उसने जो अर्थ किया है वह बहुत कुछ संभव प्रतीत होता है, क्योंकि 'उत्थापन' का सीधा-सादा अर्थ होता है जगाना। प्राचीन संस्कृत में निकाल बाहर करने के लिए 'निर्वासन'[120] या 'निष्कासन' शब्द का प्रयोग हुआ है। तीसरे विशेषण 'यथाकामवध्यः' का अनुवाद कीथ ने यह किया है कि 'मालिक के इच्छानुसार उसका वध किया जा सकता है।'[121] किंतु सायण ने इसका अर्थ किया है कि 'यदि शूद्र अपने मालिक की मर्जी के विरुद्ध कोई काम करे तो उसका मालिक क्रुद्ध होकर उसे पीट सकता है।'[122] सायण द्वारा किए गए अर्थ की 'निरुक्त' से भी पुष्टि होती है, जिसमें तीन जगह तो वध का अर्थ 'जान से मार डालना' किया गया है,[123] पर पांच जगह इसका प्रयोग 'चोट पहुंचाने या घायल करने' के अर्थ में हुआ है।[124] अतः हेग ने तीसरे विशेषण का जो अर्थ किया है, 'मनमाने ढंग से पीटा जाने योग्य' वह सही है।[125]

बिना विचारे ही लोगों ने इस गलत मत को मान लिया कि ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार मालिक अपनी मर्जी से शूद्र की जान ले सकता है।[126] इसका निष्कर्ष यह निकाला गया कि वैदिककाल में उसका वैरदेय नहीं था; अर्थात उसकी जान लेने के बदले हर्जाना नहीं देना पड़ता था।[127] स्पष्ट है कि ऐसा विचार 'यथाकामवध्यः' शब्द के संदिग्ध अर्थान्वयन पर आश्रित है। इतना ही नहीं, यद्यपि 'वैर' या 'वैरदेय' के लिए प्रायः एक सौ गायें निर्धारित की गई थीं,[128] फिर भी न तो ऐसा कोई प्रसंग मिलता है जिससे पता चले कि वर्ण के अनुसार इस राशि में अंतर किया जाता था और न यही प्रमाण दिखाई पड़ता है कि किसी खास वर्ण

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

को इस अधिकार से वंचित रखा जाता था। मानव वध (वैर हत्या) के पाप से मुक्त होने के लिए यज्ञ के रूप में प्रायश्चित करने की व्यवस्था भी थी,[129] किंतु इसे भी वर्णमूलक विभेदों से मुक्त रखा गया है। अतः यह स्पष्ट है कि उत्तरवैदिक-कालीन समाज में वर्णगत अंतर इतना प्रबल और व्यापक नहीं था, जितना कि धर्मसूत्रों के काल में हुआ, जब सामाजिक भेदभाव इतना गहरा हो गया कि शूद्र को न्यूनतम वैरदेय, अर्थात दस गाय मात्र पाने का ही अधिकार रह गया।

ऐतरेय ब्राह्मण के इस परिच्छेद को पुनः देखें तो शूद्र के लिए प्रयुक्त दोनों विशेषणों के जो अर्थ बताए गए हैं, वे संभव प्रतीत होंगे। पूरे वैदिक साहित्य में इस परिच्छेद के समान दूसरा प्रसंग नहीं है, जिसमें यह कहा गया हो कि शूद्र को उसका मालिक अपने इच्छानुसार घर से निकाल बाहर कर सकता है और चाहे तो उसे कत्ल भी कर सकता है।

ऊपर बताए गए दोनों विशेषणों के विभिन्न अर्थ वास्तविक स्थिति के द्योतक हैं या नहीं यह सुनिश्चित कर पाना कठिन है। इसका कारण यह है कि ऐतरेय ब्राह्मण का सातवां भाग, जिसमें प्रसंगाधीन परिच्छेद आया है, बाद का भाग है।[130] कोई आश्चर्य नहीं कि किसी निष्कासित पुरोहित ने राजा का कृपापात्र बनने की दृष्टि से विभिन्न वर्णों पर लागू कुछ विशेषणों का प्रयोग किया हो। यह कम महत्व की बात नहीं कि ब्राह्मण को भी इच्छानुसार निर्वासन योग्य बताया गया है। ऐसी दशा में अन्य वर्णों की स्थिति का अनुमान तो सहज ही लगाया जा सकता है।

किंतु सारे विचारविमर्श के बाद भी परवर्ती वैदिककालीन राज्यव्यवस्था में शूद्रों की हीन स्थिति से इंकार नहीं किया जा सकता। हमारा उद्देश्य है उसकी यथासंभव सुनिश्चित परिभाषा प्रस्तुत करना। यह पूर्णतया स्पष्ट है कि यद्यपि शूद्र अश्वमेध और राजसूय जैसे दो महत्वपूर्ण राजनीतिक ढंग के यज्ञों के कतिपय समारोहों से सहबद्ध था, फिर भी, संभवतया वैदिककाल के अंत तक, राजनीतिक जीवन से संबंधित कर्मों से उसे अलग रखने की निश्चित प्रवृत्ति पनप चुकी थी। कुछ दृष्टांतों में वैश्य को भी शूद्र की स्थिति में रख दिया गया और उसे पुराने अधिकारों से वंचित कर दिया गया।

कर्मकांडी साहित्य से भी शूद्रों की सामाजिक स्थिति की कुछ जानकारी मिल सकती है। यजुर्वेद के एक परिच्छेद में कहा गया है कि वैश्य और शूद्र की सृष्टि एक साथ हुई थी।[131] यह पुरुषसूक्त की उक्ति के प्रतिकूल है, जिसमें वैश्य की सृष्टि शूद्र से पहले बताई गई है जिसके परिणामस्वरूप शूद्र को समाज में सबसे हीन स्थान मिला। किंतु वैश्य और शूद्र को एक ही सामाजिक कोटि में रखने की प्रवृत्ति कुछ कर्मकांडों में लक्षित होती है क्योंकि वे बताते हैं कि वैश्य शूद्र महिला का तथा शूद्र वैश्य महिला का पति बन सकता है।[132] व्यंग्यपूर्ण भाषा में कहा गया

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

है कि शूद्र महिला का अर्य पति अपनी उन्नति की बात नहीं सोचता, क्योंकि ऐसे विवाह से उसे चिरकाल तक दरिद्र बना रहना ही है।[133] टीकाकारों ने अर्य शब्द का अर्थ वैश्य किया है,[134] जिससे वैश्य और शूद्र महिला के बीच विवाह का प्रमाण मिलता है, किंतु वेदिक इंडेक्स के लेखक इन प्रसंगों को आर्य और शूद्र के अवैध संबंध का दृष्टांत मानते हैं।[135] अधिकांश मामलों में पाठ अर्य है, अतः टीकाकारों ने जो अर्थ लगाया है वह सही मालूम पड़ता है। जे० इगलिंग ने भी शतपथ ब्राह्मण के अनुवाद में अर्य पाठ को ही ग्रहण किया है,[136] और इसका रूपांतर वैश्य के रूप में किया है। किंतु यह भी संभव है कि मूल पाठ में ही, नई परिस्थितियों के अनुकूल, उस वक्त कुछ परिवर्तन कर दिए गए होंगे जब उच्च वर्ण और शूद्र के बीच विवाह संबंध को बुरा समझा जाने लगा होगा। इस उपधारणा के आधार पर कहा जा सकता है कि आर्य, और शूद्र अथवा बाद में शूद्र वर्ण में शामिल किए गए लोगों के बीच निर्बाध रूप से विवाह संबंध स्थापित हो सकते थे। बाद में इस तरह का संबंध दो निम्न वर्णों तक ही सिमट कर रह गया।

ब्राह्मण ग्रंथों से पता चलता है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों निम्न वर्णों के साथ—जिनमें शुद्र भी आ जाते हैं—अंतर्जातीय विवाह कर सकते थे, जैसा कि वत्स और कवष के दृष्टांत से स्पष्ट है।[137] वत्स को उसका भाई मेधातिथि शूद्र-पुत्र कहता था, जिससे प्रकट होता है कि प्रायः इस शब्द का प्रयोग अपमानजनक शब्द के रूप में नहीं होता था।[138] कहा जाता है कि वत्स ने आग पर निरापद चलकर अपना ब्राह्मणत्व प्रमाणित किया और इस प्रकार इस कलंक को मिटाया। यह बताता है कि किसी व्यक्ति की सामाजिक मर्यादा उसके वंश से नहीं बल्कि उसकी योग्यता से निर्धारित होती थी।[139] कवष ऐलूष का जन्म दासी से हुआ था, और यह दृष्टांत संदिग्ध मालूम पड़ता है। सायण का विचार है कि उसके लिए 'दास्याः पुत्रः' का प्रयोग अपशब्द के रूप में हुआ है।[140] यदि हम ऋषि दीर्घतमस् की मां उशिज के बारे में बृहद्देवता[141] में दिए गए विवरण को अंगीकार करें तो पंचविंश ब्राह्मण[142] में हमें इस दासी कन्या उशिज के विधिसम्मत विवाह का दृष्टांत मिलेगा। पौराणिक अनुश्रुतियों से विदित होता है कि काक्षीवत्, जो ब्रह्मवादिन् था, दीर्घतमस् का पुत्र था और उसका जन्म राजा बलि की शूद्र दासी से हुआ था।[143] पुराण में उसे शूद्रयोनि का कहा गया है।[144] ऐतरेय ब्राह्मण के लेखक महीदास के बारे में बताया गया है कि वह शूद्र था।[145] इस तथ्य के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं मिलता जब तक कि उसके उपाधिनाम 'ऐतरेय' का अर्थ यह न किया जाए कि वह 'इतरा' का पुत्र था,[146] जिसका अर्थ होता है भ्रष्ट, नीच या बहिष्कृत। किंतु यह बहुत खींचतान कर लगाया गया अर्थ मालूम पड़ता है। एक परवर्ती ब्राह्मण ग्रंथ में सुदक्षिण क्षैमि नामक ऋषि और पुरोहित को शूद्र कहकर संबोधित किया गया है,[147] किंतु उसके मां-बाप का कोई विवरण नहीं दिया

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

गया है। मात्र इतना कहा गया है कि वह क्षेम का वंशज था और प्रायः इसके संबंध में यह विशेषण अपशब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है। भविष्य पुराण में लगभग एक दर्जन ऐसे ऋषियों के नाम गिनाए गए हैं जिनकी मां शूद्र वर्ण की किसी न किसी शाखा की थी।[148] मामूली हेरफेर के साथ यह सूची कई अन्य पुराणों और महाभारत में भी आई है।[149] इससे पता चलता है कि व्यास का जन्म मछुआइन से, पराशर का श्वपाक महिला से, कपिंजलाद का चंडाल महिला से, वसिष्ठ का गणिका से और मुनिश्रेष्ठ मदनपाल का मल्लाहिन से हुआ था। इस तरह की सूची के औचित्य के विषय में ग्रंथ के अंत में कहा गया है कि ऋषियों, नदियों, धर्मात्माओं, महात्माओं और स्त्रियों की दुश्चरित्रता का उदगम नहीं जाना जा सकता।[150] इन ऋषियों की कालानुक्रमिक स्थिति या उनके वास्तविक जीवनकाल के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, किंतु यह सूची प्रमाणित करती है कि परवर्ती वैदिक काल में यह प्रथा थी कि ऋषि और पुरोहित शूद्रकन्या या दासी से विवाह करते थे। ऐसा जान पड़ता है कि राजा और प्रमुख भी शूद्र महिलाओं से विवाह करते थे। पालागली, जो राजा की चौथी पत्नी थी और जिसका आदर सबसे कम होता था, शूद्र महिला थी।[151]

ऊपर के दृष्टांत बताते हैं कि शूद्र महिला से उच्च वर्ण के लोगों के विवाह को बुरा नहीं माना जाता था।[152] संभवतया आरंभ में वेदकालीन भारतीय और आदिवासी अपनी अपनी जनजातियों में ही विवाह संबंध रचाते थे।[153] जब जनजातियां छिन्न-भिन्न हो गईं और उनके सदस्य चार वर्णों में बंट गए तब भी पुरानी प्रथा कुछ दिनों तक चलती रही। किंतु परवर्ती वैदिककाल में वर्ण का भेदभाव इतना प्रबल हो गया कि निम्न वर्गों के पुरुष और उच्च वर्गों की स्त्रियों के विवाह की अनुमति नहीं दी जाती थी। यह धारणा भी चल पड़ी थी कि शूद्र महिलाएं उच्च वर्णों के लोगों के लिए सुखभोग की वस्तु हैं। अतः अपेक्षाकृत बाद के ब्राह्मण ग्रंथों में अनुष्टुभ् छंद की तुलना शूद्र वेश्या से की गई है जो समान रूप से सुगम्य हैं।[154]

इस अवधि में हमें चंडाल के प्रति घृणा के भाव भी दिखाई पड़ते हैं। कहा गया है कि जिनका आचरण अच्छा होगा उनका पुनर्जन्म ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य के रूप में होगा, किंतु जिनका आचरण कुत्सित होगा वे कुत्ते, सूअर या चंडाल के घृणित गर्भ में उद्भूत होंगे।[155] ध्यान देने की बात है कि शूद्र वर्ण में जन्म लेना चंडाल की तरह अपवित्र (कपूयाम्) नहीं माना जाता था, पर ऐसा प्रतीत होता है कि इसे लोग अवांछनीय जरूर मानते थे। यह भी मालूम पड़ता है कि चंडाल जो आदिम जाति के थे[156] निंदनीय आचरण वाले समझे जाने लगे थे। किंतु इस काल के आरंभिक ग्रंथों में चंडाल को पुरुषमेध यज्ञ की बलि समझा गया है,[157] जिससे उसके अस्पृश्य होने का संकेत नहीं मिलता है। परंतु पौलकस

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

को लोग घृणा की दृष्टि से देखते थे।[158]

जिस काल की हम यहां समीक्षा कर रहे हैं, उसके सामाजिक आचारशास्त्र के अनुसार शूद्रों में कुछ दुर्गुणों का आरोप किया गया था। हम देखते हैं कि आंगिरस गोत्रीय शुनःशेप ने अपने पिता अजीगर्त्त की निंदा करते हुए उसे शूद्र कहा, क्योंकि पिता ने पुत्र को तीन सौ गाएं लेकर वरुण यज्ञ के निमित्त पदार्थ के रूप में बेच दिया था।[159] यद्यपि देव ने पुत्र को मुक्त कर दिया और पिता ने अपना कलंक मिटाने के उद्देश्य से उसे सौ गाएं भी दीं, फिर भी शुनःशेप ने कटु शब्दों में उसकी भर्त्सना की। उसने कहा, 'तुम अभी भी शूद्रसुलभ नृशंसा से मुक्त नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे अपराध का कोई समाधान नहीं···।'[160] इससे पता चलता है कि अजीगर्त्त की तरह शूद्र भी भूखे रहने पर अपने बच्चों को बेचने के लिए तैयार रहते थे। ऐसा समझा जाता था कि धन प्राप्ति के लिए वे अपने कुटुंब के प्रति पाशविक और निर्दयतापूर्ण आचरण कर सकते थे।

यह भी ज्ञातव्य है कि जब विश्वामित्र ने शुनःशेप को अपना दत्तक पुत्र बनाया और अपने सौ बेटों में उसे प्रथम स्थान दिया तथा उसे ज्येष्ठाधिकार भी प्रदान किया, तब उनके पचास ज्येष्ठ पुत्रों ने इस स्थिति को स्वीकार करने से इंकार कर दिया। पिता को इस पर क्रोध आया और उन्होंने इन पुत्रों को शाप दिया कि उनके वंशज अंध्र, पुंड्र, शबर, पुलिंद, मुतिब, दस्यु और अंतस् (जाति-च्युत) की तरह हीनजाति के होंगे।[161] आर्येतर लोगों को ब्राह्मणकालीन समाज की निम्न कोटि में रखने के उद्देश्य से पुरोहितों ने जिस पटुता से उनकी वंशावली खोज निकाली है, उसका यह वृतांत प्रारंभिक उदाहरण है। लेकिन इससे यह भी स्पष्ट है कि अवज्ञा और विरोध करने वाले पुत्रों को दस्यु और अंतस् माना जाता था। सायण ने इस अनुच्छेद की टीका में चंडाल और निम्न कोटि की अन्य जातियों को भी सम्मिलित कर लिया है, किंतु मूल ग्रंथ में इसका उल्लेख नहीं है।[162]

वाजसनेयि संहिता में एक अनुपूरक सूत्र आया है जिसका प्रयोग अनेक सामयिक और घरेलू यज्ञों में किया जाता है। इस सूत्र में सभी वर्णों के साथ 'कल्याणीवाक्' के उपयोग की इच्छा व्यक्त की गई है।[163] इस आधार पर यह कहा गया है कि सभी वर्णों को वेद के अध्ययन का अधिकार था।[164] किंतु 'कल्याणीवाक्' शब्द वेद के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। टीकाकारों ने ठीक ही इसे मधुर और शिष्ट वचन माना है[165] इससे ध्वनित होता है कि सभी वर्णों से बातचीत के क्रम में मैत्रीपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। किंतु शतपथ ब्राह्मण में स्थिति भिन्न मालूम पड़ती है, क्योंकि एक समारोह विशेष के बारे में जो अनुदेश दिए गए हैं, उनमें विभिन्न वर्णों के लिए विभिन्न संबोधनों का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार क्रमशः ब्राह्मण, राजन्यबंधु, वैश्य और शूद्र वर्णों के 'हविष्कृत' को बुलाने के लिए एहि, आगहि, आद्रव और आधाव शब्दों का प्रयोग

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

किया गया है।[166] उत्तरवैदिककाल के सामाजिक संसर्ग में इस तरह के भेदभाव बहुधा दिखाई पड़ते हैं।

वैदिककाल के अंत में जीवन के जो चार आश्रम बने उनमें आगे चलकर, केवल गार्हस्थ्य ही शूद्रों के लिए विहित किया गया। किंतु इस काल में ऐसे विभेद का कोई उल्लेख नहीं मिलता। छांदोग्योपनिषद् में चार आश्रमों का उल्लेख है, लेकिन वर्णों के साथ उनके संबंध का कोई निर्देश नहीं मिलता।[167] इस तरह, अब हमारे सामने शूद्रों की शिक्षा का प्रश्न आ खड़ा होता है, क्योंकि बाद के ग्रंथ बताते हैं कि ब्रह्मचर्याश्रम में उनका प्रवेश नहीं हो सकता था, जो उपनयन संस्कार से आरंभ होता है। उपनयन का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में हुआ है जहां दिखाया गया है कि गुरु युवक को नए जीवन में प्रवेश कराते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वह गुरु के ही उदर से उत्पन्न हुआ है।[168] नवजीवन में प्रवेश करने वाला ब्रह्मचारिन् कहलाता था, किंतु वह किस वर्ण का होता था इसका कोई संकेत नहीं मिलता। अरुणि ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को उपदेश दिया था कि उसे ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए, जिसके आधार पर यह अनुमान किया गया है कि बहुत दिनों तक उपनयन केवल पुरोहितों और विद्वानों के परिवार तक ही सीमित था। बाद में सारे ब्राह्मण समुदाय में इसका प्रचार हुआ और फिर वहां से पूरे आर्य समुदाय में।[169] यदि उपनयन को गुरुकुल प्रवेश का प्रारंभिक बिंदु माना जाए तो यह सत्य सिद्ध होगा, क्योंकि प्राचीन समाज में शिक्षा साधारणतया पुरोहितों के हाथ में थी। ब्रह्मचारिन् सामान्यतया ब्राह्मण होता था, यह बात विभिन्न श्रोतों से प्रमाणित होती है[170] किंतु यदि उपनयन की तुलना उस संस्कार से की जा सकती है जो जनजाति के किसी पूर्ण वयस्क सदस्य के नए जीवन में विधिवत प्रवेश करने के समय होता है तो यह सही नहीं लगता। ऐसा अर्थ उस अनुश्रुति के आधार पर लगाया जा सकता है कि देवता, मनुष्य और दानव ब्रह्मचर्य की अवधि अपने पिता प्रजापति के संरक्षण में बिताते थे, जो उनके शिक्षक थे।[171] इसका यह तात्पर्य नहीं कि आदिकालीन लोगों में पढ़ाई का व्यापक प्रचलन था। इससे केवल इतना संकेत मिलता है कि वैदिककालीन भारतीयों या आर्यपूर्व समुदायों के बीच एक सर्वमान्य प्रथा प्रचलित थी कि वयस्क जीवन में प्रवेश करने के पहले कुछ रीतियां निभाई जाएं। यह ऐसा तथ्य है जिसकी आदिम जातियों में प्रचलित इसी प्रकार की प्रथा से पुष्टि होती है। गुरुकुल में इस तरह से प्रवेश करने की प्रथा का प्रसार व्रात्यों में भी हुआ जिन्हें ब्रह्मचर्य धारण कराकर आर्यों के समाज में प्रविष्ट कराया जाता था।[172]

प्राचीन ईरानियों में भी उपनयन जैसा प्रवेश संस्कार प्रचलित था। पंद्रह वर्ष की अवस्था में ईरानी पुरुष और स्त्री को पवित्र सूत्र धारण कराकर दीक्षित कराया जाता था, और इस प्रकार अहुर मज्द के संप्रदाय में उनका प्रवेश होता

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

था।[173] इसकी चर्चा करते हुए गाइगर ने कहा है कि यह एक पुरानी प्रथा थी जिसमें आगे चलकर हेरफेर और सुधार किए गए।[174] यह बात सर्वविदित है कि सामुदायिक जीवन में प्रवेश कराने की प्रथा स्पार्टनों में प्रचलित थी।[175] अतः ऐसा माना जा सकता है कि वैदिककालीन भारतीयों में भी यह प्रथा प्रचलित थी। इस तरह शुरू में संभवतया, विघटित आर्य जनजातियों के शूद्रजन भी उसी ढंग से उपनयन और ब्रह्मचर्य संस्कार संपन्न करने के अधिकारी थे जिस प्रकार कई अन्य धार्मिक कृत्य। संहिताओं और ब्राह्मणों में ऐसे प्रसंग नहीं हैं जिनसे यह संकेत मिलता हो कि शूद्रों के लिए उपनयन संस्कार वर्जित था।

छांदोग्य उपनिषद् से हमें पता चलता है कि जानश्रुति, जिसे रैक्व ने प्राण और वायु का ज्ञान कराया था, शूद्र था।[176] किंतु अन्यत्र उसे पश्चिम-उत्तर के निवासी महावृष लोगों के प्रधान के रूप में चित्रित किया गया है।[177] उसे या तो उस क्षेत्र में रहने वाली शूद्र जाति के साथ संपर्क के कारण, अथवा इसलिए कि ब्राह्मण समाज के बाहर के लोगों के लिए यह अपमानजनक शब्द प्रयुक्त होता था, शूद्र कहा गया है।[178]

जानश्रुति शूद्र नहीं भी हो, किंतु ऐसे संकेत मिलते हैं जिनसे प्रकट होता है कि शूद्र को किसी खास ढंग के ज्ञानार्जन से बिल्कुल वंचित नहीं रखा जाता था। तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है कि वैश्य ऋग्वेद से, क्षत्रिय यजुर्वेद से और ब्राह्मण सामवेद से उत्पन्न हुए थे।[179] इसका स्पष्ट अर्थ होता है कि अथर्ववेद शूद्रों के लिए था। आपस्तम्ब धर्मसूत्र में भी परोक्ष रूप से यह बात दुहराई गई है। तात्पर्य यह कि शूद्रों के लिए परंपरानिष्ठ वैदिक ज्ञान का अर्जन वर्जित था, न कि अन्य प्रकार के अध्ययन। शतपथ ब्राह्मण के कई अनुच्छेदों से भी यह धारणा बनती है। इन अनुच्छेदों में कहा गया है कि संपेरा, सूदखोर, मछुआ, बहेलिया, सेलंग, निषाद, असुर और गंधर्व को पुरोहित शिक्षा देते थे, जिनमें से अधिकांश शूद्र वर्ण के थे।[180] वे इतिहास, अथर्ववेद, सर्पविद्या और देवजन विद्या सिखाते थे।[181] छात्रों और अध्ययन के विषयों की सूची से मालूम पड़ता है कि प्राचीनकाल में ब्राह्मण कला और शिल्प से विमुख नहीं थे, पर बाद में इस प्रकार के सारे धंधे शूद्र वर्ण को दिए गए कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आ गए। किंतु यह स्पष्ट नहीं कि ऐसी शिक्षा के साथ शूद्रों को साहित्य भी पढ़ाया जाता था या नहीं।

वैदिककाल के अंत में यह धारणा चल पड़ी कि शूद्र को उपनयन और परिणामतया अध्ययन से वंचित रखा जाए। इस तरह का आभास छांदोग्य उपनिषद के एक परिच्छेद से मिलता है, जिसमें एक सुविख्यात छात्र दावा करता है कि उसने ब्राह्मण, राजन् और वैश्य की गरिमा बढ़ाई है।[182] किंतु एक अन्य स्थल पर छात्र चाहता है कि वह सारे वर्णों के लोगों का, शूद्रों का भी, प्रियपात्र बने।[183] परवर्ती काल के एक श्रौतसूत्र में शूद्रों के बहिष्कार का प्रथम स्पष्ट

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उल्लेख मिलता है। इसमें तीन उच्च वर्णों के उपनयन संस्कार के लिए उपयुक्त ऋतुओं का उल्लेख हुआ है।[184] इसमें स्पष्ट बताया गया है कि उपनयन, वेदाध्ययन, और अग्निस्थापन केवल उन्हीं लोगों के लिए फलदायक हो सकते हैं, जो शूद्र नहीं हैं और कुकर्मों में नहीं फंसे हैं।[185] एक अन्य ग्रंथ में बताया गया है कि 'उपनीत' छात्र को शूद्र से बातचीत नहीं करनी चाहिए।[186] यह भी विहित किया गया है कि शूद्रों को चाहिए कि जिन स्नातकों ने अपनी पाठचर्या पूरी कर ली हो, मधुपर्क समारोह में वे उनके पैर धोएं।[187] यह कहना कठिन है कि दो श्रौतसूत्रों से लिए गए उपर्युक्त प्रसंग परवर्ती वैदिककाल की स्थितियों का संकेत देते हैं। उन्हें उस काल के अंत का बताया जाता है और संभव है कि वे वैदिककाल के पश्चात के हों भी, क्योंकि प्राचीन गृह्यसूत्र जो प्राचीन श्रौतसूत्र का समकालीन ग्रंथ है, बताता है कि रथकार को उपनयन का अधिकार प्राप्त था।[188]

तो यह मालूम पड़ता है कि आरंभ में पूरी जनजाति के लोग उपनयन करते थे, किंतु जैसे जैसे जनजाति वर्गों में बिखरती गई वैसे वैसे यह परमाधिकार और सम्मान का विषय बनता गया, जिसे संपन्न करने के लिए संपत्ति और उच्च सामाजिक हैसियत की आवश्यकता थी। उपनयन के आधार पर ही विशिष्ट, लगभग गुप्त वर्गों में, लोगों का प्रवेश हो पाता था।[189] जिस प्रकार ईरान में, हूइति वर्ग को यह अधिकार नहीं मिला था,[190] उसी प्रकार भारत में शूद्र वर्ण को इससे वंचित रखा गया था। सेनार्ट का ख्याल है कि जनजातियों के बीच जनजाति के भीतर और अपने अपने गोत्र के बाहर विवाह करने की प्रथा प्रचलित थी। इस प्रथा के कारण बाद में जातिविभेद आया। उनके इस विचार के आधार पर कहा जा सकता है कि सामुदायिक जीवन में दीक्षित कराने की प्रथा भी जनजातीय अवस्था की अवशेष थी। इसने बाद में तीन उच्च वर्णों में उपनयन का रूप लिया, जिसके फलस्वरूप समाज में शूद्र को हीन स्थान प्राप्त हुआ।

यद्यपि उपनयन संस्कार से वंचित हो जाने से शूद्र शिक्षा से भी वंचित हो गए, फिर भी अभी हम जिस कालावधि पर विचार कर रहे हैं उसमें इसका प्रभाव संभवतया बहुत नहीं पड़ा। उत्तर वैदिककाल में शिक्षा का स्वरूप कैसा था यह स्पष्ट नहीं, और कोई प्रत्यक्ष प्रमाण भी उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर कहा जा सके कि उस समय लोग साक्षर थे।[191] संभव है कि क्षत्रिय और वैश्य भी 'वेद के प्रति अपने कर्तव्य का निष्पादन अगर करते भी थे तो महज औपचारिक ढंग से।'[192] बाद के एक ग्रंथ में बताया गया है कि साधारण तया छात्र मनोयोगपूर्वक वेद का अध्ययन नहीं करते थे, वे केवल दिखाना चाहते थे कि उन्होंने वेद का अध्ययन किया है।[193] उस समय शिक्षा मुख्यतया ब्राह्मणों का विषय थी। किंतु उपनयन का महत्व शिक्षा के अधिकार के अलावा कुछ और भी था। जो लोग उपनयन संस्कार के अधिकारी थे, समाज में उनका स्थान ऊंचा था।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

शूद्र को इस आधार पर उपनयन संस्कार की अनुमति नहीं थी कि यह वैदिक संस्कार है। किंतु वैदिककाल के धार्मिक जीवन से मालूम होता है कि शूद्र को हमेशा वैदिक संस्कारों से वंचित नहीं रखा गया था। कई ग्रंथों में यज्ञ के लिए, रथकार द्वारा अग्निस्थापन का उल्लेख हुआ है,[194] जिसे वह वर्षा ऋतु में संपन्न कर सकता था।[195] सूची में उसका स्थान चौथा है; ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के बाद। आश्वलायन श्रौतसूत्र में रथकार के स्थान में 'उपक्रुष्ट' शब्द प्रयुक्त हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ है कोई निंदित व्यक्ति, किंतु टीकाकारों ने इसका अर्थ लगाया है बढ़ई (तक्षक)।[196] इससे पता चलता है कि यद्यपि बढ़ई की निंदा की जाती थी, फिर भी उसे यज्ञ में आने दिया जाता था। इस कोटि के एक अन्य व्यक्ति, निषादों के सरदार (निषाद स्थपति) को भी वैदिक यज्ञ का अधिकार प्राप्त था।[197] किंतु उसका यज्ञ रुद्र पशुपति की प्रजा द्वारा पशुओं के शमन के लिए किया जाता था।[198] एक अन्य स्थल पर ऐसे ही एक संदर्भ में केवल निषाद की चर्चा हुई है।[199] किंतु टीकाकार का कथन है कि यह निषाद प्रमुख (स्थपति) का निर्देश करता है और उसका यह भी कहना है कि आपस्तम्ब श्रौत-सूत्र में वह त्रैवर्णिक (प्रथम तीन वर्णों का) है।[200] महाभारत में भी कहा गया है कि निषादाधिपति ने यज्ञ संपन्न किया।[201] ऋग्वेद के एक परिच्छेद में 'पंचजना:' (पांच व्यक्ति) के यज्ञ में भाग लेने का प्रसंग आया है।[202] निरुक्त के अनुसार पंचजना: शब्द का अर्थ है चार वर्ण और निषाद।[203] ऐसा ऋग्वेदकाल के बारे में नहीं कहा जा सकता जैसा कि कभी कभी किया जाता है।[204] ऋग्वेद में न तो निषाद शब्द आया है, और न उस वक्त चार वर्णों की ही समुचित स्थापना हो सकी थी। स्पष्ट है कि 'पंचजना:' शब्द से उन पांच ऋग्वैदिक जातियों का बोध होता है जिनके सदस्य बिना किसी भेदभाव के आहुति चढ़ाते थे। किंतु यास्क ने जो अर्थ किया है उससे मालूम पड़ता है कि उनके समय में शूद्र और निषाद (जिन्हें धर्मसूत्र में ब्राह्मण और शूद्र स्त्री से उत्पन्न वर्णसंकर माना गया है) यज्ञ में भाग ले सकते थे। अत: इन प्रसंगों से सिद्ध है कि निषादों को कभी कभी और निषाद प्रमुख को साधारणतया वैदिक यज्ञ का अधिकार मिला था। यह बताया गया है कि विश्वजित् यज्ञ में याजक को तीन रात तक निषाद और वैश्य तथा राजन्य के साथ ठहरना होगा।[205] इससे मालूम होता है कि निषाद इस यज्ञ से अप्रत्यक्ष रूप में संबद्ध थे।

जिन दो श्रेणियों के लोगों को यज्ञ करने का अधिकार दिया गया था, उनमें से रथकार स्पष्टतया आर्य समुदाय के सदस्य थे, किंतु निषाद आर्येतर समुदाय के जान पड़ते हैं, और अपने गांवों रहते थे।[206] महाभारत और विष्णु पुराण में कई ऐसे प्रसंग आए हैं जिनसे सिद्ध है कि निषाद श्याम वर्ण के थे।[207] संभवतया निषाद जाति को ब्राह्मणप्रमुख समाज में अंगीकृत करने के प्रयास में उन्हें वैदिक

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

रीति से अपना यज्ञ संपन्न करने की अनुमति दी गई थी, जो विशेषाधिकार बाद में उनके प्रमुख मात्र तक ही सीमित रहा। यह स्पष्ट है कि वैदिक काल के अंत तक रथकार और निषाद को यज्ञ करने का अधिकार था, यद्यपि वे शूद्र की कोटि में थे। अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यास्क ने 'पंचजना:' शब्द की जो व्याख्या की है उससे पता चलता है कि उसके विचारानुसार तमाम शूद्र जाति को यह अधिकार प्राप्त था।

शूद्र कई धार्मिक संस्कारों में भाग लेता था। इसका स्पष्ट निश्चित उल्लेख मिलता है। देवता के लिए हविष् तैयार करने में वह तीनों वर्ण के लोगों के साथ कार्य करता था। किंतु उसे जिस रूप में संबोधित किया गया है वह बताता है कि उसे ऐसे धार्मिक कार्य में सबसे निचला स्थान दिया गया था।[208] इसी प्रकार अन्य वर्ण के लोगों के साथ वह सोमरस का पान करता था और वमन करने पर उसे प्रायश्चित करना पड़ता था।[209] दासीपुत्र कवष ऐलूष का जिक्र करते हुए हापकिंस ने बताया है कि शूद्र का बेटा यज्ञ में भाग लेता था और शूद्र एक सामाजिक त्योहार-विशेष में सोमरस पान करता था।[210] विचित्र तथ्य है कि काठक संहिता के एक परिच्छेद में शूद्रों और महिलाओं को सोमरस पान करने की अनुमति नहीं दी गई है।[211] किंतु यजुओं के अन्य संग्रहों में ऐसी बात नहीं पाई जाती। अत: संभवतया यह बात काठक संहिता में बाद में जोड़ी गई है, अथवा यह अधिक से अधिक काठक संप्रदाय का मत है।

शूद्र दो अन्य छोटे छोटे संस्कारों में भी भाग लेता था। वह 'ओदनसव' अर्थात बने हुए भोजन के अर्पणकर्म में अन्य तीन वर्णों की भांति भाग लेता था, किंतु भोज्य पदार्थ वर्ण के अनुसार भिन्न हुआ करते थे।[212] इसी प्रकार, प्रथम फल के अर्पण का कार्य सभी वर्ण के लोग कर सकते थे।[213]

महाव्रत नाम से प्रसिद्ध अयनांत कर्म में शूद्रों के लिए जो कर्तव्य निर्धारित हैं, वे तत्कालीन धार्मिक कृत्यों में शूद्र के भाग लेने के महत्वपूर्ण प्रमाण हैं। इसके अनुसार शूद्र वेदी के बाहर और आर्य वेदी के भीतर रहते हैं। वे आपस में चमड़े के लिए लड़ते हैं और आर्य की जीत होती है।[214] कुछ ग्रंथों में तो शूद्र वर्ण और आर्य वर्ण का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।[215] जहां अर्य शब्द का प्रयोग हुआ है, वहां वैश्य से तात्पर्य है।[216] दूसरी ओर जहां आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है वहां तात्पर्य प्रथम तीन वर्ण के लोगों से है। कहीं कहीं आर्य के स्थान पर ब्राह्मण का प्रयोग हुआ है,[217] जो शूद्र के विरोधी मालूम पड़ते हैं; और यह विशेषता वैदिककाल के उपरांत सामान्य रूप में पाई जाती है। वेद की एक अन्य कंडिका, जिसमें दोनों पर विशेष ध्यान दिया गया है, बताती है कि न तो ब्राह्मण और न शूद्र की बलि प्रजापति को चढ़ाई जा सकती है।[218] वाजसनेयि संहिता के उत्तरार्द्ध के एक परिच्छेद में इस आशय का निर्देश लगता है कि ब्राह्मण बलि

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

के लिए आवश्यकता से अधिक श्रेष्ठ और शूद्र आवश्यकता से अधिक हीन हैं।

जहां तक महाव्रत के अर्थ का प्रश्न है, यह प्रायः आर्यों के बीच और आर्य तथा आर्येतर लोगों (जो शूद्र की स्थिति में पहुंच गए) के बीच पशु के लिए हुए संघर्षों की याद दिलाता है। शांखायन श्रौतसूत्र में उल्लिखित है कि इस पुरातन और अप्रचलित रिवाज का परित्याग होना चाहिए।[219] इससे प्रकट होता है कि महाव्रत जैसे पुराने धार्मिक कर्म में शूद्र उच्च वर्णों के लोगों के साथ भाग ले सकता था, किंतु जब ऐसे कर्म अप्रचलित हो गए तब धार्मिक कर्म में उसका भाग लेना खतम हो गया।

उत्तरवैदिककाल में दाहसंस्कार में भी शूद्रों का अपना स्थान था। यह निर्धारित था कि शूद्र के लिए भी समाधिटीला बनाया जा सकता है जो घुटना भर ऊंचा हो सकता है। टीले की ऊंचाई में वर्ण के अनुसार अंतर होता था।[220]

शूद्रों के विषय में कहा गया है कि अन्य समुदायों की भांति उनके भी अपने देवी-देवता थे जिनकी वे पूजा करते थे। बृहदारण्यक उपनिषद में शूद्र को पूषन् कहा गया है, जिससे आभास मिलता है कि वह शूद्रों का देवता है।[221] इसी प्रकार महाभारत में देवताओं के चिकित्सक यमल अश्विनों को शूद्र माना गया है।[222] यह महत्वपूर्ण बात है कि रत्नहवींषि महोत्सव में अश्विनों को संग्रहीतृ[223] के साथ और पूषन् को भागदुध के साथ संबंधित माना गया है।[224] किंतु तैत्तिरीय ब्राह्मण में विश्वेदेवों और मरुतों (कृषि देवता) के साथ पूषन् को भी वैश्यों से संबद्ध बताया गया है।[225] इस तरह कहा जा सकता है कि विश्वेदेव परोक्ष रूप से शूद्र के भी देवता हैं। अनुष्टुभ्, जो बाद का लोकप्रिय छंद है, शूद्रों[226] और विश्वेदेवों[227] का छंद माना गया है। कहा गया है कि इस छंद के पाठ द्वारा विश्वेदेवों में प्रजापति[228] और इंद्र तथा शूद्रों में पंचाल राजा दर्भशातानीकि ने प्रतिष्ठा पाई।[229] अतएव इस प्रसंग में, देवों के समाज में विश्वेदेवों का वही स्थान है जो मानवसमाज में शूद्रों का है।

शूद्रों के देवताओं में से पूषन् भेड़ों के देवता मालूम पड़ते हैं,[230] जिससे आर्य 'विश्' के पशुपालन कार्य पर प्रकाश पड़ता है। ऋग्वेद के अंतिम भाग में अश्विनों के विषय में बताया गया है कि वे मनुष्य के लिए हल जोत कर बीज बोते थे और उन्हें आहार देते थे,[231] जिनसे 'विश्' के कृषिकर्म का पता चलता है। विश्वेदेव को 'विश्' का देवता माना गया है, क्योंकि वे बड़ी संख्या में थे। यह तथ्य कि आर्य 'विश्' के जो तीनों देवता थे वे ही बाद में प्रत्यक्षतः या परोक्षतः शूद्र के भी देवता माने जाने लगे, इस बात का द्योतक है कि 'विश्' के कुछ वर्ग शूद्र की स्थिति में पहुंच जाने पर भी अपने पुराने वैदिक देवताओं को ही मानते रहे।

कुछ ऐसे भी प्रमाण उपलब्ध हैं जिनसे सिद्ध होता है कि आर्य और आर्य से भिन्न निम्न कोटि के लोग रुद्र पशुपति की पूजा करते थे जो आर्यपूर्व देवता

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

प्रतीत होते हैं। शतरुद्रीय में रुद्र की विभिन्न मूर्तियों (स्वरूपों) के अनुरूप भिन्न भिन्न हविष् चढ़ाते हुए समाज के सभी वर्गों को (रुद्रस्वरूप मानकर) नमस्कार किया गया है, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मण का, तब राजन्य, सूत और वैश्य का और उसके बाद विभिन्न प्रकार के शिल्पियों और आदिवासी जनों का उल्लेख है। किंतु प्रथम तीन वर्णों का उल्लेख यजुर्वेद की केवल एक संहिता में हुआ है।[232] शूद्र का उल्लेख तो सामान्य रूप में एक भी संहिता में नहीं हुआ है, किंतु यजुर्वेद की सभी संहिताओं की प्रस्तुत सूची में रथकारों, कुलालों (कुंभकारों), कर्मारों, निषादों, पुंजिष्ठों (मछुओं या बहेलियों का काम करने वाले आदिम जाति के लोग), श्वनियों (कुत्ते को खिलाने वाले या कुत्ता पालने वाले) और मृगयों (शिकारियों) को नमस्कार किया गया है,[233] जिन्हें चतुर्थ वर्ण में रखा जा सकता है। इनके अतिरिक्त तैत्तिरीय संहिता में धनुकारों और इषुकारों,[234] जो धनुष और तीर के निर्माता कहे जाते हैं, का वर्णन किया गया है। इन दोनों को भी इसी कोटि में रखा जा सकता है।

ये शिल्पी और जनजाति के लोग अपने संरक्षक देवता के रूप में रुद्र की पूजा करते थे।[235] वेबर का मत है कि 'रुद्राध्याय उस समय का है जब विजित जनजातियों और व्रात्यों या ब्राह्मणों में अगृहीत आर्यों का प्रत्यक्ष विरोध दबा दिया गया था, किंतु आंतरिक संघर्ष बना हुआ था।'[236] उनका यह भी कहना है कि विभिन्न मिश्रित जातियों का निर्माण आसानी से नहीं हो पाया, जिन लोगों को निम्नकोटि की जातियों में रखा गया उन्होंने उस व्यवस्था का जोरदार विरोध किया।[237] तो इसका यह अर्थ लगाया जा सकता है कि उच्च वर्णों के बढ़ते विशेषाधिकार के विरुद्ध संघर्ष के क्रम में आर्य जातियों के पराजित वर्ग और विजित जनजातियों के सदस्य आपस में घुलमिल गए, जिसका अपरिहार्य परिणाम यह हुआ कि कुछ आर्य; यथा, रथकार और कर्मार, आर्येतर देव रुद्र की आराधना करने लगे। यह ध्यान देने योग्य है कि 'रत्नहवींषि' समारोह में रुद्र को 'गोविकर्तन' का देवता माना गया है, जिसे सायण ने निम्न कोटि की जाति का माना है।[238] पहले बताया गया है कि रुद्र पशुपति निषादप्रमुख के देवता थे।[239] अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि शूद्रों के भी अपने दवी-देवता थे, जिनमें से कुछ आर्यों के थे और कुछ आर्येतर थे। इस प्रकार सृष्टि की कहानियों में ब्राह्मणों का यह कथन कि शूद्र का अपना कोई देवता नहीं था,[240] वास्तविक स्थिति का चित्रण नहीं करता। सृष्टि संबंधी एक कथा से कम-से-कम यह पता तो चल जाता है कि दिन और रात शूद्रों के देवता थे।[241] ब्राह्मणों के आख्यानों से स्पष्ट पता चलता है कि उन्होंने जानबूझ कर शूद्रों को पूजा और यज्ञ के अधिकार से वंचित रखने का प्रयास किया था, हालांकि पहले वे अपने आर्य बंधुओं के साथ पूजा में भाग लेते थे अथवा आदिम जनजाति के सदस्य के रूप में अलग से भी यज्ञादि में हाथ बंटाते थे।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

शूद्र वैदिक यज्ञ में भाग लेते थे, इसके समर्थन में जो विपुल प्रमाण हैं, उसके विरोध में भी कुछ कम नहीं वरन अधिक ही प्रमाण हैं। बार बार यह कहा गया है कि शूद्र को यज्ञ का अधिकार नहीं था,[242] क्योंकि वह जन्म से नीच है और वह यज्ञ, हवन आदि करने के लिए अक्षम है।[243] अग्निचयन, अग्नि की स्थापना संबंधी कर्म के बिना कोई वैदिक यज्ञ नहीं हो सकता है। कहा गया है कि इसका अर्थ है अग्नि को शूद्र से हटाना।[244] किंतु संहिताओं में ऐसे प्रत्यक्ष कथन नहीं मिलते हैं कि शूद्र को वैदिक यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया गया था, जिससे पता चलता है कि इस तरह की बात बाद में उठाई गई है। इतना ही नहीं, उन संहिताओं में ऐसे अनेक संदर्भ हैं जिनका ऐसा अर्थ निकाला जा सकता है। यज्ञ के लिए अग्निस्थापन के बारे में जो अनुदेश दिए गए हैं, उनमें प्रथम तीन वर्णों की ही चर्चा हुई है,[245] और ब्राह्मण ग्रंथों में उनके लिए अलग अलग ऋतुओं का विधान किया गया है। इसमें 'रथकार' को भी छांट दिया गया है। इस विषय में कहा गया है कि अग्नि विश्वरूप है और उसके तीन अंग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और विश्।[246] यह भी बताया गया है कि राजन्य और विश् की उत्पत्ति यज्ञ अतः ब्राह्मण, से हुई है।[247] पुनः, इस बात पर जो जोर दिया गया है कि केवल प्रथम तीन वर्ण के लोग यज्ञ कर सकते हैं, और शूद्र यज्ञस्थल में प्रवेश नहीं कर सकता,[248] वह उपर्यक्त विवरणों के अनुकूल प्रतीत होता है।

सामान्य वैदिक यज्ञ से शूद्र को वंचित रखने के अतिरिक्त उसे कतिपय विशेष वैदिक कर्मों से भी अलग रखने की चेष्टा हो रही थी। यथा, सोमयज्ञ ब्राह्मण, वैश्य और राजन्य के लिए ही विहित थे।[249] अग्निहोत्र जो अग्नि का तर्पण है, कोई आर्य ही कर सकता है, जिसे टीकाकार ने तीन उच्च वर्णों का ही सदस्य माना है।[250] यह विशेष रूप से कहा गया है कि अग्निहोत्र के लिए अपेक्षित दूध शूद्र न दूहे,[251] क्योंकि ऐसी धारणा है कि शूद्र की उत्पत्ति असत्य से हुई है।[252] तदनुसार, दूध के लिए मिट्टी का पात्र (स्थली) किसी आर्य द्वारा ही तैयार किया जाना विहित है।[253] किंतु यजुओं के 'वाजसनेयि' और 'तैत्तिरीय' संहिताओं में ऐसे निषेध नहीं विहित किए गए हैं। यह तो केवल 'मैत्रायणि' और 'कपिष्ठल' संहिताओं के अनुपूरक अंश में मिलता है। 'काठक संहिता' की इसी तरह की एक कंडिका में स्वराघात का अभाव है, अतः कहा जा सकता है कि यह बाद में सन्निविष्ट की गई है। इतना ही नहीं, 'आपस्तंब श्रौतसूत्र' जो अपने ढंग का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है,[254] एक विकल्प प्रस्तुत करता है कि शूद्र गाय दूह सकता है।[255] टीकाकार ने यह बता कर कि जब उसे अनुमति दी जाए तब वह गाय दूह सकता है, अर्थ समन्वय का प्रयास किया है।[256] इन बातों से पता चलता है कि 'अग्निहोत्र' के लिए गाय दूहने के संबंध में शूद्रों पर जो निषेध लगाया गया है, वह संहिताओं के मूल अंशों में संभवतया नहीं था। तैत्तिरीय ब्राह्मण के काल में

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

ऐसा निषेध लगाया गया होगा।[257]

वैदिक काल का अंत होते होते कुछ कटु बातें भी प्रकट होने लगीं। शूद्र के शरीर से स्पर्श होना और कुछ आचारिक अवसरों पर उसे देखना भी निषिद्ध किया जाने लगा। यज्ञ के लिए अर्पित व्यक्ति को शूद्र से बोलने की भी अनुमति नहीं है,[258] और 'उपनीत' पर भी यही प्रतिबंध लगाया गया है।[259] शतपथ ब्राह्मण में विधान है कि 'प्रवर्ग्य' समारोह (सोम संस्कार का आरंभ) में याजक को महिला और शूद्र से संपर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे असत्य हैं।[260] काठक संहिता के एक प्रसंग को छोड़ महिला को शूद्र के समतुल्य बताने का यह सबसे पुराना उदाहरण है और यह ऐसी परिपाटी है जो बाद के ग्रंथों में यदा कदा चर्चित है।[261] यह भी उपबंध किया गया है कि जो महिला पुत्र की कामना से पूजा अर्चना कर रही हो उसके शरीर को कोई वृषल चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, नहीं छुए।[262] बाद में यह वृषल शूद्र माना जाने लगा और उसे ब्राह्मणविरोधी कहा गया। शतपथ ब्राह्मण में वर्णित है कि यदि यज्ञपात्र को बढ़ई छू दे तो आचार की दृष्टि से वह अपवित्र हो गया।[263] किंतु एक अन्य स्थल पर, यदि उस ग्रंथ का 'माध्यंदिन' पाठ सही है, तो तक्षन् को आरुणि के निमित्त मंत्रोच्चार करते हुए पाया जाता है।[264] यह ध्यान देने योग्य बात है कि शूद्रों का संपर्क न करने से संबंधित सारे निर्देश या तो शतपथ ब्राह्मण अथवा श्रौतसूत्रों में मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि शूद्र को अपवित्र मानकर मांगलिक अवसरों पर उसकी उपस्थिति और उसके शरीर के स्पर्श, दर्शन आदि को निषिद्ध मानने की बात वैदिककाल के अंत में प्रचलित थी।

उत्तरवैदिककाल के धार्मिक जीवन में शूद्र के स्थान की समीक्षा करने पर मालूम पड़ता है कि 'रथकार' और 'निषाद', जो वैदिक यज्ञ में भाग ले सकते थे, के अतिरिक्त शूद्र वर्ण के अपने देवता थे और शूद्र भी कतिपय वैदिक कर्मों में सम्मिलित हो सकता था। इसमें कोई संदेह नहीं कि अधिकांश मामलों में उसके भाग लेने का ढंग ऐसा है जो समाज में उसकी हीन स्थिति का द्योतक है। किंतु इस आधार पर उसे इस विशेषाधिकार से सर्वथा वंचित नहीं रखा गया है। उसके बहिष्कार की प्रक्रिया, जो प्राचीनग्रंथों में पहले से ही देखने में आती है, वैदिक काल समाप्त होते होते अधिक तीव्र हो गई। मालूम पड़ता है कि आर्थिक और सामाजिक विभेदों के बढ़ने से जनजाति के यज्ञ का स्वरूप ही क्रमशः बदल गया और वह व्यक्तिसापेक्ष बन गया, जिसमें पुरोहितों को अधिक से अधिक दान मिलने लगा। कालक्रम से यज्ञ उच्च वर्णों के परमाधिकार का विषय बन गया, जिन्हें इसके लिए धनराशि खर्च करने की क्षमता थी। यह निष्कर्ष वृहदारण्यक उपनिषद की शंकर द्वारा लिखित टीका से निकाला जा सकता है,[265] जिसमें उन्होंने बताया है कि ईश्वर ने वैश्यों का सृजन धन उपार्जित करने के लिए किया है, जो

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

यज्ञ करने का साधन है। इसी प्रकार महाभारत में युधिष्ठिर कहते हैं कि कोई गरीब आदमी यज्ञ नहीं कर सकता, क्योंकि यज्ञ के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री प्रचुर मात्रा में इकट्ठी करनी पड़ती है। उन्होंने यह भी कहा है कि यज्ञ करने की योग्यता राजाओं और राजकुमारों को हो सकती है न कि अकिंचनों और असहायों को।[266] इसका आशय यह हुआ कि साधारणतया शूद्र यज्ञ के अवसर पर दान देने में असमर्थ था, अतः वह यज्ञ में भाग लेने में सक्षम नहीं था। धनी शूद्र को यज्ञ में भाग लेने देना अनुचित नहीं समझा जाता था, क्योंकि उसके घर से अग्नि ग्रहण करना विहित था।[267]

यह भी दलील दी जाती है कि 'आदिम जातियों की मूर्तिपूजन प्रथा से ब्राह्मण धर्म की विशुद्धता को जिस खतरे की आशंका उत्पन्न हुई' उससे प्रथमतः ब्राह्मणों को यह अनुभव हुआ कि 'मुक्त आर्य और पराधीन वर्गों के बीच दलंध्य दीवार खड़ी करना आवश्यक है।'[268] लेकिन यह व्याख्या बड़े सीधे सादे किस्म की है। स्पष्ट है कि यह उस गलत धारणा पर आधारित है कि शूद्र पराजित जाति के ही लोग थे। ऋग्वेद, अथर्ववेद और बहुत से उत्तरकालीन वैदिक साहित्य के पुराने संदर्भों में भी ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता है कि शूद्रों और ब्राह्मणों के बीच दीवार खड़ी करके ब्राह्मण धर्म की विशुद्धता की रक्षा की जाए। संभव है कि जो शूद्र पराजित आदिवासियों से आए थे उन्हें वैदिक यज्ञ से वंचित रखा गया हो, क्योंकि उनकी धार्मिक प्रथाएं भिन्न थीं। किंतु इस तरह की स्थिति का यही एकमात्र कारण नहीं कहा जा सकता। शूद्रों के बहिष्कार के संभावित कारणों का उल्लेख हमने ऊपर कर दिया है।

वैदिक कर्मकांड के विश्लेषण से शूद्रों का जो चित्र उभरता है वह सुसंगत और समनुरूप नहीं मालूम पड़ता। आर्थिक दृष्टि से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि जहां एक ओर वे मवेशी पालते थे और प्रायः स्वतंत्र किसान के रूप में अपना कार्य करते थे, वहीं दूसरी ओर उन्हें घरेलू नौकर, खेतिहर मजदूर और कुछ मामलों में गुलाम भी समझा जाता था। राजनीति के क्षेत्र में शूद्र रत्निनों की बात सुनी जाती है, किंतु ऐसे भी वृतांत मिलते हैं कि शूद्र और वैश्य ब्राह्मण और क्षत्रिय से जुड़े थे। सामाजिक दृष्टि से यह सोचना अनुपयुक्त होगा कि भोजन और विवाह, के विषय में शूद्र पर प्रतिबंध लगाए गए थे,[269] किंतु कुछ ऐसे प्रमाण भी मिलते हैं जिनसे चंडाल परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें घृणा का पात्र समझा जाता था और उनमें कुछ दुर्गुणों का आरोप भी किया जाता था। धर्म के मामलों में शूद्रों को कुछ धार्मिक कृत्यों की अनुमति दी गई थी, किंतु उन्हें बहुतेरे विशिष्ट कर्मों से तथा सामान्यतया वैदिक यज्ञ से वंचित रखा गया था। यों कहें कि कीथ का यह कथन सही है कि संहिताओं और ब्राह्मण ग्रंथों में शूद्र की स्थिति अस्पष्ट है।[270]

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तरवैदिककाल में शूद्रों की स्थिति के संबंध में जो उल्लेख हैं उनके अंतर्विरोध की व्याख्या अंशत: उन प्रसंगों के कालक्रम के आधार पर की जा सकती है। साधारणतया धार्मिक अनुष्ठान में, जो जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त था, शूद्रों के सहभाग या सहयोग का निषेध केवल उत्तरकालीन ग्रंथों में दिखाई पड़ता है। किंतु इसमें अधिकारों और असमर्थताओं का वर्णन साथ ही साथ किया गया है। इसका कारण यह बताया जा सकता है कि ज्यों ज्यों जनजातीय समाज का विघटन हुआ और वर्णविभेद बढ़ते गए, त्यों त्यों शूद्रों की अपनी जनजातीय विशेषताएं विलीन होती गईं। आर्य जाति के सदस्य के रूप में शूद्र ने विभिन्न कर्मों में भाग लेने के अपने जनजातीय अधिकारों को उस समय भी कायम रखा जब उसे दास की कोटि में रख दिया गया था।

इस अवधि में शूद्रों की स्थिति के बारे में विशेष ध्यातव्य बात यह है कि उस वर्ण के रथकार और तक्षन् जैसे शिल्पी वर्ग को खास ओहदा दिया गया था। प्राय: काष्ठ और धातु कर्म के सापेक्षिक महत्व की दृष्टि से ही ऐसा किया गया होगा, क्योंकि उनके बिना वैदिककाल के लोगों का विकास और विस्तार नहीं हो सकता था, और खेतीबाड़ी नहीं चल सकती थी। पहले कहा गया है कि तक्षन् लोहार प्रतीत होता है। वैदिक समाज में उसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, क्योंकि प्राचीन कृषक समुदाय में उसका आदर होता था और वह राजा के पार्षद के रूप में भी कार्य करता था।[271]

वेदिक इंडेक्स में प्रस्तुत और विभिन्न ग्रंथकारों[272] द्वारा स्वीकृत इस तथ्य को मानना संभव नहीं है कि आरंभ में शूद्र कृषिदास थे और उनका जीवन असुरक्षित था, किंतु बाद में क्रमश: उनकी असमर्थताएं हटने लगीं। इस तरह के तथ्य उन आर्यों के संबंध में समीचीन नहीं जंचते जो शूद्र की स्थिति में पहुंच गए थे। प्राचीन काल के युद्ध में आर्येतर लोगों को मिटा डालने की नीति अपनाई गई थी, किंतु इस तरह का कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि उस समय जिन लोगों को पराजित किया गया, उन पर ऐसी असमर्थताएं लाद दी गईं। इसके विपरीत प्रक्रिया ठीक उल्टी मालूम पड़ती है। प्राचीन प्रसंगों में बताया गया है कि शूद्र सामुदायिक जीवन में भाग लेते थे, किंतु उत्तरवर्ती प्रसंग उनके बहिष्कार का ही संकेत देते हैं। परिणामस्वरूप वैदिक काल का अंत होते होते जनजातियों के प्राचीन अधिकारों को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। ये बातें इतनी प्रमुख और प्राय: इतनी दमनात्मक हो गईं कि उपनिषदों ने इनका विरोध किया। वृहदारण्यक उपनिषद[273] में कहा गया है कि ब्रह्मलोक में चंडाल और पौल्कस भी हेय नहीं समझे जाते हैं।-वहां सभी भेदभाव मिट जाते हैं। छांदोग्य उपनिषद[274] में कहा गया है कि अग्निहोत्र यज्ञ के चारों ओर भूखे बच्चे उसी प्रकार बैठते हैं, जिस प्रकार वे अपनी मां को घेरकर बैठते हैं। अत: चंडाल को भी यज्ञ का अवशेष पाने का अधिकार है।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

हम यह नहीं जानते कि निम्न वर्ग के लोगों के हित में भेदभाव के प्रति जो विरोध प्रकट किए गए हैं, वे कहां तक जनजातियों के बीच समता के प्राचीन आदर्श से प्रेरित थे। किंतु इसकी संभावना सर्वथा निराधार नहीं कही जा सकती। यह विचारधारा उत्तरवैदिक काल के सुधारवादी आंदोलन से आगे बढ़ी, पर गृह्यसूत्र और धर्मसूत्र के संकलनकर्त्ताओं ने विरोधी विचारधाराओं को चालू रखा जिससे शूद्र वर्ण की अशक्तताएं और भी बढ़ती गईं।

संदर्भ

1. विंटरनिज : हिस्ट्री आफ इंडियन लिटरेचर, I, पृ० 195-6. कीथ : हार्वर्ड ओरिएंटल सीरीज, XVIII, पृ० XCIII. कीथ का कथन है कि तैत्तिरीय मतावलबी भी काठक, मैत्रायणि, वाजसनेयि और शतपथ के मतावलंबियों की भांति मध्यदेश के निवासी थे.
2. वेबर : इंडियन लिटरेचर, पृ० 86.
3. वैकरनेगेल : अलटिश्चेज ग्रामाटिक, I, पृ० XXX-XXXI; कीथ : हार्वर्ड ओरिएंटल सीरीज, XXV, पृ० 44.
4. कीथ : पूर्व निर्दिष्ट, XXV, पृ० 46.
5. विंटरनिज : पूर्व निर्दिष्ट, I, पृ० 191.
6. बी० के० घोष : वेदिक एज, पृ० 235.
7. कीथ : पूर्व निर्दिष्ट, XVIII, पृ० XI. I.
8. बी० के० घोष : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 476.
9. वही, पृ० 467.
10. यहां सामान्यतया मान्य प्राधिकारियों की राय का निर्देश देने के अलावा और कुछ कहना संभव नहीं है.
11. मैकडानल : ए वेदिक ग्रामर फार स्टूडेंट्स, पृ० 118.
12. एच० सी० रायचौधरी : पोलिटिकल हिस्ट्री आफ एनशिएंट इंडिया, पृ० 7-8.
13. मैत्रायणि संहिता, IV. 2.7 और 10.
14. पंचविंश ब्राह्मण, VI. 1.11.
15. जैमिनीय ब्राह्मण, I. 68-69. शूद्रो अनुष्टूपछन्दा वेश्मपतिदेवस; तस्माद उपादावनेज्येनैव जिजिविषति.
16. सत्याषाढ श्रौत सूत्र, XXVI. 1.7. शुश्रूषा शूद्रस्येतरेषां वर्णानाम्. किंतु यह किसी अन्य पूर्व श्रौतसूत्र में नहीं पाया जाता.
17. जै० ब्रा०, II, 266, उत्थाता शूद्रोदक्षः कर्मकर्ता. संभवतया अन्य ब्राह्मण ग्रंथों में ऐसी कोई कंडिका नहीं है.
18. तैत्तिरीय ब्राह्मण, III, 11, 10.3 में 'कर्मकर' शब्द का प्रयोग ऋत्विक पुरोहित के अर्थ में किया गया है, न कि भाड़े के मजदूर के रूप में. अन्य ब्राह्मणग्रंथों में कर्मकर का कोई उल्लेख नहीं है.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

19. बृहदारण्यक उपनिषद, I. 4.13.
20. वही, II. 266.
21. मुखर्जी : एनशिएंट इंडियन एजुकेशन, पृ० 158.
22. वाजसनेयि संहिता, XXX. 5; शतपथ ब्राह्मण, XIII. 6.2.10; तैत्तिरीय ब्राह्मण, III. 4.1.1.
23. वाजसनेयि संहिता, XXX. 6-21; तैत्तिरीय ब्राह्मण, III. 4.2-17.
24. वेदिक इंडेक्स, II, पृ० 267.
25. वही.
26. ऐतरेय ब्राह्मण, VIII, 22. देशाद्-देशात् समोहलानां सर्वासाम् आद्यदुहितॄणाम्; दशाददात् सहस्राणि आत्रेयो निष्कण्ठयः. यह अध्याय इस ग्रंथ के उत्तर भाग का एक अंश है.
27. बृहदारण्यक उपनिषद, VI. 2.7. इसमें भूमि की भी चर्चा नहीं है.
28. महाभारत (कलकत्ता संस्करण), II. 33.52. अंग के सूत राजा कर्ण ने संगीत और ऐसी ही अन्य कलाओं में प्रशिक्षित सौ मागधी दासी कन्याएं समर्पित की थीं. महाभारत (कलकत्ता संस्करण), VIII. 38.7.18.
29. ऐतरेय ब्राह्मण, VI. 18-19; गोपथ ब्राह्मण, II. 4.2, 6.1.
30. वही, III. 5.
31. रैप्सन : कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया, I, 128. तुलनीय, घोषाल : हिस्टोरियोग्राफी एंड अदर एसेज, पृ० 87, पाद टिप्पणी 9.
32. लाट्या०, श्रौत सूत्र, VIII. 4.14,…दासमिथुनौ धान्यपाल्यम् सीरम् धेनुरिति.
33. आश्व० श्रौतसूत्र, X. 10.10.
34. कात्यायन श्रौत सूत्र, XXII. 10.
35. वही, XXII. 11, शूद्रदानं वा दर्शनाविरोधाभ्याम्.
36. वही, XXII. 11 की टीका, न च विरोध गर्भदासस्य.
37. शांखायन श्रौतसूत्र, XVI. 14.18, सहपुरुषम् च दीयते.
38. वही, XVI. 15.20, सहभूमि च दीयते. टीका में 'सपुरुषं च' जोड़ा हुआ है.
39. वेदिक इंडेक्स, II, पृ० 389.
40. छांदोग्य उपनिषद, IV. 2.4-5.
41. ऐतरेय ब्राह्मण, VIII. 21; शतपथ ब्राह्मण, XIII. 7.1.15.
42. वही.
43. कात्यायन श्रौतसूत्र की टीका, XXII. 11.
44. अथर्ववेद, III. 24, VI. 142; वा० सं०, IV. 10; शतपथ ब्राह्मण, I. 6.1. 1-8.
45. दास : दि इकनामिक हिस्ट्री आफ एनशिएंट इंडिया, पृ० 139-40, एस० के० दास ने संगत निर्देशों का संग्रह किया है.
46. आश्वलायन श्रौतसूत्र, VIII. 4.5-8; IX. 10.11, 11.2.
47. पास्ट एंड प्रेजेन्ट, सं० 6, पृ० 1.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

48. विदेह के जनक का दृष्टांत.
49. जायसवाल : हिंदू पोलिटी, II, 20.
50. चैडविक : दि हिरोइक एज, पृ० 370.
51. घोषाल : हिस्टोरियोग्राफी एंड अदर एसेज, पृ० 253.
52. मैत्रायणि संहिता, II. 6.5; ···तक्षरथकार्योर्गृहे. आपस्तम्ब श्रौतसूत्र, XVIII. 10.17; सत्याषाढ़ श्रौतसूत्र, XIII. 4.8. यह ध्यातव्य है कि तैत्तिरीय संहिता में रत्निन के इसी प्रकार के वर्णन में तक्ष और रथकार का उल्लेख नहीं हुआ.
53. वही, सर्वायसानि दक्षिण.
54. शतपथ ब्राह्मण, V. 3.1.10-11.
55. वही, V. 3.2.2-4. इषयेतातियनः प्रविशत्येताम् वा तमः प्रविशति यदयज्ञियानि यज्ञेन प्रसजत्ययज्ञियान्नवा एताद्यज्ञेन प्रसजति शूद्रांस्त्वाद्यांस्तु. सोम और रुद्र तथा मित्र और बृहस्पति को चढ़ावा चढ़ाकर प्रायश्चित करने का प्रावधान दो प्रतिकूल विचारों का सामंजस्य करने के प्रयास जैसा लगता है. इनमें से एक विचार प्राचीन है और एक नवीन, जो यज्ञ में शूद्र के भाग लेने के संबंध में है. राजा शूद्र के साथ सांस्कारिक संबंध जोड़ सकता था, किंतु इसके फलस्वरूप होने वाले पाप को दूसरे धार्मिक संस्कार द्वारा हटाना पड़ता था. यह उल्लेखनीय है कि इसका उल्लेख न तो कृष्ण यजु ग्रंथों में और न शुक यजु ग्रंथों में हुआ है. घोषाल : हिंदू पब्लिक लाइफ, i, पृ० 133.
56. शतपथ ब्राह्मण की टीका, V. 3.2.2, 'शूद्रान सेनान्यादीन्' ··.
57. शांखायन श्रौतसूत्र, XVI. 4.4; शतपथ ब्राह्मण, XIII, 5.2.8.
58. आपस्तम्ब श्रौतसूत्र, (गार्बीज एडिशन), XVII, 10.26.
59. वही, VI. 3.12.
60. मैत्रायणि संहिता, II. 6.5; आ० श्रौतसूत्र (गार्बीज एडिशन) XVIII.10.20; सत्याषाढ श्रौतसूत्र, XIII. 4.8.
61. शतपथ ब्राह्मण की टीका. V. 3.2.2-4.
62. कीथ : पूर्व निर्दिष्ट, XVIII, पृ० 120. वह 'क्षद्' अर्थात नक्काशी करना से यह अर्थ निकालते हैं.
63. मोनियर विलियम्स : संस्कृत-इंगलिश डिक्शनरी. देखें 'क्षतृ' शब्द. सायण के अनुसार वह क्षत्रिय पत्नी का शूद्रजात पुत्र है.
64. संहिताओं और ब्राह्मणों में रत्निनों की सूची का संकलन घोषाल ने हिस्टोरियोग्राफी एंड अदर एसेज के पृष्ठ 249 के सामने के पृष्ठ पर किया है.
65. एक सूची (मैत्रायणि संहिता, II. 6.5, IV. 3.8) में उनकी संख्या तीन है और दो सूचियों में यह संख्या दो है (काठक संहिता, XV. 4; शतपथ ब्राह्मण, V. 3). अजीब बात यह है कि कृष्ण यजु के ग्रंथों में उनका उल्लेख नहीं हुआ है (तैत्तिरीय संहिता, I. 8.9; तै० ब्रा० I. 7.3).
66. जायसवाल : पूर्व निर्दिष्ट, ii, पृ० 21.
67. अथर्ववेद, III, 5.6.
68. वाराह श्रौतसूत्र, III. 3.3.24; तत्र पष्ठौहीं विदीयन्ते ब्राह्मणो राजन्यो वैश्यः शूद्रः;

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

मैत्रायणि संहिता, IV. 4.6; आपस्तम्ब श्रौतसूत्र, (गार्बीज एडिशन) XVIII. 19.2-3; सत्याषाढ़ श्रौतसूत्र, XIII, 6.29-30.

69. वाजसनेयि संहिता X. 29; शतपथ ब्राह्मण, V. 4.4.19-23; कात्यायन श्रौतसूत्र, XV. 7.7.11-20.

70. काठक संहिता, XXXVIII. 1. वाजसनेयि संहिता, कपिष्ठल संहिता, तैत्तिरीय संहिता और मैत्रायणि संहिता में इस अनुच्छेद को जोड़ा नहीं है, किंतु तैत्तिरीय ब्राह्मण II. 7.9.1 और 2 में यह परिवर्तित रूप में आया है, जिसमें दान और उसके फल का तो उल्लेख हुआ है पर चारों वर्णों का नहीं. 'ओजस्' के स्थान में यहां 'वीर्यम्' का उल्लेख हुआ है. देखें, सत्याषाढ़ श्रौतसूत्र XXIII. 4.21, जिसमें यह अनुच्छेद ओदनसव नैवेद्य के प्रसंग में आया है.

71. फल और वर्चस वाजसनेयि संहिता, X. 10-13 में; बल और वर्चस तैत्तिरीय संहिता, I. 8.13 में; पुष्टम् और फलम् मैत्रायणि संहिता, II. 6.10; पुष्टम् और वर्चस् काठक संहिता, XV.7 में आए हैं.

72. पूर्वोद्धृत, ii, 29, पाद टिप्पणी 2.

73. घोषाल : हिस्ट्री एंड एसेज, पृ० 264.

74. एस० वी० वेंकटेश्वर : इंडियन कल्चर थ्रू दि एजेज, भाग I, पृ० 11.

75. वेदिक इंडेक्स, ii, पृ० 5.

76. बृहदारण्यक उपनिषद, I. 4.13.

77. महाभारत, II. 30.41, विशश्च मान्याशूद्राश्च सर्वानानयतेति च.

78. वही, II. 33.9, न तस्यां संनिधौ शूद्रः कश्चिदासीन्न चाव्रतः.

79. वाजसनेयि संहिता, XX. 17 (सौत्रामणि यज्ञ के अवसर पर); यच्छूद्रे यदय यदेनश्चकृमा वयं यदेकस्या धि धर्माणि तस्यावय जनमति. तैत्तिरीय संहिता, I. 8.3.1; काठक संहिता, XXXVIII. 5; देखें शतपथ ब्राह्मण, XII. 9.2.3.

80 वाजसनेयि संहिता, XX.9.

81. पाणिनीज ग्रामर, III. 1.103, अर्यः स्वामि वैश्ययोः.

82. वाजसनेयि संहिता, XX. 17 की टीका, वेदिक इंडेक्स में इसकी व्याख्या आर्य के अर्थ में की गई है.

83. ऐतरेय ब्राह्मण, VII. 29, ऊपर पृ० 59-60.

84. आपस्तम्ब श्रौतसूत्र (गार्वी संस्करण), XX. 5.13; शतं शूद्रा वरूथिनः; कात्यायन श्रौतसूत्र, XX. 50. ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में कुछ विद्वेष के चलते सत्याषाढ़ श्रौतसूत्र, जो आपस्तम्ब श्रौतसूत्र का लोकप्रिय संस्करण है, में 'शूद्र वरूथिन.' को छोड़ दिया गया है. सत्याषाढ़ श्रौतसूत्र, XIV. 1.46.

85. तैत्तिरीय संहिता, VI, 4.8; तस्माद् राज्ञा राजानम् अशभुवा घ्नन्ति वैश्येन वैश्यं शूद्रेण शूद्रम्.

86. महाभारत, V. 94.7; अस्ति कश्चिद्विशिष्टो वा मद्विधो वा भवेद्युधिः, शूद्रो वैश्यः क्षत्रियो वा ब्राह्मणो वापि शस्त्रभृत्.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

87. तेषामन्तकरं युद्धं देहपाप प्रणाशनम्, शूद्र विट्क्षत्रविप्राणां धर्म्यं स्वर्ग्यं यशस्करम्. महाभारत, VIII. 32.18, क्रिटिकल एडिशन में विप्राणाम् के स्थान में वीराणाम् पाठ आया है, किंतु उपर्युक्त मै० सं० के अनुवाद में भी आया है और अधिक उपयुक्त है.
88. कात्यायन श्रौतसूत्र, XX. 37.
89. शतपथ ब्राह्मण, XIII. 5.4.6.
90. वही, XIII. 4.2.17; आपस्तम्ब श्रौतसूत्र (गार्बीज संस्करण), XX. 5.18; कात्यायन श्रौतसूत्र, XX. 55; सत्याषाढ़ श्रौतसूत्र, XIII. 1.47.
91. जैमि० ब्राह्मण, II. 266-267.
92. ऐतरेय ब्राह्मण, VIII. 4.
93. तैत्तिरीय संहिता, III. 5.10 यजुओं के अन्य संग्रहों में समानांतर पाठ नहीं हैं.
94. जैमि० ब्राह्मण II. 102 शांखायन श्रौतसूत्र, XIV. 33.18-19 में यही विचार कुछ भिन्न रूप में दुहराया गया है.
95. तैत्तिरीय सं०, V. 7.6.4. रुचं वैश्येषु शूद्रेषु मयि धेहि रूचारूचम्, वाजसनेयि सं० XVIII. 48; काठक संहिता XL. 13; मैत्रायणि संहिता III. 4.8; तै० सं० V, 7.6. शतपथ ब्राह्मण IX. 4.2.14 में रूचं नो धेहि ब्राह्मणेष्विति कहा गया है. जे० इगेलिंग मानते हैं कि अन्य तीन वर्ण अंतर्निहित हैं, अतः इस परिच्छेद का अनुवाद करने में उनका उल्लेख कोष्ठक में किया है (सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, Xliii, 238). किंतु इस ग्रंथ में प्रायः ब्राह्मणों द्वारा अपने पौरोहित्यजन्य दावे के हित में प्राचीन धार्मिक कृत्यों के नाम पर धोखेबाजी करने का विशेष उदाहरण प्रस्तुत किया गया है.
96. शतपथ ब्रा०, V. 3.5.11-14; तैत्ति० ब्रा० I. 7.8.7; बाराह श्रौतसूत्र, III. 3.2.48.
97. जायसवाल : पूर्व निर्दिष्ट, II, पृ० 25. आगे चलकर जायसवाल ने जो कहा है उसका अर्थ है कि बाद में शूद्र हमेशा अभिषेक समारोह में भाग लेता हुआ जान पड़ता है, किंतु जब तक हम अग्निपुराण, जो मध्ययुग के आरंभ की रचना है, में वर्णित राज्याभिषेक समारोह तक नहीं पहुंचते (अध्याय 218, 18-20) तब तक इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता.
98. घोषाल : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 265-66 और एस० वी० वेंकटेश्वर : पूर्व निर्दिष्ट भाग I, पृ० 11. विभिन्न प्रकार के अर्थों के लिए देखें.
99. ऐतरेय ब्राह्मण, VII. 20.
100. शतपथ ब्रा०, I. 3.4.15; II. 5.2.6; देखें XII. 7.3.15.
101. वही, XI. 2 7.16.
102. शांखायन श्रौतसूत्र, XVI. 17.4 वेदिक इंडेक्स ii, 256 में उद्धृत.
103. बाराह श्रौतसूत्र, III. 1.1.1; घोषाल : पूर्व निर्दिष्ट पृ० 283. लेकिन क्षत्रिय के साथ वैश्य भी वाजपेय यज्ञ के छोटे-मोटे समारोहों से संबद्ध था (कात्यायन श्रौतसूत्र XIV. 75).
104. तैत्तिरीय ब्राह्मण, III. 3.11.2 (भट्ट भास्कर की टीका सहित).
105. घोषाल : हिंदू पब्लिक लाइफ, i, पृ० 73-80.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

106. वाजसनेयि संहिता, XVIII. 38-44; कण्व संहिता, XX. 2.
107. शतपथ ब्राह्मण, III. 5.2.11; III. 6.1.17-18; IX. 4.1.7-8.
108. वही, VI, 4.4.12-13.
109. वही, VI. 6.3.12-13.
110. वही, पृ० 52.
111. ऐतरेय ब्राह्मण, VIII. 4; विशं चैवास्मै तच्छौद्रं च वर्णम् अनुवर्तमानौ कुर्वन्ति.
112. ऐतरेय ब्राह्मण, VII. 29.
113. वही, VII. 27-8.
114. म्यूर, हेग और वेबर ने इस शब्द का अर्थ किया है 'इच्छानुसार गमन करने वाला'. किंतु इस क्रिया पद का प्रयोग प्रेरणार्थक अर्थ में हुआ है (वेदिक इंडेक्स, ii, पृ० 255), जिसे सायण ने मान्यता दी है.
115. ऐत० ब्रा०, VIII. 29; अथ यदि अट:, शूद्राणां स भक्षः, शूद्राविस्तेन भक्षेन जिमिष्यासि, शूद्रकल्पस्ते प्रजायामाजनिष्यते.
116. कीथ : पूर्व निर्दिष्ट, XXV, पृ० 315.
117. ऐतरेय ब्राह्मण का अनुवाद, पृ० 485.
118. घोषाल : पूर्व निर्दिष्ट, i, पृ० 158.
119. मध्यरात्रादौ यदाकदाचिद्दिन इच्छा भवति तदानीम् अयम् उत्थाप्यते.
120. पाणिनि व्याकरण, II. 4.10.
121. कीथ : पूर्व निर्दिष्ट, XXV, पृ० 315.
122. वध्य: —कुपितेन स्वामिना ताड्यो भवति इच्छामनतिक्रम्य.
123. III, 11; V. 16 और X. 11.
124. III. 9; IX. 15, 16, 18; X. 29.
125. हेग : ऐतरेय ब्राह्मण का अनुवाद, पृ० 485.
126. वेदिक इंडेक्स; ii, पृ० 256.
127. कीथ : केम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया, i, पृ० 128-9; दत्त : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 166; घोषाल : हिंदू पब्लिक लाइफ, i, पृ० 167.
128. वेदिक इंडेक्स, ii, पृ० 331.
129. तैत्तिरीय ब्राह्मण, I. 5.9.5-6; III. 4.1.7.
130. कीथ : हार्वर्ड ओरिएंटल सीरीज, XXV, पृ० 29; वेदिक इंडेक्स, ii, पृ० 256.
131. वाजसनेयि संहिता, XIV. 30; मैत्रायणि संहिता, II. 8.6; काठक संहिता, XVII, 5; कात्यायन संहिता, XXVI. 24; तैत्तिरीय संहिता IV. 3.10.2.
132. शतपथ ब्राह्मण, XIII. 2.9.8; तैत्तिरीय ब्राह्मण, III. 9.7.3; वाजसनेयि संहिता, XXIII. 30-31
133. वाजसनेयि संहिता, XXII, 30; शूद्रा यदर्यजारा न पोषाये धनायति. मैत्रायणि संहिता, III.13.1; तैत्तिरीय संहिता, VII. 4.19.13; काठक संहिता (अश्वमेध) V. 4.8; शांखा० श्रोतसूत्र, XVI. 4.4-6.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

134. वाजसनेयि संहिता, XXIII. 30 पर महीधर और उवट की टीका.
135. वेदिक इंडेक्स, ii, पृ० 391.
136. जे० इगेंलिंग : सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, XlIV, पृ० 326.
137. कीथ : केम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया, i, पृ० 126.
138. पंचविंश ब्राह्मण, XIV. 6.6.
139. वही.
140. ऐतरेय ब्राह्मण, VII. 19 सायण की टीका सहित.
141. वेदिक इंडेक्स, ii, पृ० 259; बृहद्देवता, IV. 24-25.
142. पंचविंश ब्राह्मण, XIV. 11.17.
143. वायु पुराण, ii, 37 67-94.
144. आदि पर्वन्, 98.25.
145. मुखर्जी : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 52.
146. सायण के अनुसार वेदिक इंडेक्स, i, पृ० 121-122.
147. जैमिनीय उप०, II. 2.5-6.
148. वेदिक इंडेक्स, 42.22-26.
149. अनुशासन पर्वन् (कुम्ब० संस्करण), 53.13-19.
150. वही, 53.38.
151. शांखायन श्रौतसूत्र, XVI. 4.4.
152. घुर्ये : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 51.
153. कीथ : पूर्व निर्दिष्ट, i, पृ० 129.
154. शांखायन ब्रा० XXVII. 1. यह ब्राह्मण शतपथ और ऐतरेय ब्राह्मणों के बाद का माना जाता है.
155. छांदोग्य उपनिषद्, VI. 10.7.
156 रामायण, I. 58.10-11; जान पड़ता है कि त्रिशंक जो श्यामवर्ण का था, संभवतः चंडाल जाति का नेता था.
157. वाजसनेयि संहिता, XXX. 21; तैत्तिरीय ब्राह्मण, III. 4.1-17.
158. वही, 17; तैत्तिरीय ब्राह्मण, III. 4.1-14.
159. ऐतरेय ब्राह्मण, VII. 15-17; शांखायन श्रौतसूत्र, XV. 24.
160. वही, 17, नापागः शौद्रान् न्यायाद् असंधेयं त्वया कृतम्.
161. वही, 18.
162. वही, 18 की टीका, चण्डालादि रुपान् नीचजातिविशेषान्.
163. वाजसनेयि संहिता, XXVI. 2; यथेमां वाचं कल्याणी मावदानि जनेभ्यः, ब्रह्म राजन्याभ्याम् शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च.
164. मुकर्जी : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 53.
165. उवट और महीधर द्वारा प्रस्तुत वाजसनेयि संहिता, XXVI.2 की टीका.
166. शतपथ ब्राह्मण, I. 1.4.12.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

167. छांदोग्य उपनिषद्, II. 23 1-2. जी० सी० पांडेय : दि ओरिजिंस आफ बुद्धिज्म, पृ० 322-23; जी० सी० पांडेय का विचार है कि चार आश्रमों का सिद्धांत बुद्धदेव के पहले नहीं था.
168. अथर्ववेद, XI. 5.3.
169. अल्टेकर : एडुकेशन इन एनशिएंट इंडिया, पृ० 10.
170. तैत्तिरीय संहिता, VI. 3.10; गोपथ ब्राह्मण, I 2.2 और 4; शतपथ ब्राह्मण, XI. 54.12.
171. बृहदारण्यक उपनिषद्, V. 2.1.
172. अथर्ववेद, XI 5; पंचविंश ब्राह्मण, XVII. 1.2 ब्लूमफील्ड की राय है कि परिवर्तित व्रात्य को शुद्ध ब्रह्मचारिन् कहा गया है. अथर्ववेद, पृ० 94.
173. वेंदिदाद, XVIII, 9 और 54.9; स्पीगल : अल्टिरानिस्चेस्कुन्डे, iii, पृ० 700 देखें, पृ० 548-49 भी.
174. गाइगर : सिविलाइजेशन आफ दि ईस्टर्न ईरानियंस इन एनशिएंट टाइम्स' i, पृ० 58-9.
175. टामसन : स्टडीज इन एनशिएंट ग्रीक सोसाइटी, i, पृ० 272.
176. छांदोग्योपनिषद्, IV. 1.1-8, 3.1-4.
177. जैमिनीय ब्राह्मण, III. 7.3.2 इसे जैमिनीय उप० ब्राह्मण, III. 7.3.2 में नगरी जानश्रुतेयः भी कहा गया है. औपवि जानश्रुतेय ने वाजपेय यज्ञ किया था (शतपथ ब्राह्मण, V. 1.1.5 और 7).
178. विंटरनिज : पूर्व निर्दिष्ट, i, पृ० 229, पाद टिप्पणी 3.
179. तैत्तिरीय ब्राह्मण, III. 12.9.2.
180. शतपथ ब्राह्मण, XIII. 4.3.7-13.
181. वही, देखें छांदोग्य उपनिषद्, VII. 1.1.
182. छांदोग्य उपनिषद्, VIII. 14.1.
183. सत्या० श्रौतसूत्र, XIX. 3.26.
184. वही, XIX. 1.4; XXVI. 1.20.
185. वही, XXVI. 1.6.
186. द्राह्या० श्रौतसूत्र, VII. 3.14.
187. सत्या० श्रौतसूत्र, XIX. 4.13.
188. बौधायन गृह्यसूत्र, II. 5.6.
189. गेल्ड : एथनालजी आफ दि महाभारत, पृ० 241-2.
190. सेनार्ट : कास्ट इन इंडिया, पृ० 118.
191. हापकिंस, मुखर्जी : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 10-11, 14. हाल में हस्तिनापुर में हुई खुदाई में बहुत से औजार, जो सुई की तरह नोकदार हैं, प्राप्त हुए हैं; जो नौ सौ से पांच सौ ई० पू० के कहे जाते हैं, किंतु यह निश्चित नही है कि उनका प्रयोग लिखने के लिए किया जाता था.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

192. हार्पकिस, मुखर्जी : वही, पृ० 339-40.
193. शांखायन गृह्यसूत्र, II. 7.21-25.
194. तैत्तिरीय ब्राह्मण, I. 1.4.8; आपस्तम्ब श्रौतसूत्र (गार्बीज संस्करण), V. 11.7; कात्यायन श्रौतसूत्र, I. 9; सत्या० श्रौतसूत्र, III. 1; वाराह श्रौतसूत्र, I. 1.1.4.
195. आपस्तम्ब श्रौतसूत्र, (कैलेंड और गार्बीज संस्करण), V. 3.19; कात्यायन श्रौतसूत्र, IV. 179-81; सत्या० श्रौतसूत्र, III. 2; वाराह श्रौतसूत्र, I. 4.1.1; वैखानस श्रौतसूत्र, I. 1; आश्व० श्रौतसूत्र, II. 1.13.
196. तक्षककर्मोपजीव्युपकृष्ट इत्युच्यते. आश्व० श्रौतसूत्र, II. 1.13; नारायण की टीका सहित.
197. आप० श्रौतसूत्र (गार्बीज संस्करण), IX. 14-11; सत्या० श्रौतसूत्र, XV. 4.19; वाराह श्रौतसूत्र, I. 1.1.5.
198. आपस्तम्ब श्रौतसूत्र (गार्बीज संस्करण), IX. 14.11; सत्या० श्रौतसूत्र, XV 4.19; वाराह श्रौतसूत्र, I. 1.1.5.
199. सत्या० श्रौतसूत्र, III.1.
200. सत्या० श्रौतसूत्र की टीका, III. 1.
201. महाभारत, I. 61.48.
202. ऋग्वेद, X. 53.4.
203. निरुक्त, III.8 औपमन्यव निषाद शब्द को निषाद स्थपति मानते हैं. निरुक्त, III. 8 के बारे में एकन्दस्वामी और महेश्वर के विचार.
204. मुकर्जी : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 52-53.
205. जैमिनीय ब्राह्मण II. 184; ···निषादेपु हेव ता वसेद्···वैश्ये वा ह ता भ्रातृयुये वा वसेद् राजनि हैव ता वसेद्; पंचविंश ब्राह्मण, XVI. 6.7; कौषीतकि ब्राह्मण, XXV. 15; आपस्तम्ब श्रौतसूत्र (गार्बीज संस्करण), XVII. 26.18; लाट्यायन श्रौतसूत्र, VIII. 2.8.
206. लाट्यायन श्रौतसूत्र, VIII. 2.8 की टीका में निषाद ग्राम का प्रसंग आया है.
207. शेफर : एथनोग्राफी आफ एनशिएंट इंडिया, पृ० 10.
208. शतपथ ब्राह्मण, I. 1.4.11-12; आपस्तम्ब श्रौतसूत्र (कैलेंड संस्करण), I. 19.9.
209. शतपथ ब्राह्मण, V. 5.4.9; चत्वारो वै वर्णाः, ब्राह्मणो राजन्यो वैश्यः शूद्रो न हैतेषामेकश्चन भवति यः सोमं वमति, स यत् हैतेषामेकश्चित्स्यात् तस्याद्धैव प्रायश्चितति:.
210. ऐतरेय ब्राह्मण, II. 19; हार्पकिस : रेलिजंस आफ इंडिया, पृ० 477.
211. काठक संहिता, XI. 10.
212. आज्यमन्थं ब्राह्मणः पयोमन्थं राजन्यो दधिमन्थं वैश्य उदमन्थं शूद्रः. सत्या० श्रौतसूत्र, XXIII. 4.17. इस कंडिका से शूद्रों की सापेक्ष गरीबी का परिचय मिलता है.
213. आश्व० श्रौतसूत्र, II. 9.7.
214. कात्या० श्रौतसूत्र, XIII. 40-41; पंच० ब्रा०, V. 5.14; सत्या० श्रौतसूत्र, XVI.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

6.28, शूद्रार्यों चर्मणि परिमण्डले व्यायच्छेते जयत्यार्यः.
215. जैमिनीय ब्राह्मण, II. 404-5. आर्यवर्ण शब्द काठक संहिता में आया है, XXXIV. 5 किंतु उसमें शूद्र वर्ण का कोई उल्लेख नहीं है.
216. शांखा० श्रौतसूत्र, XVII. 6.1-2; लाट्यायन श्रौतसूत्र, IV. 3.9.5-6.
217. तैत्तिरीय ब्राह्मण, I. 2.6.7.
218. वाजसनेयि संहिता, XXX. 22, अशूद्रा अब्राह्माणास्ते प्राजापत्याः.
219. शांखायन श्रौतसूत्र, XVII. 6.1-2.
220. शतपथ ब्राह्मण, XIII. 8.3.11. यह ध्यातव्य है कि क्षत्रियों की समाधि सबसे ऊंची होती थी और उसके बाद ब्राह्मणों की.
221. बृहदारण्यक उप०, I. 4.11-13.
222. हापकिंस : एपिक माइथालोजी, पृ० 168
223. शतपथ ब्राह्मण, V. 3.1.8.
224. वही, V. 3.1.9.
225. तैत्तिरीय ब्राह्मण, II. 7.2.1 और 2.
226. तैत्तिरीय संहिता, VII. 1.1.4-5; पंचविंश ब्राह्मण, VI. 1.6-11.
227. तैत्तिरीय ब्राह्मण, II. 101; शांख० श्रौतसूत्र, XV. 10.1-4.
228. शांखायन श्रौतसूत्र में प्रजापति की चर्चा नहीं है.
229. जैमिनीय ब्राह्मण, III. 101.
230. दत्त : पूर्व निर्दिष्ट i, 60-61.
231. ऋग्वेद I. 117-21; यावं वृकेणाश्विना वपन्तेषाम् दुहंता मानुषाय दसा….
232. मैत्रायणि संहिता, II. 9.5.
233. वाजसनेयि संहिता, XVI. 27; काठक संहिता, XVII. 13; कपिष्ठल संहिता, XXVIII. 3; मैत्रायणि संहिता, II. 9.5; तैत्तिरीय संहिता, IV. 5.4.2; कण्व संहिता, XVII.4.
234. तैत्तिरीय संहिता, IV. 5.4.2.
235. वेदिक इंडेक्स, ii. पृ० 249-50.
236. वेबर : इंडियन लिटरेचर, पृ० 110-111.
237. वही.
238. शतपथ ब्राह्मण, V. 3.1.10.
239. ऊपर देखें, पृ० 71.
240. तैत्तिरीय संहिता, VIII. 1.1; पंचविंश ब्राह्मण, VI. 1.6-11.
241. वाजसनेयि संहिता, XIV. 30; शतपथ ब्राह्मण, VIII. 4.3.12.
242. तैत्तिरीय ब्राह्मण, III. 2.3.9; कात्या० श्रौतसूत्र, I. 5; देखें शांखा० श्रौतसूत्र, I. 1.1-3; आश्वलायन श्रौतसूत्र, I. 3.3.
243. तैत्तिरीय ब्राह्मण, III. 2.3.9.
244. शतपथ ब्राह्मण, VI. 4.4.9.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

245. मैत्रायणि संहिता, III. 1.5; III. 2.2; तैत्तिरीय संहिता, V. 1.4.5; कात्या० संहिता, XIX.4 और कपिष्ठल संहिता XXX. 2 में केवल ब्राह्मण और राजन्य का उल्लेख हुआ है. वैश्य को भी छोड़ दिया गया है.
246. शतपथ ब्राह्मण, II 5.2.36.
247. वही, III. 2.1.40.
248. वेदिक इंडेक्स, ii, 390.
249. कात्यायन श्रौतसूत्र, VII. 105.
250 आपस्तम्ब श्रौतसूत्र (गार्वीज संस्करण), VI. 3.7 रुद्रदत्त की टीका सहित.
251. तैत्तिरीय ब्राह्मण, III. 2.3.9-10; कपिष्ठल संहिता, XLVII. 2; मैत्रायणि संहिता, IV. 1 3; आपस्तम्ब श्रौतसूत्र (गार्वीज संस्करण), VI. 3.11; बौधायन श्रौतसूत्र, XXIV. 31; शांखा० श्रौतसूत्र, II. 8.3; सत्या० श्रौतसूत्र, III.7.
252 आपस्तम्ब श्रौतसूत्र (गार्वीज संस्करण), VI. 3.12, असतो वा एष संभूतो यच्छूद्रः.
253. मैत्रायणि संहिता, I. 8.3.
254. आपस्तम्ब श्रौतसूत्र (गार्वीज संस्करण, II, भूमिका, पृ० XII.
255. वही, VI. 3.13, दुह्याद वा.
256. आपस्तम्ब श्रौतसूत्र, VI. 3.13 की रुद्रदत्तीय टीका.
257. तैत्तिरीय ब्राह्मण, III. 2.3.9-10.
258. शतपथ ब्राह्मण, III. 1.1.10; न शूद्रेण सम्भाषेरन्. द्रा० श्रौतसूत्र, VIII. 3.14; लाट्यायन श्रौतसूत्र, III. 3.15-16; के अनुसार यह शर्त सत्र यज्ञ के याजक पर भी लागू है. सत्या० श्रौतसूत्र, X.2.
259. द्रा० श्रौतसूत्र, VIII. 3.14; सत्या० श्रौतसूत्र, XXIV. 8·16 में कहा गया है कि महिला के साथ भी ब्रह्मचारिन् को ब्रह्मचर्य धारण करने के पश्चात बातचीत नहीं करनी चाहिए.
260. शतपथ ब्राह्मण, XIV. 1.1.31; सत्या० श्रौतसूत्र XXIV. 1.13 में भी.
261. आर० एस० शर्मा, (जर्नल आफ दि बिहार रिसर्च सोसायटी, XXXVI), 183-191.
262. शतपथ ब्राह्मण, XIV. 9.4.12.
263. शतपथ ब्राह्मण, I. 1.3.12, अशुद्धस्तक्षा. बनर्जी : स्टडीज इन दि ब्राह्मणाज, पृ० 127, पाद टिप्पणी 2. ब्रफ का कथन है कि यह प्राचीन काल के उस विचार के चलते हुए होगा जिसके अनुसार वृक्षों को अपवित्र करने से वन के देवी देवताओं का तिरस्कार होता था.
264. शतपथ ब्राह्मण, II. 3 1.31. कण्व द्वारा निर्धारित पाठ में यह द्रष्टव्य है.
265. I. 4 12.
266. न ते शक्या दरिद्रेण यज्ञाः प्राप्तं पितामह, बहूपकरणा यज्ञा नाना सम्भारविस्तराः. पार्थिवै राजपुत्रैर्वा शक्याः प्राप्तुंपितामह, नार्थन्यूनैरवगुणैरेकात्मभिरसंहतैः. महाभारत (कुम्ब०), XIII 164 2-3; (कल०) XII. 107. 2·3. यह अनुच्छेद बहुत बाद का है, किंतु इसे हम उत्तरवैदिककाल की परिस्थितियों का सूचक मान सकते हैं.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

267. यो ब्राह्मणो राजन्यो वैश्यश्शूद्रो वा असुर इव बहुपुष्टस्यात्तस्य गृहादाहृत्यादध्यात् पुष्टिकामस्य । आपस्तम्ब श्रौतसूत्र (गार्बी संस्करण), V. 14.1. इसमें कोई संदेह नहीं कि विशेषण 'बहुपुष्टः, ब्राह्मण, राजन्य और वैश्य पर भी लागू होता है, किंतु शूद्र के मामले में यह विशेष महत्व का प्रतीत होता है, जिसे अग्नि से निकाला हुआ कहा गया है.

268. इगलिंग : पूर्व निर्दिष्ट, XII, प्रस्तावना, पृ० XIII.

269. इंडियन कल्चर, XII, 183.

270. रैप्सन : पूर्व निर्दिष्ट, i, 129.

271. आर० जी० फार्ब्स : मेटलर्जी इन एंटिक्विटी, पृ० 79.

272. वेदिक इंडेक्स, II, पृ० 390; दत्त : ओरिजिन एंड ग्रोथ आफ कास्ट, पृ० 101-5; वलवल्कर : हिंदू सोशल इंस्टीट्यूशंस, पृ० 288.

273. बृहदारण्यक उपनिषद, शंकर की टीका सहित, IV. 3.22.

274. छांदोग्य उपनिषद, V. 24.4.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

दासता और अशक्तता

(लगभग छः सौ ई० पू० से लगभग तीन सौ ई० पू० तक)

वेदों के बाद वाले युग में शूद्रों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए ब्राह्मणग्रंथों के अतिरिक्त बौद्ध और जैन ग्रंथों का भी सहारा लिया जा सकता है। ये ब्राह्मण-ग्रंथ मुख्यतया धर्मसूत्र (विधिग्रंथ), गृह्यसूत्र (घरेलू कर्मकांड के ग्रंथ) और पाणिनि के व्याकरण हैं। इन ग्रंथों का कालक्रम मोटे तौर पर ही निर्धारित किया जा सकता है। काणे ने इस विषय से संबंधित नवीनतम रचना में सिद्ध किया है कि प्रमुख धर्मसूत्र लगभग छः सौ-तीन सौ ई० पू० के हैं।[1] इन सूत्रों में भाषागत प्रयोग की जो स्वतंत्रता दीख पड़ती है, वह पाणिनि के प्रभाव के पूर्णतया व्याप्त हो जाने के बाद संभव नहीं रही होगी,[2] और पाणिनि का व्याकरण ई० पू० पांचवीं शताब्दी के मध्य का माना गया है।[3] गौतम का विधिग्रंथ, जिसमें शूद्रों से संबंधित अधिकांश सूचनाएं मिलती हैं, धर्मसूत्रों में सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है।[4] किंतु यह बतलाता है कि यवन की उत्पत्ति शूद्र स्त्री और क्षत्रिय पुरुष से हुई थी।[5] बाद के धर्मशास्त्रों की ही तरह इसमें वैश्यों और शूद्रों के सहोल्लेख के कई दृष्टांत मिलते हैं।[6] इसमें संपूर्ण भारत में समान ढंग के कानून चलाने का प्रयास,[7] गोवध के लिए दंडविधान[8] और लगभग बीस वर्णसंकरों का वर्णन[9] मिलता है। इन सब बातों से पता चलता है कि गौतम के विधिग्रंथ में पीछे चलकर व्यापक संशोधन किए गए।[10] अतः संभव है कि इस ग्रंथ में वर्णित समाज संबंधी सभी कानूनों से मौर्यपूर्व काल की स्थिति का आभास नहीं मिले।

आर्यों के देश, आर्यावर्त, जिस पर धर्मसूत्र लागू होने वाले थे, के अंतर्गत पंजाब, बिहार तथा हिमालय और मालवा की पहाड़ियों के बीच के भूक्षेत्र हैं।[11] किंतु कानूनों के निर्माता बौधायन दक्षिण के निवासी थे। आपस्तंब के बारे में यही बात निश्चयपूर्वक नहीं कही जा सकती, क्योंकि उन्होंने उत्तर के निवासियों (उदीच्यों) में प्रचलित विशेष ढंग की श्राद्ध प्रथा का उल्लेख किया है।[12] वसिष्ठ की विचारधारा संभवतया उत्तर-पश्चिम भाग में फूली फली।[13] प्रमुख गृह्यसूत्र, जो प्राचीन भारतीयों के दैनिक जीवन के बारे में सर्वाधिक विश्वसनीय विवरण

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

माने जाते हैं,[11] ई० पू० छः सौ-तीन सौ के बताए गए हैं।[15]

बौद्ध ग्रंथों में सुत्तों (वार्तालाप) के चार संग्रह, अर्थात दीघ, मज्झिम, संयुत्त और अंगुत्तर[16] और साथ ही विनय पिटक[17] सामान्यतया मौर्यपूर्व काल के माने जा सकते हैं। जातकों का कालनिर्धारण अधिक टेढ़ा काम है,[18] क्योंकि इसकी गाथाएं, जो धर्म से संबंधित हैं, सर्वाधिक प्राचीन काल की हैं। किंतु अतीत की कथाएं भी, जो टिप्पणी के रूप में गद्य में लिखित हैं, मौर्यपूर्व काल की कही जा सकती हैं। वर्तमान कथाओं में कहीं कहीं मौर्यकालीन परिस्थितियों का चित्रण मिलता है, जिससे स्पष्ट है कि वे बाद में जोड़ी गई हैं।[19] यद्यपि अतीत की कथाओं के घटनास्थल भारत के पश्चिमी या मध्यवर्ती भाग के हैं, फिर भी वर्तमान की अधिकांश कथाओं का घटनास्थल सावत्थी या राजगृह है।[20] इसके अतिरिक्त, जातक के तृतीय, चतुर्थ और पंचम खंड सामान्यतया ऐसे खंड समझे जा सकते हैं जिनके वर्तमान रूप प्रथम और द्वितीय खंडों की अधिकांश साधारण कथाओं के बाद के हैं।[21]

हाल में यह सुझाव दिया गया है कि जातक समाज के ऐसे चरण के प्रतीक हैं जो, संभवतया सातवाहन काल में, व्यापार के अनुकूल था।[22] किंतु चांदी और तांबे की आहत मुद्राएं तथा नार्थ ब्लैक पालिश्ड वेयर (उत्तर क्षेत्रीय परिष्कृत कृष्ण पात्र) के युग (लगभग छः सौ-दो सौ ई० पू०) की बहुत सारी लौह वस्तुएं जो मिली हैं उनसे स्पष्ट है कि नगर जीवन का आरंभ[23] और व्यापार एवं वाणिज्य का विकास निश्चित रूप से बुद्धकालीन युग में हो चुका था।[24] इनके अलावा, यदि उद्योग और वाणिज्य विषयक कौटिल्य के नियम विनियम मौर्य काल के बारे में सच हैं तो उनसे यह धारणा बन सकती है कि उससे पूर्वकाल में ऐसे आर्थिक कार्यकलाप कुछ प्रगति कर चुके थे। फिर, जातकों में दक्षिण भारत के व्यापार और वाणिज्य का उल्लेख विरले ही है; यद्यपि, सातवाहनों के युग में, उसके साथ रोमनों का सक्रिय संपर्क था। जातकों में उन बहुतेरे संघों और व्यवसायों का भी उल्लेख नहीं है जो हमें सातवाहन काल में मिलते हैं।[25] चूंकि बुद्ध की जन्मकथाएं ई० पू० दूसरी शताब्दी में ही सांची और भारहुत के चित्रों और मूर्तियों में दिखाई गई हैं, इसलिए उन्हें खासकर ऐसे देश में, जहां प्राचीन धार्मिक परंपराएं मध्यकाल तक कला का आधार बनी रहीं, कम से कम दो शताब्दी पहले का मानना चाहिए। इस प्रकार यद्यपि जातक गाथाओं और अतीतकालीन कथाओं से पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले दो-तीन शताब्दियों में स्थिति कैसी थी, फिर भी अध्ययन की दृष्टि से जातकों के वे भाग जिनमें चंडालों का वर्णन किया गया है, बाद में जोड़े गए माने जा सकते हैं; क्योंकि इन उपेक्षित लोगों के प्रति जातक में जो निर्देश हैं उनकी पुष्टि मौर्यकाल से पूर्व के ब्राह्मण ग्रंथों से नहीं होती है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि मनु ने वर्णसंकर अर्थात मिश्रित

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

जातियों की जो सूची दी है उस प्रकार की सूची जातकों में नहीं मिलती है।

जैन ग्रंथों की कालावधि अधिक अनिश्चित है, क्योंकि उनका संपादन और अध्ययन उस रूप में नहीं हो पाया है जिस रूप में बौद्ध ग्रंथों का हुआ है। कहा जाता है कि जैन धर्मग्रंथों का संकलन सर्वप्रथम ई० पू० चौथी शताब्दी के अंत या तीसरी शताब्दी के आरंभ में किसी समय हुआ था।[26] किंतु इन ग्रंथों में चंकि महावीर का जीवन वृतांत है, इसलिए इनका उपयोग मौर्यकाल के पूर्व की स्थिति के लिए किया जा सकता हैं, जिससे वे काल की दृष्टि से बहुत दूर नहीं हैं।

इन साहित्यिक रचनाओं की प्रामाणिकता पर अनेक प्रकार के मत व्यक्त किए गए हैं और ऐतिहासिक रचनाओं या पुरातात्विक अभिलेखों के अभाव में इन मतों की व्याख्या करना कठिन है। बौद्धग्रंथों के समर्थन की दृष्टि से ब्राह्मणग्रंथों की अवहेलना की भी मनोवृत्ति देखने में आई है।[27] कहा जाता है कि धर्मशास्त्रों में वर्णों को नियत ढांचों में समाविष्ट करने का प्रयास सर्वथा कृत्रिम और आनुमानिक है।[28] इस मत के विरोध में तर्क दिया गया है कि अनेक धर्मसूत्रों में समान रूप से कही गई बातों का कुछ तथ्यात्मक आधार अवश्य होगा।[29] कहा जाता है कि ऐसा आरोप मध्यकालीन यूरोप के रूढ़िवादी लेखकों पर लगाया जाता था जिसका खंडन आधुनिक विद्वानों ने किया है।[30] किंतु ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणेतर ग्रंथों पर ही सर्वथा निर्भर करना उचित नहीं होगा। मौर्यकाल के पूर्व की सामाजिक स्थिति के यथार्थ विवरण के लिए सभी प्रकार के ग्रंथों के समन्वित अध्ययन को ही आधार बनाया जा सकता है।[31] दुर्भाग्यवश ऐसा यथार्थ विवरण न तो 'कैंब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया', खंड-1[32] और न 'दि एज आफ इंपीरियल यूनिटी' में ही उपलब्ध है। दूसरी पुस्तक में ई० पू० छः सौ से लेकर सन तीन सौ ई० तक की कालावधि के साहित्यिक ग्रंथों में उपलब्ध सामग्री को एक जगह जुटाकर रखने का प्रयास तो किया गया है, किंतु धर्मसूत्रों और गृह्यसूत्रों की बिल्कुल उपेक्षा कर दी गई है।[33]

इन सभी स्रोतों द्वारा अनुप्रमाणित तथ्यों को ग्रहण करने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती है। जहां इन ग्रंथों में मत साम्य नहीं है, वहां बौद्ध और जैन ग्रंथों में प्रस्तुत सामग्री को धर्मसूत्रों में नियमबद्ध बातों की अपेक्षा सामाजिक अवस्थाओं का विशेष परिचायक माना जाना चाहिए। किंतु इनमें से किसी भी रचना में शूद्रों और समाज के अन्य अशक्त वर्गों के विचारों का वर्णन नहीं किया गया है। धर्मसूत्रों में ब्राह्मणों की श्रेष्ठता पर जोर दिया गया है तो बौद्ध और जैन ग्रंथों में क्षत्रियों के आधिपत्य की ओर झुकाव है। केवल छिटपुट ढंग से कहीं कहीं निम्न वर्गों के लोगों के प्रति थोड़ी बहुत सहानुभूति दिखलाई गई है। इनके अलावा धर्मसूत्रों से सामान्यतया उत्तर भारत की ही जानकारी मिलती है और बौद्ध तथा जैन ग्रंथ उत्तरपूर्वीय भारत की स्थिति पर प्रकाश डालते हैं।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

शूद्रों के बारे में कुछ प्रत्यक्ष जानकारी धर्मसूत्रों से, थोड़ी बहुत प्राचीन पालि ग्रंथों से और उससे भी कम जैन ग्रंथों से मिलती है। प्रायः इतनी अल्प जानकारी के ही कारण फिक ने तर्क दिया है कि केवल सैद्धांतिक विवादों को छोड़ कर प्राचीन पालि ग्रंथों में कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे सिद्ध होता हो कि शूद्र चतुर्थ वर्ण के रूप में वस्तुतः विद्यमान थे।[34] ओल्डनबर्ग ने, ठीक ही, इस विचार को सही नहीं माना है।[35] ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं जिनसे पता चलेगा कि किसी भी व्यक्ति को लोग उसकी जाति से जानते थे और जाति के आधार पर ही उसकी हैसियत स्थिर होती थी। जैसे, एक धनुर्धर की पहचान के लिए पूछा जाता था कि वह क्षत्रिय है या ब्राह्मण, वैश्य अथवा शूद्र।[36] बुद्धदेव ने अपने धर्मोपदेश के एक सामान्य उदाहरण में कहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति को यह जानकारी होनी चाहिए कि उसकी प्रियतमा क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य या शूद्र वर्ग में से किस वर्ग की है।[37] टी० डब्ल्यू० रीस डेविड्स भी, जो प्रायः ब्राह्मणों के साक्ष्य को बिल्कुल अस्वीकृत कर देते हैं, बताते हैं कि बौद्ध ग्रंथों में वर्णित चार वर्णों की व्यवस्था सामाजिक तथ्य के अनुकूल है।[38] इन बातों से स्पष्ट है कि बौद्धग्रंथों में शूद्रों को समाज का एक वर्ग माना गया है, यद्यपि इन ग्रंथों में उनके स्थान और कृत्यों को उतना स्पष्ट नहीं किया गया है जितना ब्राह्मण (कर्मकांड) विधियों में। शूद्र सेवक वर्ग के थे, यह बात उत्तरवैदिककालीन ग्रंथों से ध्वनित होती है। किंतु इस युग में धर्मसूत्रों ने साफ तौर पर जोर देकर कहा कि शूद्र को तीन उच्च वर्णों की सेवा करके अपने आश्रितों का भरण-पोषण करना है।[39] शूद्र को स्वतंत्र रूप से अपनी गृहस्थी चलानी पड़ती थी जिसके लिए उसे नाना प्रकार के व्यवसाय करने पड़ते थे। गौतम कहते हैं कि शूद्र यांत्रिक शिल्पों का सहारा लेकर अपना गुजर बसर करता था।[40] मालूम पड़ता है कि शूद्र समुदाय के कुछ लोग बुनकर के रूप में कार्य करते थे तो कुछ लकड़हारे, लोहार, चर्मकार, कुंभकार, रंगरेज आदि थे। यद्यपि इन शिल्पों का उल्लेख प्राचीन पालि ग्रंथों में हुआ है,[41] फिर भी इन्हें अपनाने वाले वर्ण कौन कौन से थे इसका कोई संकेत नहीं किया गया है। गहपति[42] सामान्यतया ब्राह्मणकालीन समाज के वैश्य से मिलता जुलता है और उसके बारे में एक जगह कहा गया है कि वह कला और शिल्प का व्यवसाय करके जीवननिर्वाह करता था।[43] यदि साधनसंपन्न व्यक्ति गहपति हो सकता था तो संभव है कि चुंद लोहार जिसने गौतम बुद्ध तथा उनके अनुयायियों को शानदार भोजन कराया था,[44] और संपन्न कुंभकार सद्दलपुत्त, जो पांच सौ कुंभकारी की दूकानों का मालिक था जिनमें अनेकानेक कुंभकार कार्य करते थे,[45] जैसे कुछ धनवान शिल्पी गहपति थे। यह बात एक हजार लोहारों के गांव के उस प्रधान के बारे में भी सत्य हो सकती है जिसने बोधिसत्त से अपनी कन्या का विवाह रचाया।[46] यद्यपि गहपति शब्द का प्रयोग अब इस प्रकार के शिल्पियों के

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

लिए किया जाता है, यह संभव है कि अपनी संपत्ति के कारण ही उनमें से कुछ लोग ऊंची जगह पा सके।

हम यहां शिल्पों और शिल्पियों के इतिहास की गवेषणा नहीं कर सकते, वह अलग शोध का विषय है। फिर भी यहां कुछ मूल बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है। शूद्र वर्ण के शिल्पी मौर्यपूर्व काल की कृषिअर्थव्यवस्था के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग थे। धातुशिल्पी न केवल बढ़ई और लोहारों के लिए कुल्हाड़ी, हथौड़ा, आरा और छेनी बनाते थे,[47] बल्कि खेती के लिए हल, कुदाल और इसी प्रकार के अन्य औजार भी तैयार करते थे,[48] जिससे किसान शहर के निवासियों के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न उपजाने में समर्थ हो सके। खुदाइयों से पता चलता है कि बौद्धकालीन किसान पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में लोहे के हथियारों का प्रयोग पहलेपहल बड़े पैमाने पर करने लगे। पालि ग्रंथों में लोहे के बने फाल की चर्चा है जिससे खेती होती थी। दक्षिण बिहार में लोहे की सबसे बड़ी खानें हैं जिस कारण लोहे के काम में बहुत शिल्पियों की जरूरत थी। नगर जीवन[49] और उन्नतिशील व्यापार एवं वाणिज्य, जो उत्तरपूर्व भारत में पहली बार इस युग में दिखाई पड़ते हैं, शिल्पियों द्वारा प्रचुर वस्तुउत्पादन के बिना संभव नहीं हो पाते। मुख्य नगरों में शिल्पियों का संघ होता था और उनके प्रधान का राजा से विशेष संबंध रहता था।[50] कुछ शिल्पी तो राजा के घरेलू कामों में लगे रहते थे और इस तरह उन्हें राजा का संरक्षण प्राप्त था। पाणिनि व्याकरण की टीका के अनुसार इन्हें राजशिल्पी कहा जाता था; इनमें राजनापित और राजकुलाल (कुंभकार) का उल्लेख विशेष रूप से हुआ है।[51] इसकी पुष्टि बाद की एक जातक कथा से भी होती है जिसमें राज कुंभकार और राज मालाकार की चर्चा आई है।[52] सेट्ठियों और गहपतियों से भी कुछ शिल्पी जुड़े हुए थे। हमें पता चलता है कि एक सेट्ठी का अपना दर्जी (तुन्नकार) था, जो उसके संरक्षण में रहता था और उसके घर का काम करता था।[53] गहपति के बुनकरों का भी उल्लेख हुआ है जो उसके लिए कपड़े बुनते थे।[54] किंतु अधिकांश शिल्पी प्रायः ऐसे मालिकों से संबद्ध नहीं थे; स्वतंत्र शिल्पियों के दृष्टांत के रूप में बढ़इयों[55] और लोहारों[56] के गांवों और नगरों में रहने वाले शिल्पियों[57] का उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। संभवतया राजा शिल्पियों के प्रमुख को प्रश्रय देकर उनके माध्यम से शिल्पी ग्रामों पर अपना थोड़ा बहुत नियंत्रण रखता था। जैसे, हजार लोहारों के ग्राम का जेत्थक (प्रधान) राजा का प्रियपात्र कहा गया है।[58] गांवों में बिखरे हुए शिल्पी परिवार जो कृषकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, इस तरह के नियंत्रण में नहीं थे। पाणिनि ने उन्हें ग्रामशिल्पिन् बताया है।[59] पाणिनि के अनुसार बढ़ई दो प्रकार के होते थे, ग्रामतक्ष, जो गांव में अपने ग्राहक के घर जाकर रोजाना मजूरी लेकर काम करते थे और कौटतक्ष जो अपने घर पर ही रहकर काम करता था।[60]

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

वह स्वतंत्र शिल्पी था जो किसी का काम स्वीकार करके उसके हाथ बंधता नहीं था।[61] एक जातक गाथा में किसी भ्रमणशील लोहार का प्रसंग आया है जो कहीं भी बुलाए जाने पर अपनी माथी साथ लेकर चलता था।[62] शिल्पियों के अपने औजार होते थे और कुछ मामलों में तो उन्हें निर्माण सामग्री प्राप्त करने की स्वतंत्रता थी। हमें ऐसे ब्राह्मण बढ़ई का पता चलता है जो जंगल से लकड़ी लाता था और गाड़ियां बनाकर अपना जीविकोपार्जन करता था।[63] कुंभकारों के साथ भी यही बात रही होगी, जिसे मिट्टी और जलावन मुफ्त मिल जाते थे। बुनकरों और धातुकर्म करने वालों के साथ यह स्थिति नहीं थी। लेकिन ये शिल्पी जिन लोगों की सेवा करते थे, वे उनके मालिक नहीं होते थे, जैसी स्थिति ग्रीस और रोम में थी। वहां दासों से शिल्पी का काम लिया जाता था[64] जो अपने मालिक की सेवा करते थे। सामान्य रूप में शिल्पियों पर राज्य का नियंत्रण उन पर बेगार लगाने तक ही सीमित था। कर देने के बदले उन्हें महीने में एक दिन राजा का काम करना पड़ता था।[65] अन्यथा, धर्मशास्त्रों से मालूम पड़ता है कि जो शूद्र शिल्पियों और कारीगरों का काम करते थे, वे स्वतंत्र व्यक्ति थे। उनके लिए ये व्यवसाय तब विहित थे जब वे सेवा करके अपना जीवनयापन नहीं कर पाते थे।[66]

लेकिन शूद्र समुदाय का अधिकांश संभवतया कृषि कार्यों में ही लगा रहता था। धर्मसूत्रों के अनुसार कृषि वैश्यों का विषय था,[67] जो स्वतंत्र किसान थे और उपज का एक हिस्सा राज्य को कर के रूप में चुकाते थे।[68] किंतु इस तथ्य से कि शूद्रों को जमीन की मालगुजारी नहीं चुकानी पड़ती थी, पता चलता है कि वे भूमिहीन मजदूर थे। आपस्तंब में कहा गया है कि शूद्र चरण पखार कर अपना गुजर बसर करते थे, अतः उन्हें करों से मुक्त कर दिया गया था।[69] इससे आभास होता है कि जो शूद्र दास नहीं थे, उन्हें कर चुकाना पड़ता था। पर इस विधिग्रंथ की एक पुरानी पांडुलिपि में पादावनेकता शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है,[70] अतः अनुमान किया जाता है कि शूद्रों को कर से मुक्त बताने का औचित्य सिद्ध करने के अभिप्राय से उक्त शब्द बाद में सन्निविष्ट कर दिया गया है। सामान्यतया शूद्रों के पास कोई कर योग्य भूसंपत्ति नहीं थी, इसलिए अधिकांश लोगों को दूसरों की जमीन में काम करना पड़ता था। मज्झिम निकाय के एक परिच्छेद में चारों वर्णों के उपार्जन का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह विषय सुस्पष्ट हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि ब्राह्मण अपना जीवनयापन भिक्षा से, क्षत्रिय तीर-धनुष के प्रयोग से, वैश्य खेती, गृहस्थी और पशुपालन से तथा शूद्र हंसिया से फसल काटकर और उसे अपने कंधों पर बहंगा से ढोकर करता था।[71]

प्राचीन पालि ग्रंथों के अन्य प्रसंगों में, खेत पर काम करने वालों के रूप में

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

शूद्रों की तो नहीं, लेकिन दासों और कम्मकारों (भाड़े के मजदूर) की चर्चा है। इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं कि भूमिहीन शूद्र कम्मकर के रूप में काम करते थे। ऐसे भी प्रमाण मिले हैं कि अधिकांश दास शूद्र वर्ण के थे। यह निष्कर्ष 'सुद्दो वा सुद्द दासो वा' वाक्यखंड से निकाला जा सकता है, जिसका प्रयोग बुद्धदेव ने प्रथम तीन वर्णों की गणना कराने के बाद शूद्र की स्थिति स्पष्ट करने की दृष्टि से किया था।[72] 'सुद्द दासो वा' का अनुवाद किसी व्यक्ति का गुलाम करना गलत होगा।[73] यह महत्वपूर्ण वाक्यखंड समानाधिकरण का स्पष्ट उदाहरण है और इसका तात्पर्य है शूद्र, जो गुलाम हो। क्षत्रिय, ब्राह्मण और सेट्ठी को छोड़कर, जिन्हें अन्यत्र गुलामों का मालिक बताया गया है, यहां शूद्रों को कैसे गुलामों का मालिक बताया गया, इसकी कोई व्याख्या नहीं। अतएव ओल्डेनबर्ग ने ठीक ही यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रसंगाधीन विवरण शूद्र और दास में कोई अंतर नहीं करता है।[74] यह महत्वपूर्ण है कि शूद्र को दास के साथ मिलाने का प्रयास सबसे पहले प्राचीन पालिग्रंथ में किया गया था, न कि धर्मसूत्रों में, जिनसे यह निष्कर्ष परोक्ष रूप में ही निकाला जा सकता है। कहीं मौर्योत्तर काल में जाकर मनु ने स्पष्ट और जोरदार शब्दों में इस स्थिति का उल्लेख किया है।

दासता केवल शूद्र वर्ण के सदस्यों तक ही सीमित नहीं थी। यहां तक कि ग्रामभोजक (ग्राम मुखिया)[75], मंत्रीगण[76], ब्राह्मण, क्षत्रिय और उच्चकुल में उत्पन्न लोग भी इस स्थिति में पहुंच जाते थे।[77] किसी भी हालत में ऐसे लोगों की संख्या अधिक नहीं रही होगी। अधिकांश दास मजदूर शूद्र वर्ण के होते थे।[78] ऋण, क्रय, अपनी स्वयं की इच्छा और भय से उत्पन्न दासता[79] की उम्मीद उच्च वर्णों की अपेक्षा निम्न वर्णों से ही अधिक की जा सकती है। उदाहरणार्थ, एक गाड़ीवान की कन्या, इसिदासी, अपने पिता द्वारा कर्ज न चुकाए जाने के कारण एक व्यापारी द्वारा दासी के रूप में घर लाई गई थी।[80] किंतु जातकों में कहीं यह उल्लेख नहीं है कि दास युद्ध में बंदी बनाए गए, जिससे पता चलता है कि इस अवधि में दासों की संख्या कम थी।[81]

कुछ दासों, खासकर महिलाओं को घरेलू कार्यों में नियोजित किया जाता था[82] और अन्य लोग कृषि कार्य में लगाए जाते थे। दास और भाड़े के मजदूर खेतों के छोटे छोटे टुकड़ों में भी काम करते थे,[83] किंतु प्रायः उन्हें बड़े बड़े भूखंडों में काम करना पड़ता था। उत्तर वैदिक युग में लोगों के पास उतनी ही जमीन थी जितनी वे अपने घर के सदस्यों की मेहनत से संभाल सकते थे। पर अब गंगा के निचले मैदानों में लोहे के फाल के उपयोग के कारण बड़े बड़े खेत कायम हुए। एक एक घर के पास इतनी अधिक जमीन आ गई जिसे वह अपनी मेहनत से नहीं जोत सकता था। इसलिए पहले पहल बुद्धकालीन युग में संपन्न घरों को खेती चलाने के लिए दासों और कम्मकरों की आवश्यकता पड़ी। प्राचीन पालि

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

ग्रंथो में कम से कम ऐसे दो उदाहरण हैं, जिनसे पता चलता है कि मगध में दो बड़े बड़े प्रक्षेत्र (फार्म) थे, जिनमें से हर एक का क्षेत्रफल एक हजार करीसा (चिल्डर्स के अनुसार 8,000 एकड़ के करीब) था।[84] एक अन्य कृषिक्षेत्र कासी में था, जिसकी जुताई पांच सौ हलों से होती थी।[85] इन सबके मालिक ब्राह्मण थे। एक ऐसा प्रसंग भी आया है जिसमें एक ग्राम व्यापारी ने शहर के एक सौदागर के पास पांच सौ हल जमा किए, जिससे प्रकट होता है कि या तो उसके पास बहुत बड़ी भूसंपदा थी या वह फाल खरीद कर गांवों में बेचा करता था।[86] हो सकता है कि पांच सौ या हजार रूढ़ संख्याएं हों, किंतु इनसे चकबंदी की प्रवृत्ति का पता तो चलता ही है। यह प्रवृत्ति तब अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई, जब मौर्यकाल में कृषि को राज्य के नियंत्रण में ले लिया गया। स्पष्ट है कि बड़े बड़े प्रक्षेत्रों का काम पर्याप्त संख्या में दासों और कम्मकरों के बिना नहीं चल सकता था।

नियोजकों (मालिक) की तुलना में दासों और खेत मजदूरों की संख्या कितनी थी, इसका अंदाज लगाना मुश्किल है। ऐटिका के मामले में भी, जहां आंकड़े मौजूद हैं, स्वतंत्र व्यक्ति और दास की आबादी के अनुपात के संबंध में मतैक्य होना कठिन है।[87] भारत में आंकड़ों के अभाव के कारण इस संबंध में कोई निश्चित जानकारी पा सकना और भी कठिन है। बाद के एक सुत्त में कहा गया है कि वैसे लोग बहुत कम हैं जो दास या दासियों को ग्रहण नहीं करना चाहते।[88] ब्राह्मण,[89] क्षत्रिय[90] और सेठ्ठि तथा गहपति[91] दासों और मजदूरों को नियोजित करते थे; इससे यह ब्राह्मणीय सिद्धांत परिलक्षित होता है कि शूद्र तीन उच्च वर्णों की सेवा के लिए थे। धर्मसूत्रों के अनुसार ब्राह्मण एक दास को बदलकर दूसरा दास रख सकता था, किंतु उसे बेच नहीं सकता था।[92] इन बातों से पता चलता है कि दासता बड़े पैमाने पर प्रचलित थी, किंतु किसी भी हालत में इसकी तुलना ऐटिका की स्थिति से नहीं की जा सकती है, जहां ई० पू० पांचवीं शताब्दी में दासों की संख्या कुल आबादी की एक तिहाई थी।[93]

धर्मसूत्रों से शूद्र वर्ण के रहन सहन की स्थिति पर कुछ प्रकाश पड़ता है। गौतम ने कहा है कि शूद्र नौकर को चाहिए कि वह उच्च वर्ण के लोगों द्वारा उतार फेंके गए जूते, छाते, वस्त्र और चटाई का इस्तेमाल करे।[94] जातक कथा से भी यही स्थिति प्रकट होती है। इस कथा में बताया गया है कि चूहे द्वारा काटकर चिथड़े बनाए गए वस्त्र दासों और कम्मकरों के लिए होते थे।[95] गौतम ने तो यहां तक बताया है कि भोजन का उच्छिष्ट (जूठन) शूद्र नौकरों के लिए रखा जाता था।[96] आपस्तंब धर्मसूत्र में छात्रों को यह उपदेश दिया गया है कि उनकी थाली में जो उच्छिष्ट रह जाए उसे या तो किसी अदीक्षित आर्य के निकट अथवा अपने गुरु के शूद्र नौकर के निकट रख दें।[97] इसका स्पष्ट अर्थ हुआ कि

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

शूद्र नौकर को जूठन खाना पड़ता था। हिरण्यकेशिन् गृह्यसूत्र से भी यह बात सिद्ध है; उसमें कहा गया है कि छात्रों को अपना अध्ययन समाप्त करने के बाद तीन दिन तक व्रत रखने की अवधि में अपना जूठन किसी शूद्र को नहीं खिलाना चाहिए।[98] पाणिनि ने भोजन के अवशेष, जो प्रायः घरेलू नौकरों को दिए जाते थे, के लिए विशेष पर्याय का निर्देश किया है।[99] विनय पिटक के एक परिच्छेद से हमें यह जानकारी मिलती है कि एक सौदागर की बीमार पत्नी ने अपने वमन में निकले हुए घी को संजो कर रखा कि दास या कम्मकर उसे अपने पांव में लेपेंगे या दीप में जलाएंगे।[100] यह भी लिखा हुआ है कि बुद्धदेव के नेतृत्व में चल रहे एक साधुसमाज के पीछे पीछे पांच सौ आदमी उनके जूठन खाने के उद्देश्य से जाते थे।[101] इन तथ्यों से ज्ञात होता है कि अपने मालिकों का जूठन खाना शूद्र सेवकों के लिए कोई असामान्य बात नहीं थी।

आपस्तंब में यह उदात्त भावना व्यक्त की गई है कि लोगों को चाहिए कि वह अपने को, अपनी पत्नी और बच्चे को भले ही कम खाना खिलाएं, किंतु अपने साथ काम करने वाले दास के साथ वैसा न करें।[102] लेकिन यह मानना कठिन है कि लोग इस सिद्धांत का पालन कड़ाई से करते होंगे। हां, इससे इतना पता चलता है कि कुछेक संभ्रांत परिवारों में दासों को भलीभांति खिलाया पिलाया जाता था और उनके प्रति सहानुभूति रखी जाती थी। हो सकता है कि दास और भाड़े के मजदूरों को भूखा नहीं रखा जाता हो, किंतु सामान्यतया उन्हें जो भोजन दिया जाता था वह उनके मालिक के भोजन की अपेक्षा अवश्य ही हीन कोटि का रहता था। एक ब्राह्मण साधु गर्व से कहता है कि उसके दास और नौकर भी भात और मांस खाते हैं, तथा काशी में बने वस्त्र और लेप का प्रयोग करते हैं,[103] जिससे पता चलता है कि आम तौर पर दासों और नौकरों को हीन कोटि का भोजन और कपड़ा दिया जाता था। बुद्धदेव ने भी ऐसी ही बात कही है कि दूसरों के घरों में तो दासों और कम्मकरों को खट्टी दलिया के साथ भात खिलाया जाता है किंतु पिता के घर में उन्हें भात, मांस और दूध खाने के लिए मिलता है।[104] दास को एक खास ढंग का भोजन दिया जाता था, यह बात दास परिभोग जैसे अपशब्द के बार बार प्रयोग से स्पष्ट होती है।[105] खट्टी दलिया मजूरी पर जीने वाले गरीबों का भोजन था।[106] एक जातक कथा में एक कुम्भकार द्वारा रखे गए भाड़े के मजदूर की चर्चा आई है, जो दिन भर चाक पर मिट्टी का सामान बनाने के बाद बदन में मिट्टी लगाए हुए ही तिनके के बोझ पर बैठता है और थोड़े से घोल में ज्वार की टिकियों को डुबा डुबाकर खाता है।[107]

जातकों में सामान्य रूप में यह वर्णन आता है कि कामगारों को जो मजूरी मिलती थी उससे वे अपना जीवन निर्वाह बहुत कठिनाई से करते थे।[108] एक स्थल पर एक कामगार, जो बोधिसत्व है, इन शब्दों में अपने भाग्य को कोसता

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

है : 'मुझे मजूरी के रूप में एक मासक या आधा मासक मिलता है, जिससे मैं अपनी मां का भरण-पोषण करने में असमर्थ हूं।'[109] बताया गया है कि घसियारे की दैनिक आय दो मासक थी जो उसे बाजार में काटकर लाई गई घास के मूल्य के रूप में मिलती थी।[110] इस काल में मासक प्रायः तांबे का छिद्रित सिक्का होता था। प्राचीन पालि ग्रंथों की टीकाओं में उल्लिखित है कि मुद्रा की सरणि में इस सिक्के का स्थान इतना न्यून था कि इसका महत्व नगण्य सा था।[111] बाद के मासक का मूल्य रजत पण के सोलहवें भाग के बराबर था,[112] किंतु हम निश्चयपूर्वक नहीं बता सकते कि मौर्य काल से पहले भी रजत पण के साथ इसका मूल्यांक यही था। इस अवधि में मासक का कुछ मूल्य तभी समझा जाता था, जब इसकी संख्या पांच हो,[113] किंतु यह तुच्छ राशि भी मजदूरों को नहीं दी जाती थी। अतएव गंगमाल जातक की उस कथा से बहुत कुछ तथ्य निकालना संभव नहीं है,[114] जिसमें पानी ढोने वाला एक मजदूर अपनी पत्नी के साथ शहर के एक त्योहार में भाग लेना चाहता है, जिसके लिए उसने केवल एक मासक जैसी छोटी रकम बचा रखी है और उस रकम का भी आधा उसकी पत्नी ने बचाकर दिया है। कथा का उपदेशात्मक भाग यह है कि जब बोद्धिसत्त राजा उदय पानी भरने वाले उस मजदूर को अपार संपत्ति देते हैं, तब भी वह आधा मासक जैसी अपनी उस नगण्य राशि को छोड़ने से इंकार करता है। अंत में उसे आधा राज्य मिलता है, किंतु वह इच्छा की विभीषिकाओं से अवगत हो जाता है और निर्वाण प्राप्त करने के उद्देश्य से संन्यासी बन जाता है। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्य आधा मासक से भी संतुष्ट रह सकता है, यद्यपि आदर्श तो यह होगा कि वह उस राशि के बिना भी काम चला ले। गाथा के अनुसार, 'इच्छा कम हो यही पर्याप्त नहीं है; अधिक इच्छा तो केवल कष्ट की जननी है।'[115] सारांशतः फिक का अनुमान सही मालूम पड़ता है कि जातक कथाओं में वर्णित रोजहा मजदूरों की मजूरी उनके जीवननिर्वाह के लिए पर्याप्त नहीं थी। भाड़े के मजदूर के रूप में काम करने वाले अधिकांश शूद्रों पर यह बात अच्छी तरह लागू हो सकती है।

सेवक समुदाय के विभिन्न उपवर्गों में बहुत अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। एक जैनग्रंथ में दासों, नौकरों (पेस्स) और भारवाहक पशुओं को एक ही कोटि में रखा गया है।[116] पालि ग्रंथों में दासों, पेस्सों और कम्मकरों की चर्चा बारंबार आई है।[117] पेस्स संवादवाहक या पेयादा होते थे, या ऐसे नौकर जिन्हें छोटे-मोटे कार्यों के निष्पादन के लिए इधर-उधर भेजा जाता था। जैसा हम पहले देख चुके हैं, दासों और कम्मकरों को सौंपे गए काम[118] या उनको दिए गए भोजन में कोई अंतर नहीं था।[119] आगे बताया जाएगा कि यदि वे अपराध करते थे तो उन्हें समान ढंग की सजाएं दी जाती थीं। यह सिद्ध करने के लिए कोई तथ्य नहीं मिलता है कि समाज में भाड़े के मजदूर को घरेलू नौकरों से हीन समझा जाता

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

था।[120] प्राय: दासों और कम्मकरों के बीच का अंतर मालिक के साथ उनके संबंध के आधार पर निर्धारित किया जाता था। कम्मकरों की तुलना में दास अपने मालिक की संपत्ति समझा जाता था[121] और उसे पैतृक संपत्ति मानकर उसका बंटवारा भी किया जा सकता था।[122] दासों की स्थिति सर्वथा गुलाम जैसी थी, यह उनके विभेदक चिह्न से प्रकट होता है। उनके सर के बाल मुंड़े रहते थे और उसमें एक चोटी रहती थी।[123] एक स्थान पर तो दासों के साथ कम्मकरों को भी सेट्ठि की संपत्ति माना गया है।[124] इससे पता चलता है कि भाड़े के मजदूरों को भी दास बनाने की प्रवृत्ति थी। एक जातक कथा में बताया गया है कि दास अपने मालिक के ही घर में रह जाते थे, किंतु कम्मकर संध्या होने पर अपने अपने निवासस्थान को चले जाते थे।[125] स्पष्ट है कि भाड़े के मजदूर का जीवन कभी कभी दास से अधिक कठिन हो जाता था।[126] उसकी जीविका उतनी सुरक्षित नहीं समझी जाती थी, जितनी दासों या स्थाई घरेलू नौकरों की थी। गौतम ने नियम बनाया है कि यदि शूद्र काम करने में अक्षम हो जाए, तो वह जिस आर्य के संरक्षण में रहा हो उसे चाहिए कि उस शूद्र का भरण-पोषण करे।[127] किंतु इस सिद्धांत के अनुरूप व्यवहार नहीं किया जाता था, क्योंकि एक गाथा में बताया गया है कि लोग असमर्थ (जीर्णावस्था प्राप्त) नौकरों को हथिनी की तरह निष्कासित कर देते थे।[128]

कम्मकर और भटक (मजदूर) में कुछ अंतर दिखाई पड़ता है।[129] विनय पिटक में कम्मकर को भटक कहा गया है, जो आहतक है। पालि इंगलिश डिक्शनरी के निर्माताओं ने आहतक शब्द का अर्थ 'पिटा हुआ' किया है। इसका आशय यह हुआ कि कम्मकर ऐसा कार्यकर्ता है, जिसे पीटा जा सकता है। यह अर्थ आश्चर्यजनक लगता है और दास के बारे में भी इस तरह का उल्लेख नहीं हुआ है। प्राय: 'आहतक' शब्द को संस्कृत शब्द 'आहत' का समानार्थी नहीं माना गया है,[130] बल्कि उसे 'आहृत' शब्द से मिलाया गया है जिसका अर्थ होता है लिया हुआ, अधिहरण किया हुआ या लाया हुआ।[131] इससे संकेत मिलता है कि कम्मकर अपने मालिक से विशेष रूप में संबद्ध रहते थे। मालिक के कब्जे में आने का कारण प्राय: यह होता था कि वे या तो उसका कर्ज अदा नहीं कर पाते थे या उसकी जमीन पर बसे होते थे। उनकी स्थिति अर्द्धदास जैसी थी जिसे कभी कभी संपत्ति भी समझ लिया जाता था। इस प्रकार ऐसे विचार के समर्थन में शायद ही कोई प्रमाण मिलता है कि मौर्यपूर्व काल में कम्मकर स्वतंत्र मजदूर थे जो अपने काम और मजदूरी के बारे में संविदा करते थे और विवाद उठ जाने पर उनकी मजूरी विशेषज्ञों द्वारा तय की जाती थी।[132] इस विचार से भृतक की स्थिति अधिक स्पष्ट होती है, जिसके साथ उसका मालिक गुलाम जैसा बर्ताव नहीं करता था। भृतक की जीविका मजूरी, अर्थात भृति पर चलती थी, जिसका

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उल्लेख पाणिनि ने सेवा की मजूरी या केवल मजूरी के अर्थ में किया है।[133] मालूम पड़ता है कि भृतक को एक खास अवधि के लिए मजूरी पर रखा जाता था।[134] एक प्राचीन जैन ग्रंथ के अनुसार भृतक चार प्रकार के होते थे : (1) दिवसभयग, जो दैनिक मजूरी पर काम करते थे, (2) जात्तभयग जो यात्रा भर के लिए रखे जाते थे, (3) उच्चतभयग जो निर्णीत समय पर काम पूरा करने के ठेके पर नियोजित किए जाते थे, (4) कबालभयग (यथा, भूमि खोदने वाले) जिन्हें किए गए काम के अनुपात में भुगतान किया जाता था।[135] ठेके के मजदूर के रूप में कुछ शिल्पियों को भृतक नियुक्त किया गया होगा। बाद की एक जातक कथा में अनुबंधित दास (अन्तनो पुरिस), जिन्हें अपने मालिक के धान के खेत की रखवाली करने को कहा जाता था और भृतक जिसे उसी काम के लिए वेतन मिलता था और जो फसल नुकसान होने पर मुआवजा (प्रतिकर) चुकाने का भागी होता था, के बीच विभेद किया गया है।[136] एक गाथा में बताया गया है कि पुरिस को हमेशा वैसे व्यक्ति के हित का काम करना चाहिए, जिसके घर में उसे भोजन मिलता है।[137] 'दासकम्मकरपोरिस' वाक्य खंड से बोध होता है कि अनुबंधित दास या तो भाड़े के मजदूर के रूप में कार्य करते थे या गुलाम के रूप में, और इन विभिन्न प्रकार के मजदूरों में बहुत अंतर नहीं था।[138]

मालिक और मजदूरों के पारस्परिक संबंध स्थिर करने वाले नियमों से हमें शूद्रों की आर्थिक स्थिति का कुछ आभास मिल सकता है। मौर्यों के पहले की अर्थव्यवस्था मूलतया कृषिप्रधान और पशुचारी थी। जमीन और पशुओं के असमान बंटवारे के कारण कुछ लोगों के पास जोत की जमीन अधिक थी, और इसके लिए उन्हें मजदूरों की जरूरत थी। इस प्रकार बड़े गृहपतियों के पास पशु भी बहुत अधिक थे, जिनके लिए उन्हें चरवाहे की जरूरत थी। ऐसी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए पहलेपहल मालिक और उसके कृषि मजदूर तथा चरवाहों के संबंध के विषय में कानून बने। आपस्तंब में कहा गया है कि यदि खेतिहर मजदूर काम छोड़ दे तो उसे शारीरिक दंड दिया जाना चाहिए।[139] इसी प्रकार के दंड का विधान उस चरवाहे के लिए भी किया गया है, जो पशुओं को पालना छोड़ दे।[140] इस विधान में यह भी व्यवस्था है कि ऐसी स्थिति आने पर मवेशी किसी दूसरे चरवाहे को दे दिए जाएं।[141] यदि चरवाहे की लापरवाही से मवेशी को नुकसान पहुंचे तो इसके लिए वह जिम्मेदार ठहराया जाएगा।[142] गौतम ने इन प्रावधानों का कोई उल्लेख नहीं किया है, किंतु उनके नियमानुसार यदि किसी व्यक्ति के पशु से किसी को नुकसान पहुंचे तो, यथास्थिति, उसका चरवाहा अथवा स्वयं मालिक जवाबदेह होगा।[143] इनमें से किसी भी नियम बनाने वाले ने चरवाहे या कृषि मजदूरों के प्रति मालिक के दायित्व की चर्चा नहीं की है। इस प्रकार ये मजदूर अपने मालिकों की अपेक्षा अलाभकर स्थिति में थे।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

धर्मसूत्रों द्वारा शूद्रों पर जो आर्थिक अशक्तताएं लादी गई हैं, वे शूद्रों की आर्थिक स्थिति पर और भी अधिक प्रकाश डालते हैं। राजा ने महीने में एक दिन की अनिवार्य सेवा प्रदान करने का जो भार शिल्पियों पर सौंप रखा था, उसकी भी चर्चा आई है। गौतम का कथन है कि कन्या के विवाह का खर्च वहन करने के लिए और शास्त्रविहित किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए कोई व्यक्ति शूद्र से छल या बल का प्रयोग करके रुपया ले सकता है।[144] वैश्य, क्षत्रिय और प्रायः ब्राह्मण वर्ग के जो लोग, अपने अपने वर्ण धर्म और आचार से च्युत हों, उनके साथ भी सामाजिक हैसियत के क्रम से, इस तरह का व्यवहार किया जा सकता था। किंतु यह तभी किया जा सकता था, जब शूद्र उपलब्ध नहीं हों।[145] यह नियम जिसके अधीन उच्च वर्ग के लोगों को शूद्र वर्ण से ऐंठने की अनुमति दी गई है, किसी अन्य धर्मसूत्र में नहीं मिलता। हां, मनुस्मृति में इसके समानांतर व्यवस्था दिखाई पड़ती है।[146] हो सकता है कि इस तथ्य का समावेश बाद में किया गया हो जिससे ब्राह्मण मतावलंबियों की इस धारणा का आभास मिलता है कि शूद्र का भरपूर शोषण किया जाना चाहिए।

उत्तराधिकार विधि में शूद्र पत्नी से उत्पन्न पुत्र के हिस्से के बारे में विभेदपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। बौधायन के अनुसार विभिन्न वर्णों की पत्नियों से संतान रहने पर चार हिस्से ब्राह्मण को, तीन क्षत्रिय को, दो वैश्य को और एक शूद्र के बेटे को मिलेगा।[147] वसिष्ठ ने तो ऐसी स्थिति रहने पर मात्र तीन उच्चवर्णों के पुत्रों को हिस्सा देने की व्यवस्था की है, और शूद्र पुत्र को छोड़ दिया है।[148] उन्होंने दूसरों के मत का उद्धरण दिया है, जिसमें बताया गया है कि शूद्र पुत्र परिवार का सदस्य माना जा सकता है किंतु उत्तराधिकारी नहीं।[149] यह ऐसा नियम है जिसे बौधायन ने[150] ऐसे निषाद तक ही सीमित रखा है, जिसका पिता ब्राह्मण और माता शूद्र हो।[151] गौतम ने ब्राह्मण के शूद्रपुत्र को उत्तराधिकार से वंचित करने का समर्थन बड़े ही स्पष्ट और जोरदार शब्दों में किया है। उनका मत है कि यदि कोई ब्राह्मण निस्संतान मर जाए, और उसे शूद्र पत्नी से उत्पन्न पुत्र हो तो वह कितना भी आज्ञाकारी क्यों न हो, अपने मृत पिता की संपत्ति में से मात्र खोरिस योग्य राशि ही पाएगा।[152] इससे प्रकट होता है कि धर्मसूत्र के लेखकों में से केवल बौधायन ने ब्राह्मण के शूद्र बेटे के लिए हिस्से का प्रबंध किया है, वसिष्ठ और गौतम तो इसके विरोधी ही रहे हैं। संभव है कि बौधायन में उदारता इसलिए रही हो कि उनका संबंध दक्षिण भारत से था, जहां ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहराई तक नहीं पहुंच पाई थीं। इतना ही नहीं, ऊपर जिन नियमों की चर्चा आई है उनसे पता चलता है कि वे केवल ब्राह्मण के शूद्रपुत्र के लिए थे। यह स्पष्ट नहीं होता कि उत्तराधिकार के ये नियम क्षत्रिय और वैश्य के शूद्रपुत्र पर भी लागू थे या नहीं, यद्यपि संभावना इसी बात की है कि वैसे ही नियम लागू

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

होंगे। इस तरह का कोई भी समर्थक साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर जाना जा सके कि ये नियम वस्तुतः किस रूप में लागू थे। जो भी हो, इन नियमों का प्रभाव बहुत कम शूद्रों पर ही पड़ा, क्योंकि उच्च वर्ण के लोगों के साथ शूद्र महिला के विवाह का प्रचलन बड़े पैमाने पर नहीं था।

मौर्य पूर्व काल में शूद्र की सामान्य आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करने में सेवि वर्ग के रूप में उनकी विशेषता पर खास तौर से ध्यान देना होगा, जिसकी चर्चा प्रथमतः इस अवधि में स्पष्ट रूप में की गई है। सेवा कार्य के चलते इस वर्ण में सजातीयता का बोध हुआ, जो विजातीयता के भाव से प्रभावित थे। सेवि वर्ग के सदस्य के रूप में, वैश्य किसानों के साथ,[153] शूद्र मुख्य उत्पादकों का कार्य करते थे, जिससे समाज के विकास की नींव सुदृढ़ होती थी। कृषि मजदूरों के रूप में उन्होंने कोशल और मगध के घने जंगल वाले क्षेत्रों को कृषियोग्य बनाने में सहायता पहुंचाई। इन क्षेत्रों के बारे में ग्रंथों[154] में बताया गया है कि वे छोटे और बड़े टुकड़ों में बंटे थे, जिनमें दास और मजदूर खेती करते थे। आगे चलकर हम पाएंगे कि कौटिल्य ने यह नीति निर्धारित की थी कि नई बस्तियों में परती जमीन को आबाद करने के लिए शूद्र मजदूर लगाए जाएं। इनके अतिरिक्त शिल्पियों के रूप में शूद्रों ने शिल्पविज्ञान के विकास में योगदान दिया, और बिक्री योग्य बहुत सी सामग्रियां बनाईं। इनके चलते कई नगर बस गए, जहां वाणिज्य और व्यापार होते थे।

किंतु उच्च वर्ण के लोग जो शूद्रों के नियोजक भी थे, जिस ढंग का जीवन व्यतीत करते थे वैसा जीवन शूद्र नहीं बिता सकते थे। पालि ग्रंथों में खत्तिय, ब्राह्मण और गहपति को महासाल[155] कहा गया है, जिससे प्रकट होता है कि दास, पेस्स, कम्मकर, पुरिस और भटक उतने सुखी नहीं थे। संभव है कुछ धनी शूद्र शिल्पी उन्नतिशील गहपति रहे हों किंतु उस समय की अर्थव्यवस्था कृषिप्रधान थी और अधिकांश जमीन ब्राह्मणों, क्षत्रियों[156] तथा सेट्ठियों[157] के कब्जे में थी। अतः अधिक शूद्रों को मजूरी पर ही जीवन बिताना पड़ता था, और इस मज़ूरी की दर तय करने में उनका कोई हाथ नहीं रहता था। कहा गया है कि सुखी किसान या हस्तशिल्पी जिनके पास अपनी जमीन थी,[158] काफी बड़ी संख्या में थे। यह बात वैश्य या गहपति वर्ग के संबंध में भले ही लागू होती हो, किंतु शूद्रों पर लागू नहीं होती, क्योंकि वे दूसरों के खेतों में काम करके अपना निर्वाह करते थे। उनकी यह स्थिति केवल उनके जन्म के चलते नहीं, बल्कि गरीब परिवारों में जन्म लेने के चलते हुई थी। ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के दावे को झुठलाने के लिए बौद्धों के तर्कसंग्रह में इस विषय पर स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला गया है। कहा गया है कि यदि कोई शूद्र धनी बन जाए तो वह अपने सेवक के रूप में न केवल दूसरे शूद्र को बल्कि क्षत्रिय, ब्राह्मण या वैश्य को भी नियुक्त कर सकता है।[159] सामान्यतया

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

ऐसे मामलों में किसी व्यक्ति की हीन सामाजिक अवस्था और उसकी संपन्न आर्थिक स्थिति के बीच असमानता तभी दूर की जा सकती है, जब समाज में उसे ऊंचा स्थान दिया जाए। बाद में ब्राह्मणों ने इस नीति का अनुसरण किया, और वे बाहरी शासकों को क्षत्रिय मानने लगे। इसलिए संभव है कि जो शूद्र सुखी संपन्न थे, उन्हें समाज में ऊंचा स्थान दे दिया गया हो।

उत्पादनकर्ता के रूप में शूद्रों की स्थिति तत्कालीन ग्रीक नगरों के दासों और गुलामों की स्थिति से मिलती जुलती है। सिद्धांततः, जिस प्रकार ग्रीक नागरिक अपनी गुलाम जनता से सेवा का दावा कर सकते थे, उसी प्रकार भारतीय द्विज और आर्य भी शूद्रों की श्रमशक्ति का दावा करते थे। समाज में श्रमशोषण की व्यवस्था को कायम करने के लिए प्राचीन ग्रीस में नागरिकता के आधार पर समाज का गठन किया गया। नागरिकों को सामाजिक और राजनीतिक अधिकार सौंपे गए और अनागरिकों से, जिनमें दासों की संख्या अधिक थी, ये सारे अधिकार छीन लिए गए। वे केवल अपनी श्रमशक्ति से नागरिकों की सेवा करते थे। इस प्रकार एक तरह से शूद्रों की तुलना यूनान के दासों से की जा सकती है। किंतु कई दृष्टियों से शूद्रों की आर्थिक स्थिति भिन्न थी। न तो शूद्र कृषि मजदूर और न शूद्र शिल्पी उस रूप में अपने मालिकों की कृपा पर पूर्णतया निर्भर थे, जिस रूप में ग्रीक और रोम के दास अपने मालिकों पर निर्भर रहते थे। शूद्र के पास संपत्ति थी और यह स्थिति ग्रीस के दासों की स्थिति से भिन्न थी।[160] संपत्ति इतनी अधिक नहीं थी कि उस पर कर लगाया जाए, फिर भी, उस पर कुछ दायित्व तो रहता ही था। कानून के द्वारा उस पर यह दायित्व आरोपित किया गया था कि यदि उसका मालिक, जो उच्च वर्ण का होता था, दुर्दिन में पड़ जाए तो वह अपनी बचत से उसका भरण पोषण करे।[161] यह भी निर्धारित किया गया था कि वैश्य और शूद्र को चाहिए कि अपनी संपत्ति से मालिक के दुख दूर करे।[162] 'दासभोग' शब्द का प्रयोग बताता है कि दास भी संपत्ति के मालिक होते थे,[163] हालांकि संपत्ति रखने के लिए उनके मालिक की सम्मति अपेक्षित रही होगी। प्रायः इन्हीं विभेदों के चलते वर्णव्यवस्था, जो श्रम के मुख्य स्रोत के रूप में शूद्र वर्ग पर ही प्रधानतया निर्भर थी, दासता की अपेक्षा उत्पादन का बहुत ही उपयोगी साधन साबित हुई। यद्यपि यह व्यवस्था ग्रीस की आबादी और क्षेत्र की अपेक्षा अधिक विशाल क्षेत्र और जनसंख्या में प्रचलित थी, फिर भी यह कभी आवश्यक नहीं मालूम पड़ा कि शूद्रों से उन्हीं स्थितियों में काम कराया जाए, जिनमें दास या गुलाम काम करते थे।

इस काल में शूद्रों की राजनीतिक और कानूनी स्थिति उनकी आर्थिक स्थिति के प्रतिरूप मालूम पड़ती है। उत्तरवैदिककालीन राज्यव्यवस्था में उनका स्थान महत्वपूर्ण था, लेकिन अब राजनीतिक संगठन में उनका कोई स्थान नहीं रह गया।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

आपस्तंब के अनुसार राजा गांवों और शहरों के प्रभारी अधिकारियों के रूप में केवल आर्यों, अर्थात प्रथम तीन वर्णों के सदस्यों की ही नियुक्ति कर सकता था।[164] उनके अधीन काम करने वाले निचली पंक्ति के अधिकारियों के लिए भी उसी प्रकार की योग्यता अपेक्षित थी।[165]

आपस्तंब में कहा गया है कि राजा का दरबार शुद्ध और विश्वासी आर्यों से सुशोभित रहना चाहिए जो राजा के पार्षद और न्यायाधीश के रूप में काम करेंगे।[166] इन प्रसंगों में आर्य शब्द का अर्थ माना गया है प्रथम तीन वर्णों का सदस्य, और यह ठीक भी है।[167] किसी भी शूद्र को मात्र इस अर्थ में आर्य समझा जाता था कि वह पुनः जन्म ले सकता है।[168] किंतु यह सोचना गलत है कि इस काल में भी आर्य शब्द का प्रयोग जातीय भेदभाव का संकेत करता है।[169] यही कारण है कि पाणिनि[170] में आर्य कृत शब्द का अर्थ स्पष्ट रूप में ऐसा व्यक्ति किया गया है जो मुक्त कर दिया गया हो।[171] एक बौद्ध ग्रंथ में उल्लिखित है कि काम्बोजों और यवनों के बीच आर्य दास और दास आर्य बन जाते है।[172] इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि दास गुलाम की स्थिति में थे और उनकी तुलना में आर्य स्वतंत्र थे। इसलिए आर्य और शूद्र में राजनीतिक विभेद उसी प्रकार का मालूम पड़ता है जैसा ग्रीस और रोम में नागरिकों और उनसे भिन्न लोगों के बीच व्याप्त था। चूंकि शूद्र को पराधीन माना जाता था इसलिए उसे प्रशासन संबंधी कार्य में लगाना उचित नहीं समझा गया। इससे प्रकट होता है कि उस समय में निम्न वर्ग के लोगों का राजकाज में कोई प्रभाव नहीं था। एक जैन ग्रंथ में ऐसे विभिन्न कोटियों के क्षत्रियों और ब्राह्मणों का उल्लेख हुआ है जो राजा की सभा में भाग लेते थे, किंतु उसमें गहपतियों (अर्थात वैश्यों) या शूद्रों की कहीं कोई चर्चा नहीं की गई है।[173] यद्यपि पालि ग्रंथों के अनुसार सेट्ठियों को प्रशासन संबंधी कुछ कार्य दिए गए होंगे, क्योंकि वे राजा से सेट्ठिछत्त पाते थे,[174] फिर भी ऐसा जान पड़ता है कि वैश्यों को भी सामान्यतया पार्षद नियुक्त नहीं किया जाता होगा। एक जातक कथा से हमें यह जानकारी मिलती है कि एक दर्जी के बेटे को भांडागारिक नियुक्त किया गया था,[175] किंतु ऐसे दृष्टांत तो बहुत कम ही मिलते हैं।

कहा जाता है कि इस काल के अत्यंत शक्तिसंपन्न राजवंशों में से एक वंश शूद्र उत्पत्ति का था और शूद्रों ने निचली गंगा घाटी में सर्वोच्च सत्ता प्राप्त कर रखी थी।[176] ये विवरण केवल इसी हद तक वास्तविक माने जा सकते हैं कि ये नंद शासकों को हीन कुल का बताते हैं। उनका यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि राजनीतिक सत्ता शूद्र समुदाय के हाथ में चली गई, क्योंकि कोई भी ऐसे तथ्य नहीं हैं, जो प्रमाणित कर सकें कि नंद वंश के उत्थान से शूद्रों की राजनीतिक अशक्तताएं समाप्त हो गईं।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

जहां तक इस काल के गणतंत्रीय शासन में उनकी भूमिका का प्रश्न है, यह ठीक ही बताया गया है कि 'संघगण की शासिका सभा पर क्षत्रिय अभिजात वर्ग का दबदबा था और इसे समाज में ब्राह्मणों और गहपतियों से भी उच्च स्थान प्राप्त था, फिर निम्नवर्गीय लोगों के विषय में तो कुछ कहना ही नहीं ।[177] गौतम धर्म-सूत्र के एक परिच्छेद के आधार पर जायसवाल ने बताया है कि शूद्र (नगर या राजधानी के) पौर का सदस्य हो सकता था। यह ऐसा निकाय होता था जिससे राजा परामर्श लेता था।[178] यदि हम यह मान लें कि पौर एक निगमित निकाय था, तो शूद्र के संबंध में जायसवाल के विचार की मस्करिन् की टीका से पुष्टि नहीं होती, क्योंकि उन्होंने पौर की व्याख्या 'समानस्थानवासी' (एक जगह रहने वाले) के रूप में की है।[179]

जहां तक विधि न्यायालयों में गवाहों के रूप में उपस्थित होने का प्रश्न है, बौधायन ने कुछ अपवादों को छोड़कर सभी वर्णों के सदस्यों को यह विशेषाधिकार दिया है।[180] उन्होंने उच्च वर्णों के विरुद्ध चल रहे मुकदमे में गवाही देने से शूद्र को वंचित नहीं किया है। यह ऐसा उपबंध है जो वसिष्ठ के विधि ग्रंथ में भी दिखाई पड़ता है।[181] गौतम ने बताया है कि शूद्रों को गवाही देने के लिए बुलाया जा सकता है, पर टीकाकारों की राय है कि ऐसा तभी हो सकता था जब अपेक्षित योग्यता वाले द्विज उपलब्ध न हों।[182] यह स्पष्ट नहीं कि इसका संबंध द्विज के मुकदमों में इनकी गवाही से है या उनके अपने मुकदमे में। प्रायः इसका संबंध पूर्ववर्ती स्थिति से है। किंतु वसिष्ठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एक ही वर्ण के द्विज अपने वर्ण के लिए, भद्र शूद्र भद्र शूद्रों के लिए, और निम्न कुल में उत्पन्न लोग वैसे ही लोगों के लिए गवाही दे सकते हैं।[183] भद्र शूद्र वे लोग थे जो अपने कर्तव्यों के संबंध में ब्राह्मण ग्रंथों के उपदेशों का अनुसरण कड़ाई से करते थे। इससे पता चलता है कि भद्र शूद्रों के मुकदने में अभद्र शूद्रों को गवाही के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता था। इस प्रकार धर्मसूत्रों के बाद के लेखक, अर्थात गौतम और वसिष्ठ में यह प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है कि उच्च वर्णों के मुकदमे में शूद्र को गवाह नहीं रखा जाए। यह पता लगाने का कोई साधन नहीं कि इस प्रकार का भेदभाव रखा जाता था, किंतु यह वर्ण विधान की भावनाओं के अनुकूल है जिससे धर्मसूत्र भी प्रभावित थे। फिर भी, यह ध्यान देने योग्य है कि इस काल में ग्रीस में दासों के बयान के लिए उनके तलवों पर बेंत लगाकर और अन्य यातनाएं देकर प्रश्न पूछे जाते थे।[184] धर्मसूत्रों में अपराध स्वीकार कराने के लिए ऐसे निष्ठुर कार्य विहित नहीं किए गए हैं।

गौतम ने बताया है कि विभिन्न जातियों के सदस्यों और कृषकों, व्यापारियों, पशुपालकों, महाजनों तथा शिल्पियों के संघ अपने अपने कार्य की व्यवस्था अपने रिवाजों के अनुसार करते थे, परंतु शर्त यह थी कि ऐसे रिवाज धर्मसंबंधी

नियमों का उल्लंघन न करते हों।[185] दूसरे शब्दों में, शूद्रों के वे वर्ग, जो शिल्पों या जातियों के आधार पर संघबद्ध थे, अपने आंतरिक कार्यों को संभालने के लिए निजी नियमों का अनुसरण कर सकते थे। किंतु जब अन्य वर्णों के सदस्यों के साथ उनका दीवानी या फौजदारी मामला अंतर्ग्रस्त हो जाता था, तब वे कानूनी भेदभावों के शिकार हो जाते थे। पहले बताया जा चुका है कि दीवानी कानून के अंतर्गत ब्राह्मण पिता का शूद्र पुत्र उत्तराधिकार के आधार पर या तो मामूली हिस्सा पाने अथवा कोई भी हिस्सा पाने का हकदार नहीं था।[186]

फौजदारी मामलों में भी धर्मसूत्रों ने विधितः शूद्रों को समानता नहीं प्रदान की है। गौतम के विधान के अनुसार यदि कोई ब्राह्मण किसी क्षत्रिय या वैश्य को गाली दे तो उसे जुर्माना चुकाना पड़ेगा, किंतु यदि वह शूद्र को गाली दे तो उसे कोई भी सजा नहीं मिलेगी।[187] यदि शूद्र किसी द्विज की निंदा जानबूझ कर आपराधिक शब्दों में करे या उस पर आपराधिक ढंग से प्रहार करे तो वह उस अंग के विच्छेदन का भागी होता था जिससे उसने अपराध किया हो।[188] आपस्तंब में तो रूखे, साफ शब्दों में कहा है कि यदि शूद्र किसी आचारवान आर्य को गाली दे तो उसकी जीभ काट ली जाए।[189] संभ्रांत लोगों को गालियां देने और झूठ बोलने के पाप के लिए विहित किए गए प्रायश्चित में भी शूद्रों के प्रति भेद-भाव रखा गया है। ऐसी स्थिति में शूद्र को सात दिन तक उपवास करने का विधान किया गया है,[190] जबकि प्रथम तीन वर्णों के सदस्यों को केवल दूध, तीखे मसाले और नमक से तीन दिनों तक परहेज करने को कहा गया है।[191] अंत में आपस्तंब और गौतम धर्मसूत्र, दोनों ही ने विहित किया है कि यदि बातचीत करने में या बैठने, लेटने अथवा सड़क पर चलने में शूद्र किसी द्विज की बराबरी करे तो उसे कोड़े से पीटा जाना चाहिए।[192]

परस्त्रीगमन संबंधी विधियों में शूद्रों के लिए बहुत कठोर दंड की व्यवस्था की गई है। आपस्तंब में कहा गया है कि यदि कोई शूद्र किसी आर्य, अर्थात प्रथम तीन वर्ण की किसी स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो उसकी हत्या कर दी जानी चाहिए,[193] और यदि उस संभोग के फलस्वरूप कोई संतान उत्पन्न न हो तो प्रायश्चित करवा कर उस स्त्री को पवित्र बना लिया जा सकता है।[194] पर उसी ग्रंथ में यह भी लिखा है कि यदि कोई आर्य किसी शूद्र स्त्री के साथ वैसा ही अपराध करे तो उसे निर्वासित कर देना चाहिए।[195] चोरी के मामले में गौतम के नियम के अधीन शूद्र के लिए मामूली जुर्माना विहित किया गया है, पर किसी उच्च वर्ण का अपराधी होने की दशा में जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई। इस प्रकार यदि किसी की संपत्ति चुराने के लिए शूद्र को संपत्ति का आठ गुना मूल्य चुकाना पड़ता था, तो ब्राह्मण के लिए चौसठ गुना चुकाना विहित था।[196] यद्यपि यह कहा जा सकता है कि शूद्र अधिक जुर्माना चुकाने में असमर्थ थे, फिर भी नियम में यह परिकल्पना

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

की गई है कि उच्च वर्णों के सदस्यों का आचरण भी ऊंचे दर्जे का होना चाहिए और उनसे यह उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि वे चोरी करेंगे। यह बात उस उपबंध के अनुकूल है, जिसमें विहित किया गया है कि जिस अधिकारी का प्रमुख कार्य चोरी से रक्षा करना हो, उसके पद पर केवल प्रथम तीन वर्णों के सदस्यों को ही नियुक्त किया जाना चहिए।[197]

जहां तक इन आपराधिक कानूनों के लागू होने का प्रश्न है, मज्झिम निकाय के एक परिच्छेद में कहा गया है कि परस्त्रीगमन और चोरी के मामलों में अपराधी के लिए एक ही प्रकार का दंड विहित है, चाहे वह किसी भी वर्ण का क्यों न हो।[198] अतः धर्मसूत्रों में इससे संबंधित विभेदक नियमों पर बहुत गंभीरता से विचार करना आवश्यक नहीं है। किंतु ब्राह्मणेतर ग्रंथों से प्रकट होता है कि अपराध करने वाले दासों, कम्मकरों और अन्य श्रमिक वर्गों को उनके मालिक शारीरिक दंड देते थे। पीटने के भी दो उदाहरण मिलते हैं, जो दासियों के संबंध में हैं।[199] एक में कार्य की उपेक्षा का अपराध है,[200] और दूसरे में बताया गया है कि दासी ने अपनी मजूरी अपने मालिक को नहीं लौटाई।[201] यद्यपि एक ऐसे दास का वर्णन मिलता है जिसे दुलार प्यार मिलता था और लिखना तथा हस्तशिल्प सीखने की अनुमति भी दी गई थी, फिर भी उसे निरंतर यह भय बना रहता था कि छोटी सी भी गलती होने पर वह पिटाई, कारावास, दागे जाने और दास का भोजन खाने का पात्र माना जा सकता है।[202]

शारीरिक दंड केवल दासों तक ही सीमित नहीं था, जो स्वाधीन नहीं थे। इनके साथ बौद्ध कथोपकथन में अधिकतर पेस्सों और कम्मकरों का वर्णन इस रूप में किया गया है कि वे कोड़ों की मार से पीड़ित और भयभीत होकर आंसू बहाते हुए राजा का काम करते थे।[203] जैन ग्रंथ के एक ऐसे ही उदाहरण से हमें पता चलता है कि प्रेष्यों (दूत या नौकर) को छड़ी मार मार कर काम करने के लिए कहा जाता था।[204] जब निर्दोष कामगारों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था, तब अपराधियों की स्थिति कैसे अच्छी रही होगी? सूयगडम् के निम्नलिखित परिच्छेद का विषय ही यह है कि श्रमजीवियों के छोटे से छोटे अपराध के लिए भी उन्हें अत्यंत कठोर दंड दिए जाते थे, 'कोई भी व्यक्ति (समय समय पर) घरेलू नौकरों, अर्थात दास या दूत या वेतनभोगी नौकर या अधीनस्थ (भागिल्लभागिक)[205] अथवा आश्रितों को छोटे मोटे अपराध के लिए भी कठोर दंड दे सकेगा, अर्थात उसके बाल नोचेगा, उसे पीटेगा या लोहे के शिकंजों में और बेड़ियों में जकड़ देगा, काठ में उसके पांव ठोक देगा, उसे कारा में बंद कर देगा, उसके हाथ और पांव को कड़ी में जड़ देगा और उन्हें तोड़ देगा, उसके हाथ या पांव या कान या नाक या ओंठ या सिर अथवा चेहरे (?) को काट देगा,[206] उसकी टांगें चीर देगा, आंखें और दांत निकाल लेगा, जीभ काट

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

लेगा, उसे रस्सी से लटका देगा, उसके ऊपर घोड़े दौड़ा देगा, चाक पर घुमा देगा, सूली पर चढ़ा देगा, उसे चीर देगा, उसके घावों पर तेजाब उड़ेल देगा, गंड़ासे से काट देगा, उसे सिंह की दुम से या सांड़ की दुम से बांध देगा, किसी जंगल में जला डालेगा, कौओं और गृद्धों से उसकी बोटियां नोचवाएगा, उसका खाना पीना बंद कर देगा, आजीवन कारावास में रख देगा तथा उसे ऊपर बताई गई किसी भी प्रकार की भीषण मृत्यु का शिकार बना देगा।[207]

उपर्युक्त अनुच्छेद व्यभिचारी व्यक्तियों के आचरण का वर्णन करता है, जो जैन धर्म के दायरे से बाहर थे, अतः हो सकता है कि बातें बढ़ा चढ़ाकर कही गई हों। किंतु यह निस्संदेह बताता है कि मालिक न केवल अपने दासों को बल्कि अपने अधीन काम करने वाले विभिन्न कोटि के श्रमिकों को विभिन्न प्रकार के क्रूर दंड देता था। इन सब बातों से पता चलता है सेवि वर्ग के जो व्यक्ति अपराध करते थे उन्हें शारीरिक दंड देना असामान्य बात नहीं थी। हां, शूद्र वर्ण के शिल्पियों को इस तरह नहीं सताया जाता था। ग्रीस में भी दासों को अपने छोटे मोटे अपराध के लिए शारीरिक दंड भोगना पड़ता था, जबकि उनसे भिन्न व्यक्तियों के प्रति ऐसे अमर्यादित व्यवहार नहीं किए जाते थे।[208]

सर्वप्रथम धर्मसूत्र विधि में ही विभिन्न वर्णों के लिए वैरदेय (हत्या करने के बदले हर्जाना) की विभिन्न दरें निर्धारित की गई हैं, यद्यपि वैदिक काल में ऐसा विभेद नहीं किया गया है। इनमें से तीन वैरदेयों में कहा गया है कि क्षत्रिय का वध करने पर अपराधी को एक हजार गायें देनी होंगी और किसी शूद्र का वध करने के लिए केवल दस गायें देनी पड़ेंगी, किंतु गायों के साथ सांड़ हर हालत में दिया जाएगा।[209] बौधायन का मत है कि यह वैरदेय राजा को मिलेगा,[210] किंतु आपस्तंब राजा के बदले ब्राह्मण का पक्ष लेता है।[211] किसी भी हालत में यह मारे गए व्यक्ति के संबंधी को नहीं मिलेगा। हत्याजन्य पाप के प्रायश्चित के रूप में भी मारे गए व्यक्ति के वर्ण के अनुसार अंतर था। गौतम के मतानुसार क्षत्रिय की हत्या करने के लिए अपराधी को छः वर्षों तक, वैश्य की हत्या के लिए तीन वर्षों तक और शूद्र की हत्या के लिए एक वर्ष तक इंद्रिय निग्रह (ब्रह्मचर्य) का व्रत धारण करना चाहिए।[212] किंतु वसिष्ठ ने प्रायश्चित की इस निरोधावधि को वैश्य की हत्या की दशा में तीन वर्ष द्वारा तथा क्षत्रिय या शूद्र की हत्या की दशा में दो वर्ष द्वारा बढ़ा दी।[213] किंतु सामविधान ब्राह्मण में, जिसे बर्नेल इस अवधि की रचना मानते हैं,[214] यद्यपि प्रथम तीन वर्णों के सदस्यों की हत्या के लिए समान प्रायश्चित विहित किया गया है, फिर भी शूद्र की हत्या के लिए निर्धारित प्रायश्चित भिन्न ढंग का है।[215] इससे पता चलता है कि वैरदेय के बारे में पहले शूद्रों और 'त्रैवर्णिकों' में विभेद किया गया। बाद में इसे पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया गया और भिन्न भिन्न वर्णों के सदस्यों की हत्या के लिए जुर्माने की अलग

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

अलग दरें विहित की गईं। अधिकांश धर्मसूत्रों में जो वैरदेय के नियम पाए जाते हैं उनका कुछ आधार अवश्य होगा। वर्ग के अनुसार वैरदेय की अलग अलग दरें न केवल परवर्ती समाजों में बल्कि सुप्रसिद्ध हम्मुरवी संहिता में भी पाई जाती हैं। किंतु शूद्र के मामले में इस विधि का अनुपालन कहां तक और किन रीतियों से किया जाता था इसका अनुमान नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस विषय पर न्यायालय के निर्णयों का अभाव है।

आधुनिक जनतांत्रिक विचार वालों को जो बात सर्वाधिक अशोभनीय और दुखद लगेगी, वह यह है कि आपस्तंब और बौधायन में शूद्र की हत्या करने के लिए वही प्रायश्चित निर्धारित है जो किसी राजहंस, भास, मयूर, ब्राह्मणी बत्तख, प्रचलाक, कौवे, उल्लू, मेढ़क, छछूंदर, कुत्ते आदि की हत्या के लिए।[216] संभव है इस अतिवादी विचार को, जिसके अनुसार शूद्रों की जान को किसी जानवर या चिड़िया की जान के बराबर ही महत्व दिया गया है,[217] सभी ने मान्यता न दी हो, क्योंकि उन्हीं विधि प्रवर्तकों के अनुसार शूद्र की हत्या करने का वैरदेय दस गायें और एक सांड है।[218] किंतु इसमें संदेह नहीं कि आरंभिक ब्राह्मण ग्रंथों में शूद्र की जान को बहुत कम महत्व दिया गया है।

इस प्रकार वैदिककाल के पश्चात जनजातीय समाज के स्थान पर पूर्णतया वर्ण पर आधारित समाज के आ जाने से शूद्र वर्ण के सदस्यों का प्रशासन में कोई स्थान नहीं रह गया। संभवतया उन्हें सभी तरह के प्रशासकीय पदों से वंचित कर दिया गया और छोटे मोटे अपराधों के लिए भी शारीरिक दंड दिया जाने लगा। एक प्रकार से यह स्वाभाविक ही था, क्योंकि वे साधारणतया जुर्माना नहीं चुका सकते थे। प्रायश्चित के नियम और दंडविधान के अनुसार शूद्रों के बारे में निर्धारित दंड वस्तुतः उच्च वर्णों द्वारा किए गए अपराधों के लिए विहित दंड के अनुपात में बहुत अधिक था। किंतु इससे कम से कम यह आभास तो मिलता है कि शूद्र को जान और जायदाद के अधिकार थे।[219] जिस प्रकार ग्रीस में दासों की हत्या दंड की संभावना के बिना की जाती थी, उस प्रकार शूद्र का वध नहीं किया जा सकता था।

मौर्यपूर्वकाल में शूद्र की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हुए तथा उसकी दशा और भी बिगड़ गई। विधि प्रवर्तकों ने उस पुरानी मान्यता पर जोर दिया कि शूद्र की उत्पत्ति सृष्टिकर्ता के पांव से हुई है[220] और इस आधार पर उन्होंने संगति, आहार, विवाह और शिक्षा की दृष्टि से उस पर अनेक प्रकार की सामाजिक अशक्तताएं आरोपित कर दीं। इनके फलस्वरूप कई मामलों में तो उच्च वर्ण के लोगों ने आम तौर से और ब्राह्मणों ने खास तौर से शूद्रों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। बौधायन ने यह विधान किया कि स्नातक को अछूत, स्त्री या शूद्र के साथ यात्रा नहीं करनी चाहिए।[221] गौतम के एक परिच्छेद की टीका में कहा

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

गया है कि यहां स्नातक शब्द का आशय है ब्राह्मण या क्षत्रिय,[222] जिससे मालूम पड़ता है कि यह नियम वैश्य पर लागू नहीं था। फिर, सफलता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य नियम यह था कि सफलता के इच्छुक छात्र को महिला और शूद्र से बातचीत नहीं करनी चाहिए।[223] शूद्र से भिन्न वर्ण की महिला (संभवतया उच्च वर्ण की) के शूद्रजात पुत्र (पतित) का साहचर्य अवांछनीय माना जाता था।[224] इनका तात्पर्य स्पष्टतया यह था कि उच्च वर्णों के साथ शूद्र का सामाजिक संपर्क कम हो जाए। धर्मसूत्रों में ऐसी प्रवृत्ति साफ दिखाई पड़ती है कि ब्राह्मण और शूद्र का सामाजिक विभेद बढ़े। आपस्तंब और बौधायन का मत है कि यदि कोई शूद्र अतिथि के रूप में ब्राह्मण के घर आए तो उसे कुछ काम करने का भार सौंपना चाहिए और जब काम संपन्न हो जाए तब उसे भोजन देना चाहिए।[225] ब्राह्मण न तो उसका सत्कार करे और न स्वयं खाना खिलाए, बल्कि ब्राह्मण का नौकर राजा के भंडार से चावल लाकर उसे भोजन कराए।[226] गौतम का विचार है कि ब्राह्मणेत्तर जाति को, यज्ञ का अवसर छोड़ अन्यथा ब्राह्मण का अतिथि नहीं होना चाहिए,[227] किंतु यज्ञ के अवसर पर भी वैश्य और शूद्र को ब्राह्मण का नौकर ही भोजन कराएगा।[228] वैश्वदेव यज्ञ के अवसर पर यदि चंडाल, कुत्ते और कौवे भी यज्ञ समाप्ति के समय उपस्थित हो जाएं तो उन्हें भी कुछ अंश दिया जाएगा।[229] मालूम पड़ता है कि इस यज्ञ में अनेकानेक देवताओं को नैवेद्य अर्पित किया जाता था जिससे इसका सांप्रदायिक और जनजातीय स्वरूप कुछ कुछ बना रहा और नए वर्गविभेद का उस पर बहुत असर नहीं पड़ा।

गौतम के मतानुसार यदि कोई शूद्र अस्सी वर्ष का बूढ़ा हो तो उस शहर के रहने वाले नौजवान को उसके प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए।[230] इसका मतलब यह हुआ कि उसका आदर करने में उसकी आयु का सम्मान किया जाता था, न कि अन्य गुणों का। इसकी तुलना में शूद्र के लिए यह बाध्यकारी था कि वह आर्य का आदर करे, भले ही वह उम्र में उससे छोटा ही क्यों न हो।[231] धर्मसूत्रों में वर्ण के अनुसार वंदना और अभिवादन के जो स्वरूप निर्धारित किए गए हैं, उनसे प्रकट होता है कि समाज में शूद्र कितने पराधीन थे। आपस्तंब में बताया गया है कि ब्राह्मण अपनी दाहिनी बांह को अपने कान के समानांतर, क्षत्रिय उसे अपनी छाती के स्तर तक, वैश्य अपनी कमर तक, और शूद्र उसे अपने पांव की सीध में रखकर अभिवादन करे।[232] विभिन्न वर्णों के लोगों के क्षेम कुशल और स्वास्थ्य के संबंध में जिज्ञासा करने के लिए भिन्न भिन्न शब्द विहित किए गए हैं। क्षत्रिय के स्वास्थ्य की जिज्ञासा के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है 'अमानय' और शूद्र के लिए 'आरोग्य'।[233] यह भी बताया गया है कि किसी क्षत्रिय अथवा वैश्य का अभिवादन करने में लोगों को केवल सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए, न कि उसके नाम का।[234] इसका अर्थ हुआ कि मात्र शूद्र को उसके नाम से

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संबोधित किया जा सकता था। इस संबोधन की दृष्टि से द्विज वर्गों की स्थिति बहुत अच्छी थी। प्राचीन पालि ग्रंथों में निम्न वर्गों के लोगों ने किसी क्षत्रिय को उसके नाम से या उत्तम पुरुष में संबोधित नहीं किया है।[235] राजा उदय को गंगमाल हजाम पारिवारिक नाम से संबोधित करता है, इस पर उसकी मां बड़े रोष के साथ कहती है, इस नीच नापितपुत्र को अपनी स्थिति का इतना भी ज्ञान नहीं है कि वह मेरे बेटे को, जो पृथ्वी का मालिक है और क्षत्रिय जाति का है, ब्रह्मदत्त कहकर पुकारता है।[236]

यह विचार कि जिस भोजन को शूद्र ने छू दिया वह अपवित्र हो गया और ब्राह्मण उसे ग्रहण नहीं कर सकता, सबसे पहले धर्मसूत्रों में मिलता है। आपस्तंब के मतानुसार किसी अशुद्ध ब्राह्मण या उच्च वर्ण के व्यक्ति द्वारा स्पर्श किया गया भोजन अपवित्र तो हो जाता है, किंतु इतना अपवित्र नहीं कि उसे ग्रहण ही नहीं किया जा सके।[237] लेकिन कोई अपवित्र शूद्र यदि उसे उठाकर लाए तो उसे ग्रहण नहीं किया जा सकता है।[238] यही स्थिति उस आहार की है जिस पर किसी कुत्ते या पतित अथवा चंडाल की कोटि के अपपात्र की नजर पड़े।[239] एक अन्य नियम में कहा गया है कि यदि भोजन करते समय किसी ब्राह्मण को कोई शूद्र स्पर्श कर दे तो उसे भोजन रोक देना चाहिए, क्योंकि शूद्र स्पर्श के कारण वह अपवित्र हो जाता है।[240] आपस्तंब के इस कथन से तो उसकी कट्टरता और भी प्रकट होती है कि यदि कोई शूद्र विहित विधियों का अनुसरण भी करे तो भी उसके द्वारा लाया गया भोजन ग्राह्य नहीं है।[241] किंतु 'शूद्रबर्जम्' शब्द जिसका अर्थ यह किया जाता है कि शूद्रों का अन्न ग्रहण करना निषिद्ध है, पुरानी पांडुलिपि में नहीं मिलता है।[242] इससे पता चलता है कि पहले ऐसा विचार प्रचलित नहीं था, जब केवल अपवित्र शूद्र का अन्न ग्रहण करना वर्जित था। फिर भी, धर्मसूत्रों में निर्विवाद रूप से ब्राह्मणों को आदेश दिया गया है कि वे किसी शूद्र का अन्न ग्रहण नहीं करें।[243] हरदत्त की टीका वाले आपस्तंब धर्मसूत्र के एक अनुच्छेद[244] में ब्राह्मण को अनुमति दी गई है कि नितांत अभावग्रस्तता की स्थिति में वह शूद्र का अन्न ग्रहण कर सकता है, किंतु शर्त यह है कि वह अन्न स्वर्ण और अग्नि को स्पर्श कराकर पवित्र बना लिया जाए और जैसे ही ब्राह्मण को कोई वैकल्पिक जीविका मिल जाए, वैसे ही वह शूद्र का अन्न ग्रहण करना छोड़ दे।[245] गौतम ने ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई है। उन्होंने जीवननिर्वाह का साधन समाप्त हो जाने पर ब्राह्मण को शूद्र का अन्न ग्रहण करने की अनुमति देते समय,[246] यह छूट दी है कि वह पशुपालक, खेतिहर मजदूर, परिवार के परिचित व्यक्ति और सेवक से प्राप्त अन्न ग्रहण करे।[247] किंतु गौतम उसे यह अनुमति नहीं देते हैं कि वह शूद्र के व्यवसायों को अपनाकर जीवननिर्वाह करे।[248] इतना ही नहीं, उन्होंने यह नियम भी बनाया है कि स्नातक (अर्थात, हरदत्त के अनुसार, ब्राह्मण या क्षत्रिय)

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

को शूद्र का पानी तक नहीं पीना चाहिए।[249] ऐसा नियम केवल गौतम ने ही बनाया है। कुछ मामलों में तो ब्राह्मण द्वारा शूद्र के अन्न के बहिष्कार संबंधी नियमों को धमकियों और प्रायश्चित के आधार पर लागू कराया गया है। वसिष्ठ की दृष्टि में पूर्णतया योग्य ब्राह्मण वह है जिसके उदर में शूद्र का एक भी दाना नहीं गया हो।[250] ऐसे नियम अनुसार स्वभावतया अपराधी ब्राह्मण यज्ञ का दान ग्रहण करने से वंचित कर दिया गया होगा, जो उसकी आय का मुख्य साधन था। उन्होंने यह भी घोषित किया है कि यदि किसी ब्राह्मण के पेट में शूद्र का दाना हो और वह मर जाए तो उसका जन्म या तो ग्राम शूकर के रूप में अथवा शूद्र के ही परिवार में होगा।[251] इतना ही नहीं, यदि कोई ब्राह्मण शूद्र के अन्न पर पला हो, तो वह नित्य वेद का पाठ और पूजा अर्चना क्यों न करे, उसे स्वर्ग नहीं मिल सकता। पुनः, यदि वह शूद्र का अन्न खाकर स्त्री से संभोग करे तो उसके पुत्र शूद्र जाति के होंगे और खुद उसे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकेगी।[252] बौधायन का मत है कि यदि कोई व्यक्ति किसी शूद्र का अन्न ग्रहण करने या शूद्र स्त्रीगमन करने का अपराध करे तो उसके पाप का प्रायश्चित एक सप्ताह तक प्रति दिन सात बार प्राणायाम करने से होगा।[253] इसी कर्म के लिए उन्होंने ऐसे प्रायश्चित की भी व्यवस्था की है कि प्रायश्चित करने वाला उबाले हुए यव के दाने ग्रहण करने का समारोह आयोजित करे।[254] किंतु ये प्रायश्चित इस काल की वास्तविक स्थिति के द्योतक नहीं माने जा सकते। पहला प्रायश्चित चतुर्थ प्रश्न में आया है जिसके बारे में एक मत यह है कि यह ई० सन् की दसवीं शताब्दी का है,[255] और दूसरे प्रायश्चित का उल्लेख तृतीय प्रश्न में हुआ है जो बुहलर के मतानुसार मूल रचना में पीछे चलकर जोड़ दिया गया है।[256]

धर्मसूत्रों से यह धारणा बनती है कि सामान्यतया आदर्श ब्राह्मण शूद्र का अन्न,[257] खासकर यदि शूद्र अपवित्र हो, नहीं ग्रहण करते थे। लेकिन इस प्रतिबंध को लागू कराने के लिए जिस प्रायश्चित और धमकी का विधान है, वह बाद में सन्निविष्ट किया गया मालूम पड़ता है। ऐसा कोई विधान इस काल में संभवतया लागू नहीं था। यह स्पष्ट है कि क्षत्रिय और वैश्य पर ऐसा कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। वैश्वदेव यज्ञ के अवसर पर प्रथम तीन वर्णों के लोगों की देख रेख में शूद्र भोजन सामग्री तैयार करता था।[258] रसोई करते समय उसे बिल्कुल साफ सुथरा रहना पड़ता था, ताकि भोजन दूषित न होने पाए। इस प्रयोजन के लिए उसे हर महीने के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के आठवें दिन अथवा पूर्णमासी या द्वितीया तिथि को अपने सर के बाल, दाढ़ी और शरीर पर के केश मुड़वाने पड़ते थे, और नाखून भी कटवाने पड़ते थे। इसके अलावा उसे अपने शरीर पर वस्त्र धारण किए हुए स्नान भी करना पड़ता था।[259] सामान्यतया यह उपबंध किया गया था कि आर्य की नौकरी करने वाले शूद्रों को प्रति मास अपने बाल एवं नाखून

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

कटवाने चाहिए। बौधायन के विचार के अनुसार उनके पानी पीने का ढंग आर्यों के समान ही था।[260] धार्मिक अनुष्ठान में अत्यधिक पवित्रता का ध्यान रखा जाता है, लेकिन उसमें भी शूद्र को भोजन बनाने की अनुमति दी जा सकती थी। इससे पता चलता है कि उच्च वर्णों के लोग, जिसमें प्राय: ब्राह्मण सम्मिलित नहीं थे, सामान्यतया शूद्र द्वारा बनाया गया भोजन ग्रहण करते थे। बाद की भी एक जातक कथा में रसोइया के व्यवसाय के बारे में कहा गया है कि यह व्यवसाय गुलामों और भाड़े के मजदूरों को करना चाहिए।[261] एक ऐसा दृष्टांत मिला है जिसमें एक क्षत्रिय पिता अपनी दासी पत्नी से उत्पन्न पुत्री के साथ खाने से परहेज करता है। किंतु यह परिच्छेद बाद के एक जातक की वर्तमान कथा में आता है,[262] अत: इसे उस कालावधि का नहीं माना जा सकता। जिन आदेशों के अधीन अपवित्र व्यक्ति द्वारा स्पर्श किया गया भोजन और खासकर उनके जूठन का संपर्क तक करना निषिद्ध था तथा जिनके अधीन नियमों के उल्लंघन के लिए दंड दिया जाता था, वे प्राचीन पालि ग्रंथों में देखे जा सकते हैं।[263] किंतु उनमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे सिद्ध होता हो कि वे खासकर शूद्रों के लिए बताए गए थे। ऐसा प्राय: इस कारणवश हुआ था कि प्राचीन भारोपीय प्रथा के अनुसार कुल के सभी सदस्य विशेष अवसरों पर सहभोज का आयोजन करते थे,[264] जिसका प्रभाव जनजातियों के वर्णों में विभक्त हो जाने के बाद भी बना रहा।

धर्मसूत्रों के वैवाहिक नियम वर्ण के आधार पर बने थे। विवाह के आठ प्रकारों का उल्लेख सर्वप्रथम इसी अवधि में मिलता है। इनमें से गांधर्व और पैशाच (प्रलोभन देकर किया गया विवाह, जिसमें सम्मति ध्वनित होती है) विवाह वैश्यों और शूद्रों के लिए विधिसंगत समझे जाते थे। बौधायन के अनुसार प्रथम कोटि का विवाह वैश्यों के लिए और द्वितीय कोटि का विवाह शूद्रों के लिए विहित था।[265] इस विचार का औचित्य सिद्ध करने के लिए उन्होंने बताया है कि चूंकि वैश्य और शूद्र कृषिकर्म और सेवा में व्यस्त रहते थे, इसलिए उनकी पत्नियां उनके नियंत्रण में नहीं रह सकती थीं।[266] इससे संकेत मिलता है कि निम्न वर्ग की महिलाओं को अपनी जीविका अर्जित करने के लिए नौकरी करनी पड़ती थी, जिससे वे अपेक्षाकृत अपने अपने पतियों से स्वतंत्र रहती थीं। उच्च वर्णों की महिलाएं अपना जीविकोपार्जन करने में असमर्थ थीं, अत: उन्हें अधिक आश्रित बनकर रहना पड़ता था, किंतु समाज में उनकी मर्यादा अधिक थी।

वैवाहिक संबंध के स्थायित्व का विचार वर्ण की दृष्टि से किया जाता था। वसिष्ठ का मत है कि जितना ही ऊंचा वर्ण होगा, वैवाहिक जीवन उतना ही अधिक स्थाई होगा। इसी दृष्टि से विहित किया गया है कि यदि पति घर छोड़-कर चला जाए तो ब्राह्मण या क्षत्रिय की पत्नी जिसे संतान हो, पांच वर्ष तक प्रतीक्षा करेगी, वैश्य की पत्नी चार वर्ष तक और शूद्र की तीन वर्ष तक राह

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

देखेगी। यदि उसे संतान नहीं हो तो ब्राह्मण की स्थिति में प्रतीक्षा की अवधि एक वर्ष घट जाएगी और क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की प्रतीक्षा अवधि दो दो वर्ष कम हो जाएगी।[267] इसके फलस्वरूप शूद्र की पत्नी को केवल एक वर्ष तक प्रतीक्षा करनी होगी। इस तरह के नियम से पुनः यह अर्थ निकलता है कि निम्न वर्ग की स्त्रियां अपेक्षाकृत अधिक स्वाधीन होती थीं और उनका विवाह संबंध आसानी से विच्छेदन योग्य था।

किंतु उच्च वर्ण के पति अपनी शूद्र पत्नियों के प्रति समान बर्ताव नहीं करते थे। वसिष्ठ का कहना है कि काली जाति की शूद्र पत्नी को सुख संभोग के लिए रखेल रखा जा सकता है,[268] पर उससे विवाह नहीं किया जा सकता।[269] इसी ग्रंथ के एक परिच्छेद में यह अनुमति दी गई है कि आर्य शूद्र जाति की महिलाओं से विवाह कर सकता है, यदि उस विवाह में समुचित वेदमंत्रों का पाठ न किया जाए। किंतु स्वयं वसिष्ठ इसे वांछनीय नहीं मानते,[270] क्योंकि इस तरह के विवाह से परिवार की मर्यादा का ह्रास होता है और मृत्यु के पश्चात उस व्यक्ति को स्वर्ग नहीं मिलता है।[271] आपस्तंब मतानुसार यह श्रेयस्कर नहीं कि कोई ब्राह्मण शूद्र महिला का संभोग करे या कृष्ण वर्ण के व्यक्ति की नौकरी करे।[272] आपस्तंब और बौधायन, दोनों ने ही ऐसे व्यक्तियों के लिए शुद्धिकरण संस्कार विहित किए हैं जिनका शूद्र वर्ण की महिला के साथ संबंध है।[273] किंतु बौधायन धर्मसूत्र के ये दोनों परिच्छेद चतुर्थ प्रश्न में आए हैं, जो बाद में जोड़े गए हैं, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है। अतः ऐसे प्रायश्चित इस काल पर लागू नहीं माने जाने चाहिए। यह विचार कि शूद्र पत्नी वर्जनीय है, वसिष्ठ के एक पूर्ववर्ती नियम के प्रतिकूल पड़ता है, जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण तीन पत्नियां रख सकता है, क्षत्रिय दो, और वैश्य तथा शूद्र एक एक।[274] इसके द्वारा प्रथम दो वर्णों के लोगों को स्पष्ट अनुमति मिली हुई है कि वे शूद्र स्त्री से नियमित रूप में विवाह कर सकते हैं। अतः संभव है कि यह विचार बाद में सन्निविष्ट हुआ हो कि शूद्र पत्नियां केवल सुख संभोग के लिए अंगीकृत की जाएं। यह भी स्पष्ट है कि कोई सुखी संपन्न व्यक्ति कई पत्नियों का निर्वाह कर सकता है। इस प्रकार उच्च वर्णों में जहां बहुविवाह का चलन उनकी आर्थिक संपन्नता का परिचायक है, वहां शूद्रों में एक विवाह की प्रथा[275] उनकी आर्थिक विपन्नता सूचित करती है।

यद्यपि नीच जातियों की स्त्रियों से विवाह करने की अनुमति है, किंतु धर्मसूत्रों में इसके विपरीत क्रम के विवाह को बहुत हेय समझा गया है।[276] गौतम का मत है कि यदि कोई शूद्र अपनी जाति से भिन्न किसी महिला से पुत्र उत्पन्न करे तो उसे पतित समझा जाएगा।[277] इन्हीं विवाहों और संबंधों के कारण अधिकतर प्राचीन विधिग्रंथों में लगभग एक दर्जन मिश्रित (वर्णसंकर) जातियों की उत्पत्ति का वृतांत दिया गया है। इस प्रकार क्षत्रिय वर्ण की स्त्री से शूद्र द्वारा

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्पन्न संतान को 'क्षतृ' कहा गया है और वैश्य जाति की स्त्री से उत्पन्न संतान को 'मागध' कहा गया है।[278] ब्राह्मण स्त्री से उत्पन्न शूद्रपुत्र चंडाल माना गया है।[279] गौतम के मतानुसार किसी शूद्र पत्नी से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र द्वारा उत्पन्न व्यक्ति क्रमशः 'पारशव', 'यवन', 'करण' और 'शूद्र' कहलाता है।[280] किसी शूद्र पत्नी से उत्पन्न ब्राह्मण पुत्र 'निषाद' कहलाता है।[281] उसकी संतान, जो किसी शूद्र स्त्री से उत्पन्न हो, 'पुल्कस' कहलाती है और निषाद जाति की स्त्री से किसी शूद्र द्वारा उत्पन्न पुत्र 'कुक्कुटक' कहलाता है।[282] क्षत्रिय शूद्र पत्नी के संयोग से उत्पन्न संतान 'उग्र' कहलाती है[283] तथा वैश्य और शूद्र की संतति को रथकार माना गया है।[284] जातियों की उपर्युक्त सूची बताती है कि धर्मसूत्रों के मतानुसार शूद्र और उच्च वर्णों के लोगों के बीच अनुलोम वर्णों के क्रम में और प्रतिलोम (वर्णक्रम के विपरीत) संबंधों को संकर जातियों के उद्‌भव का महान स्रोत माना गया है और इन्हीं में से अनेक को अछूत की श्रेणी में रखा गया है। किंतु इनमें से अधिकतर संकर जातियां पिछड़ी जनजाति की थीं जिन्हें मनमाने ढंग से वर्णों से जैसे तैसे जोड़कर चातुर्वर्ण्य व्यवस्था में मिला लिया गया था।[285] इतना ही नहीं, ऐसी व्याख्याओं के कारण कालक्रम से नई नई जातियां बनी होंगी, क्योंकि आधुनिक काल में भी ऐसा हुआ है।[286]

यद्यपि पूर्वकालीन गृह्यसूत्रों में कहीं भी शूद्रों को दीक्षासंस्कार से वंचित करने का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, फिर भी आपस्तंब धर्मसूत्र से पता चलता है कि उसे उपनयन और वेदाध्ययन के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती है।[287] किसी शूद्र और खासकर चंडाल की उपस्थिति को वेदपाठ बंद कर देने का पर्याप्त कारण माना गया है।[288] ऐसी स्थितियों को बौधायन और गौतम दोनों ही, सभी प्रकार के अध्ययन के लिए बाधक मानते हैं।[289] गौतम तो यहां तक कहते हैं कि हमेशा एक ही शहर में नहीं पढ़ते रहना चाहिए।[290] मस्करिन का ख्याल है कि यह ऐसे शहर के बारे में कहा गया होगा, जिसके निवासी मुख्यतया शूद्र हों।[291] केवल गौतम ने बताया है कि यदि कोई शूद्र वेद की ऋचाओं का पाठ करे तो उसकी जीभ काट ली जानी चाहिए और यदि वह उन ऋचाओं को स्मरण रखे तो उसके शरीर के दो टुकड़े कर दिए जाने चाहिए।[292] इस तरह के भीषण दंड विधान में मनु की कट्टर मनोवृत्ति का आभास मिलता है; अतः यह सोचा जा सकता है कि इसे गौतम के विधि ग्रंथ में बाद में जोड़ दिया गया होगा।[293] किंतु यह स्पष्ट है कि इस काल में भी शूद्र को वेद की शिक्षा देने का तीव्र विरोध किया जाता था।

आपस्तंब के एक परिच्छेद में शूद को वेद पढ़ाने का समर्थन किया गया है। जहां उन्होंने यह बताया है कि छात्र को चाहिए कि वेद पढ़ाने के लिए अपने गुरु को शुल्क दे, वहीं उनकी यह भी स्पष्ट अनुमति है कि गुरु (शिक्षक) सभी

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

परिस्थितियों में किसी उग्र अथवा किसी शूद्र से शुल्क ग्रहण कर सकता है ।[294] यह किसी प्राचीन स्थिति का परिचायक हो सकता है, जब शूद्र को वैदिक शिक्षा के लिए अनुमति प्राप्त थी । किंतु आगे चलकर न केवल गौतम और वसिष्ठ ने, बल्कि स्वयं आपस्तंब ने भी उसे इस सुविधा से वंचित कर दिया। वेद विधि (धर्म) का स्रोत है, और वसिष्ठ का मत है कि शूद्र धर्मसंबंधी कोई भी विषय जानने का पात्र नहीं है ।[295] स्पष्ट है कि ऐसे विचार का आशय यह था कि शूद्रों को उस विधि से सर्वथा अपरिचित रखा जाए जिससे वे शासित होते थे ।

आपस्तंब में कहा गया है कि स्त्रियां और शूद्र अथर्ववेद के परिशिष्ट का अध्ययन कर सकते हैं ।[296] इसके अंतर्गत नृत्य, संगीत और दैनिक जीवन से संबंधित कला और विद्या है ।[297] गौतम के एक परिच्छेद की टीका करते हुए मस्करिन ने इसी तरह की शिक्षा का उल्लेख किया है । उन्होंने स्मृतियों से उद्धरण प्रस्तुत किए हैं जिनमें बताया गया है कि निषाद को हस्ति प्रशिक्षण (पीलवानी) की शिक्षा दीक्षा दी जानी चाहिए ।[298] इन सब का आशय यह हो सकता है कि शूद्रों को कला और शिल्प का प्रशिक्षण तो दिया जा सकता था, किंतु उन्हें वेद के अध्ययन से वंचित रखा गया था जो बहुत कुछ साहित्यिक शिक्षा के समान था । इस तरह धर्मसूत्रों ने शास्त्रीय शिक्षा जो द्विज वर्णों तक ही सीमित थी और शिल्पशिक्षा, जो शूद्रों के लिए अभिप्रेत थी, इन दोनों को पृथक करने का प्रयास किया । यह भी उल्लेख किया गया है कि वेद अध्ययन से कृषिकर्म में बाधा पड़ती है और कृषिकर्म से वेद के अध्ययन में ।[299] स्वभावतया इस प्रकार के नियम से न केवल शूद्र बल्कि ऐसे वैश्य भी प्रभावित हुए जो स्वयं खेती गृहस्थी करते थे । हम यह नहीं जानते कि व्यवहार में यह नीति कहां तक सफल हुई । बाद के एक जातक से जानकारी मिलती है कि दो चंडालपुत्र तक्षशिला में शिक्षा पाने के लिए छद्म वेश धारण करके गए, किंतु जब उन्होंने असावधानी से अपनी बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया तो भेद खुल गया और उन्हें संस्था से निकाल दिया गया ।[300] लेकिन अन्य जातक कथाओं से पता चलता है कि विद्यालयों में सौदागरों और दर्जियों[301] तथा मछुओं के भी पुत्र पढ़ते थे ।[302] इस प्रकार, इस काल में भी, शूद्र पूर्णतया शिक्षाप्राप्ति से वंचित नहीं थे ।

धर्मसूत्रों में शूद्र के लिए वेद का अध्ययन निषिद्ध था, जिसक फलस्वरूप व यज्ञों और धार्मिक कृत्यों में भाग नहीं ले सकते थे, क्योंकि इनमें केवल वैदिक मंत्रों का प्रयोग होता था । अश्वलायन गृह्यसूत्र के एक नियम[303] का अर्थ इस प्रकार किया गया है कि शूद्र मधुपर्क समारोह के अवसर पर होने वाले वेदमंत्रों का पाठ सुन सकते थे ।[304] इसी प्रकार जैमिनी ने एक प्राचीन गुरु बादरि का उद्धरण दिया है जिसमें कहा गया है कि चारों वर्णों के लोग वैदिक यज्ञ कर सकते हैं । [305] किंतु उन्होंने बादरि के विचार का समर्थन नहीं किया है,[306] जिससे मालूम पड़ता है कि

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

वह भी उस युग के कट्टर विचारों से प्रभावित थे। वैदिक यज्ञ के लिए शूद्र अग्नि-स्थापन नहीं कर सकता था।[307] वह किसी संस्कार का अधिकारी नहीं था।[308] वैदिक यज्ञ से उसका बहिष्कार इस सीमा तक कर दिया गया था कि कुछ धार्मिक कृत्यों में तो उसकी उपस्थिति वर्जित थी, और उसे देखना भी मना था।[309] शूद्र सामान्यतया 'नमः' का उच्चारण भी नहीं कर सकता था।[310] इसका उच्चारण वह विशेष रूप से अनुमति मिलने पर ही कर सकता था।[311] किंतु गौतम ने कुछ ऐसे ऋषियों का उल्लेख किया है, जिन्होंने पाक यज्ञ (साधारण गृह्य कर्म) नाम से विदित कुछ छोटे छोटे यज्ञों की सूची बनाई है, जिनका संपादन शूद्र कर सकता है।[312] बौधायन ने अन्य आचार्यों का भी उल्लेख किया है जिन्होंने कहा है कि जल में निमज्जन और स्नान सभी वर्णों के लिए विहित है, किंतु मार्जन (मंत्रों का उच्चारण करते हुए शरीर पर पानी छिड़कना) केवल द्विज का कर्तव्य है।[313]

यह तर्क दिया जाता है कि विभिन्न प्रकार के धार्मिक समारोह और यज्ञों का संपादन नहीं करना शूद्र के लिए लाभकर ही था क्योंकि उनके संपादन के दायित्व से वह मुक्त था।[314] किंतु आधुनिक दृष्टि से जो बात उसके लिए लाभकर समझी जाती है वह उस काल के सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार अलाभकर थी, जिसके अनुसार यज्ञ न करने वाले लोगों को समाज में हेय समझा जाता था।[315]

गौतम ने यह नियम बनाया है कि शूद्र अपनी पत्नी के संग रहेगा।[316] हरदत्त ने एक अन्य टीकाकार का उद्धरण दिया है जिसने इसका अर्थ किया है कि शूद्र केवल गृहस्थ के रूप में जीवन व्यतीत कर सकता है, छात्र, आश्रमवासी या तपस्वी के रूप में नहीं।[317] मालूम पड़ता है कि आगे चलकर ब्राह्मण के लिए सामान्यतया चार, क्षत्रिय के लिए तीन और वैश्य के लिए दो तथा शूद्र के लिए एक आश्रम विहित थे।[318] हो सकता है कि बराबर ऐसी स्थिति नहीं रही हो, किंतु शूद्र के साथ जो भेदभाव रखा गया वह संगत ही मालूम पड़ता है, क्योंकि यह कार्य ऐसा था जिसे वह एक गृहवासी के रूप में ही संपन्न कर सकता था।

किंतु शूद्र को श्राद्ध कर्म की अनुमति थी।[319] लेकिन गौतम और वसिष्ठ ने विहित किया है कि किसी सपिंड के जन्म या मरण से वह एक महीने तक अशौच में रहेगा।[320] वसिष्ठ के मतानुसार ब्राह्मण, राजन्य और वैश्य के लिए यह अवधि क्रमशः दस, पंद्रह और बीस दिन की होती है।[321] गौतम ने इस अवधि में से चार दिन क्षत्रिय के लिए और आठ दिन वैश्य के लिए घटा दिया है।[322] अशौच की सबसे लंबी अवधि को मानने के कारण शूद्र को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। अपनी जीविका उपार्जित करने में असमर्थ होने के कारण उसे अपने महाजन या मालिक की कृपा पर निर्भर रहने को बाध्य होना

पड़ता था। हाल में भी देखा गया है कि मृत्यु के कारण हुए अशौच की अवधि में गरीब शूद्र घर घर भीख मांगता था। किंतु एक दृष्टि से उसकी स्थिति अच्छी थी, वह इतना अपवित्र नहीं समझा जाता था कि उच्च वर्णों का मुर्दा छूना उसके लिए वर्जित हो। वह ब्राह्मण के शव को भी श्मशान घाट ले जा सकता था,[323] और वहां चिता का स्पर्श कर सकता था।[324]

तीन उच्च वर्णों में से ब्राह्मण से यह आशा की जाती थी कि वह पूरी नियम निष्ठा से अपना धार्मिक कर्तव्य निभाएगा। बौधायन ने कहा है कि राजा को चाहिए कि जो ब्राह्मण प्रातः और सायंकाल संध्यावंदन नहीं करे, उससे शूद्र का कार्य कराए।[325] जो ब्राह्मण शारीरिक श्रमवाली जीविका अपनाएगा वह ब्राह्मणत्व खो बैठेगा। बौधायन का मत है कि जो ब्राह्मण पशुपालन करे, व्यापार करके जीविका चलाए, शिल्पी, अभिनेता, सेवक या सूदखोर का काम करे उसके साथ शूद्रवत व्यवहार किया जाना चाहिए।[326] गौतम इससे भी आगे बढ़कर कहते हैं कि यदि कोई आर्य किसी आर्येतर (अर्थात शूद्र) व्यक्ति का व्यवसाय अपनाए तो वह उसी कोटि का बन जाएगा।[327] इस परिच्छेद पर टिप्पणी करते हुए हरदत्त ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण होकर भी किसी आर्येतर व्यक्ति का पेशा अपनाए तो शूद्र को उसकी सेवा नहीं करनी चाहिए। उनका यह मत भी है कि जो शूद्र किसी आर्य का काम करे उससे आर्येतर व्यक्तियों का पेशा अपनाने वालों को घृणा नहीं करनी चाहिए। सामान्यतया ऐसी घृणा में कोई तथ्य तो नहीं दीख पड़ता, क्योंकि आर्यों का दर्जा ऊंचा था। फिर भी, ये नियम बताते हैं कि उच्च वर्णों के सदस्य, खासकर ब्राह्मण, शारीरिक श्रम संबंधी व्यवसायों के प्रति घृणा का भाव रखते थे और यही कारण था कि जब उन्हें शारीरिक श्रम करके अपनी जीविका चलाने के लिए बाध्य होना पड़ता था तब वे शूद्र समझे जाते थे।[328] विनय पिटक में कृषि व्यापार और पशुपालन को उच्च कोटि का काम माना गया है।[329] जाहिर है कि यह वैश्य के कर्मों का उल्लेख करता है। दूसरी ओर बढ़ई और भंगी का काम हीन कोटि का समझा जाता था।[330] इसी ग्रंथ में नलकार (बांस का काम करने वाला), कुंभकार, पेसकार (बुनकर), चम्मकार और नहापित (हज्जाम), पांचों के व्यवसाय को हीन कोटि का बताया गया है।[331] किंतु एक स्थान पर बुनकर, नलकार, कुंभकार और हज्जाम के कार्य को सामान्य शिल्प की सूची में रखा गया है,[332] जिससे पता चलता है कि पांचवें व्यवसाय, अर्थात चर्मकार के व्यवसाय को सभी लोग हेय समझते थे।

इन शिल्पों को समाज में कैसा दर्जा मिला था, उसका अलग अलग आकलन करने पर पता चलता है कि सामान्यतया कुंभकार के कर्म को बुरा नहीं माना गया है।[333] किंतु एक जगह बुनकर (तंतवाय) के काम को हीन

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

कोटि का बताया गया है।[334] मालूम पड़ता है कि हज्जाम भी उपहास का पात्र होता था।[335] इस प्रकार यद्यपि उपाल नामक हज्जाम भिक्षु बन गया था, फिर भी भिक्षुणियां उसे ऐसे हीन कुल में उत्पन्न कहकर निंदित करती थीं जिसका पेशा लोगों का सिर दबाना और गंदगी को साफ करना है।[336] इनसे मालूम पड़ता है कि कुछ व्यवसायों को हीन कोटि का मानने की प्रवृत्ति प्रचलित थी। चूंकि ऐसे कार्य विभिन्न वर्ग के शूद्रों द्वारा किए जाते थे, इसलिए कालक्रम में पूरे शूद्र वर्ण के पेशे को कलंकित किया जाने लगा। दीघ निकाय के एक परिच्छेद से यह बात स्पष्ट हो जाती है, जिसमें शूद्रों के कृत्यों का निर्धारण करने में 'लुद्दाचार खुद्दाचार ति' वाक्यखंड का प्रयोग किया गया है।[337] इसका अर्थ यह हुआ कि शूद्र वे हैं जो शिकार और अन्य हीन कर्म द्वारा जीवन निर्वाह करते हैं। एक जैन ग्रंथ में भी वृषल गृहदास (जन्मजात दास) और हीन कुल में उत्पन्न अधम व्यक्ति जैसे शब्दों का प्रयोग उसी रूप में किया गया है जिस रूप में कुत्ता, चोर, डकैत, ठग, मक्कार आदि को दुत्कारा जाता है।[338]

प्राचीन पालि ग्रंथों में पांच हीन जातियों, यथा चंडाल, नेसाद, वण, रथकार और पुक्कुस जातियों की चर्चा बार बार हुई है।[339] उन्हें नीच कुल[340] और हीन जाति[341] का बताया गया है। हीन व्यवसायों, कार्यों और जातियों की गणना मूलतः मौर्यपूर्वकाल की मानी जाती है, क्योंकि बुद्ध अपने भिक्षुओं को निदेश देते हैं कि वे भिक्षुओं की पूर्व जाति, सिप्प, कम्म आदि का हवाला देकर उन्हें अपमानित न करें और इस प्रकार संघ में भेदभाव उत्पन्न न करें।[342]

बौद्ध ग्रंथों की अनेक हीन जातियां ब्राह्मणकालीन समाज के अछूत वर्गों से मोटे तौर पर मिलती जुलती हैं। बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार चंडाल और पुक्कुस शूद्र वर्ण में सम्मिलित नहीं थे।[343] किंतु धर्मसूत्रों ने उन्हें मिश्रित जातियों की सूची में रखा है, और इनमें शूद्र जातियों का खून मिला है। पातंजलि का कथन है कि पाणिनि ने चंडाल और मृतप (शवों की रखवाली करने वाला) को उन शूद्रों की कोटि में रखा है जो नगरों और गांवों से बाहर रहते थे, जिनका स्पर्श हो जाने से ब्राह्मणों का कांस्य पात्र सदा के लिए अपवित्र हो जाता था।[344]

मूलतः चंडाल आदिवासी प्रतीत होते हैं। यह उनकी बोली से ही स्पष्ट हो जाता है।[345] एक जैन ग्रंथ में अन्य जनजातियों, अर्थात शबर, द्रविड़, कलिंग, गौड और गांधारों के साथ उनका उल्लेख किया गया है।[346] किंतु कालक्रम से चंडाल अछूत समझे जाने लगे। आपस्तंब का मत है कि चंडाल को छूना और देखना पाप है।[347] किंतु यह परिच्छेद उसके धर्मसूत्र की पहले की दो पांडुलिपियों में नहीं मिलता,[348] जिससे पता चलता है कि अस्पृश्यता प्रायः मौर्यपूर्व काल के अंत में आई। इसी प्रकार का एक उपबंध गौतम के परवर्ती ग्रंथ में मिलता है कि यदि

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

किसी चंडाल के स्पर्श से शरीर अपवित्र हो जाए, तो सभी वस्त्रों के साथ स्नान करके उसे पवित्र किया जा सकता है।[349]

पालि ग्रंथों में चंडालों को स्पष्टतया अछूत बताया गया है। बाद के एक जातक में चंडाल को अधमाधम कोटि का माना गया है।[350] चंडाल का शरीर स्पर्श करके आने वाली हवा दूषित समझी जाती थी।[351] चंडाल पर दृष्टि पड़ना अपशकुन माना जाता था।[352] यही कारण है कि बनारस के एक सेट्ठि की लड़की चंडाल को देखने पर अपनी आंखें धोने लगती है, क्योंकि वे आंखें अधम व्यक्ति को देखने के कारण दूषित हो गई थीं।[353] यदि चंडाल भोजन या पेय सामग्री को देख ले तो उसे ग्रहण करना वर्जित था।[354] अज्ञानवश भी उसका अन्न ग्रहण कर लेने पर लोगों को सामाजिक बहिष्कार का भागी बनना पड़ता था। कहा जाता है कि सोलह हजार ब्राह्मण अपनी जाति से इसलिए बहिष्कृत कर दिए गए कि उन्होंने अनजाने ऐसा अन्न ग्रहण किया जो शूद्र के जूठन के स्पर्श से दूषित हो गया था।[355] ऐसे ब्राह्मण का भी वर्णन आया है जिसने भूख की पीड़ा में चंडाल का जूठा खा लिया और अपनी जाति के लोगों की निंदा से बचने के लिए आत्म-हत्या कर ली।[356] एक जातक कथा में बताया गया है कि जब चंडाल शहर में प्रवेश करता है तब लोग उसे मार मारकर बेहोश कर देते हैं।[357] इसी प्रकार की कथा बाद के जैन ग्रंथ में आई है। कहा गया है कि जब कामदेव की पूजा के अवसर पर बनारस के मातंग नेता के दो बेटे गायन और नर्तक दल को लेकर पहुंचे तो उच्च जाति के लोगों ने उन्हें लात और थप्पड़ से मारा और शहर से बाहर निकाल दिया।[358] जो भी हो, जातक प्रसंगों से पता चलता है कि यद्यपि उच्च वर्णों के सभी लोग चंडालों को अस्पृश्य समझ कर घृणा करते थे, फिर भी ब्राह्मण उनसे विशेष नफरत करते थे।

जब ब्राह्मणप्रधान समाज में चंडालों को संभवतया शिकारी और बहेलिया होने के कारण स्थान मिला, तब उन्हें पशुओं और मनुष्यों का शव फेंकने का काम सौंपा गया। वे हमेशा शवों को हटाने और जलाने के काम[359] से संबद्ध दीख पड़ते हैं।[360] यह काम पण भी करते थे, जो चंडाल कहलाते थे।[361] चंडालों को कभी कभी सड़क पर झाड़ू लगाने के लिए कहा जाता था।[362] धर्मसूत्रों में चंडाल को जल्लाद के रूप में चित्रित नहीं किया गया है, जो अपराधियों को फांसी पर चढ़ाता है। जातक में उसे अपराधी को कोड़ा मारने और उसका अंगविच्छेद करने वाला बताया गया है।[363] कहा गया है कि जातक में जिस चोरघातक की चर्चा आई है, संभव है कि वह चंडाल हो।[364] कुछ चंडाल बाजीगरी और कला-बाजी का व्यवसाय करके अपनी जीविका चलाते थे।[365] आज भी उत्तर भारत में पिछड़ी जाति के घुमक्कड़ लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर यह पेशा करते हैं। चंडाल दुखपूर्ण और गंदा जीवन व्यतीत करते थे। पालि ग्रंथ में दी गई

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

एक उपमा से पता चलता है कि जब चंडाल के बच्चे फटा चिटा कपड़ा पहने हुए अपने हाथ में भिक्षापात्र लेकर गांव या शहर में प्रवेश करते हैं तब वे सिर झुकाए हुए आगे बढ़ते हैं।[366] बाद के एक जातक से हमें मालूम होता है कि चंडाल के पास एक जोड़ा रंगीन वस्त्र (जो अन्य लोगों से उसका विभेद कर सके), एक कमरबंद, जीर्ण शीर्ण वस्त्र और एक मिट्टी का पात्र रहता था।[367]

साधारण बोलचाल की भाषा में वह व्यक्ति चंडाल कहलाता था जिसमें कोई भी गुण न हो, जो धर्म और नैतिक चरित्र से विहीन हो।[368] फिक ने ठीक ही कहा है कि जातकों से प्रकट होता है कि चंडालों का जो चित्रण उन्होंने किया है, उसमें व्यवहार और सिद्धांत में बहुत अंतर नहीं है।[369] किंतु यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि चंडालों के संबंध में अधिकांश प्रसंग बाद के जातकों में, खासकर चौथे खंड में आए हैं, अतः वे मौर्यपूर्व काल के अंत के अथवा उसके बाद के भी माने जा सकते हैं।

पुल्कस और पुक्कुस ऐसी आदिम जाति के मालूम पड़ते हैं जो शिकार करके या बांस की वस्तुएं बनाकर जीवनयापन करते थे,[370] किंतु धीरे धीरे उन्हें ब्राह्मण-कालीन समाज में खास खास ढंग के कार्यों के लिए रख लिया गया, यथा, मंदिर और राजमहल से फूलों को हटाना।[371] फूल हटाने के लिए वे मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर सकते थे, जिससे पता चलता है कि वे चंडाल जैसे अधम नहीं माने जाते थे।

वेण एक दूसरी जनजाति थी जो शिकार और बांस का काम करके निर्वाह करती थी।[372] एक परवर्ती जातक में वेणुकार या वेलुकार का वर्णन आया है जो बांस काटकर बोझा बनाने के लिए चाकू लेकर जंगल जाता है, ताकि उसका व्यापार कर सके।[373] धर्मसूत्रों में वेणों की भी उत्पत्ति का अन्वेषण किया गया है। बौधायन का मत है कि वैण वैदेहक पिता (वैश्य पिता और क्षत्रिय माता से उत्पन्न) और अंबष्ठ माता (ब्राह्मण पिता और वैश्य माता से उत्पन्न) की संतति था।[374] इस प्रकार चंडाल और पुल्कस की भांति वैण में शूद्र का रक्तसंपर्क नहीं था। यद्यपि एक परवर्ती जातक में वेणी शब्द को चंडाल के साथ कोष्ठबद्ध किया गया है,[375] फिर भी कोई प्रमाण नहीं मिलता जिससे पता चले कि वेणों को चंडाल के समान अस्पृश्य समझा जाता था। विनय पिटक की टीका में स्पष्ट बताया गया है कि वेण के रूप में जन्म लेने का अर्थ हुआ बढ़ई (तच्छक) के रूप में जन्म लेना।[376] जब वैण और तक्षक शब्द समान अर्थबोधक हैं, तब यह बात विचित्र लगती है कि जिस तक्षक को वैदिक समाज में ऊंचा दर्जा मिला हुआ था, उसे बौद्ध ग्रंथों में अधम जाति की कोटि में दिखाया जाए।

बौद्ध ग्रंथों में रथकार को भी अधम जाति का माना गया है, किंतु ब्राह्मण ग्रंथों में उसकी सामाजिक हैसियत उच्च कोटि की ही रखी गई है। गृह्यसूत्र में

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उसके उपनयन का भी उपबंध किया गया है।[377] रीज डैविड्स का विचार है कि रथकार आदिम जाति के थे।[378] यह सही नहीं मालूम पड़ता है, क्योंकि वैदिक काल में वे आर्य विश् के अंग थे। किंतु संभव है कि बाद में कुछ आदिम जातियां रथकारों की पंक्ति में मिला दी गई हों। परवर्ती जातक के एक अनुच्छेद[379] के आधार पर यह सुझाव दिया गया है कि रथकार का ओहदा इसलिए गिर गया कि उसने चर्मकार का काम आरंभ कर दिया।[380] किंतु रथकार भी राजा के रथ के पहिए बनाने में संलग्न रहता था।[381] इतना ही नहीं, यद्यपि चर्मकार का काम हीन कोटि का माना जाता था, फिर भी वह अधम जातियों की सूची में नहीं रखा गया था। बौद्ध ग्रंथों में रथकार को अधम जाति का मानने का एक कारण प्रायः यह था कि बौद्धों को युद्ध से घृणा थी और रथकार युद्ध के लिए रथों का निर्माण करते थे। जो भी हो, इतना तो स्पष्ट है कि वे चंडाल और पुक्कुस के स्तर तक नीचे नहीं गिरे थे।

बौद्धों ने हीन जातियों की जो सूची बनाई उसमें नेसादों को कैसे सम्मिलित किया गया, इसकी व्याख्या करना बहुत कठिन नहीं है। यह धर्मसूत्रों में उनकी हीन स्थिति से मिलता जुलता है। वे लोग आर्यपूर्व जनजातियों में से थे, जो नाटे कद के होते थे। उनका रंग कोयले जैसा काला, आंखें लाल,[382] कपोल उभरे हुए, नाक चिपटी और बाल तांबे के रंग के थे।[383] उनके संबंध में विचित्र परंपरा चली आ रही है कि वे वेण राजा के तन से उत्पन्न हुए थे,[384] जिसने मुनियों पर बहुत अत्याचार किए। इससे अनुमान किया जा सकता है कि उन्होंने ब्राह्मणवाद के विकास का विरोध किया था। जब उन्हें ब्राह्मणप्रधान समाज में समाविष्ट कर लिया गया, तब भी निषाद मुख्यतया शिकारी ही बने रहे[385] और अपने गांवों में निवास करते रहे।[386] संभव है कि कुछ निषादों ने ब्राह्मणों के वर्ग में स्थान पा लिया हो। यद्यपि गोत्रों की किसी भी मानक सूची में निषाद गोत्र का उल्लेख नहीं है, फिर भी पाणिनि के गणपाठ[387] में निषाद गोत्र की चर्चा हुई है। ऐसा तभी संभव हुआ होगा, जब आदिवासी पुरोहितों में से कुछ को ब्राह्मणों का दर्जा दे दिया गया होगा, या जब ब्राह्मण आदिम निवासियों के पुरोहितों के रूप में काम करने लगे होंगे।[388] इतना तो स्पष्ट है कि इस काल में निषाद उस दर्जे से नीचे अवश्य आ गए थे, जो वैदिक समाज में उन्हें मिला था।

पालि ग्रंथों में उल्लिखित कुछ हीन जातियों, खासकर निषादों और चंडालों को तो अवश्य ही अछूत माना जाता था। सामूहिक रूप से अछूत अंत्य या बाह्य कहे जाते थे, अर्थात वे लोग गांव या नगर के बाहर रहने वाले थे। गौतम ने अंत्य को पापिष्ठ माना है।[389] वसिष्ठ ने भद्र शूद्रों और अंत्ययोनियों के बीच अंतर करते हुए बताया है कि अंत्ययोनि के लोग केवल अपने मुकदमे में गवाह बनकर उपस्थित हो सकते थे।[390] आपस्तंब धर्मसूत्र में 'अंतः' शब्द का प्रयोग

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

चंडाल के प्रसंग में हुआ है और उसमें बताया गया है कि वह गांव के आखिरी छोर पर रहता था।[391] इसी संदर्भ में हरदत्त ने बाह्यों को, जिनके सामने वेद पाठ करना निषिद्ध था, उग्र और निषाद कहा है।[392] वसिष्ठ के मतानुसार अंतावसायिन् ऐसी जाति थी जिसकी उत्पत्ति शूद्र पुरुष और वैश्य स्त्री से हुई थी।[393] कहा गया है कि जो ब्राह्मण पिता अंतावसायिनों के साथ रहे या उस समुदाय की किसी स्त्री का संभोग करे, उसे जाति से बहिष्कृत कर देना चाहिए।[394] साधारणतया अछूत गांवों और नगरों के छोर पर अथवा अपनी बस्तियों में रहते थे। उनका बिलगाव किन्हीं प्राचीन आर्य बस्तियों से जानबूझ कर बाहर निकाले जाने की नीति के फलस्वरूप नहीं हुआ था। मालूम पड़ता है कि आदिम जातियों के गांवों की पूरी आबादी को ब्राह्मणों ने अस्पृश्य घोषित कर दिया था।

धर्मसूत्रों में अस्पृश्यता की उत्पत्ति की जो व्याख्या की गई है, उसे स्वीकार करना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें अस्पृश्य उसे कहा गया है जो विभिन्न जातियों से उत्पन्न हो। बताया गया है कि अधिकांश मामलों में अस्पृश्यों की उत्पत्ति बौद्ध समुदायों के सर्वथा विलग और परंपरारहित जीवन के परिणामस्वरूप हुई।[395] किंतु यह विचार तर्कसंगत नहीं लगता, क्योंकि यह सामाजिक तथ्य मौर्यपूर्व काल में प्रकट हुआ, जब बौद्ध धर्म का उद्भव और विकास हुआ। यह भी कहा गया है कि जिन लोगों ने गोमांस खाना जारी रखा, उन्हें अछूत करार दिया गया।[396] हो सकता है कि इस कारण आगे चलकर उनकी संख्या बढ़ी हो, किंतु यह उनकी उत्पत्ति की व्याख्या नहीं मानी जा सकती, क्योंकि मात्र गौतम धर्मसूत्र[397] को छोड़ कहीं भी कुछ ऐसा नहीं दिखाई पड़ता, जिससे पता चलता हो कि इस युग में ब्राह्मण समाज में गोमांस खाना निषिद्ध था। यह भी तर्क दिया जाता है कि घृणा की जिस भावना से अस्पृश्यता का विकास हुआ, वह भारतीय आर्यों में मूलतया नहीं थी, बल्कि उसका प्रवेश द्रविड़ों के माध्यम से हुआ जिनके बीच दक्षिण में आज भी अस्पृश्यता की भावना प्रबल है।[398] किंतु इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि ब्राह्मणप्रधान समाज में द्रविड़ों के आत्मसात्करण के पहले, उनके द्वारा ब्राह्मणवाद के अंगीकार के पहले दक्षिण में अस्पृश्यता प्रचलित थी। इसके विपरीत दक्षिण के विधिप्रवर्तक बौधायन ने तथा आपस्तम्ब ने आहार और स्पर्श के विषय में शूद्रों के प्रति उतना कट्टर दृष्टिकोण नहीं अपनाया है जितना धर्मसूत्रों के दो अन्य उत्तर क्षेत्रीय लेखकों ने अपनाया है। इसके अलावा पहले यह भी बताया गया है कि उच्च वर्ण के लोग, जो आर्य होने का दावा करते थे, किस प्रकार कुछ शिल्पों और व्यवसायों को हेय समझते थे। अंततः, यह निष्कर्ष निकलता है कि अस्पृश्यता की भावना का उद्भव कुछ व्यवसायों को अपवित्र मानने के सिद्धांत के आधार पर हुआ है।[399] किंतु महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कुछ व्यवसाय क्यों अपवित्र माने जाएं ?

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

अस्पृश्यता की उत्पत्ति का एक कारण आदिम जातियों का संस्कारहीन जीवन था, क्योंकि वे मुख्यतया शिकारी और बहेलिए के रूप में जीवन बिताते थे और उनकी तुलना में ब्राह्मण समाज के लोग धातुकर्म और कृषि का ज्ञान रखते थे तथा नगरजीवन का विकास कर रहे थे।[400] बौद्ध ग्रंथों में इन जातियों के हीन संस्कार और तज्जन्य उनकी दुरावस्था का वर्णन इन शब्दों में किया गया है : 'यदि वह मूढ़ इतनी लंबी अवधि के बाद मनुष्य की कोख में जन्म लेता भी है तो वह नीच जाति के घर जाता है, जैसे चंडाल, नेसाद, वेण, रथकार और पुक्कुस। इनका पुनर्जन्म घुमक्कड़ और अकिंचन के रूप में अभावग्रस्त जीवन बिताने के लिए होता है; इन्हें पेट भर भोजन और शरीर पर वस्त्र शायद ही मिल पाता है।'[401] इससे पता चलता है कि इन अधम जातियों का जीवन बड़ा संकटमय था और उनकी हालत वैसे शूद्रों से कहीं बदतर थी जो दासों और कम्मकरों के रूप में नियोजित थे और जीविका की दृष्टि से कुछ हद तक सुरक्षा का अनुभव करते थे। भौतिक जीवन की यह विषमता खुद ब्राह्मण समाज में बढ़ रही घृणा की भावना के साथ उग्र ही होती गई। तत्कालीन ग्रीक समाज[402] की भांति ही वैदिककाल के पश्चातवर्ती समाज में शारीरिक श्रम वाले कार्यों और व्यवसायों के प्रति घृणा के भाव दिखाई पड़ते हैं। उच्च वर्ण के लोग, खासकर ब्राह्मण और क्षत्रिय, धीरे धीरे उत्पादन कार्य से हाथ खींचने लगे और अपनी स्थिति तथा कृत्यों के संबंध में वंश परंपरा का निर्वाह करने लग गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके मन में न केवल शारीरिक श्रम वाले कार्यों के प्रति घृणा बढ़ी बल्कि वे उन्हें भी हेय समझने लगे जो इस तरह का कार्य करते थे।

आदिम जातियों की हीन संस्कृति, श्रमसाध्य कार्य के प्रति बढ़ते हुए घृणा के भाव, और निषेध तथा अपवित्रता संबंधी अतिप्राचीन विचारों की पृष्ठभूमि में अस्पृश्यता जैसी असाधारण भावना का उदय हुआ। यह खासकर चंडाल के कार्य के बारे में सत्य था, जो शवों को निपटाता था और जिस कार्य को पुराने विचार के लोग अपवित्र और घृणास्पद समझते थे। नतीजा यह हुआ कि लोग ऐसे व्यक्तियों का संग साथ छोड़ने लगे। आगे चलकर न केवल निषादों और पुल्कसों को ही, वरन चमड़े के व्यवसायियों और बुनकरों को भी अस्पृश्य माना जाने लगा। यों, इस काल में यद्यपि चम्मकारों और पेसकारों का कार्य हेय समझा जाता था, फिर भी खुद उन्हें अस्पृश्य नहीं माना जाता था।

अंततः, हमें यह देखना है कि इस काल के धार्मिक सुधार आंदोलनों ने शूद्रों की स्थिति को कहां तक प्रभावित किया। जहां तक धार्मिक उद्धार का संबंध है बौद्ध धर्म ने न केवल चारों वर्णों के लिए अपना दरवाजा खोलकर उन्हें संघ में प्रवेश करके भिक्षु बनने की अनुमति दी[403] बल्कि चंडालों और पुक्कुसों को भी निर्वाण प्राप्त करने योग्य बताया।[404] जब डाकू अंगुलिमाल को बौद्ध संप्रदाय में

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

लिया गया तब उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा : 'वस्तुतः अब मेरा आर्य कुल में जन्म हुआ है।'[405] इससे पता चलता है कि बौद्धों ने अपने मठों में शूद्रों को जो प्रवेश दिया, उससे जनजातियों के दीक्षा पाने के प्राचीन अधिकार उन्हें वापस मिल गए, जिनसे वे ब्राह्मण समाज द्वारा वंचित कर दिए गए थे। किंतु जहां जनजातियों की जीवनदीक्षा उन्हें इस संसार के व्यावहारिक जीवन के लिए तैयार करती थी, वहां यह नई दीक्षा उन्हें इस जीवन के कष्टों से त्राण पाने के लिए आध्यात्मिक दृष्टि देती थी।[406]

ज्ञान प्रदान करने में बौद्ध धर्म किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता था। बुद्धदेव कहते थे कि जिस प्रकार राजा या राज्यक्षेत्र के स्वामी के लिए सारा राजस्व अपने ही हित में लगाना श्रेयस्कर नहीं है, उसी प्रकार ब्राह्मण या श्रमण का सारे ज्ञान पर एकाधिकार कर लेना उचित नहीं।[407] बुद्धदेव के विचारानुसार कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी जाति का क्यों न हो, अध्यापक बन सकता है। कहा गया है कि अध्यापक शुद्ध चंडाल या पुक्कुस क्यों न हो, हमेशा उसका आदर किया जाना चाहिए।[408] बौद्ध धर्म की मनोवृत्ति का एक विशेष उदाहरण जातक कथा में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि एक ब्राह्मण ने चंडाल से जादू सीखा किंतु लज्जावश उसे गुरु नहीं स्वीकार करने के कारण वह जादू भूल गया।[409] दूसरा उदाहरण एक बोधिसत्त चंडाल का है जिसने शास्त्रार्थ में पराजित अपने एक ब्राह्मण सहपाठी को लात से मारा, किंतु इस आचरण के लिए अध्यापक द्वारा निंदित हुआ।[410]

आरंभ में जैन धर्म ने सभी वर्णों के सदस्यों को मठ में प्रवेश की अनुमति दी और चंडालों के उत्थान का भी प्रयास किया। एक परवर्ती जैन ग्रंथ में ऐसे राजा की चर्चा आई है जिसने एक मातंग से तंत्र मंत्र सीखने के लिए निरंतर आसन ग्रहण किया।[411] उत्तराध्ययन से पता चलता है कि हरिसेन जो जन्म से सोवाग (श्वपाक चंडाल) था, एक ब्राह्मण अध्यापक के यज्ञ परिसर में गया और ब्राह्मण को उसने तपस्या, साधु जीवन, सम्यक् चेष्टा, आत्मनिग्रह, शांति और ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया।[412]

प्राचीन जैन साधु, ब्राह्मणों के विपरीत, निम्न वर्ग के परिवारों, जिनमें बुनकर भी सम्मिलित थे,[413] का अन्न ग्रहण करते थे। उसी प्रकार बौद्ध भिक्षु या भिक्खुनी चारों वर्णों के परिवारों में अन्न मांगने जा सकते थे, अथवा निमंत्रण मिलने पर उनके घर जाकर भोजन कर सकते थे।[414] किंतु हमें यह मालूम नहीं कि इन धर्मों के साधारण अनुयायी इस बात में अपने शिक्षकों का अनुसरण करते थे या नहीं।

कई दृष्टांतों से पता चलता है कि निम्न जाति के लोग बौद्ध विहारों में जाते थे। कहा जाता है कि यद्यपि मातंग चंडाल का बेटा था, फिर भी उसने

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

अभय वर प्राप्त किया था जो कितने क्षत्रियों और ब्राह्मणों को भी नहीं मिल पाया।[415] एक भिक्खु का वर्णन है जो गृद्धों को प्रशिक्षण देता था,[416] और एक ऐसे चंडाल का जिक्र आया है जिसने गृहविहीन जीवन का वरण किया। फिक का विचार है कि 'ऐसे धर्मात्माओं का अस्तित्व संदिग्ध है।'[417] किंतु पालि धर्मग्रंथ के इस विवरण में संदेह करने का कोई सुसंगत कारण उन्होंने नहीं बताया है। थेर और थेरिगाथाओं के लेखकों की सूची में कम से कम दो सौ उनसठ थेरों में दस[418] और उनसठ थेरियों में से आठ[419] समाज में ऐसे वर्ग के थे जिन्हें शूद्र माना जा सकता है। इनके अंतर्गत अभिनेता, चंडाल, टोकरी बनाने वाले, अहेरी, वेश्या और दासी थे।[420] जैन मठों के बारे में ऐसी जानकारी नहीं मिलती है, जिससे विदित हो सके कि उनमें निम्न वर्गों के लोगों का अनुपात क्या था। किंतु यह महत्वपूर्ण है कि महावीर की प्रथम शिष्या दासी थी, जो बंदी बनाकर लाई गई थी।[421] कहा गया है कि बहुधा धन और शक्ति से अघा जाने के प्रतिक्रियास्वरूप लोग घर छोड़ देते थे, फलतः निम्न वर्ग के लोग घर का त्याग नहीं करते थे।[422] किंतु बौद्धों अथवा जैनों के मठों के विषय में इस तथ्य के समर्थक प्रमाण शायद ही मिलते हैं। जैनों के धर्म सिद्धांत के अनुसार संन्यास धारण करने के कुछ कारणों में अकिंचनता, अस्वस्थता, आकस्मिक क्रोध और अपमान आदि थे।[423] जैन साधुओं को गृहस्थों ने जो निम्नलिखित दुर्वचन कहे उनमें हो सकता है कुछ वास्तविकता रही हो : 'जो श्रमण हो जाते हैं, वे अधमाधम कोटि के कामगार होते हैं, वे अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ रहते हैं, वे हीन जाति और हीन कोटि के तथा अकर्मण्य होते हैं।'[424] लोग धड़ल्ले से साधु न बनते चले जाएं, इसके लिए कहा गया कि जो दुखी व्यक्ति दूसरों से भोजन प्राप्त करने के उद्देश्य से साधु बनेगा उसे अगले जन्म में सूअर बनना पड़ेगा जो फेंके हुए जूठन की खोज में घूमता फिरेगा।[425] एक बौद्ध ग्रंथ में बताया गया है कि बिंबिसार के राज्यकाल में संघ को राजा की ओर से विशेष सुरक्षा प्राप्त थी, जिसके चलते यदाकदा बंदी, चोर, कोड़े से पीटे जाने का दंड प्राप्त (कशाहत) व्यक्ति, ऋणी और भागे हुए गुलाम बौद्ध धर्म की शरण में चले जाते थे और अभिषिक्त हो जाते थे।[426] जब ऐसे मामलों की ओर बुद्धदेव का ध्यान आकृष्ट किया गया तब उन्होंने यह विधान किया कि ऐसे लोगों को संघ में प्रवेश नहीं करने दिया जाए। दीघनिकाय के एक परिच्छेद से भी यह स्पष्ट है कि निम्न वर्ग के लोग बौद्ध भिक्खु बनकर अपनी यातनाओं का अंत करना चाहते थे। सामन्नफलसुत्त के एक प्रसंग में मगध के अजातशत्रु ने महावत, साईस, गृहदासों, रसोइयों, नापितों, स्नापकों, हलवाइयों, मालाकारों, धोबियों, बुनकरों, टोकरी निर्माताओं और कुंभकारों को उनके व्यवसायों से[427] मिलने वाले लाभ की चर्चा करते हुए बुद्धदेव से पूछा कि संघ के सदस्यों को जिन्होंने सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास ले लिया है, वैसा कोई

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

लाभ प्राप्त है या नहीं, जो उन्हें अपने व्यवसाय से प्राप्त होता था। उत्तर में बुद्धदेव ने पांचों इंद्रियों के सुखों से संपन्न राजा के विलासितापूर्ण जीवन और उस शूद्र सेवक के जीवन के बीच व्याप्त विषमता की ओर ध्यान आकृष्ट किया जो देर से सोता, सबेरे जागता और हमेशा मालिक के आदेशपालन में तत्पर रहता है। उसे हमेशा यह चिंता रहती है कि उसका हर काम उसके मालिक की रुचि के अनुकूल हो।[428] बुद्धदेव ने यह भी बताया कि ऐसा दास राजा के समान जीवन की आकांक्षा करने लगता है और उसकी पूर्ति हेतु पुण्य अर्जित करने के लिए एकांतवासी बन जाता है। यहां बुद्धदेव एक प्रतिप्रश्न कर बैठते हैं: 'जिस व्यक्ति को आप साधारण स्थिति में दास या नौकर समझते हैं, वही व्यक्ति यदि संघ की शरण में आ जाए तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे?' राजा ने स्वीकार किया कि 'उसे सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति मानकर और आसन, परिधान, भिक्षापात्र, आवास और औषध का प्रबंध कर, वह उसका आदर करेगा।'[429] बुद्धदेव की उपर्युक्त वाणी से यह असंदिग्ध है कि निम्न वर्ग के लोग जो संन्यास अपनाते थे, उसके फलस्वरूप उन्हें न केवल तात्कालिक निर्धनता से मुक्ति मिल जाती थी, बल्कि अगले जन्म में सुखमय जीवन बिताने के लिए भी पर्याप्त पुण्य प्राप्त हो जाता था। उसी परिच्छेद में बुद्धदेव ने राजा के विलासपूर्ण जीवन की कर देने वाले खेतिहर गृहस्थ के जीवन से तुलना करके बताया है कि उस गृहस्थ के मन में भी सुखमय जीवन की भावना जग सकती है और वह एकांतवासी बनने का निर्णय कर सकता है।[430] यह ध्यातव्य है कि इस संबंध में ब्राह्मणों और क्षत्रियों की कोई चर्चा नहीं हुई है, जिससे पता चलता है कि साधारणतया वैश्यों और शूद्रों जैसे गरीब लोग भौतिक लाभ की दृष्टि से संघ की शरण लेते थे। वे भिक्खुओं के जीवन की कामना करते थे, जो अच्छा भोजन करके बाहर की हवा से बचकर आराम से बिछावन पर लेटते हैं।[431]

किंतु बौद्ध और जैन मठों के नियमानुसार यह इष्टकर नहीं समझा जाता था कि बहुत बड़े श्रमिक वर्ग को संघ में लेकर सांसारिक कर्तव्यों से विरत कर दिया जाए। कोई दास या ऋणी बौद्ध मठ में तब तक नहीं प्रवेश पा सकता था[432] जब तक कि दास का मालिक उसे दासत्व से मुक्ति न दे दे और ऋणी अपना ऋण शोधन न कर दे। संघ में प्रवेश करने के लाभ स्पष्ट थे। एक उपदेश वार्ता के क्रम में बुद्धदेव अजातशत्रु से खास तौर से पूछते हैं कि क्या आप ऐसे भूतपूर्व दास को, जो संघ का सदस्य बन गया है, अपना दास मानेंगे और उसे पुनः दास कर्म के लिए बाध्य करेंगे। राजा का उत्तर स्पष्टतया नकारात्मक है।[433] संभवतया इस प्रसंग में ऐसे दास की चर्चा है जो स्वामी की अनुमति से संघ में दाखिल हुआ हो। जैन मठ में भी जिन लोगों के लिए प्रवेश वर्जित था; वे थे डकैत, राजा के शत्रु, ऋणी, अनुचर, सेवक और ऐसे लोग जिनका बलात् धर्म परिवर्तन किया गया हो।[434]

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

बौद्ध और जैन धर्म ने, तात्कालिक सामाजिक और आर्थिक संबंधों को स्वीकार करते हुए भी, दासों की स्थिति सुधारने के कुछ दूसरे तरीके अपनाए। एक धर्मसूत्र ने केवल ब्राह्मणों के लिए मनुष्य का व्यापार वर्जित किया था,[435] किंतु वह भी दासों के बदले दासों का विनिमय कर सकता था।[436] पर बौद्ध और जैन धर्मग्रंथों ने अपने साधारण अनुयायियों के लिए भी मनुष्य का व्यापार निषिद्ध किया है।[437] फिर भी, एक बौद्ध ग्रंथ में कहा गया है कि आर्य शिष्य दासों और कम्मकरों से समृद्ध बनते हैं।[438] इससे पता चलता है कि साधारण उपासक अपने दासों की संख्या अन्य तरीकों से बढ़ा सकता था। भिक्खु दास नहीं रखते थे। जातक कथा के एक अनुच्छेद[439] का यह अर्थ लगाया गया है कि भिक्खुओं के दास अपने बीमार मालिकों के लिए रुचिकर भोजन प्राप्त करने के उद्देश्य से नगर में जाते थे।[440] किंतु यह अर्थ उक्त परिच्छेद के गलत रूपांतर के आधार पर किया गया है।[441] इस परिच्छेद में दासों और मालिकों की चर्चा नहीं की गई है, बल्कि ऐसे अन्य भिक्खुओं का उल्लेख किया गया है जो अपने बीमार बंधुओं की सुश्रूषा करते थे और जिन्हें 'आवुसो' शब्द से संबोधित किया जाता था। यह ऐसा शब्द है जो सामान्यतया भिक्खुओं के लिए प्रयुक्त होता है।[442]

बौद्ध और जैन धर्म ने अपने अनुयायियों में अपने कर्मचारियों के प्रति उदारता और दयालुता की भावना जगाने का प्रयास किया। दीघ निकाय के एक परिच्छेद में यह आदेश दिया गया है कि मालिकों को चाहिए कि वे अपने दासों और कामगारों के प्रति भद्र व्यवहार करें; उन्हें सामर्थ्य से बाहर कार्य नहीं दें। उन्हें भोजन और मजूरी दें; अस्वस्थावस्था में उनकी देखभाल करें; समय समय पर उन्हें छुट्टी दें; और अपने असाधारण सुस्वादु भोजन में से हिस्सा दें। नौकर को भी चाहिए कि मजूरी से संतुष्ट रहे, ठीक से काम करे और अपने मालिक का नाम बनाए रखे।[443] अशोक ने भी अपनी प्रजा को ऐसे अनुदेश दिए थे। जातक में भी कहा गया है कि यदि मालिक बोधिसत्व हो तो वह दास से अच्छा व्यवहार करता है।[444] एक जैन ग्रंथ में कहा गया है कि धन का संचय न केवल सगे-संबंधियों और राजाओं के लिए बल्कि दासों, दासियों, कम्मकरों और कर्मचारियों के लिए भी किया जाना चाहिए। इस तरह यह सुझाव दिया गया है कि ये दास, दासियां, कम्मकर आदि अपने मालिक से भरण पोषण पाने के हकदार हैं।[445]

हमें इस बात का स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाता है कि निम्नवर्गीय लोगों में अपधर्मी संप्रदाय के अयाजकीय अनुयायियों की संख्या कितनी थी। शिल्पी समुदायों के बीच बौद्ध धर्म के कुछ अनुयायी अवश्य थे।[446] आजीविक संप्रदाय कुंभकारों के बीच विशेष रूप से प्रचलित था, और उनके बीच इसका विशेष आकर्णण था।[447] सुधारवादी धर्मों ने कृषि तथा कुछ अंश तक शिल्प व्यापार पर आधारित वर्ग व्यवस्था को मजबूत अवश्य किया, पर उन्होंने निम्न वर्ग के लोगों

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

की स्थिति में किसी तरह कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं किया। बौद्ध मठों में ऐसे लोगों का अनुपात और महत्व नगण्य मालूम पड़ता है। प्राचीन बौद्ध धर्म में समता के सिद्धांत का आलंबन रहने पर भी अभिजात तंत्र (तीनों प्रकार के, जन्म, विद्या और वैभव) की ओर विशेष झुकाव था, जिसे परंपरा की देन कहा जा सकता है।[448] यह कहना तो अतिरंजना होगी कि बुद्धदेव के प्रादुर्भाव से भारत के सामाजिक संघटन पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा।[449] किंतु बौद्धों ने उस वर्ण व्यवस्था के आधारभूत तथ्यों का शायद ही कभी खुलकर विरोध किया, जिसके अनुसार शूद्रों को सेवि वर्ग के अंतर्गत रखा गया था। ब्राह्मणों का यह दावा था कि वे अन्य तीन वर्णों से श्रेष्ठ हैं, किंतु गौतम बुद्ध ने इसका खंडन करते हुए बताया है कि जहां तक उद्‌भव का प्रश्न है क्षत्रिय उच्च हैं और ब्राह्मण निम्न। पर वे वैश्यों और शूद्रों की अपेक्षा न तो ब्राह्मणों और न क्षत्रियों की ही श्रेष्ठता पर कोई आपत्ति करते हैं।[450] बौद्ध धर्म केवल यह बताने का प्रयास करता है कि मुक्ति की खोज में जाति का कोई महत्व नहीं।[451] ईसाई धर्म की ही तरह इस काल के धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भी दासता की बुनियाद पर कभी कोई आघात नहीं किया। उन्होंने शूद्रों की आर्थिक एवं राजनीतिक अशक्तताओं को ही दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया। उलटे बौद्ध संघ का दरवाजा गुलामों और कर्जखोरों के लिए बंद था, और बौद्ध धर्म कर्ज की अदायगी पर जोर देता था।

ऊपर के विचार विमर्श से पता चलता है कि वैदिककाल के पश्चात शूद्रों की स्थिति अस्पष्ट नहीं रह गई। इस काल में वे शेष जातीय अधिकारों से वंचित कर दिए गए और आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक अशक्तताएं उनके सिर मढ़ दी गईं। तीनों उच्च वर्णों से उनमें स्पष्ट विभेद कर दिया गया; उन्हें वैदिक यज्ञ, दीक्षा, शिक्षा और प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति से वंचित रखा गया और सबसे बड़ी बात तो यह हुई कि उन्हें दास, कृषि मजदूर और शिल्पियों के रूप में द्विजों की सेवा करने का भार सौंपा गया। इस संबंध में प्राचीन बौद्ध और जैन ग्रंथों में निम्नवर्गीय लोगों का जो चित्र उभरता है वह सारतः भिन्न नहीं है। बौद्ध ग्रंथों में बार बार प्रथम तीन वर्णों के लोगों को धनधान्य से परि-पूर्ण बताया गया है,[452] किंतु दासों, शूद्रों और कम्मकरों की चर्चा भी नहीं की गई है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि बुद्धदेव ने ब्राह्मण, क्षत्रिय और गहपति उपासकों[453] की सभाओं में भाग लिया था, पर शूद्रों की सभा का कोई उल्लेख नहीं है।

ऐसा कहना सतही होगा कि शूद्रों को यज्ञ कर्म और उच्च वर्णों की पंधत से विलग रखने के पीछे केवल यही भावना थी कि धर्म-कर्मों की पवित्रता और शुचिता बनी रहे।[454] यह विशेष रूप से ध्यातव्य है कि इस तरह की भावना तभी पनपी होगी जब समाज के अनेक लोगों को पीढ़ियों तक श्रमजीवी बने रहने की स्थिति में पहुंचा दिया गया होगा और परिणामस्वरूप उन्हें अपने कार्य

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

के आधार पर अपवित्र मान लिया गया होगा। निम्नवर्गीय लोगों के शारीरिक श्रम के प्रति इस घृणा की भावना ने अंततः अस्पृश्यता को जन्म दिया।

धर्मसूत्रों, खासकर वसिष्ठ और गौतम के धर्मसूत्रों में यह प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है कि पवित्रता, भोजन और विवाह की दृष्टि से वैश्यों को शूद्र ही समझना चाहिए। यह ऐसी प्रक्रिया है जो समान रूप में बौद्ध ग्रंथों में भी पाई जाती है। बुद्धदेव कहते हैं कि संबोधन, सत्कार, उपगम और बर्ताव के विषय में वैश्यों और शूद्रों की अपेक्षा क्षत्रियों और ब्राह्मणों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।[455] बाद के (संभवतया मौर्यकालीन) एक बौद्ध ग्रंथ में गोत्र केवल क्षत्रियों और ब्राह्मणों के ही बताए गए हैं।[456] जातक के एक प्रारंभिक परिच्छेद में यह दावा किया गया है कि बौद्धों का जन्म वैश्य या शूद्र जाति में कभी नहीं होता है बल्कि उनका जन्म दो अन्य उच्च जातियों में होता है।[457] किंतु यह परिच्छेद खास जातक का अंश नहीं है और इसे बाद का माना जा सकता है। इसी प्रकार का विचार जैन गुरुओं के जन्म के संबंध में भी प्रकट किया गया है और यह माना गया है कि उनका जन्म नीच, पतित, गरीब, अकिंचन या ब्राह्मण परिवारों में कभी नहीं होता है।[458] स्पष्ट है कि इस सूची में ब्राह्मण को शामिल करने का कारण धार्मिक वैरभाव है। किंतु सूची के शेष सदस्य सामान्यतया निम्न वर्ग के कहे जा सकते हैं। वैश्यों को शूद्र में मिलाने की प्रवृत्ति प्रायः इस काल के अंत की मालूम पड़ती है। इससे शूद्रों की संख्या बढ़ी होगी, क्योंकि दरिद्र वैश्यों को इन शूद्रों की कोटि में रख दिया गया होगा। किंतु जान पड़ता है कि इस काल में वैश्यों की सामाजिक स्थिति पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसी प्रकार सुधारवादी धर्मों ने भी मौजूदा समाज व्यवस्था में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया और शूद्रों की आर्थिक, राजनैतिक तथा कानूनी अशक्तताएं पूर्ववत बनी रहीं।

शूद्रों की अशक्तताओं और वर्णप्रथा के ढांचे को समझने के लिए बौद्धकालीन भौतिक परिवेश की समझ आवश्यक है। लोहे के बड़े पैमाने पर प्रयोग होने के कारण गंगा के मैदान खेती के लायक बनाए गए और पहले पहल लोहे के फाल के उपयोग के कारण बड़े बड़े खेत कायम हुए। खेती की जमीन का बंटवारा असमान हुआ और कुछ लोगों के पास इतनी अधिक जमीन हो गई कि वे उसे अपने कुटुंब की सहायता से नहीं जोत सकते थे। इसके लिए उन्हें श्रम की आवश्यकता थी जो दास और कम्मकर ही दे सकते थे। उल्लेखनीय है कि वैदिक साहित्य में 'कर्मकर' शब्द का प्रयोग भाड़े के मजदूर के अर्थ में नहीं हुआ है; यह प्रयोग वैदिकोत्तर सूत्र साहित्य में होता है और पालि में कर्मकर को कम्मकर कहा गया है।

खेती में श्रम की आवश्यकता केवल बड़े बड़े कृषकों और गृहपतियों को ही नहीं थी बल्कि साधारण गृहस्थों को भी एकाध दास अथवा कर्मकर की जरूरत

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

होती थी। कृषकों के कर देने के कारण महाजनपदों अथवा बड़े राज्यों का जन्म हुआ जिनके अधिकारी वर्ग टैक्सों पर जीते थे और उत्पादन कार्य से मुक्त थे। उनकी सेवा और घरेलू काम के लिए भी दासों और कर्मकरों की आवश्यकता थी। ऐसे पुरोहित अथवा ब्राह्मण, जो राजाओं और कृषकों के दान दक्षिणा से धनाढ्य बन गए थे, को भी सेवकों की आवश्यकता थी। राजाओं के हथियार बनाने के लिए और कृषकों के औजार बनाने के लिए बड़े पैमाने पर कामगारों की जरूरत थी। इस प्रकार खेती और कारीगरी को चलाने के लिए खेतिहर मजदूर और शिल्पी लगाए जाने लगे। उन्हें अपने श्रम के अनुरूप पारिश्रमिक नहीं मिलता था, और उनकी मेहनत के फल का खासा हिस्सा उच्च वर्ग के लोगों को मिलता था।

इस प्रकार की सामाजिक संरचना को कायम रखने लिए वर्गव्यवस्था का निर्माण किया गया। इसके अनुसार दासों, कर्मकरों, शिल्पियों और घरेलू सेवकों को शूद्र वर्ण की संज्ञा दी गई। उन पर भांति भांति की अशक्तताएं इसलिए लादी गईं ताकि वे उच्च वर्ण के लोगों की अनवरत सेवा करते रहें, अपने श्रम का यथेष्ठ भाग उनके सुखसुविधा के लिए देते रहें, और उनके विरुद्ध किसी प्रकार का विरोध न करें। इन अशक्तताओं के प्रति शूद्रों की क्या प्रतिक्रिया हुई, इसकी बहुत कम जानकारी मिलती है। किंतु इस मामूली जानकारी के भी आधार पर इस मत को स्वीकार करना कठिन है कि 'जीवनयापन के लिए भीषण संघर्ष नहीं चल रहा था और समाज व्यवस्था शांतिपूर्ण ढंग से चलती जा रही थी।'[459] वसिष्ठ धर्मसूत्र की एक कंडिका में शूद्रों के निम्नलिखित लक्षण बताए गए हैं: चुगली खाना, असत्य बोलना, निर्दयी होना, छिद्रान्वेषण करना, ब्राह्मणों की निंदा करना और उनके प्रति निरंतर वैरभाव रखना।[460] इससे यह संकेत मिलता है कि शूद्र आम तौर से तत्कालीन वर्णव्यवस्था के प्रति और खासकर आदर्श वर्णनेता ब्राह्मणों के प्रति शत्रुता का भाव रखते थे। किंतु जैसा ऊपर बताया गया है, मालिक अपने दासों और मजूरों के प्रति अधिक कठोर रहता था।[461] दास और मजूर की कठोरता अपने मालिक के प्रति अपेक्षाकृत कम होती थी। दासों की क्रांति का एकमात्र उदाहरण विनयपिटक में मिलता है,[462] और यह बड़े साधारण प्रकार की थी। कहा जाता है कि एक बार कपिलवस्तु के शाक्यों के दास काबू से बाहर हो गए और जंगल में भिक्खुओं को खाना पहुंचाने के लिए गई हुई स्त्रियों के साथ छीना-झपटी की तथा उनका सतीत्व भंग किया।[463]

निम्न वर्ग के लोग सामान्यतया विरोध का जो तरीका अपनाते थे वह था अपने मालिक का काम छोड़कर चल देना। यह स्थिति केवल कर के बोझ से दबे हुए गहपतियों की ही नहीं थी,[464] बल्कि शिल्पियों और दासों का भी यही हाल था। बाद के एक जातक से हमें जानकारी मिलती है कि लकड़हारों की एक बस्ती को एक काम संपन्न करने के लिए पहले ही भुगतान कर दिया गया था, पर जब उन्होंने

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उसे पूरा नहीं किया तो काम पूरा करने के लिए उन्हें बाध्य किया गया। किंतु तथाकथित 'प्राच्य वैराग्य-भावना' से अपने भाग्य के भरोसे न बैठकर उन्होंने चुपचाप मजबूत नाव बनाई और अपने परिवार सहित रातोंरात गंगा नदी के रास्ते समुद्र में पहुंच गए और तब तक चलते रहे जब तक उन्हें एक उपजाऊ द्वीप नहीं मिला।[465] काम छोड़कर भाग निकलना दासों के लिए आम बात थी। श्रीमती रीज डैविड्स का यह कथन गलत है कि भगोड़े दासों के उदाहरण नहीं मिलते।[466] जातक में कम से कम दो ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि दासों ने भागकर मुक्ति पाई।[467] यह भी कहा गया है कि भागे हुए दासों ने बौद्ध मठ में शरण ली।[468] बाद के एक जातक में कहा गया है कि बलि के लिए रखे गए कुछ व्यक्तियों ने अपनी जान बचाने के लिए अत्याचारी पुरोहित को बताया कि वे जंजीर में बंधे रहकर भी उसका दास बनकर सेवा करने को तैयार हैं।[469] इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि कुछ मामलों में दासों को कड़ियों में बांध कर रखा जाता था ताकि वे भाग न निकलें। मक्खलि गोसाल विषयक बौद्ध परंपरा में आजीवक नेता को भगोश बताया गया है, जो भले ही सत्य न हो,[470] पर इससे ऐसा संकेत तो मिलता ही है कि दास के भाग निकलने की संभावना रहती थी। एक जगह कहा गया है कि मालिक का नियंत्रण नहीं रहने के कारण दास और कम्मकर अपनी संपत्ति के साथ भाग निकले।[471] इन उदाहरणों से पता चलता है कि सामान्यतया मजदूर वर्ग के लोग अपना कार्य छोड़कर भाग जाते थे और इस तरह तत्कालीन व्यवस्था के प्रति अपना रोष प्रकट करते थे। ग्रीस या रोम के दासों के विद्रोह जैसे दृष्टांत नहीं मिलते हैं। फिर भी, धर्मसूत्रों में कहा गया है कि वर्णसंकर की स्थिति आने पर ब्राह्मण और वैश्य भी आत्मरक्षा के लिए शस्त्र धारण कर सकते थे। क्षत्रियों को तो हमेशा से यह अधिकार था ही।[472] यह तथ्य कि आपतकालीन स्थिति में तीन वर्णों के लोग ही शस्त्र धारण कर सकते हैं;[473] सूचित करता है कि नियम बनाने वाले के मन में ऐसी आकस्मिक स्थिति की कल्पना रही होगी जब शूद्र बलपूर्वक वर्ण की सीमाओं को तोड़ने का प्रयास करेंगे। यद्यपि कपिलवस्तु के दासों की सामान्य क्रांति को छोड़, इस तरह के प्रयास का कोई दृष्टांत नहीं मिलता, फिर भी वसिष्ठ के नियम से पता चलता है कि उच्च वर्णों के लोगों को आशंका थी कि शूद्रों पर जो अशक्तताएं लादी गई हैं उनके चलते कहीं वे व्यापक विद्रोह न कर बैठें।

संदर्भ

1. काणे : हिस्ट्री आफ धर्मशास्त्र, ii, भाग 1, पृ॰ XI. अल्टिन. रेस्टश्रिपटेन, पृ॰ VII; मेयर बौधायन धर्मसूत्र और आपस्तंब धर्मसूत्र को बुद्ध से पहले का मानते हैं और

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

वसिष्ठ धर्मसूत्र को ई० पू० चौथी शताब्दी का बताते हैं. हापकिंस : 'केम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया', i, पृ० 249.

2. कीथ : 'केम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया', i, पृ० 113.
3. अग्रवाल : 'इंडिया ऐज नोन टु पाणिनि', पृ० 475.
4. बुहलर : 'सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट', ii, पृ० XLV; काणे : पूर्व निर्दिष्ट i, पृ० 13.
5. गौतम धर्मसूत्र, IV. पृ० 21. हापकिंस : पूर्व निर्दिष्ट, i, पृ० 240, पाद टिप्पणी 1. हापकिंस मानते हैं कि यह बैक्ट्रियन और अन्य एशियाई ग्रीकों के बारे में है.
6. गौतम धर्मसूत्र, V. पृ० 41-42, पृ० 45.
7. बुहलर : पूर्व निर्दिष्ट ii, पृ० XLIX.
8. गौतम धर्मसूत्र, XXII. पृ० 18.
9. वही, IV. पृ० 16-21.
10. बी० के० घोष : (इंडियन हिस्टारिकल क्वार्टर्ली, कलकत्ता; iii) पृ० 6, 7-11.
11. हापकिंस : पूर्व निर्दिष्ट, i, पृ० 242.
12. बौधायन धर्मसूत्र, II, 7.17.17; काणे : पूर्व निर्दिष्ट, i, पृ० 44.
13. हापकिंस : पूर्व निर्दिष्ट, i, पृ० 249-50.
14. विंटरनिज : 'हिस्ट्री आफ इंडियन लिटरेचर', i, पृ० 274.
15. काणे : पूर्व निर्दिष्ट, ii, भाग 1, पृ० XI.
16. ला : 'हिस्ट्री आफ पालि लिटरेचर', i, पृ० 30-33.
17. वही, पृ० 15.
18. टी० डब्ल्यू० आर० डेविड्स : 'बुद्धिस्ट इंडिया', पृ० 207. जातकों के प्राचीन तिथि निर्धारण के लिए देखें.
19. ला : पूर्व निर्दिष्ट, i, पृ० 30; हापकिंस पूर्व निर्दिष्ट i, पृ० 260, पाद टिप्पणी 1. इस विषय का नवीनतम विवेचन फाइजर : 'दि प्राब्लम आफ दि ऐट्रिज इन बुद्धिस्ट जातकाज', (आर्कीव ओरियेंटैलिनी, प्राग, XXII) पृ० 238-9, इस विषय का नवीनतम विवेचन ओ० फाइजर के निबंध में मिल सकता है.
20. फाइजूर : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 238-9.
21. वही, XXII, 249; टी० डब्ल्यू० आर० डेविड्स : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 208.
22. डी० डी० कोसम्बी : 'एन इंट्रोडक्शन टु दि स्टडी आफ इंडियन हिस्ट्री', पृ० 259-60. डेनियल एच० एच० इंगल्स : (जर्नल आफ दि अमेरिकन ओरिएंटल सोसायटी, बाल्टी मोर, LXXVII) पृ० 223-4.
23. हस्तिनापुर और कतरा (मथुरा) में हुई हाल की खुदाई के आधार पर कहा जा सकता है कि एक प्रकार के नगर जीवन का आरंभ छः सौ ई० पू० के लगभग हो चुका था.
24. इस विषय पर और भी अध्ययन करना है. एन० बी० पी० काल के पुरातात्विक अवशेषों और प्राचीन पालि ग्रंथों की विषयवस्तु की तुलना से न केवल इन साहित्यिक स्रोतों की तिथि दृढ़तापूर्वक निश्चित करने में सहायता मिलेगी, बल्कि मौर्य पूर्व कालीन भौतिक जीवन का भी ज्ञान बढ़ेगा और हम उसे अच्छी तरह समझ भी पाएंगे.
25. नीचे देखें, अध्याय VI.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

26. जैकोबी : सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, XXii, प्रस्तावना, पृ० XLIII. मजूमदार और पुसलकर : 'दि एज आफ इंपीरियल यूनिटी', पृ० 423. चारपेंटियर (उत्तरा प्रस्तावना, पृ० 32 और 48) उन्हें ई० पू० तीन सौ और ईस्वी सन के आरंभ होने के बीच के काल का बताते हैं.
27. टी० डब्ल्यू रीज डेविड्स : 'डायलाग्स आफ दि बुद्ध', i, पृ० 286.
28. सेनार्ट : 'कास्ट इन इंडिया', पृ० 101; लेखक की टिप्पणी पृ० X; सेन्सस रिपोर्ट आफ इंडिया, 1901, पृ० 546 से लेखक का उद्धरण बेंस ने इथनोग्राफी पृ० 11 पर दिया है.
29. के० वी० रंगस्वामी अय्यंगर : 'आस्पेक्ट्स आफ सोशल ऐंड पोलिटिकल सिस्टम आफ मनु' ,पृ० 56; देखें, हापकिंस : पूर्व निर्दिष्ट, i, पृ० 293-4.
30. के० वी० रंगास्वामी अय्यंगर : 'इंडियन कैमरेलिज्म', पृ० 48.
31. अभी तक इन ग्रंथों का अध्ययन छिटपुट ढंग से किया गया है. जाली के हिंदू ला ऐंड कस्टम तथा काणे के हिस्ट्री आफ दि धर्मशास्त्र में विधि ग्रंथों की विषयवस्तु को काल-क्रम से नहीं रखा गया है. पालि ग्रंथों के आधार पर फिक, रीज डेविस, आर० मेहता और ए० एन० बोस के जो ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, उनमें भी वही त्रुटि है. जे० सी० जैन के लाइफ ऐज डिपिक्टेड इन दि जैन कैनन्स में भी सभी सामग्री को एकत्रित करके रख दिया गया है, पर समय और स्थान का ध्यान नहीं रखा गया है. कुछ मामलों में काल-क्रमानुसार विषय रखने के प्रयास हुए हैं, किंतु भारतीय वर्ण व्यवस्था संबंधी रचनाओं में ब्राह्मणेतर ग्रंथों पर विचार ही नहीं किया गया है.
32. प्राचीन बौद्ध साहित्य और धर्मसूत्र से क्रमशः जिन सामाजिक स्थितियों का पता चला है उन्हें अलग अलग अध्यायों (VIII-IX) में लिखा गया है.
33. मजुमदार और पुसलकर : पूर्व निर्दिष्ट, अध्याय XXI.
34. फिक : 'दि सोशल आर्गेनाइजेशन आफ नार्थ ईस्टर्न इंडिया', पृ० 314; दत्त : 'ओरिजिन ऐंड दि ग्रोथ आफ कास्ट', पृ० 268-9.
35. (साइटश्रिफ्ट डेर डोयचेन मेर्गेनलैंडिशेन गेजेलशाफ्ट) ii, पृ० 286.
36. मज्झिम निकाय, i, पृ० 429.
37. दीघ निकाय, i, 193; मज्झिम निकाय, ii, पृ० 33 और 40.
38. डेविड्स : 'बुद्धिस्ट इंडिया', पृ० 54.
39. आपस्तंब धर्मसूत्र, I. 1.1-7; गौतम धर्मसूत्र, X. पृ० 54-57.
40. शिल्पवृत्तिश्च, X. 60.
41. मेहता : 'प्री-बुद्धिस्ट इंडिया', पृ० 194-204.
42. इन्हें जैन ग्रंथों में 'गाहावई' कहा गया है.
43. अंगुत्तर निकाय, iii, पृ० 363; सिप्पाधिट्ठाना.
44. दीघ निकाय, ii, 126.
45. उवासग, पृ० 184.
46. जात० iii, 281.
47. वही, V, 45.
48. मेहता : 'पूर्व निर्दिष्ट', पृ० 198-9.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

49. दीघ निकाय, ii, 147; सावत्थि जैसे बड़े बड़े शहरों की संख्या बीस थी और उनमें से छः इतने महत्वपूर्ण समझे जाते थे कि उन्हें बुद्ध के महानिर्वाण का स्थल माना गया.
50. श्रीमती रीज डेविड्स : 'केम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया', i, पृ० 206.
51. पाणिनि व्याकरण की वृत्ति, VI. 2.63.
52. जात०, V, 290 और 292.
53. वही, Vi, 38.
54. गहपतिकस्स तंतूवायेहि, iii, 258-9. स्पष्ट है कि ऐसे गहपति प्रायः उनसे व्यापार सामग्री का उत्पादन कराते थे.
55. जात०, iV, 159.
56. वही, 281.
57. 'केम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया', i, 208.
58. जातक, iii, 281.
59. वेदिक इंडेक्स, 2.62.
60. पाणिनि व्याकरण, V. 4.95.
61. पाणिनि व्याकरण भाष्य, V. 4.95.
62. जात०, Vi, 189.
63. वही, iV, 207.
64. दीघ निकाय, i, 51 में गृह दासों के शिल्प का निर्देश किया गया है, किंतु इससे गृहसेवा का संकेत मिल सकता है. जात०, IV, 16; एक अन्य प्रसंग में दासों और नौकरों के बारे में बताया गया है कि उन्हें कोई ब्राह्मण व्यापार में लगाए हुए था.
65. गौतम धर्मसूत्र, X. 31; वसिष्ठ धर्मसूत्र, XIX. 28. शिल्पिनो मासि मास्यकैकं कर्म कुर्युः.
66. गौतम धर्मसूत्र, X. 53-55 घोषाल : इंडियन कल्चर, XiV, पृ० 26.
67. गौतम धर्मसूत्र, X. 47; आपस्तंब धर्मसूत्र, II, 11.28.1, हरदत्त की टीका के साथ.
68. वसिष्ठ धर्मसूत्र, I.42.
69. आपस्तंब धर्मसूत्र, II. 10.26.5, शूद्राश्च पादावनेक्ता.
70. मैत्रायणि संहिता, बुहलर के वर्गीकरण के अनुसार.
71. मज्झिम निकाय, ii. 180, सुद्दस्स संघनम्...असितव्यभंगिम्.
72. दीघ निकाय, i, 104.
73. टी० डब्ल्यू० रीज डेविड्स : 'सेक्रेड बुक्स आफ दि बुद्धिस्ट्स', ii, पृ० 128.
74. (साइटश्रिफ्ट डेर डोयचेन मेर्गेनलैंडिशेन गेजेलशाफ्ट ii), पृ० 286. दत्त : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 272. एन० के० दत्त लिखते हैं कि बौद्ध साहित्य में गुलामों को कहीं भी शूद्र नहीं कहा गया है, लेकिन वर्तमान उदाहरण से स्पष्टतया विपरीत तथ्य का संकेत मिलता है.
75. जात० i, पृ० 200.
76. वही, Vi, पृ० 389.
77. बंद्योपाध्याय : 'स्लेवरी इन एनशिएंट इंडिया', (कलकत्ता रिव्यू, 1930, सं० 8) पृ० 254.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

78. वोस : 'सोशल ऐंड रूरल इकानमी ऑफ नार्दर्श इंडिया', ii, पृ० 423.
79. जात०, VI, पृ० 285 (गाथा); विनय पिटक, IV, पृ० 224.
80. जी० पी० मलसेकेरा : 'पालि डिक्शनरी आफ प्रापर नेम्स', i, पृ० 323, देखें इसिदासी थेरी शब्द.
81. फिक : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 308.
82. दासी-भारः, पाणिनि व्याकरण, VI, 1.42; सूयगडम्, I. 14.8; जात०, iii, पृ० 59, 98-99.
83. 'कैंब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया', i, 207; विनय पिटक, I. 240; देखें सूयगडम्, II.1.13 जो बड़े और छोटे, दोनों प्रकार के खेतों का हवाला देते हैं. जात०, V, पृ० 413. शाक्यों और कोलियों के दास और कम्मकर खेतों की सिंचाई करने में लगाए जाते थे.
84. जातक, iii, 293; IV, पृ० 276.
85. सुत्तनिपात, I.4.
86. जात०, ii, पृ० 181.
87. वेस्टर मन्न : 'दि स्लेव सिस्टम्स आफ ग्रीक ऐंड रोमन एंटिक्विटी', पृ० 8-9.
88. सुत्तनिपात, V. 472.
89. जात०, IV, पृ० 15; मज्झिम निकाय, II, पृ० 186.
90. जात०, V, पृ० 413.
91. विनय पिटक, i, पृ० 243, 272; ii, पृ० 154.
92. आपस्तंब धर्मसूत्र, I. 7. 20.15; वसिष्ठ धर्मसूत्र, II. 39; गौतम धर्मसूत्र, VII.16.
93. वेस्टर मन्न : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 9.
94. गौतम धर्मसूत्र, X. 58, जीर्णान्युपानच्छत्रवासः कूर्चानि.
95. जात०, i, 372 (वर्तमान कथा).
96. गौतम धर्मसूत्र, X. 59.
97. आपस्तंब धर्मसूत्र, I, 1.3.40, उज्ज्वला की टीका सहित; अंतर्धिने वा शूद्राय.
98. हिरण्यकेशिन गृह्यसूत्र I. 2.8.1-2 (सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, अनुवाद).
99. अग्रवाल : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 114.
100. विनय पिटक, IV, पृ० 272, वरम् एवं सप्पि दासानं वा कम्मकरानं वा पादभञ्जनं वा पादीपकरणे वा आसित्तम्.
101. विनय पिटक, I, पृ० 220.
102. आपस्तंब धर्मसूत्र, II.4.9.11; काममात्मानं भार्या पुत्रं वोपरुध्यान्न त्वेव दासकर्मकरम्.
103. जातक, I. पृ० 355 (वर्तमान कथा), दासकम्मकरापि नो सालिमांसोदनं भुंजन्ति, कासिकवत्थं निवासेन्ति.
104. अंगुत्तर निकाय, I, पृ० 145, कणजकं भोजनं दिय्यति.
105. वही, I, पृ० 451, 459.
106. वही, III, पृ० 406-7.
107. वही, VI, पृ० 372.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

108 जात०, I, पृ० 475, II, पृ० 139; III, पृ० 325, 406, 444; परेसं भतिं कत्वा किच्छेन जीवति.
109. जात०, III, पृ० 326.
110. जात०, III, 130, नगरद्वारे विकिणित्वा मासके गहेत्वा.
111. 'पालि-इंगलिश डिक्शनरी', देखें, मासक शब्द.
112. एस० के० चक्रवर्ती : 'एनशिएंट इंडियन न्युमिसमेटिक्स', पृ० 56.
113 हार्नर : 'दि बुक आफ दि डिसिप्लिन', I; (अनुवाद, सेक्रेड बुक्स आफ दि बुद्धिस्ट्स में आई० बी० हार्नर का किया हुआ है, X. पृ० 71-2).
114. बोस : पूर्व निर्दिष्ट, II, पृ० 428.
115 जातक, III, पृ० 446-50; अप्पापि कामा न अलम्, बहूहि पि न तप्पपि.
116. सूय०, I, 4.2.18.
117. दीघ निकाय, I, पृ० 141; अंगुत्तर निकाय, II, पृ० 207-8; III, पृ० 37; IV, पृ० 266, 393.
118. गौतम धर्मसूत्र, XX. 4.
119. जात०, III, पृ० 300.
120. 'कैंब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया', I, 203, पाद टिप्पणी 8 में उद्धृत निर्देश इस विचार का समर्थन नहीं करते.
121. सुत्तनिपात, 769; ओवैया, छंद 6; उत्तर०, III.17; सूयगडम्, II.7.1.
122. गौतम धर्मसूत्र, XXVIII.13.
123. जातक, VI, 135.
124. वही, III, 129.
125. जात०, III, पृ० 445, अत्तनो वसनट्ठानं गंत्वा.
126. रैप्सन : 'कैंब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया', I, पृ० 205.
127. गौतम धर्मसूत्र, X. पृ० 61.
128. जातक, III, पृ० 387, यावतासीसंति पोसोतावद एव पवीणति, अट्ठापाये जहन्ति.
129. भतक के रूप में भी लिखा गया है.
130. 'पालि-इंगलिश डिक्शनरी', यह व्युत्पत्ति उपर्युक्त ग्रंथ में आहतक में अंगीकृत किया गया है.
131. आहितक (अर्थात बंधक रखा गया) शब्द की वैकल्पिक व्युत्पत्ति व्याकरण के सिद्धांत के अनुसार ग्राह्य नहीं है.
132. बंद्योपाध्याय : 'इकनामिक लाइफ ऐंड प्रोग्रेस इन एनशिएंट इंडिया', पृ० 94.
133. पाणिनि व्याकरण, I.3.36; III. 2.22.
134. वही, V. 1.80.
135. ठाणांग, IV. पृ० 271, अभयदेवसुरि की टीका.
136. जातक, IV, पृ० 276-8.
137. जात०, VI, पृ० 426, यस्सेव घरे भुंजेय्य भोगं तस्सेव अत्थं पुरिसो चरेय्य.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

138 जातक, IV; अंगुत्तर निकाय, I, पृ० 206; विनय पिटक, I, पृ० 240.

139 आपस्तंब, II. 11.28 2.

140. वही, 3.

141. वही, 4.

142. वही, 6.

143. गौतम धर्मसूत्र, XII. 16-7.

144. गौतम धर्मसूत्र, XXVIII, 24 हरदत्त की टीका सहित, द्रव्यादानं विवाहसिध्यर्थम्, धर्मतंत्रसंयोगे च शूद्रात्.

145. वही, XXVIII.25 हरदत्त की टीका सहित, अन्यत्रापि शूद्राद् बहुपशोर्हीनकर्मणः.

146. मनु, XI.13.

147. बौधायन धर्मसूत्र, II. 2.3.10.

148. वसिष्ठ धर्मसूत्र, XVIII.47-50.

149. वही, XVII.38, शूद्रापुत्र एव षष्ठो भवतीत्याहुरित्येते दायादबान्धवाः.

150. बौधायन धर्मसूत्र, II.2.3.32.

151. वही, II.2.3.10.

152. गौतम धर्मसूत्र, XXVIII.37, शूद्रापुत्रोप्यनपत्यस्य शुश्रूषुचेल्लभेत् वृत्तिमूलमन्तवासिविधिना.

153. वही, X 42; गौतम ने यह नियम बनाया है कि वैश्य और शूद्र को अपनी मेहनत से ही आय प्राप्त करनी चाहिए. निर्विष्टं वैश्यशूद्रयोः.

154. कोसंबी : 'एनशिएंट कोसल ऐंड मगध', (जर्नल आफ दि बांबे ब्रांच आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी, बांबे, XXVII), पृ० 195-201.

155. अंगुत्तर निकाय, IV, पृ० 239; जात०, I, पृ० 49; इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है 'बड़े प्रकोष्ठ वाला'. बिहार में आज भी धनी व्यक्तियों का संकेत करने के लिए सामान्य बोलचाल में इसी आशय के मुहावरों का प्रयोग किया जाता है.

156. फिक : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 119. गौतम के अनुसार (X.5-6) कृषि, व्यापार और सूदखोरी ब्राह्मणों के लिए विधिसंगत है, किंतु शर्त यह है कि वह ये काम स्वयं न करे.

157. फाइजर : पूर्व निर्दिष्ट (आर्कीव ओरियंटेलनी, प्राग, XXII) पृ० 238-265.

158. रीज डेविड्स : 'बुद्धिस्ट इंडिया', पृ० 102.

159. मज्झिम निकाय, II, पृ० 84-85.

160. वेस्टर मन्न : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 16, क्रीट के कृषिदास को अपवाद माना गया है, जो ऐसी संपत्ति धारण कर सकता था जिसमें महिला दासियों के दहेज संबंधी अधिकार को सुरक्षित रखा गया था.

161. गौतम धर्मसूत्र, X. पृ० 62-3.

162. वसिष्ठ धर्मसूत्र, XXVI.16; क्षत्रियो बाहुवीर्येण तरेदापदमात्मनः धनेन वैश्यशूद्रौ.

163. विनय पिटक, III, पृ० 136.

164. आपस्तंब धर्मसूत्र, II. 10.26. 4, ग्रामेषु नगरेषु च आर्याञ्छुचीन् सत्यशीलान् प्रजागुप्तये निदध्यात्.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

165. वही, II. 10-26.5.
166. वही, II. 10.25.12-13.
167. आपस्तंब धर्मसूत्र की हरदत्तीय टीका, II. 10.25.13.
168. हापकिंस : 'कैंब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया', I, पृ० 240.
169. वही.
170. पाणिनि ग्रामर, IV. 1.30.
171. अग्रवाल : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 79.
172. दीघ निकाय, II, पृ० 149.
173. सूयगडम्, III, 1.9.
174. फाइजर : पूर्व निर्दिष्ट, (आर्कीव ओरियेंटलनी, प्राग, XII) पृ० 261.
175. जातक, IV, पृ० 43.
176. रायचौधरी : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 71.
177. घोषाल : 'दि कांस्टीट्यूशनल सिग्निफिकेंस आफ संघ-गण इन दि पोस्ट वैदिक पीरियड', (इडियन कल्चर, कलकत्ता, XII) पृ० 62.
178. जायसवाल : पूर्व निर्दिष्ट, II, पृ० 69-70.
179. गौतम धर्मसूत्र की टीका, VI 10.
180. बौधायन धर्मसूत्र I. 10.19.13, चत्वारो वर्णाः पुत्रिणः साक्षिणः स्युः.
181. वसिष्ठ धर्मसूत्र, XVI. 29, सर्वेषु सर्व एव वा.
182. गौतम धर्मसूत्र, XIII.3, मस्करिन् और हरदत्त की 'अपि शूद्रः' की व्याख्या.
183. वसिष्ठ धर्मसूत्र, XVI.30, शूद्राणाम् संतः शूद्राश्चान्त्यानामन्त्ययोनयः.
184. वेस्टर मन्न : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 17.
185. गौतम धर्मसूत्र, XI. पृ० 20-21.
186. पीछे, पृ० 100-1.
187. गौतम धर्मसूत्र, XII. पृ० 11-13, ब्राह्मणस्तु क्षत्रिये पंचाशत्, तदर्धं वैश्ये, न शूद्रे किंचित्.
188 वही, XII.1, शूद्रों द्विजान्तीनतिसन्धायाभिहत्य वाग्दंडपारुष्याभ्यामंगं मोच्यो येनोपहन्यात.
189. आपस्तंब धर्मसूत्र, II. 10 27.14, जिह्वाच्छेदनं शूद्रस्य आर्यम् धार्मिकम् आक्रोशतः.
190. वही, I. 9. 26 4, यह महिलाओं के लिए भी विहित है.
191 वही, I 9.26.3.
192. वही, II. 10 27.15, वाचि पथि शय्यायामासन इति समीभवतो दण्डताडनम्; गौतम धर्मसूत्र, XII.7.
193. आपस्तंब धर्मसूत्र, II. 10 27.9, वध्यः शूद्र आर्यायाम्.
194 वही, II. 10.27.10.
195. वही, II. 10 27.8, नाश्य आर्यः शूद्रायाम्.
196. गौतम धर्मसूत्र, XII. 15-16. अष्टपाद्यं स्तेयकिल्विषं शूद्रस्य, द्विगुणोत्तराणीन्तरेषाम्, प्रतिवर्णम्.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

197. आपस्तंब धर्मसूत्र, II. 10-26.6-8.
198. मज्झिम निकाय, II. पृ० 88, एवं सन्ते इमे चत्तारो वण्णा समसमा होन्ति.
199. रैप्सन : 'कैंब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया', I, पृ० 205.
200. वही.
201. जातक, I, पृ० 402.
202. वही, I, पृ० 451.
203. मज्झिम निकाय, I, पृ० 344; दण्ड तज्जिता भय-तज्जिता अस्सुमुखा रुदमाना परिकम्मानि करोंति; संयुत्त निकाय, I, पृ० 76; अंगुत्तर निकाय, II. पृ० 207-8; III, पृ० 172, दीघ निकाय, I, पृ० 141.
204. सूयगडम्, I. 5.2.5.
205. 'सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट', XIV, पृ० 374, पाद टिप्पणी 9, वह व्यक्ति, जिसे उस उत्पादन (कृषि का) का छठा भाग प्राप्त होता है, जिसके लिए उससे मजूरी पर काम कराया गया है.
206. वही, 375, फुट नोट 1, वेयगच्छहिय और अंगच्छहिय शब्दों का अनुवाद करना जैकोबी की दृष्टि से कठिन है.
207. सूयगडम् II,2.20; जैकोबी का अनुवाद, सूयगडम्, II. 2.6,3 'सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट', XVI, पृ० 374-5; जा विय से वाहिरिया परिसा भवै, तं जहादासे इ वा पेसे इ वा भय ए इ वा भाइल्ले इ वा कम्मकरए इ वा भोगपुरिसे इ वा तेसिं पि यणं अन्नयंरसि अहालहुगंसि अवराहंसि सयमेव गणुयं दण्डं निवतेइ. तं जहाइमं दण्डेह, इमं मुण्डेह, इमं तजेह, इमं तालेह, इमं अदुयबन्धनं करेह, इमं नियलबन्धनं करेह, इमं हड्डिबन्धनं करेह, इमं चारगबन्धनं करेह, इम नियलजुयल संकोधियमोडियं करेह, इमं हथच्छिन्न करेह, इमं पायच्छिन्नम् करेह, एमं कण्णच्छिन्नहं करेह, इमं नक्कओट्ठ सीसमुहच्छिन्नयं करेह, वेयगच्छहियम अंगच्छहियम् पक्खाफोडियं करेह, इमं नयणुप्पाडियं करेह, इमं दंसणुप्पाडियं वसणुप्पाडियं जीभुप्पाडियं ओलम्बियं करेह, घसियं करेह, घोलियं करेह, सूलाइयं करेह, सूलाभिन्नयं करेह, खारवत्तियं करेह, वज्झवत्तियम् करेह, सीहपुच्छियं करेह, वसभपुच्छियगं करेह, दवग्गिदद्धयंगं कागणिमंसखावियंगं भत्तपाणनिरुद्धगं इमं जवज्जीवं वहबन्धनं करेह, इमं अन्नयरेन असुभेणं कुमारेणं मारेह
208. वेस्टर मन्न : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 17.
209 वौधायन धर्मसूत्र, I.10.19.1 और 2; आपस्तंब धर्मसूत्र, I.9.24.1-4; गौतम धर्मसूत्र, XXII, पृ० 14-16.
210. बौधायन धर्मसूत्र, I, 10.19.1.
211. आपस्तंब धर्मसूत्र, I. 9.24.1 हरदत्त की टीका सहित.
212. गौतम धर्मसूत्र, XXII. 14-16.
213. वसिष्ठ धर्मसूत्र, XX.31-33.
214. साम्विधान ब्राह्मण, (इंट्रोडक्शन), पृ० X.
215. वही, I. 7.5-6.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

216. आपस्तंब धर्मसूत्र, I.9.25.13; बौधायन धर्मसूत्र, I. 10.19.6.
217. यह जानने योग्य है कि 'साम विधान ब्राह्मण', I.7.7 में शूद्र की हत्या के लिए वही प्रायश्चित विहित किया गया है, जो गाय को मारने वाले के लिए विहित है.
218. पीछे, पृ० 109.
219. घोषाल : पूर्व निर्दिष्ट, (इंडियन कल्चर, कलकत्ता, XIV) पृ० 27.
220. वसिष्ठ धर्मसूत्र, IV. 2 बौधायन धर्मसूत्र, I. 10.19.5-6.
221. बौधायन धर्मसूत्र, II. 3.6.22.
222. गौतम धर्मसूत्र, IX.1 की टीका (सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, II, पृ० 216).
223. बौधायन धर्मसूत्र, IV. 5.4; देखें, भारद्वाज गृह्यसूत्र, III. 6; कौशिक सूत्र, III. 4.24.
224. गौतम धर्मसूत्र, IV. 27, असमानायां च शूद्रात् पतितवृत्तिः.
225. आपस्तंब धर्मसूत्र, II. 2.4.19; शूद्रमभ्यागतम् शूद्रोचेदागतस्तं कर्मणि नियुंज्यात्; बौधायन धर्मसूत्र, II. 3.5.14.
226. आपस्तंब धर्मसूत्र, II. 2.4.20; ब्राह्मणों के लिए राजा के भंडार में इस प्रयोजन की सामग्री रखी जाएगी.
227. गौतम धर्मसूत्र, V. 43.
228. वही, V. 45, अन्यान्भृत्यैः सहानृशंसार्थम्.
229. आपस्तंब धर्मसूत्र, II. 4.9.5; बौधायन धर्मसूत्र, II.3.5.11; वसिष्ठ धर्मसूत्र, XI.9.
230. गौतम धर्मसूत्र, VI.10.
231. वही, VI 11, अवरोप्यार्य शूद्रेण.
232. आपस्तंब धर्मसूत्र, 1.2.5.16.
233. आपस्तंब धर्मसूत्र, I. 4.14.26-29; गौतम धर्मसूत्र, V. 41-42.
234. आपस्तंब धर्मसूत्र, I. 4.14.23, सर्वनाम्ना स्त्रियो राजन्यवैश्यौ च न नाम्ना.
235 फिक : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 83.
236. जातक, III, पृ० 452.
237. आपस्तंब धर्मसूत्र, I. 5.16.21.
238. वही, I. 5.16.22.
239. वही, I. 5.16.30 हरदत्त की टीका सहित.
240. वही, I. 5.17.1.
241. वही, I.6.18.13; सर्ववर्णानां स्वधर्मे वर्तमानानां भोक्तव्यं शूद्रवर्यमित्येके.
242. आपस्तंब धर्मसूत्र, प्रस्तावना, पृ० III, बुहलर के वर्गीकरण के अनुसार पांडुलिपि जी० यू० 2.
243. वही, II. 8.18.2; बौधायन धर्मसूत्र, II.2.3.1 वसिष्ठ धर्मसूत्र, XIV. 2.4.
244. आपस्तंब धर्मसूत्र, I.6.18.14, तस्यापि धर्मोपनतस्य.
245. वही, I.6.18.15.
246 गौतम धर्मसूत्र, XVII.5; वृत्तिश्चेनांतरेण शूद्रात्.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

247. वही, XVII.6; पशुपालक्षेत्रकर्षककुलसंगतकारयितृपरिचारका भोज्यान्ना:.
248. गौतम धर्मसूत्र, VII.22.
249. वही, IX.11.
250. वसिष्ठ धर्मसूत्र, VI. 26.
251. वही, VI.27-29.
252. वही.
253. बौधायन धर्मसूत्र, IV.1.5.
254. वही, III. 6.5.
255. हुल्श : 'दि बौधायन धर्मशास्त्र', इंट्रोडक्शन, पृ० IX.
256. वही.
257. निरुक्त, III.16, ब्राह्मण और वृषल के वैषम्य पर निरुक्त में जोर दिया गया है.
258. आपस्तंब धर्मसूत्र, II. 2.3.1-4, आर्याधिष्ठिता वा शूद्राः संस्कर्तारः स्युः. बाद की पांडुलिपियों में यह परिच्छेद नहीं मिलता है (जैसा कि बुहलर के वर्गीकरण से प्रतीत होता है). स्पष्ट है कि बाद में इसे हटा दिया गया, ताकि शूद्रों को भोजन बनाने से बिल्कुल बहिष्कृत कर दिया जाए.
259. वही, II. 2.3.6-8.
260. बौधायन धर्मसूत्र, I. 5.10.20, (हुल्श के वर्गीकरण के अनुसार) यह परिच्छेद उस पांडुलिपि में नहीं मिलता है, जो कि दक्षिण से प्राप्त हुई है और उत्तर की पांडुलिपि की अपेक्षा अधिक मौलिक है (दि बौधायन धर्मसूत्र, इंट्रोडक्शन, पृ० VIII).
261. जातक, V, 293.
262. वही, IV, 145-6.
263. फिक : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 47.
264. सेनार्ट : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 182-3.
265. बौधायन धर्मसूत्र, I.11.20.13.
266. अयंत्रितकलत्रा हि वैश्यशूद्रा भवन्ति, कर्षणशुश्रुषाधिकृतत्वात्. बौधायन धर्मसूत्र, I. 11.20.14-15 बुहलर का अनुवाद कि वैश्य और शूद्र अपनी पत्नी का बहुत ख्याल नहीं रखते थे, संबद्ध परिच्छेद का सही अर्थ नहीं बताता है. (सेक्रेड बुक्स ग्राफ दि ईस्ट, XIV, 207).
267. वसिष्ठ धर्मसूत्र, XVII.78.
268. वही, XVIII.18; निरुक्त, XII.13, कृष्णवर्णा या रामा रमणायैव न धर्माय.
269. वही; घोषाल : पूर्व निर्दिष्ट, (इंडियन कल्चर, कलकत्ता, XIV), पृ० 22.
270. वसिष्ठ धर्मसूत्र, I. 25-26. शूद्रामप्येके मंत्रवर्जम् तद्वत्, तथा न कुर्यात्.
271. वही, I. 27, अतो हि ध्रुवः कुलापकर्षः प्रेत्य चास्वर्गः. प्राचीन जर्मन लोगों में यह प्रथा प्रचलित थी कि यदि कोई दासेतर व्यक्ति दास पत्नी से विवाह कर लेता था तो वह भी दास बन जाता था. लैंटमैन : 'दि ओरिजिन आफ दि इनइक्वलिटी आफ दि सोशल क्लासेज', पृ० 282.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

272. आपस्तंब धर्मसूत्र, 1.9.27.10-11.
273. वही, I.9.26.7, 27-11; बौधायन धर्मसूत्र, IV.2.13, 6.5-6.
274. वसिष्ठ धर्मसूत्र, I. 24; बौधायन (I.8.16.1-4) ने ब्राह्मण को चार पत्नियां, क्षत्रिय को तीन, वैश्य को दो और शूद्र को एक पत्नी रखने की अनुमति दी है.
275. वसिष्ठ और बौधायन, दोनों ने शूद्र के लिए एक पत्नी की अनुमति दी है, हालांकि वसिष्ठ ने वैश्य के लिए भी एक ही पत्नी की अनुमति दी है.
276. फिक : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 51; इस समय में सामान्यतया जातियों में सगोत्र विवाह प्रचलित था.
277. गौतम धर्मसूत्र IV. 27.
278. बौधायन धर्मसूत्र, I. 9.17.7.
279. वही, वसिष्ठ धर्मसूत्र, XVIII.1.
280. गौतम धर्मसूत्र IV.21; बौधायन धर्मसूत्र. II. 2.3.30.
281. वही, II.2.3.29; गौतम धर्मसूत्र, IV.16; वसिष्ठ धर्मसूत्र, XVIII.8.
282. बौधायन धर्मसूत्र, I.9.17.13-14.
283. वही, I.9.17.5.
284. वही, I.9.17.6.
285. फिक : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 9.
286. छोटा नागपुर में इस तरह की कई जनजातियां हैं और पूर्वी नेपाल में भी इस तरह की कुछ जातियां हैं.
287. आपस्तंब धर्मसूत्र, I. 1.1.6, अशूद्राणाम् अदुष्टकर्मणामुपायनम् वेदाध्ययनमग्न्याधेयं फलवन्ति च कर्माणि.
288. वही, I.3.9.9; शांखायन गृह्यसूत्र, IV.7.33.
289. बौधायन धर्मसूत्र, I. 11.21.15; गौतम धर्मसूत्र, XVI.19.
290. गौतम धर्मसूत्र, XVI.46.
291. तत्र शूद्रादिभूयिष्ठे अनध्यायः.
292. गौतम धर्मसूत्र, XII. 4-6; उदाहरणे जिह्वा छेदः धारणे शरीर भेदः.
293. वही, VIII. 270-272.
294. आपस्तंब धर्मसूत्र, I.2.7.19-21, सर्वदा शूद्रत उग्रतो वाचार्यार्थस्याहरणं धर्म्यमित्येके.
295. वसिष्ठ धर्मसूत्र, XVIII.14, न शूद्राय मतिं दद्यात्…न चास्योपदिशेद्धर्मम्.
296. आपस्तंब धर्मसूत्र, II.11.29.11-12 हरदत्त की टीका सहित.
297. 'सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट', II, पृ० 169.
298. गौतम धर्मसूत्र, IV. 26.
299. वेदाः कृषिविनाशाय कृषिवेदविनाशिनी. बौधायन धर्मसूत्र, I.5.10.30.
300. जातक कथा, IV, 391-2.
301. वही, IV, 38.
302. वही, III, 171.
303. अश्वलायन गृह्यसूत्र, I.21.12 (त्रिवेन्द्रम संस्करण); I.24.12-15 (सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, अनुवाद).

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

304. हापकिंस : 'म्यूचुअल रिलेशंस आफ दि फोर कास्ट्स इन मनु', पृ० 86, पाद टिप्पणी 1.
305. जैमिनी मीमांसा सूत्र, VI.1.25-27.
306. वही, VI.1.33.
307. आपस्तंब धर्मसूत्र, I.1.1.6.
308. वसिष्ठ धर्मसूत्र, IV.3, शूद्रमित्यसंस्कार्यो विज्ञायते.
309. पारस्कर गृ० सूत्र, II 8.3.
310. गौतम धर्मसूत्र, X. 64.
311. वही.
312. गौतम धर्मसूत्र, X. 65.
313. बौधायन धर्मसूत्र, II. 4.7.3.
314. दत्त : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 175.
315. दत्त ने इस तथ्य को अपनी पुस्तक के पृ० 177-78 में एक तौर पर स्वीकारा है.
316. गौतम धर्मसूत्र, X.55.
317. गौतम धर्मसूत्र की टीका, X.55, नाश्रमान्तरा प्राप्तिरिति.
318. मैक्समूलर : 'दि हिबर्ट लेक्चर्स', पृ० 343.
319. गौतम धर्मसूत्र, X. 53.
320. वही, XIV, 2-4; वसिष्ठ धर्मसूत्र, IV.30.
321. वसिष्ठ धर्मसूत्र, IV. 27-29.
322. गौतम धर्मसूत्र, XIV. 2-4. दूसरों के मतानुसार वैश्य के लिए अशुचि की अवधि आधे महीने रखी गई थी (वही).
323. आर० एल० मित्र : 'इंडो-एरियन्स', II, पृ० 131-2.
324. अश्वलायन गृह्यसूत्र (सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, अनुवाद), IV.2.19-21. यहां प्रयुक्त शब्द वृषल है.
325. बौधायन धर्मसूत्र, II.4.7.15.
326. वही I.5 10.24; वसिष्ठ धर्मसूत्र, II.27.
327. गौतम धर्मसूत्र, X.67, आर्यानार्ययोर्व्यतिक्षेपे कर्मणः साम्यम्.
328. जातकों में शारीरिक श्रम करके अपना जीवन निर्वाह करने वाले ब्राह्मणों के उदाहरण मिलते हैं
329. विनय पिटक, IV.6.
330. वही. विनय पिटक अट्ठकथा, पृ० 439 में कोट्ठककम्मम् शब्द की व्याख्या तच्छक कम्म के रूप में की गई है, किंतु हार्नर ने इसका अनुवाद भंडारपाल के काम के रूप में किया है. 'सेक्रेड बुक्स आफ दि बुद्धिस्ट्स', XI, पृ० 175.
331. विनय पिटक, IV. 6.
332. दीघ निकाय, I, 51.
333. बोस : पूर्व निर्दिष्ट, II, 460.
334. लामक-कम्म, जातक, I, 356.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

335. जातक, III, 452-53.
336. कसवतो मलमज्जनो निहीनजच्चो. विनय पिटक, IV, 308.
337. दीघ निकाय, III, 95.
338. आयारंगसुत्त, II. 4.1.8; दीघ निकाय, I. 92-3.
339. मज्झिम निकाय, III, 169-78; II, 152, 183-4.
340 वही.
341. विनय पिटक, II, 6; देखें, अंगुत्तर निकाय, II. 85; संयुत्त निकाय, I, 93.
342 विनय पिटक, IV, 4-11.
343. संयुत्त निकाय, I, 102, 166; सूयगडम्, 1.9.2-3; फिक : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 20-30.
344. पाणिनि, II 4-10; महाभाष्य, I, 475, शूद्राणामनिरवसितानाम्.
345. जातक, IV, पृ० 391-2.
346. सूयगडम् (सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, अनुवाद). II.2.27.
347. आपस्तंब धर्मसूत्र, II. 1 2.8.
348 मैत्रायणि संहिता; बुहलर के वर्गीकरण (पूर्वोद्धृत, इंट्रोडक्शन, पृ० III) के अनुसार जी० यू० 2.3.
349. गौतम धर्मसूत्र, XIV. 30
350. जातक, IV, 397.
351. वही, III, 233
352. वही, IV, 376, 390-1.
353 वही.
354. वही, IV, 390.
355. वही, IV, 387.
356. वही, II. 82-84
357. वही, IV, 376, 391.
358. उत्तराध्ययन सूत्र टीका, 13, पृ० 185a, जैन लिखित पूर्व निर्दिष्ट ग्रंथ. पृ० 144 में उद्धृत.
359. रामायण, I. 58. 10.
360 चवचड्डुक-चंडाला. जातक टीका, III, 195.
361 अंतगड दसाओ, 65.
362. जातक, IV, 390
363. वही, III, 41, 179.
364. बोस : पूर्व निर्दिष्ट, II, पृ० 438.
365. वही पृ० 439 440.
366. अंगुत्तर निकाय, IV, पृ० 376, ···कलोपिहत्थो नन्तिकवासी गामं वा निगमं वा पविसन्तो नीचचित्तं योवा उपट्ठपेत्वा पविसति.
367. जातक, IV, पृ० 379.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

368. अंगुत्तर निकाय, III, पृ० 206.
369. फिक : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 318.
370. पालि ग्रंथों में इसका कोई संकेत नहीं है, किंतु मनु (X. 49) और विष्णु (XVI.9) ने शिकार को उनका पेशा विहित किया है.
371. जातक, III, 195; देखें, फिक : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 321.
372. बोस : पूर्व निर्दिष्ट, II, पृ० 454-5.
373. जातक, IV, पृ० 251.
374. बौधायन धर्मसूत्र, 1.9.17.12.
375. जातक, V, पृ० 306.
376. 'सेक्रेड बुक्स आफ दि बुद्धिस्ट्स', XI, पृ० 173; जातक, V, पृ० 306, वेणजाति ति तच्छकजाति.
377. भारद्वाज गृह्यसूत्र, I. 1; वसन्ते ब्राह्मणमुपनीत···वर्षा रथकारं शिशिरे वा, बौधायन गृह्य सूत्र, II, 5.6, II. 8. 5; जैमिनी मीमांसा सूत्र, VI. 1.50.
378. रीज डेविड्स : 'डायलाग्स आफ दि बुद्ध', I, पृ० 100.
379. जातक, VI, 51; देखें पेतवत्थु अठकथा, III. 1. 13.
380. बोस : पूर्व निर्दिष्ट, II, पृ० 456.
381. अंगुत्तर निकाय, I, पृ० 111-113.
382 महाभारत, XII, 59.102-3.
383. दत्त : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 107.
384. महाभारत, XII.59.99-101; ला : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 100, बी० सी० ला का कथन है कि ये निषध थे न कि निषाद, किंतु महाभारत के आलोचनात्मक संस्करण में स्पष्टतया निषाद शब्द का उल्लेख हुआ है.
385. जातक, II, पृ० 200; VI, पृ० 71, 170.
386. वही, VI, पृ० 71.
387. पाणिनी, IV. 1.100.
388. कोसंबी : (जर्नल आफ दि अमेरिकन ओरियंटल सोसायटी, बाल्टी मोर, LXXV, 44). यह इस धारणा पर निर्भर है कि निषाद गोत्र ब्राह्मणीय गोत्र था, जो संदिग्ध है.
389. गौतम धर्मसूत्र, IV.28; एक अन्य स्थान पर गौतम ने कहा है कि अंत्यों को अपवित्र वस्त्र दिए जाने चाहिए (XIV.42).
390. वसिष्ठ धर्मसूत्र, XVI.30.
391. आपस्तंब धर्मसूत्र, I 3.9.15.
392. वही, I.3.9.18.
393. वसिष्ठ धर्मसूत्र, XVIII.3.
394. गौतम धर्मसूत्र, XX.1; देखें, XXIII, 32.
395. (माडर्न रिव्यू, दिसंबर 1923), पृ० 712-13. अबेदुकर : 'दि अनटचेबुल्स', अध्याय IX. अंबेडकर ने इस विचार को और भी विकसित किया है.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

396. अंबेडकर : पूर्व निर्दिष्ट, अध्याय X.
397. गौतम धर्मसूत्र, XXII.13 में गोवध को मामूली अपराध बताया गया है, जिसका मोचन प्रायश्चित से किया जा सकता है.
398. दत्त : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 106-7; पृ० 31.
399. घुर्ये : 'कास्ट ऐंड क्लास', पृ० 159.
400. फिक : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 324.
401. मज्झिम निकाय, III,···न लाभी अन्नस्स पानस्स वत्थस्स यानस्स ; पृ० 169-70; अंगुत्तर निकाय, II, पृ० 85.
402. (पास्ट ऐंड प्रेजेंट, सं० 6, 5).
403. मज्झिम निकाय, I, पृ० 211, II, पृ० 182-84; संयुत्त निकाय, I, 99; विनय पिटक, II, पृ० 239; अंगुत्तर निकाय, IV, पृ० 202; देखें, मज्झिम निकाय, III, पृ० 60; I, पृ० 384; दीघ निकाय, III, पृ० 80-98.
404. जातक, III, पृ० 194; IV, पृ० 303.
405. मज्झिम निकाय, II, पृ० 103, अरियाय जातिया जातो.
406. टामसन : 'स्टडीज इन एनशिएंट ग्रीक सोसायटी', II, पृ० 238.
407. दीघ निकाय, I, पृ० 226-30.
408. जातक, IV, पृ० 200.
409. वही.
410. जातक, III, पृ० 233.
411. दस० कु०, पृ० 45, पूर्वोद्धृत जैन ग्रंथ में उद्धृत, पृ० 229.
412. उत्तरा, XII.
413. आयारंग सुत्त, II.1.2.2.
414. विनय पिटक, III, 184-5; IV, पृ० 80, 177.
415. सुत्त निपात, 137 और 138.
416. मलसेकेरा : 'डिक्शनरी आफ पालि प्रापर नेम्स', I, पृ० 174.
417. फिक : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 77-78.
418. बोस : पूर्व निर्दिष्ट, II, पृ० 285, पाद टिप्पणी 1.
419. 'हिस्ट्री आफ पालि लिटरेचर' की विधि में दी गई सूची के आधार पर संगणित, II, पृ० 508-16.
420. वही, II, पृ० 501-508; 508-516.
421. जैन : 'लाइफ एज डिपिक्टिड इन जैन कैनन्स', पृ० 107.
422. बोस : पूर्व निर्दिष्ट, II, पृ० 485.
423. ठाणांग, X.712; परिजुना, रोगिणोतीआ, रोसा और अणाढिता पव्वज्जा.
424. सूयगडम्, II. 2.54.
425. वही, I.7.25.
426. विनय पिटक, I, पृ० 74-76···कारभेदको चोरो···चोरो···कसाहतो कतदण्डकम्मो···

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

इणायिको···दासो···. हर मामले में कहा जाता है : पलायित्वा भिक्खूसु पव्वज्जितो होति.

427. दीघ निकाय, I, 51···हथारोहा अस्सारोहा···दासकपुत्ता आलारिका कप्पका नहापका सूदा मालाकारा रजका पेसकारा···.

428. वहीं, I.60, दासो कम्मकरो पुब्बुट्ठायी पच्छा-निपाती किंकरपटिस्सावी मनापचारी पिय-वादी मुखुल्लोकको.

429. वही, I, 60-61.

430. दीघ निकाय, I. 61, कस्सको गहपतिको कार-कारको रासि-वद्धको.

431. विनय पिटक, I, पृ॰ 77, समणा सक्यपुत्तिया···सुभोजनानि भुंजित्वा निवातेसु सयनेसु सयन्ति.

432. दीघ निकाय, I, 5.

433. वही, I, पृ॰ 60.

434. ठाणांग, III 202; जैन : पूर्व निर्दिष्ट, पृ॰ 194.

435. आपस्तंब धर्मसूत्र, I.7.20.11-12.

436. वही, I.7.20.15; मनुष्याणां च मनुष्यैः, वसिष्ठ धर्मसूत्र, II.39.

437. अंगुत्तर निकाय, II, 208; केसावणिज्जे···उवासग, पृ॰ 51.

438. अंगुत्तर निकाय, V. 137, दासकम्मकरपोरिसेहि वड्ढति.

439. जातक, III, पृ॰ 49.

440. बोस : पूर्व निर्दिष्ट, II, पृ॰ 414.

441. जातक, III, अनुवाद, 33; मूल, 48.

442. वही.

443. दीघ निकाय, III, पृ॰ 191.

444. जातक, I, पृ॰ 451.

445. आयारंगसुत्त, I.2.5.1.

446. मलसेकेरा : पूर्व निर्दिष्ट I, 876-77, जैसे लोहार चुंद.

447. बैशम : 'हिस्ट्री ऐंड डाक्ट्रिन्स आफ आजीविकाज', पृ॰ 134.

448. ओल्डेनबर्ग : 'बुद्ध', पृ॰ 155-9.

449. फिक : पूर्व निर्दिष्ट, पृ॰ 32.

450. दीघ निकाय, I, पृ॰ 91-98.

451. फिक : पूर्व निर्दिष्ट, पृ॰ 31.

452. अंगुत्तर निकाय, IV, पृ॰ 239; संयुत्त निकाय, IV, 239; जातक, I, पृ॰ 49.

453. अंगुत्तर निकाय, III, पृ॰ 307 एवं आगे.

454. दत्त : 'ओरिजिन ऐंड ग्रोथ आफ कास्ट इन इंडिया', पृ॰ 133. इस अवधि में भी शूद्र वैश्वदेव यज्ञ के अवसर पर उच्च वर्णों के लिए भोजन तैयार करते थे.

455. मज्झिम निकाय, II, 128; देखें, II, 147 एवं आगे.

456. सुत्त निपात, 314-15.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

457. जातक, I, 49; देखें, ललितविस्तर. I.20.
458. अन्त कुलेसु वा पन्त···तुच्छ···दरिद्द···किविण···भिक्खाग···माहण···कल्पसूत्र, II.17, तुल० 22.
459. वंद्योपाध्याय : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 302, 309-10.
460. वसिष्ठ धर्मसूत्र, VI.24, दीर्घवैरमसूया चासत्यं ब्राह्मणदूषणम्, पैशून्यं निर्दयत्वं च जानीयात् शूद्रलक्षणम्.
461. ऊपर देखें, पृ० 108-9.
462. विनय पिटक, IV, पृ० 181-2.
463. वही, IV, पृ० 181-2, साकियदासका अवरुद्धा होन्ति···साकियनियो अच्छिदिमिसु च···.
464. जातक, V. पृ० 98-99.
465. जातक, IV, 159; 'कैंब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया', I, पृ० 210.
466. वही, I, पृ० 205.
467. जातक, I, पृ० 451-2, 458.
468. विनय पिटक, I, पृ० 74-6.
469. जातक, VI, पृ० 138.
470. वैशम : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 37.
471. जातक, VI, 69 (वर्तमान कथा).
472. बौधायन धर्मसूत्र, II.2.4.18 आत्मत्राणे वर्णसंवर्गे···वसिष्ठ धर्मसूत्र, III.24-25 वर्णसंवर्गे शब्द पांडुलिपि 'बी' में आया है, जिसे फुहरर ने बहुत महत्वपूर्ण माना है (वसिष्ठ धर्मसूत्र, प्रस्तावना, पृ० 5). अन्य पांडुलिपियों में धर्मसंवर्गे और वर्णसंकरे पाठ है.
473. वेस्टर मन्न : 'दि स्लेव सिस्टम्स आफ ग्रीक ऐंड रोमन एंटिक्विटी', पृ० 37; ग्रीकों और रोमनों के युद्ध में दासों से योद्धा का काम नहीं लिया जाता था.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

मौर्यकालीन राज्यनियंत्रण और सेवि वर्ग
(लगभग तीन सौ ई० पू० से दो सौ ई० पू० तक)

मौर्यकाल में शूद्रों की स्थिति के अध्ययन का मुख्य स्रोत कौटिल्य का अर्थशास्त्र है और इसके पूरक हैं मेगस्थनीज की रिपोर्ट के कुछ अंश तथा अशोक के उत्कीर्ण लेख । किंतु प्राचीन भारतवर्ष के इतिहास के किसी प्रश्न को लेकर उतना विवाद नहीं हुआ है, जितना संभवतया अर्थशास्त्र की तिथि और प्रामाणिकता के संबंध में हुआ है ।[1] एक ओर जोरदार शब्दों में कहा जाता है कि यह रचना चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य की है, तो दूसरी ओर इसे सर्वथा अस्वीकार करते हुए रचना को ई० सन की पहली या तीसरी शताब्दी का माना जाता है । इस विवाद के पूरे अंश को दुहराना तो संभव नहीं है, किंतु कुछ विचारों को यहां उद्धृत करना आवश्यक मालूम पड़ता है । विरोध करने वालों के तर्कों की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि उनका स्वरूप नकारात्मक है । अर्थशास्त्र के अंत में उल्लिखित पद्य से स्पष्ट है कि यह रचना उस व्यक्ति की है जिसने नंद वंश का नाश किया,[2] और यह ऐसी ऐतिहासिक परंपरा है जो बाद के ब्राह्मण और जैन ग्रंथों में भी मिलती है । यह पद्य इस दृष्टि से भी विशेष महत्वपूर्ण समझा जाता है कि धर्मसूत्रों और स्मृतियों के लेखकों के संबंध में ऐसे जीवनचरित संबंधी लेख अन्यत्र नहीं मिलते । इतना ही नहीं, किसी भी ग्रंथ से कोई वैकल्पिक सूचना नहीं मिलती कि कौटिल्य किसी अन्य काल के थे ।

एक लेख में कुछ नए आधार प्रस्तुत करके बताया गया है कि अर्थशास्त्र ई० सन की पहली से लेकर तीसरी शताब्दी तक की रचना है ।[3] कहा जाता है कि कौटिल्य ने जब ज्ञान का वर्गीकरण किया, तब प्रत्यक्ष विज्ञान दर्शन से अलग होने लगा था । अलग होने की यह प्रक्रिया ईस्वी सन की आरंभिक शताब्दियों की कही जा सकती है ।[4] किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि कौटिल्य ने शिक्षा की जिन मुख्य शाखाओं का, अर्थात कल्प (कर्मकांड), व्याकरण और निरुक्त का उल्लेख किया है, वे मौर्यपूर्व काल में अध्ययन के विषय थे । यह भी ध्यान देने योग्य है कि अर्थशास्त्र में दर्शनशास्त्र की लोकायत शाखा का जो उल्लेख हुआ है उससे उक्त ग्रंथ का रचनाकाल बाद का नहीं कहा जा सकता ।[5] संभवतया लोकायत

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

शाखा बुद्ध से पहले की है,[6] और इतना तो निश्चय ही है कि यह मौर्यों से पहले की है, क्योंकि प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में इसका स्पष्ट उल्लेख है।[7]

यह भी तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ के संकलन में राजनीति विज्ञान की दीर्घकालीन परंपरा का आभास मिलता है, जिसका विकास कई सौ वर्षों में हुआ होगा।[8] स्वयं कौटिल्य ने इस बात को स्वीकार किया है और अपने विषय के दस पूर्ववर्ती विद्वानों का उल्लेख किया है।[9] मौर्यपूर्व काल में इस तरह की दीर्घकालीन परंपरा थी जो धर्मसूत्रों से सिद्ध है। एक आकलन के अनुसार आपस्तंब धर्मसूत्र का 1/15, बौधायन धर्मसूत्र का 1/12, गौतम धर्मसूत्र का 1/6 और वसिष्ठ धर्मसूत्र का 1/5 भाग अर्थविषयक है।[10] इससे पता चलता है कि अर्थ की महत्ता बढ़ रही थी, और उसकी चरम परिणति कौटिल्य के स्वतंत्र ग्रंथ अर्थशास्त्र के रूप में हुई।

यह भी कहा जाता है कि अतिशयता को छोड़ने और मध्यम मार्ग अपनाने की अर्थशास्त्रीय नीति मध्यांत विभंग जैसे दार्शनिक ग्रंथ में भी पाई जाती है।[11] यह ग्रंथ ई० सन की तीसरी शताब्दी का बताया जा सकता है। किंतु मध्यम मार्ग का सिद्धांत जिसे मज्झिम पटिपदा कहा जाता है, उतना ही पुराना है जितना विनय पिटक ग्रंथ।[12] इसमें बुद्धदेव ने अपने प्रथम प्रवचन में ही अपने अनुयायियों को बताया है कि वे संन्यास और विलास जैसे दो चरम बिंदुओं का परित्याग करें।

अंततः यह कहा गया है कि अर्थशास्त्र में उत्पादन, सामाजिक पद्धति और राजनीतिक संस्थाओं के जिस तरह के संबंधों का उल्लेख हुआ है वे मेगस्थनीज की रिपोर्टों और अशोक के उत्कीर्ण लेखों में किए गए वर्णन से कहीं अधिक विकसित हैं, और उनसे ई० सन की प्रथम और तृतीय शताब्दी के बीच के काल की विशिष्टता का बोध होता है।[13] किंतु इस विचार का समर्थक साक्ष्य नगण्य सा है। अर्थशास्त्र में उत्पादन के संबंधों का प्रमुख तथ्य यह है कि आर्थिक व्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर राज्य का बहुत बड़ा नियंत्रण था। कौटिल्य के अनुसार राज्य व्यापार, उद्योग और खान का नियंत्रण तो करता ही है; राजकीय प्रक्षेत्रों (फार्मों) का अध्यक्ष दासों और कर्मकरों से काम कराने के साथ ही इस कार्य के लिए लोहारों, बढ़इयों और मिट्टी खोदने वालों से भी काम लेता है।[14] स्ट्रैबो ने मेगस्थनीज की रिपोर्ट से जो अंश उद्धृत किए हैं, उनसे भी इस बात के प्रमाण मिलते हैं। ऐसा पता चलता है कि राज्य के बड़े बड़े अधिकारी न केवल नदियों की निगरानी और सिंचाई की देखभाल करते थे, बल्कि जमीन की पैमाइश भी करते थे और जमीन से संबंधित पेशेवरों, अर्थात लकड़हारों, बढ़इयों, लोहारों और खानों में काम करने वालों पर भी नजर रखते थे।[15] फिर अर्थशास्त्र में सामाजिक व्यवस्था की जो रूपरेखा निर्धारित की गई है, वह ब्राह्मण ग्रंथ के ढांचे पर निरूपित है।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

अर्थशास्त्र की राज्यव्यवस्था की खास विशेषता यह है कि वह सभी प्रकार के प्राधिकारों में राज शासन को आगे बढ़ाना चाहती है,[16] और प्रजा को लगभग तीस विभागों के माध्यम से शासन के अस्तित्व का अनुभव कराना चाहती है। यह मौर्य साम्राज्य की आम नीति थी, जिसका पता मुख्यतया अशोक के उत्कीर्ण लेखों से चलता है। अशोक ने धर्मप्रचारक के रूप में काम किया था और उसके पास सुसंगठित अधिकारीतंत्र था। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि राज्य को, राजा के रूप में, सर्वव्यापी सत्ता के तौर पर स्थापित करने की मनोवृत्ति सिकंदर के साम्राज्य में भी प्रकट हुई और उस साम्राज्य का पतन होने पर जो यूनानी राजतंत्र आया उसने भी इस व्यवस्था को अपनाया ।[17] इस प्रकार मेगस्थनीज की रिपोर्ट से उद्धरण देकर स्ट्रेबो ने ठीक ही भारत के मजिस्ट्रेटों की तुलना यूनानी मिस्र के ऐसे ही अधिकारियों से की है ।[18] कौटिल्य का दावा है कि उसने तत्कालीन राज्यों में प्रचलित शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन किया है ।[19] अतः उसने जिस राजतंत्र की स्थापना की उससे उस युग की व्यापक चेतना का आभास मिलता है।

किंतु इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि बहुत से अन्य ग्रंथों की तरह अर्थशास्त्र में भी परिवर्तन किए गए होंगे। अतएव समस्या है कि इस ग्रंथ के तात्विक अंशों में किए गए परिवर्तन का पता कैसे लगाया जाए ।[20] फिर भी, अब सामान्यतया यह माना जाता है कि अर्थशास्त्र में वस्तुतः मौर्यकाल के संस्मरणात्मक तथ्य हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि द्वितीय अधिकरण सबसे प्राचीन है। प्रस्तुत अध्याय में द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ अधिकरण से अधिक सामग्री ली गई है; बाद के अधिकरणों का उतना उपयोग नहीं किया गया है।

यद्यपि सुदूर दक्षिण को छोड़ प्रायः संपूर्ण भारत पर मौर्यों का शासन छाया हुआ था और यद्यपि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में व्यापक भौगोलिक पृष्ठभूमि का खयाल रखा है, फिर भी इसमें जिन बातों की चर्चा आई है, वे संभवतया उत्तर भारत में विद्यमान परिस्थिति को ही प्रतिबिंबित करती हैं। जहां तक संकीर्ण और स्थानीय नीतियों से दूर हटकर सारे साम्राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अर्थशास्त्र में बताए गए उपायों का प्रश्न है, उन्हें पूरे साम्राज्य में लागू किया जा सका होगा, किंतु आर्थिक कार्यकलापों पर नियंत्रण रखने या परती जमीन को जोतने के संबंध में दी गई हिदायतें साम्राज्य के निकटवर्ती इलाकों तक ही सीमित रही होंगी।

शूद्र वर्ण के कृत्यों का निरूपण करने में कौटिल्य ने धर्मशास्त्र के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है। उनका कहना है कि शूद्र का निर्वाह द्विजों की सेवा से होता है ।[21] किंतु वे शिल्पियों, नर्तकों, अभिनेताओं आदि का व्यवसाय करके भी अपना निर्वाह करते हैं ।[22] ये व्यवसाय स्पष्टतया स्वतंत्र थे और इनमें द्विजों की सेवा करना आवश्यक नहीं था।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

कौटिल्य ने धर्मसूत्र की जिस पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया है उससे यह प्रतीत होता है कि शूद्रों को अपनी जीविका के लिए पूर्णतया उच्च वर्ण के मालिकों पर निर्भर रहना पड़ता था। इसका आभास उसके जनपदनिवेश संबंधी नियमों से मिलता है। कौटिल्य का कथन है कि सौ से लेकर पांच सौ परिवारों की बस्तियां बसाने में एक बस्ती से दूसरी बस्ती की दूरी दो या चार मील की होनी चाहिए और उसके निवासी मुख्यतया शूद्र और कर्षक ही होने चाहिए।[23] विद्वानों ने शूद्र और कर्षक शब्दों का द्वंद्व समास (शूद्रकर्षक प्रायम्) माना है,[24] और इस तरह उनके अनुसार शूद्र किसान नहीं थे, किंतु कुछ लोगों ने शूद्र शब्द को कर्षक का विशेषण माना है।[25] इस वाक्यखंड का अर्थ लगाना इसलिए कठिन हो गया है कि इसका प्रयोग अर्थशास्त्र में कहीं अन्यत्र नहीं हुआ है। अर्थशास्त्र पर जो टीकाएं उपलब्ध हैं, उनमें जनपदनिवेश प्रकरण का समावेश नहीं है। एक स्थल पर कर्षक को कर्मकर, अर्थात भाड़े का मजदूर माना गया है,[26] किंतु संभवतया यहां इस शब्द को ऐसे अर्थ में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। संभव है कि शूद्र से दास कर्मकरों का और कर्षक से वैश्य किसानों का बोध होता हो।

कौटिल्य के अनुसार राज्य को चाहिए कि नई बस्तियों में भूमि को कृषि योग्य बनाकर करदाताओं को जीवन भर के लिए दे दे।[27] मालूम पड़ता है कि यह बंदोबस्त कृषकों के हाथ किया जाता था, जो राज्य को कर चुकाने के लिए जिम्मेदार थे। किंतु इन्हें जमीन रखने का अधिकार निर्धारित अवधि के लिए दिया जाता था, जो बात संभवतया पुराने गांवों के कृषकों (प्रायः वैश्यों) पर लागू नहीं थी। कृषकों को अनाज, मवेशी और रुपए देने का उपबंध किया गया है।[28] उन्हें इस उम्मीद पर ऐसी सुविधा दी गई थी कि वे स्वेच्छया राज्य को कर चुकाएंगे। दूसरे यह कि कृषकों को यह सुरक्षा संभवतया नहीं मिली थी कि भूमि उनकी बनी रहेगी। कौटिल्य ने बताया है कि यदि बस्तियों में कृषक अपना कार्य ठीक से नहीं करें तो उन्हें अपनी भूमि से निकाल दिया जाए और भूमि वैदेहक या ग्रामभृतक को कृषि के हेतु दे दी जाए।[29]

नई बस्तियों में शूद्र को कृषि के अलावा अन्य कार्यों में लगाया जा सकता था। कहा गया है कि नई बस्ती, जिसके निवासी मुख्यतया शूद्र (अवर वर्णप्राय) होते हैं, निश्चित रूप से फल देने वाली होती है और उसमें राज्य द्वारा आरोपित सभी भारों को वहन करने की क्षमता रहती है।[30] नयचंद्रिका के अनुसार 'भोग' शब्द के अर्थ से पता चलता है कि शूद्रों को न केवल खेती में लगाया जाता था बल्कि उनसे भार ढोने और किला बनाने का काम भी लिया जाता था।[31] यह भी कहा गया है कि शूद्रों की बस्ती को एक लाभ यह था कि उसकी जनसंख्या अधिक होती थी।[32] नई जमीनों को जोतकर खेती करने तथा पूर्ववर्ती खेतों का पुनरुद्धार करने के लिए शूद्रों को घनी आबादी वाले क्षेत्रों से मंगाया जाता था, अथवा दूसरे राज्यों

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

से उन्हें वहां आ जाने के लिए प्रेरित किया जाता था।[33] कहा गया है कि जनपद में निम्न वर्ण की आबादी अधिक होनी चाहिए।[34] इन सारी बातों से पता चलता है कि देश में शूद्रों की जनसंख्या काफी थी। देश में मुख्यतया वैश्य कृषि का कार्य करते थे; अतएव शूद्र भूराजस्व और अन्य व्ययभार चुकाने के लिए मुख्यतया दायी नहीं रहे होंगे, जैसाकि घोषाल ने सुझाव दिया है।[35] नई बस्तियों के किसान शूद्रों के समान बेगारी से मुक्त नहीं थे, क्योंकि जनपदनिवेश प्रकरण में कौटिल्य ने बताया है कि राजा को चाहिए कि अत्याचारी विष्टि (बेगार) से किसान की रक्षा करे।[36]

अधिकांश शूद्र, पहले ही की तरह, कृषि मजदूरों और दासों के रूप में काम करते रहे। धर्मसूत्रों से ज्ञात होता है कि दासों को घरेलू कार्यों में लगाया जाता था। कौटिल्य ही एक मात्र और प्रथम ब्राह्मण लेखक हैं जिनसे पता चलता है कि दासों को बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन कार्य में लगाया जाता था।[37] प्राचीन पालि ग्रंथों में तो बड़े बड़े प्रक्षेत्रों (फार्मों) के केवल तीन उदाहरण मिलते हैं, किंतु मौर्यकाल में ऐसे अनेक प्रक्षेत्र थे जिनमें दास और भाड़े के मजदूर सीधे सीताध्यक्ष (कृषि अधीक्षक) के अधीन रहकर काम करते थे। वह इन लोगों को कृषि के उपकरण और अन्य साधन देता था और कृषिकर्म के लिए बढ़ई, लोहार तथा अन्य शिल्पियों की सेवाएं प्राप्त करता था।[38] मेगस्थनीज के विवरण से भी इस तथ्य की मोटे तौर पर पुष्टि होती है। उसने ऐसे अधिकारियों का उल्लेख किया है जो भूमि संबंधी धंधों और शिल्पियों की निगरानी करते थे।[39] एरियन ने कृषि अधीक्षकों की चर्चा की है,[40] जो प्राय: सीताध्यक्ष का काम करते थे। स्ट्रैबो का कहना है कि गड़ेरिए और शिकारियों की जो एक तीसरी जाति थी जो खानाबदोश का जीवन बिताती थी और खेतों से जंगली जानवरों तथा पक्षियों को भगाने के लिए राजा से अनाज के रूप में भत्ता पाती थी।[41] ये खानाबदोश आदिवासियों (सर्पग्राहादिका: अर्थात सांप या अन्य जीवों को पकड़ने वाले) से मिलते जुलते मालूम पड़ते हैं।[42] सीताध्यक्ष उनसे कृषि संबंधी काम लेते थे।[43] इस तरह मौर्य साम्राज्य दासों, कर्मकरों, शिल्पियों और आदिवासियों का, जो कि स्पष्टतया शूद्र वर्ग के थे, बहुत बड़ा नियोजक था। इस दृष्टि से इस काल का कृषि उत्पादन संगठन ग्रीस और रोम के संगठन से कुछ हद तक मिलता जुलता था।

कौटिल्य ने बताया है कि यदि (श्रमिकों के अभाव के कारण) खेतों की बोआई नहीं हो पाए तो खेत उन लोगों को पट्टे पर दे दिए जाएं जो आधी उपज देकर उनकी जुताई करें।[44] जो व्यक्ति केवल शारीरिक श्रम करके जीवनयापन करते थे (अर्थात कर्मकर), उनके पास स्वभावतया खेती के आवश्यक उपकरण, यथा बीज और बैल नहीं रहते थे। ऐसे व्यक्ति यदि उपज का चतुर्थांश अथवा पंचमांश लेना स्वीकार करते थे तो उन्हें राज्य की ओर से बैल और बीज दिए जाते

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

थे।[45] कौटिल्य ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि बटाईदारों को चाहिए कि स्वयं कोई कठिनाई नहीं सहकर जितना अधिक राजा को दे सकते हों, दिया करें।[46] किंतु उन्होंने कठिनाइयों का कोई संकेत नहीं किया है। मालूम पड़ता है कि बटाईदारों को कुछ कड़ी मिट्टी वाली जमीन दी जाती थी जिसके लिए उन्हें राज्य को कुछ भी नहीं चुकाना पड़ता था।[47] बटाईदार दो प्रकार के होते थे—एक वह जो उपज का आधा हिस्सा रखता था और दूसरा वह जो 1/4 या 1/5 हिस्सा रखता था। प्रथम कोटि के बटाईदार को भट्टस्वामिन् जैसे टीकाकार ने 'ग्राम्य-कुटुम्बिनः' के रूप में चित्रित किया है।[48] दुर्गनिवेश (राजधानी का निर्माण) प्रकरण के सिलसिले में कौटिल्य ने बताया है कि कुटुंबिनों को राजधानी की सीमा पर बसाया जाना चाहिए, ताकि वे खेती संबंधी कार्य कर सकें और अन्य व्यवसायों की जरूरतें पूरी कर सकें।[49] कहा गया है कि वे फुलवारियों, वनों, सब्जी के बागानों और धान के खेतों में[50] काम करेंगे, और दिए गए अधिकार के अनुसार पर्याप्त अन्न तथा दूसरे प्रकार का सौदा आदि एकत्रित करेंगे। इस प्रसंग में टी० गणपति शास्त्री ने 'कुटुम्बिनः' शब्द की व्याख्या करते हुए बताया है कि वह निम्नतम वर्ण का व्यक्ति था (वर्णावराणाम्),[51] पर शामा शास्त्री ने उसे कामगरों का परिवार बताया है।[52] इस प्रकार कुटुंबिन संभवतया शूद्र बटाईदार और कृषि मजदूर थे। इस शब्द का ऐसा प्रयोग अस्वाभाविक सा लगता है, क्योंकि अधिकांश स्रोतों में 'कुटुंबिनः' का अर्थ केवल परिवार का प्रधान किया गया है।[53] किंतु प्रसंग से ऐसा मालूम पड़ता है कि यहां इसका विशेष अर्थ लगाया गया है।

संभवतया पुरानी बस्तियों में उच्च वर्णों के मालिक बहुत से शूद्रों, कृषि मजदूरों, दासों और शिल्पियों को काम देते थे। कृषकों से कर उगाहने का प्रभारी गोप कहलाता था, और उससे कहा जाता था कि वह हर गांव के निवासियों की कुल संख्या और समाज में उत्पादन कार्य करने वाले विभिन्न वर्ग, जिनकी संख्या आधा दर्जन थी, के लोगों अर्थात कर्षक (किसान), गोरक्षक (चरवाहा या पशुधन रखने वाला), वैदेहक (व्यापारी), कारुक (शिल्पी), कर्मकर और दासों की कुल संख्या लिख कर रखे।[54] मालूम पड़ता है कि इस सूची में दो निम्न वर्गों के लोग हैं जिनमें से प्रथम तीन वर्ग वैश्य वर्ण के हैं और शेष तीन शूद्र वर्ण के। मेगस्थनीज ने इस प्रसंग में उत्पादन करने वाली जातियों को नहीं गिनाया है। कौटिल्य के वैश्य कर्षक जहां सामान्यतया मेगस्थनीज द्वारा वर्णित खेतिहरों से मिलते जुलते हैं,[55] वहां वैश्य व्यापारी और शूद्र शिल्पी तथा श्रमिक मेगस्थनीज की तीसरी जाति से मिलते हैं जो व्यापार करते हैं, बर्तन बेचते हैं और शारीरिक श्रम वाले कार्य में नियोजित होते हैं।[56] मेगस्थनीज ने यह भी बताया है कि इनमें से कुछ लोग कर चुकाते हैं और राज्य की कुछ विहित सेवाएं करते हैं।[57] इस विवरण का प्रथम भाग संभवतया व्यापारियों के संबंध में है और दूसरे भाग में

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

शिल्पियों और श्रमिकों की चर्चा की गई है। अर्थशास्त्र में शूद्र संभवतया करदाता की कोटि में नहीं रखा गया है, किंतु गोप को उनकी भी संख्या लिखकर रखनी होती थी।[58] जिन गांवों के लोग कर का भुगतान करते थे उनमें ऐसे लोगों की सूची रखनी पड़ती थी जो राज्य को निःशुल्क श्रम (विष्टि) प्रदान करते थे।[59] अर्थशास्त्र के एक परिच्छेद की टीका करते हुए भट्टस्वामिन् ने बताया है कि एक प्रकार के गांव ऐसे थे जहां से कर के बदले श्रमिकों की मुफ्त आपूर्ति होती थी और उन गांवों के निवासी किला आदि का निर्माण करने के लिए रहते थे।[60] टी॰ गणपति शास्त्री ने ठीक ही कहा है कि इस तरह का काम कर्मकरों द्वारा किया जाता था,[61] क्योंकि दासों और कर्मकरों का वर्ग हमेशा बेगार करने का भागी समझा जाता था।[62] इन बातों से पता चलता है कि शूद्रों को कर से मुक्त रखा गया था और उनसे सामान्यतया कृषि मजदूरों और दासों का काम कराया जाता था तथा उनकी कोई स्वतंत्र जीविका नहीं थी।

कौटिल्य ने उन पशुपालकों की जीवनस्थिति की जानकारी दी है जिन्हें राज्य ने पशु अधीक्षक के सामान्य नियंत्रण के अधीन बहाल कर रखा था।[63] उन्होंने इन लोगों की मजूरी घी का दसवां भाग नियत किया है, किंतु इनके कार्य के बारे में वे विशेष रूप से सतर्क हैं।[64] पशुपालकों के उत्तरदायित्व पर जोर देते हुए कौटिल्य ने बताया है कि यदि चरवाहे की गलती के कारण मवेशी खो जाए तो उसे शारीरिक दंड भी दिया जा सकता है।[65] इतनी कठोर सजा, जिसका उल्लेख मौर्यपूर्वकालीन विधिग्रंथों में नहीं किया गया है, या तो पशुधन को अधिक आर्थिक महत्व दिए जाने के कारण या बौद्ध और जैन धर्मों के उपदेश के कारण, अथवा दोनों ही कारणों से निर्धारित की गई थी। कठोर सजा का जो भी कारण हो, इतना स्पष्ट है कि मौर्यकाल तक असमान भूमि वितरण और असमान पशु वितरण उत्पादन संबंधों के अभिन्न अंग बन गए थे। इसलिए भूस्वामियों और बटाईदारों तथा खेत मजदूरों के बीच, और पशुस्वामियों तथा चरवाहों के बीच, संबंध निर्धारित करने के लिए अर्थशास्त्र तथा विधिग्रंथों में नियम बनाए गए।

अब हम अर्थशास्त्र के उस साक्ष्य का विश्लेषण करें जो शिल्पियों के नियोजन, नियंत्रण और मजूरी के बारे में है और जिससे शूद्रों की सामान्य स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। कृषि कार्य में सहायता पहुंचाने के लिए राज्य की ओर से जिन शिल्पियों को नियोजित किया जाता था, उनकी चर्चा पहले ही की जा चुकी है। बहुत से अन्य शिल्पियों को राज्य की ओर से बुनाई,[66] खनन,[67] भंडारपालन,[68] आयुधनिर्माण,[69] धातु कर्म[70] आदि में लगाया जाता था। पहले बुनकर जैसे शिल्पी गहपति के अधीन काम करते थे, किंतु बाद में राज्य उन्हें भारी संख्या में नियोजित करने लगा था।[71] औजार प्रायः शिल्पियों का अपना ही रहता था, किंतु कच्चा माल राज्य की ओर से दिया जाता था। कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि इनमें

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

से किन्हीं भी शिल्पों में दासों को लगाया जाता था। उन्हें खनन कार्य भी नहीं करने दिया जाता था और यह काम कर्मकर से कराया जाता था।[72] ध्यातव्य है कि ग्रीस और रोम की खानों में भी दासों से काम लिया जाता था।

किंतु राज्य द्वारा शिल्पियों का नियोजन मुख्यतया राजधानी और प्रायः महत्वपूर्ण नगरों में ही सीमित था, जहां शिल्पी पर्याप्त संख्या में रहते थे। दुर्ग-निवेश विधान से पता चलता है कि शिल्पी राजमहल के उत्तर में रह सकते थे, और मजदूरों के शिल्पिसंघों तथा अन्य लोगों को राजधानी के विभिन्न कोणों में आवासस्थान दिए जाएंगे।[73] यह भी कहा गया है कि जो शूद्र और शिल्पी ऊनी और सूती वस्त्र, बांस की चटाई, चमड़ा, कवच, हथियार और म्यान बनाते हैं, उन्हें राजभवन से पश्चिम की ओर निवासस्थान दिया जाना चाहिए।[74] संभवतया इनमें से कुछ लोग सूत्राध्यक्ष के अधीन[75] और कुछ शास्त्रागार अधीक्षक के अधीन कार्य करते थे।[76] मेगस्थनीज ने बताया है कि शस्त्रनिर्माता और जहाज बनाने वालों को राजा से मजदूरी और रसद मिलती थी और वे केवल उसका काम करते थे।[77] इनके अलावा, औद्योगिक शिल्प से संबंधित हर बातों की देख-भाल के लिए नगर में पांच व्यक्तियों की एक कमेटी बनाई गई थी।[78] इनसे पता चलता है कि राज्य का नियंत्रण और शिल्पियों का रोजगार मुख्यतया नगरों तक ही सीमित था। किंतु मेगस्थनीज ने यह भी बताया है कि लकड़हारे, बढ़इयों, लोहारों और खनिकों के कार्यों की निगरानी राज्य के उच्च अधिकारी करते थे।[79] इसका अर्थ यह हुआ कि नगर से बाहर रहने वाले शिल्पियों पर किसी न किसी ढंग का सामान्य नियंत्रण रखा जाता था।

अर्थशास्त्र प्राचीनतम भारतीय ग्रंथ है, जिसमें मालिकों (नियोजकों) और मजदूरों (नियोजितों) के आपसी संबंध के बारे में सामान्य नियम दिए गए हैं। शिल्पियों को विवाद का कारण माना गया है और कारुकररक्षणम् प्रकरण में इनसे बचने के बहुत से उपाय बताए गए हैं। शिल्पियों के लिए यह आवश्यक है कि वे समय, स्थान और काम के स्वरूप के विषय में किए गए करार की पूर्ति करें। संकटों और आपदाओं को छोड़, अन्यथा चूक होने पर, न केवल उनकी मजूरी का चौथा भाग जब्त कर लिया जाएगा, बल्कि उन्हें मजूरी की दुगनी राशि जुर्माने के रूप में चुकानी होगी और उनकी चूक के चलते जो घाटा होगा उसे भी पूरा करना पड़ेगा।[80] काम के सिलसिले में अनुदेशों का उल्लंघन करने पर मजूरी जब्त कर ली जाएगी और उसका दुगना जुर्माना लिया जाएगा।[81] जो सेवक किसी ऐसे काम को पूरा करने में टालमटोल करेगा जिसके लिए उसे पहले ही भुगतान कर दिया गया है, वह 12 पण जुर्माना चुकाने का भागी होगा और उसको तब तक काम करते रहना पड़ेगा जब तक काम पूरा न हो जाए।[82] किंतु यदि वह अपने बूते के बाहर के किन्हीं कारणों के चलते काम करने में असमर्थ हो तो उससे

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

ऐसा जुर्माना नहीं लिया जाएगा।[83] दूसरी ओर, कौटिल्य ने शिल्पियों के संरक्षण संबंधी कुछ विनियम भी विहित किए हैं। तदनुसार जो कोई शिल्पियों के काम का दर्जा घटाकर या सामानों की खरीद बिक्री में बाधा डालकर उन्हें अपनी उचित कमाई से वंचित करने का प्रयास करेगा, उस पर एक हजार पण जुर्माना लगाया जाएगा।[84] अपने मजदूर से काम न लेने वाले मालिक से 12 पण जुर्माना लिया जाएगा।[85], और यदि वह पर्याप्त कारण के बिना काम लेने से इंकार करे तो माना जाएगा कि काम कराया गया है।[86] कौटिल्य ने संघबद्ध शिल्पियों को एक विशेषाधिकार प्रदान किया है। उन्हें अपनी संविदा के निष्पादन के लिए जो अवधि स्वीकृत की गई हो, उसके अतिरिक्त और भी सात रातों की मुहलत दी जाएगी।[87]

जहां तक मजदूरी नियत करने का प्रश्न है, कौटिल्य ने इसके लिए एक सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि काम की किस्म और उसमें लगने वाले समय को ध्यान में रखकर मजूरी नियत की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया है कि शिल्पियों, संगीतज्ञों, चिकित्सकों, रसोइयों और अन्य कामगारों को उतनी ही मजूरी मिलेगी जितनी अन्यत्र काम में लगे इसी प्रकार के लोगों को मिलती है अथवा जितनी विशेषज्ञ नियत करे।[88] सेवकों को वादे के अनुसार मजूरी मिलेगी किंतु यदि मजूरी का निर्णय पहले नहीं किया गया हो तो कृषक को (अर्थात कृषि मजदूर को) उपज का 1/10 भाग, पशुपालक को मक्खन का 1/10 भाग और व्यापारी को बिक्री से हुई आमद का 1/10 भाग मिलना चाहिए।[89] राजा की भूमि में उपजाई गई फसल का 1/4 या 1/5 भाग पाने के हकदार बटाई कृषि मजदूरों और फसल का 1/10 भाग पाने वाले सामान्य कृषि मजदूरों में विभेद किया गया है।

कौटिल्य के अनुसार मजूरी संबंधी विवादों का निपटारा गवाहों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर किया जाता था। यदि ऐसे साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते थे तो नियोजक से पूछताछ की जाती थी।[90] विवाद के सिलसिले में कर्मचारी की जांच नहीं की जाती थी, जिससे स्पष्ट है कि मालिक का अपराध सिद्ध करना कठिन था। किंतु यदि यह पाया जाता था कि उसने मजूरी का भुगतान नहीं किया है तो मालिक को या तो मजूरी की राशि का दस गुना अथवा 6 पण जुर्माना किया जाता था। इसके अतिरिक्त मजूरी का दुर्विनियोग करने पर 12 पण या मजूरी की रकम का पांच गुना जुर्माना किया जाता था।[91] इन नियमों के आधार पर हमें मजूरी की दो विभिन्न दरों का पता चलता है, अर्थात 3/5 पण या $2\frac{3}{5}$ पण। इस तरह मालूम पड़ता है कि श्रमिक की दैनिक मजूरी $\frac{3}{5}$ पण से लेकर $2\frac{2}{5}$ पण तक थी। एक स्थान पर कौटिल्य ने बताया है कि इन उपबंधों के अतिरिक्त कृषि मजदूरों को $1\frac{1}{4}$ पण मासिक मजूरी मिलनी चाहिए। अर्थशास्त्र में

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उच्च वर्ग से नियुक्त उच्च अधिकारियों के वेतन और निम्न वर्ग के शिल्पियों के वेतन में बहुत बड़ा अंतर दिखाया गया है। सबसे अधिक वेतन की व्यवस्था ऋत्विज, अध्यापक, मंत्री, पुरोहित, सेनापति आदि के लिए की गई है और उन्हें प्रति मास अड़तालीस हजार पण वेतन मिलता था।[92] इनसे नीचे की पंक्ति के अधिकारियों के लिए चौबीस हजार, बारह हजार या आठ हजार पण की सिफारिश की गई है,[93] किंतु शिल्पियों के लिए एक सौ बीस पण की ही अनुशंसा है।[94] फिर भी, यह उल्लेखनीय है कि वर्द्धकि, जो मुख्य बढ़ई होता था, के लिए चिकित्सक और सारथी की भांति दो हजार पण का वेतन रखा गया है।[95] ग्रामभृतक (ग्राम अधिकारी)[96] और गुप्तचरों के मार्गदर्शक सेवक पर भी विचार किया गया है और प्रथम को पांच सौ पण तथा द्वितीय को दो सौ पण वेतन दिया गया है।[97] चतुष्पदों और द्विपदों के प्रभारी सेवकों, विविध कार्य करने वाले कामगारों, राजपुरुषों के अनुचरों, अंगरक्षकों और स्वतंत्र मजदूरों को जुटाने के लिए अल्पतम वेतन 60 पण की सिफारिश की गई है।[98] मान लिया जाए कि यह भुगतान मासिक आधार पर किया जाता था तो सामान्य मजदूर के लिए इसकी दर प्रति दिन दो पण होती है। किंतु ऐसे भी मजदूर थे जिन्हें केवल 20 पण की मासिक मजूरी दी जाती थी। पहले जो $\frac{3}{5}$ पण प्रति दिन की दर से वेतन दिखाया गया है, उससे महीने की मजूरी 18 पण आती है।

समाज में सबसे कम भुगतान शिल्पियों और वेतनभोगियों को किया जाता था, किंतु हमें उनके रहन-सहन के स्तर का स्पष्ट ज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि पण की क्रय शक्ति की जानकारी नहीं मिल पाती है। कौटिल्य ने बताया है कि राज्य की सेवा करने वाले दासों और कर्मकरों को अपने निर्वाह के लिए भंडार के अधीक्षक से खुद्दी मिलनी चाहिए।[99] इन्हें देने के बाद जितनी खुद्दी बच जाए वह रोटी पकाने वाले रसोइयों को दी जाए।[100] संभव है कि ये रसोइए दास रहे हों, क्योंकि मौर्यपूर्वकाल में इन्हें रसोई के काम में लगाया जाता था। जहां तक विकृत मदिरा को निपटाने का प्रश्न है, कहा गया है कि यह दासों और कर्मकरों को मजूरी के रूप में दी जानी चाहिए क्योंकि उनका काम हीन ढंग का है।[101] कौटिल्य ने सामान्य आर्य और शूद्र के आहार में विभेद किया है। आर्य को राशन के रूप में एक प्रस्थ शुद्ध चावल, 1/61 प्रस्थ नमक, 1/4 प्रस्थ शोरबा और 1/64 प्रस्थ मक्खन या तेल मिलना चाहिए और अवर को चावल और नमक तो उतनी ही मात्रा में मिलना चाहिए किंतु शोरबा 1/6 प्रस्थ और तेल की मात्रा आर्य के लिए अनुशंसित मात्रा की आधी होनी चाहिए।[102] उसके लिए मक्खन की सिफारिश नहीं की गई है। इस प्रसंग में अवर का अर्थ है नीच जाति का व्यक्ति (निकृष्टनाम) जो शूद्र होता है। किंतु आर्य को उच्च वर्णों का सामान्य सदस्य माना गया है;[103] उच्च कोटि के आर्यों यथा राजा, रानी और सेनाध्यक्षों के लिए और अधिक

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

मात्रा में राशन की व्यवस्था की गई है।[104] इन बातों से स्पष्ट है कि शूद्रों को हीन कोटि का भोजन दिया जाता था।

ऐसा जान पड़ता है कि मौर्य काल में शूद्रों की आर्थिक स्थिति में बहुत से परिवर्तन हुए। पहली बार शूद्रों को, जो अभी तक कृषि मजदूर थे, राज्य की भूमि में बटाईदारी भी दी जाने लगी। किंतु कृषि उत्पादन के लिए राज्य की ओर से शूद्रों को बहुत बड़े पैमाने पर दासों और श्रमिकों के रूप में नियोजित किया जाता था। नीचे दर्जे के लोग या तो खास खास किसानों के अधीन अथवा स्वतंत्र रूप से काम करते थे और गांवों में रहते थे। उनसे धर्मसूत्र काल की अपेक्षा बड़े पैमाने पर कर्वी (बेगार) ली जाती थी, हालांकि उक्त कालावधि में यह मुख्यतया शिल्पियों तक ही सीमित रखी गई थी।[105] यह बात अब इतनी व्यापक हो गई थी कि सरकारी सेवक का एक वर्ग जो विष्टिबंधक कहलाता था, लोगों से निःशुल्क सेवा कराने की धुन में लगा रहता था।[106] यद्यपि समाज में शूद्र को मजदूर और शिल्पी के रूप में सबसे कम मजूरी दी जाती थी, फिर भी संभव है कि मजूरी की दर नियत हो जाने से उनकी दशा सुधरी हो। किंतु प्रायः उनके रहन सहन के स्तर में कोई विशेष परिवर्तन नहीं मालूम पड़ता है।

कौटिल्य ने स्पष्ट शब्दों में यह नहीं कहा है कि शूद्रों को उच्च प्रशासकीय पद नहीं दिए जाएं, जबकि धर्मसूत्रों में ऐसा विधान किया गया है। किंतु राजा और उच्च शासकीय पद धारण करने के लिए अपेक्षित योग्यता की जो सूची उन्होंने बनाई है, उससे पता चलता है कि ये पद तीन उच्च वर्णों के लिए विशेष रूप से सुरक्षित रखे गए थे। उन्होंने बताया है कि हीन जाति के किसी बली राजा की अपेक्षा लोग अच्छे कुल के राजा की आज्ञा मानेंगे, भले ही वह कमजोर क्यों न हो।[107] अतएव उनकी राय है कि राजा को उच्च कुल में उत्पन्न होना चाहिए।[108] उनका कथन है कि जिस प्रकार चंडालों का जलाशय केवल उनके उपयोग के लिए होता है, उसी प्रकार नीच कुल में उत्पन्न राजा नीच जाति के लोगों को ही संरक्षण देता है, न कि आर्यों को। नीच कुल में उत्पन्न राजा के प्रति कौटिल्य को जितनी घृणा थी, उससे पता चलता है कि वे किसी शूद्र मां से उत्पन्न राजा के अधीन सेवा करने को कभी तैयार नहीं हुए होंगे। अतः यह संभव नहीं लगता कि मौर्यों की उत्पत्ति शूद्र जाति से हुई थी, जैसा कहीं कहीं कहा गया है।[109] यह प्रायः निश्चित है कि चंद्रगुप्त क्षत्रिय समुदाय के मोरिय वंश के थे।[110]

अर्थशास्त्र में अमात्यों का संवर्ग अधिकारियों का सबसे ऊंचा संवर्ग माना गया है। इसी संवर्ग से पुरोहित, मंत्री, समाहर्ता, सन्निधाता, अंतःपुर के प्रभारी अधिकारी, राजदूत और दो दर्जन से भी अधिक विभागों के अधीक्षक नियुक्त किए जाते हैं।[111] किंतु कौटिल्य और उनके द्वारा उद्धृत अन्य विद्वानों ने अमात्यों

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

की योग्यताओं के बारे में जो सामान्य मानदंड निर्धारित किया है, वह है अच्छे कुल में जन्म लेना। यह बात विभिन्न रूपों में व्यक्त की गई है, यथा, 'जिसका पिता और पितामह अमात्य हो' जो अभिजन और जानपदोभिजात हो।[112] यह संदिग्ध है कि इस तरह का मानदंड रहने पर शूद्रों के प्रवेश की कोई गुंजाइश रही हो। अरस्तू ने बताया है कि आभिजात्य परंपरागत समृद्धि और गुणोत्कर्ष का समन्वित रूप है[113]—ऐसा गुण तो शूद्रों में विरल ही होगा। मेगस्थनीज ने ऐसे व्यावसायिक पार्षदों और करनिर्धारकों का उल्लेख किया है जो कम संख्या में होते हुए भी सरकार के उच्च कार्यपालक और न्यायपालक पदों पर एकाधिकार रखे हुए थे।[114] उन्होंने बताया है कि अतिभद्र और अतिधनवान व्यक्ति राजकाज के संचालन में भाग लेते थे, न्याय व्यवस्था करते थे और राजा के साथ परिषद में बैठते थे।[115] इनकी जाति बिल्कुल भिन्न थी, यह तथ्य इस नियम से स्पष्ट होता है कि वे अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकते थे, अपना व्यवसाय या व्यापार को छोड़ दूसरा ग्रहण नहीं कर सकते थे और एक से अधिक कारबार नहीं चला सकते थे।[116] इन बातों से स्पष्ट है कि निम्न जाति के लोगों के लिए उच्च आधिकारिक पदों पर पहुंचने के मार्ग बंद थे।

शूद्रों को जासूसी का कार्य दिया जाता था, जो मौर्य प्रशासनतंत्र का महत्वपूर्ण अंग था। कौटिल्य ने बताया है कि अन्य लोगों के साथ साथ शूद्र महिलाओं को घुमक्कड़ जासूस के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।[117] यह भी कहा गया है कि जो स्नान के लिए पानी लाने वाले, मालिश करने वाले, शय्याकार, हजाम, प्रसाधन सामग्री निर्माता, पानी भरने वाले सेवक, कलाकार, नर्तक और गायक के रूप में नियोजित हैं, उन्हें राजा के अधिकारियों के व्यक्तिगत चरित्र पर नजर रखनी चाहिए।[118] स्पष्ट है कि इनमें से अधिकांश लोग शूद्र होते थे। भृत्य के रूप में काम करते हुए वे निरंतर अपने मालिक के संपर्क में रहते थे, अतः उन्हें अपने मालिक के व्यक्तिगत चरित्र पर रिपोर्ट करने का सबसे अच्छा साधन माना गया था। इतना ही नहीं, कौटिल्य का मत है कि समाज के सभी वर्ग के लोगों को; जिनमें कृषक, पशुपालक और जंगली जातियां भी हैं, दुश्मनों की गतिविधि जानने के उद्देश्य से जासूस नियुक्त किया जाना चाहिए। यह ऐसा उपबंध है जिसमें शूद्र भी आ जाते हैं।[119] निम्न जाति के लोग संवादवाहक के रूप में भी काम करते थे, क्योंकि कौटिल्य ने बताया है कि यद्यपि संवादवाहक अछूत होते हैं, फिर भी वे मृत्युदंड के पात्र नहीं हैं।[120]

विशेष महत्व की बात यह है कि अर्थशास्त्र में शूद्रों को सेना में बहाल करने का उपबंध किया गया है। धर्मसूत्रों से तो ऐसी धारणा बनती है कि सामान्यतया केवल क्षत्रिय और आपातिक स्थिति में केवल ब्राह्मण तथा वैश्य शस्त्र धारण कर सकते हैं। सेना को राज्य का अनिवार्य अंग बताते हुए कौटिल्य ने यह भी स्पष्ट

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

कहा है कि परंपरानुसार वह सेना सर्वोत्कृष्ट है जिसमें केवल क्षत्रिय सिपाही हों।[121] किंतु उन्हें ब्राह्मण सेना पसंद नहीं है, जिसे प्रणाम और अनुनय विनय करके रिझाया जा सकता है।[122] दूसरी ओर, वह वैश्यों और शूद्रों की सेना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें लोगों की संख्या अधिक होती है।[123] किंतु यह संदिग्ध है कि इन दो निम्न वर्णों के सदस्य इस काल में वस्तुतः सैनिक के रूप में नियुक्त किए जाते थे। मेगस्थनीज ने साफ साफ कहा है कि कृषक (जो सामान्यतया वैश्य होते थे) सैनिक सेवा से मुक्त रखे गए थे और सेना उनकी रक्षा के लिए रहती थी।[124] एरियन और स्ट्रेबो, दोनों ने ही बताया है कि भारत में लड़ाकू लोगों की पांचवीं जाति थी और उनके निर्वाह का खर्च राज्य वहन करता था।[125] अशोक के समय के उत्कीर्ण लेखों में भटमयेसु शब्द के प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सैनिकों का भी एक वर्ग था।[126] मेगस्थनीज से हमें जानकारी मिलती है कि सेना का एक अनुभाग (डिवीजन) ऐसा था जो विविध प्रकार के कार्य, यथा, वाद्यवृंद, वादक, अश्वपाल, मिस्त्री या उसके सहायक का काम करने के लिए आदमी भेजता था।[127] एरियन ने भी उन सेवकों की चर्चा की है जो न केवल सैनिकों की सेवा करते थे, बल्कि घोड़े, हाथी और रथों की भी देखभाल करते थे।[128] संभवतया स्थायी सेना में शूद्रों को भृत्यों और अनुचरों के रूप में बहाल किया जाता था, न कि सैनिकों के रूप में, किंतु कौटिल्य के नियम से संकेत मिलता है कि आपातिक स्थिति में शूद्रों को सेना में बहाल किया जा सकता था। नई बस्तियों में वागुरिक, शबर, पुलिंद तथा चंडाल जैसी जनजातियों को आंतरिक प्रतिरक्षा का भार सौंपा जाता था।[129]

विधि और न्याय के प्रशासन में कौटिल्य ने वर्णविधान का सिद्धांत अपनाया है। उनके अनुसार पतित, चंडाल और हीन व्यवसाय करने वाले अपने अपने समुदायों के दीवानी मामलों को छोड़ अन्यत्र गवाह नहीं बन सकते हैं।[130] उन्होंने यह भी बताया है कि नौकर अपने मालिक के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता है।[131] उसी प्रकार बंधक मजदूर और दास अपने मालिक की ओर से करारपत्र निष्पादित नहीं कर सकता है।[132] कौटिल्य ने इस बात का भी विधान बताया है कि विभिन्न वर्णों के लोगों को न्यायालय किन रूपों में चेतावनी दे सकता है। सबसे कड़ी चेतावनी शूद्र के लिए विहित की गई है, जिसे स्मरण करा देना है कि गलत बयान देने पर उसे कितने बुरे दैविक और भौतिक परिणाम भुगतने पड़ेंगे।[133] इस विषय में न्यायालय शूद्र को केवल जुर्माना और सेवा के लिए आबद्ध कर सकता है। तीनों उच्च वर्णों के लोगों के बारे में ऐसी किसी बात का कोई उल्लेख नहीं है।[134] इस उपबंध के तुरंत बाद एक और उपबंध है, जिसमें कौटिल्य ने गलत बयान देने वाले गवाहों के लिए 12 पणों का जुर्माना विहित किया है।[135] इससे यह आभास मिलता है कि दंड का विधान प्रायः शूद्र गवाह के

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

लिए ही विहित था। मेगस्थनीज ने लिखा है कि गलत बयान देने के लिए सिद्धदोष गवाहों के अंग काट लिए जाते थे।[136] हो सकता है कि यह दंडविधान या तो नीच जाति के लोगों अथवा किसी खास क्षेत्र के लोगों के लिए विहित किया गया हो।

दंड देने के संबंध में कौटिल्य ने धर्मसूत्रों के वर्णविभेदों को माना है। तदनुसार यदि चारों वर्णों और अंतावसायिनों (अछूतों) में से हीन जाति का कोई व्यक्ति उच्च जाति के किसी व्यक्ति की निंदा करे तो उसे अधिक जुर्माना चुकाना होगा, और यदि हीन जाति के किसी व्यक्ति को उच्च जाति वाला बदनाम करे तो उसे कम जुर्माना देना होगा।[137] अर्थशास्त्र में यह नियम भी दिया गया है कि शूद्र जिस अंग से ब्राह्मण पर प्रहार करे वह अंग ही काट लिया जाए।[138] हमें संदेह है कि यह परिच्छेद कौटिल्य के ग्रंथ का है, क्योंकि यह मनु के अतिवादी विचार से मिलता है। कौटिल्य ने एक दूसरा नियम यह भी बनाया है कि यदि कोई क्षत्रिय किसी आरक्षित ब्राह्मण महिला का गमन करे तो उसे उच्च से उच्च अर्थदंड दिया जाएगा, वैश्य की संपत्ति छीन ली जाएगी और शूद्र को चटाई में लपेटकर जिंदा जला दिया जाएगा।[139] आर्य स्त्री का अवैध संभोग करने वाले श्वपाक को मृत्यु दंड मिलेगा और महिला के नाक कान काट लिए जाएंगे।[140] यह आश्चर्य की बात नहीं कि शूद्रों और श्वपाकों को ऐसे कठोर दंड दिए जाते थे, क्योंकि श्वपाक जाति की महिला के साथ अवैध समागम के लिए भी कौटिल्य ने अपराधी को दागने और निष्कासित करने की सजा विहित की है।[141]

कौटिल्य ने कुछ प्रकार के भोजन पान के संबंध में जो निषेध किए हैं, वे सभी समान रूप में सभी वर्णों पर लागू नहीं होते। अतः यदि कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को निषिद्ध भोजन पान में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करे तो उसे प्रथम कोटि के अपराध का दंड दिया जाएगा; क्षत्रिय के संबंध में यही अपराध होने पर मध्यम कोटि का; वैश्य के विरुद्ध होने पर प्रथम कोटि के अपराध का दंड और शूद्र के विरुद्ध होने पर 54 पण का अर्थदंड दिया जाएगा।[142] गबन या दुर्विनियोग के मामले में सबसे कड़ी सजा भृत्यों के बारे में निर्धारित की गई है। यदि कोई अधिकारी या किरानी इस तरह का अपराध करे तो उसे जुर्माना किया जाएगा, किंतु सेवक को ऐसे मामले में शारीरिक दंड दिया जाएगा।[143]

दायविधि में कौटिल्य ने वर्णों के बीच प्राचीन विभेद माना है। अंतर्मिश्रित (वर्णसंकर) जातियों से उत्पन्न पुत्र, यथा सूत, मागध, व्रात्य और रथकार अपना हिस्सा पाने के हकदार तभी हैं जब पैतृक संपत्ति प्रचुर मात्रा में हो।[144] कौटिल्य ने यह भी व्यवस्था की है कि जो पुत्र ऊपर बताए गए पुत्र से हीन कोटि के हों, उन्हें कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा किंतु वे अपने निर्वाह के लिए सबसे बड़े पुत्र पर निर्भर कर सकते हैं।[145] स्वाभाविक ही है कि इसके अनुसार आयोगव, क्षत्ता,

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

निषाद, पुल्कस और चंडाल हिस्सा पाने से वंचित रखे गए हैं। लेकिन पारशव (अर्थात शूद्र महिला से ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न पुत्र) की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी है। कहा गया है कि यदि कोई ब्राह्मण संतानविहीन हो तो उसकी पैतृक संपत्ति में एक तिहाई हिस्सा उसके पारशव पुत्र को मिलेगा,[146] और शेष दो हिस्से या तो उसके जीवित सपिंडों को अथवा, उनके अभाव में उसके गुरु या शिष्य को मिलेंगे।[147] इससे संकेत मिलता है कि यदि ब्राह्मण पिता को संतान न हो तो शूद्र पत्नी से भी उत्पन्न पुत्रों को पर्याप्त हिस्सा मिलेगा। यदि किसी ब्राह्मण को चारों जातियों की पत्नियों से पुत्र हों तो उनके लिए कौटिल्य ने संपत्ति के बंटवारे में धर्मसूत्र का सिद्धांत अपनाया है।[148] उन्होंने इस सिद्धांत का विस्तार क्षत्रिय और वैश्य पिता की तीन या दो जातियों की पत्नियों से उत्पन्न पुत्र तक किया है, किंतु हर हालत में शूद्रपुत्र को लघुतम हिस्सा दिया गया है।[149]

अर्थशास्त्र में दासों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए शूद्र की नागरिक हैसियत के प्रश्न पर सावधानी से विचार करने की आवश्यकता है। धर्मसूत्रों के लेखकों की तरह कौटिल्य ने आर्य को स्पष्टतया स्वतंत्र माना है और कहा है कि किसी भी स्थिति में आर्य को दास नहीं बनाया जा सकता।[150] इसके परिणामस्वरूप उन्होंने नियम बनाया है कि जो शूद्र जन्मजात दास न हो, वयस्क नहीं हुआ हो और आर्यप्राण (आर्य से उत्पन्न) हो उसका रिश्तेदार यदि ऐसे शूद्र को बेचे या बंधक रखे तो उसे 12 पण जुर्माना किया जाएगा तथा इस तरह के कार्य से जितने भी लोग संबद्ध होंगे उन सबको कठिन दंड दिया जाएगा।[151] इससे ध्वनित होता है कि शूद्र पत्नी से उत्पन्न तीन उच्च वर्णों के पुत्रों को खरीद या बंधक के जरिए दास नहीं बनाया जा सकता था।[152] प्रायः उन्हें न्यायदंड, युद्धबंदी और ऐच्छिक दासता आदि के जरिए इस स्थिति में लाया जाता था।[153] इसी प्रसंग में कौटिल्य ने युद्ध में बदी बनाए गए आर्यप्राण को दास बनाए जाने का हवाला दिया है।[154] अतएव उनके नियम में स्पष्ट बताया गया है कि तीन उच्च वर्णों के अवयस्क शूद्र पुत्रों को छोड़ चौथे वर्ण के अन्य सदस्यों को दास बनाया जा सकता था। इन बताए गए शूद्रों में भी, जिनकी संख्या अवश्य ही छोटी रही होगी, दास बनाने के लिए विहित किया गया जुर्माना अल्पतम है, अर्थात 12 पण, जो वैश्य, क्षत्रिय या ब्राह्मण के मामले में क्रमशः बढ़ता जाता है।[155]

किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में, यथा, घरेलू संकट या जुर्माना अथवा ऋण का भुगतान करने में अक्षम रहने पर आर्य का भी जीवन बंधक रखा जा सकता था।[156] जहां तक इन बंधक रखे गए लोगों (आहितकों) का संबंध है, कौटिल्य ने कई उदार नियम बनाए हैं। यह विधान किया गया है कि रिश्तेदार बंधक रखे गए व्यक्तियों को यथाशीघ्र विमुक्त करा लेंगे। उसे अपवित्र कार्य करने के लिए नहीं कहा जाएगा। यदि बंधक रखी गई किसी महिला का मालिक

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

नंगा होकर स्नान करते समय उसे किसी कार्य के लिए अपने पास बुलाएगा अथवा उस महिला का शीलहरण करेगा या गाली देगा अथवा मारे पीटेगा तो वह ऐसी महिला का बंधक मूल्य पाने का हकदार नहीं रह जाएगा और महिला स्वत: मुक्त हो जाएगी। बंधक रखी गई किसी युवती पर बलात्कार करने की दशा में उसके मालिक का न केवल क्रयमूल्य जब्त हो जाएगा, बल्कि वह युवती को कुछ रकम शुल्क के रूप में देगा और शुल्क की दुगनी राशि सरकार को चुकाएगा। यदि परिचारिका के रूप में बंधक रखी गई दासी के साथ उसका मालिक समागम करे तो उसे प्रथम कोटि का दंड दिया जाएगा। इसी प्रसंग में कहा गया है कि यदि किसी उच्च वर्ण के परिचारक के प्रति हिंसात्मक प्रयोग किए जाएं तो उसे भाग जाने का अधिकार होगा।[157] इससे स्पष्ट है कि संभवतया आहितक भी उच्च वर्ण के थे। दुर्भाग्यवश, उपर्युक्त परिच्छेद के अनुवाद में शामा शास्त्री ने दास और आहितक के बीच भेद नहीं करके दोनों के लिए मनमाने ढंग से 'दास' शब्द का प्रयोग किया है।[158] किंतु कौटिल्य के कई कथनों से जाहिर होता है कि दास और आहितक दो भिन्न कोटियों के कर्मचारी थे। उन्होंने विहित किया है कि दास और आहितक द्वारा किए गए करारपत्र अवैध घोषित कर दिए जाने चाहिए।[159] उन्होंने यह भी बताया है कि राजा को देखना चाहिए कि लोग अपने दासों और आहितकों के दावों पर ध्यान देते हैं।[160] कौटिल्य ने यह भी विहित किया है कि जो औरतें अपने आप को किसी दास, परिचारक (सेवक) या आहितक के प्रति समर्पित करें उनका वध कर दिया जाए।[161] इन सभी मामलों में शामा शास्त्री ने माना है कि आहितक दास से भिन्न थे। वे या तो बंधक रखे गए मजदूर थे या भाड़े के मजदूर।[162] चूंकि दसकर्मकरकल्प के अध्याय में आहितकों को दासों जैसा ही समझा गया, इसलिए आहितकों पर लागू होने वाले नियम दासों पर भी लागू माने गए हैं।[163] किंतु उपर्युक्त विश्लेषण बताते हैं कि कौटिल्य के ये नियम बंधक रखे गए दासों पर लागू होते थे, जो अधिकांशतया आर्य वर्ण की महिलाएं होती थीं। उपर्युक्त नियमों से यह भी प्रकट होता है कि सामान्य दासों को उसका मालिक पीट सकता था और उसे गालियां दे सकता था तथा गंदे कार्य करने के लिए भी कह सकता था।

कौटिल्य के अनेक नियम जो दासों की मुक्ति के बारे में हैं, मात्र दासता की स्थिति में पहुंचा दिए गए आर्यों पर लागू होते हैं। नियम बताता है कि जिसने अपने को बेच लिया हो, उसके बेटे को आर्य (स्वतंत्र) समझना चाहिए।[164] कोई व्यक्ति अपने मालिक के कार्य में विघ्न डाले बिना अर्जन करके और अपने पूर्वजों की संपत्ति विरासत में प्राप्त करके अपना क्रयमूल्य चुका सकता है और इस प्रकार अपना आर्यत्व पुन: प्राप्त कर सकता है।[165] युद्ध में बंदी बनाया गया आर्य-प्राण मुक्ति मूल्य चुका कर मुक्त हो सकता है।[166] समुचित मुक्ति मूल्य पा लेने

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

के बाद किसी दास को आर्य नहीं मानने पर 12 पण जुर्माना किया जाएगा।[167] ऐसे सभी मामलों में आर्यत्व की पुनः प्राप्ति का प्रश्न केवल उन्हीं लोगों के लिए उठ सकता है जो पहले से ही आर्य रहे हों। शूद्रों के लिए यह प्रश्न नहीं उठ सकता। उपर्युक्त उपबंध अधिक से अधिक तीन उच्च वर्णों के उन पुत्रों पर लागू हो सकेंगे जो शूद्र माताओं से उत्पन्न हुए हों।

कौटिल्य ने पराधीनता से मुक्ति के लिए दो अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है। आर्यों के लिए 'आर्यत्वम्' शब्द प्रयुक्त हुआ है। किंतु जब आर्येतर गुलामों को मुक्त करने का प्रसंग आया है, तब 'अदास' शब्द का प्रयोग किया गया है। उदाहरणस्वरूप, यह बताया गया है कि यदि कोई मालिक अपनी दासी से बच्चा पैदा करे तो मां और बच्चा दोनों ही मुक्त समझे जाएंगे।[168] यदि ऐसी कोई मां अपने परिवार के भरण पोषण के विचार से दास बने रहने का ही निश्चय करे तो उसकी मां, भाई और बहन को मुक्त कर दिया जाएगा (अदासाः स्युः)।[169] मालूम पड़ता है कि ये दास गुलाम तो नहीं रह जाते थे, किंतु आर्य नहीं बन सकते थे। प्राचीन पालि ग्रंथों में दासों की दासत्व मुक्ति के लिए 'भुज्जीस'[170] शब्द का प्रयोग हुआ है और स्पष्ट रूप से यह बता दिया गया है कि केवल यवनों में ही आर्य दास बन सकता है, और दास आर्य बन सकता है।

यह कहना कठिन है कि क्रयमूल्य चुका कर मुक्ति पाने का नियम आर्येतर दासों पर भी उसी रूप में लागू था, जिस रूप में वह आर्य दासों पर था। प्रायः मूल्य चुका देने पर भी शूद्र दासों का मुक्त किया जाना उनके मालिक की इच्छा पर निर्भर था। किंतु कभी कभी उन लोगों को भी मुक्ति मिल जाती थी, क्योंकि यह विहित किया गया है कि जिस दास या दासी को एक बार उन्मुक्त करा दिया जाए उसे बेचने या बंधक रखने पर 12 पण जुर्माना देना होगा। किंतु यदि कोई इच्छापूर्वक दास बने तो ऐसा जुर्माना नहीं किया जाएगा।[171] मालूम पड़ता है कि सामान्य दास भी संपत्ति अर्जन कर सकता था और उसका मालिक धन से उसे वंचित नहीं कर सकता था।[172] स्वभावतया इस संपत्ति से उसे अपनी मुक्ति में सहायता मिलती थी।

दासों के प्रति किए जाने वाले बर्ताव को विनियमित करने के लिए कौटिल्य ने कुछ नियम बनाए हैं जो शूद्र दासों तथा उच्च वर्ण के दासों पर भी लागू होते हैं। उन्होंने बताया है कि जो दास आठ वर्ष से कम उम्र का हो और सगा-संबंधी विहीन हो, उसे हीन व्यवसायों में नहीं लगाया जा सकता है और न उसे विदेश में बेचा या बंधक रखा जा सकता है।[173] इसी प्रकार किसी गर्भवती दासी को प्रसव की व्यवस्था के बिना बेचा या बंधक नहीं रखा जा सकता है।[174] पुनः, मालिक किसी कारण के बिना अपने दास को कैद में नहीं रख सकता।[175] जनपदनिवेश संबंधी अध्याय में यह आदेश दिया गया है कि राजा को चाहिए कि लोगों को

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

बाध्य करे कि वे अपने दासों और आहितकों के दावे पर ध्यान दें।[176] यह तथ्य अशोक द्वारा बार बार दिए गए उन अनुदेशों से मिलता है जिनमें कहा गया है कि दासों और सेवकों के प्रति दयालुतापूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए।[177]

कौटिल्य के उदार नियम अधिकांशतया आहितकों और भूतपूर्व आर्य दासों पर लागू थे, जिनकी संख्या निश्चय ही कम रही होगी। उनमें से कुछ ही नियम सामान्य दासों की बड़ी संख्या पर लागू होते थे, जो शूद्र थे। इस तथ्य पर ध्यान न देने के कारण यह गलत निष्कर्ष निकाला गया है कि कौटिल्य के विधान परोक्ष रूप से दासता का उन्मूलन करते हैं अथवा उनकी नीति ऐसी है कि उनका देश स्वतंत्र व्यक्तियों का देश बन जाए।[178] उनके उदार नियम से मुख्यतया यह जान पड़ता है कि वे आर्येतर या शूद्र दासों की अपेक्षा भूतपूर्व आर्य दासों की स्थिति बचाने के लिए चिंतित थे। यह स्वाभाविक है, क्योंकि मालूम पड़ता है कि कौटिल्य ने साक्ष्य, परस्त्रीगमन और दाय संबंधी विधियों में शूद्र और उच्च वर्णों के बीच भेद रखा है।[179] यद्यपि कौटिल्य ने धर्मशास्त्रों की भांति आर्य और शूद्र के बीच स्पष्ट विभेद नहीं किया है, फिर भी उन्होंने आहार सामग्री देने के विषय में आर्य और अवर के बीच स्पष्ट विभेद किया है,[180] और इसमें कोई संदेह नहीं कि 'अवर' शब्द का प्रयोग शूद्र के लिए किया गया है।

दासता के बारे में कौटिल्य ने अपेक्षाकृत अधिक विस्तार से नियम बनाए हैं, जैसा कि धर्मसूत्रों में नहीं पाया जाता है। इससे यह पता चलता है कि मौर्यकालीन भारत में दासों की संख्या पर्याप्त थी। मेगस्थनीज का उद्धरण देते हुए एरियन ने बताया है कि कोई भी भारतीय दास नहीं रखता था।[181] किंतु ओनेसिक्रितोज के विवरण से इस उक्ति में बहुत अंतर आ जाता है। स्ट्रेबो ने ओनेसिक्रितोज को अधिक विश्वसनीय और मेगस्थनीज को झूठा बताया है।[182] ओनेसिक्रितोज ने बताया है कि मौसिकैनो देश, जिसमें आधुनिक सिंध का अधिकांश भाग शामिल था, के निवासियों में दास नहीं रखने की विचित्र प्रथा थी।[183] उसका कथन है कि वे लोग दासों के बदले नवयुवकों से काम लेते थे जिस प्रकार क्रीटवासी स्फैमियोतई[184] और लैसिडिमोनिया के लोग गुलामों को रखते थे।[185] इससे पता चलता है कि मौसिकैनो में भी ऐसा वर्ग था जो पूरे समाज की गुलामी करता था और किसी खास व्यक्ति के अधीन नहीं था। इस प्रथा से ब्राह्मण काल के उस सिद्धांत की पुष्टि होती है जिसके अनुसार दास और भाड़े के मजदूर बनकर शूद्र तीन उच्च वर्णों की सेवा करते थे।

आम तौर पर इस तरह का कोई संकेत नहीं मिलता कि मौर्यकाल में शूद्रों की नागरिक और आर्थिक स्थिति में कोई मूलभूत परिवर्तन हुआ। मौर्यकाल से पहले उन पर जो राजनीतिक और कानूनी अशक्तताएं लादी गई थीं, वे मुख्यतया बनी रहीं। अशोक ने अपने चतुर्थ स्तंभ आदेश में राजुक को बताया है कि अपने

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

प्रभार के अधीन रखे गए जनपद में वह व्यवहार समता और दंड समता लागू करें।[186] इन दोनों शब्दों का निर्वचन 'न्याय संबंधी कार्यवाहियों में निष्पक्षता और 'दंड में निष्पक्षता' किया गया है।[187] किंतु प्राचीन विधियों में वर्ण पर आधारित भेदभावों को देखते हुए कह सकते हैं कि उपर्युक्त शब्द आदर्शवादी शासकों द्वारा ऐसे भेदभावों को छोड़ने के प्रयास के सूचक हैं। यह नीति वस्तुतया किस प्रकार और कहां तक लागू की जाती थी, यह स्पष्ट नहीं होता है। संभवतया दीर्घकालीन पूर्वाग्रहों के चलते यह नीति सफल नहीं हो सकी। इतना ही नहीं, चूंकि उपर्युक्त राज्यादेश 238 ई० पू० [188] में निर्गत हुआ, जबकि उसका राज्यकाल समाप्त हो रहा था, इसलिए उसकी मृत्यु से बहुत पहले शायद ही उस आदेश को कार्यान्वित किया गया होगा। इस प्रकार इस निर्णय से केवल ब्राह्मणों की शत्रुता बढ़ी होगी और निम्न वर्ण के लोगों को कोई लाभ नहीं पहुंचा होगा।

मुख्यतया आर्थिक और राजनीतिक प्रश्नों से संबद्ध ग्रंथ के रूप में अर्थशास्त्र शूद्रों की सामाजिक स्थितियों पर उतना प्रकाश नहीं डालता जितना धर्मसूत्र डालते हैं। किंतु इसमें शूद्रों की विवाह प्रथा और उनकी महिलाओं की स्थिति की विशद चर्चा की गई है। इससे हमें जानकारी मिलती है कि ब्याही जाने वाली लड़की को पाणिग्रहण संस्कार से पहले तक अस्वीकार कर देना तीन उच्च वर्णों में मान्य समझा गया है, किंतु शूद्रों में यह मान्यता संभोग के पूर्व तक दी गई है।[189] यह भी कहा गया है कि प्रथम चार प्रकार के अनुमोदित विवाहों में तलाक की अनुमति नहीं है,[190] जिससे ध्वनित होता है कि गांधर्व, आसुर, राक्षस और पैशाच विवाह में इसकी अनुमति दी गई है। पहले बताया जा चुका है कि गांधर्व और पैशाच विवाह वैश्यों और शूद्रों में प्रचलित था,[191] जिससे पता चलता है कि वे लोग विवाह के बंधन को तोड़ना आसान समझते थे। कौटिल्य ने यह भी बताया है कि अनुमोदित ढंग के विवाहों के लिए पिता की सहमति अपेक्षित थी, और अनुमोदित ढंग के विवाहों के लिए माता की भी सहमति लेना आवश्यक था।[192] इससे परोक्ष रूप में यह सिद्ध होता है कि निम्न वर्णों में मातृप्रधानता के कई तत्वों के बने रहने के कारण उनके बीच स्त्रियों का कुछ स्थान था।

कौटिल्य ने जो उपर्युक्त नियम बनाए हैं, वे प्राचीन धर्मसूत्रों में नहीं दिखाई पड़ते। किंतु विभिन्न वर्णों के प्रवासी पतियों की पत्नियों के लिए कौटिल्य ने प्रतीक्षा की अवधि प्रायः वही रखी है जो वसिष्ठ द्वारा निर्धारित है और इसके लिए अल्पतम अवधि शूद्र की पत्नी के लिए विहित है।[193] ये सभी निषेधाज्ञाएं बताती हैं कि शूद्रों में विवाह का बंधन उतना प्रबल नहीं था जितना उच्चवर्णों में, जिनकी महिलाएं पुरुषों पर अधिक निर्भर रहती थीं।

कहा गया है कि कौटिल्य ने विवाह के लिए लड़कों की उम्र 16 वर्ष और लड़कियों की 12 वर्ष निर्धारित की है,[194] जो ब्राह्मण से भिन्न जातियों के लिए

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

और खासकर ऐसे श्रमजीवी वर्ग के लिए है जो शीघ्र ही संतान पाने के इच्छुक रहते हैं।[195] वह उपबंध जिस प्रसंग में आया है, उसे ध्यान में रखते हुए ऐसा सोचना उचित नहीं मालूम पड़ता। दूसरी तरफ, ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि यह उपबंध निम्न वर्णों पर ही लागू होगा। इसलिए माना जा सकता है कि यह उपबंध चारों वर्णों के लिए उनकी श्रेष्ठता के क्रम में आचरण का मानदंड स्थापित करता है।

कौटिल्य ने बताया है कि अभिनेता, खिलाड़ी, गायक, मछुआ, शिकारी, पशुपालक, आसवक और ऐसे ही अन्य लोग साधारणतया अपनी औरतों के साथ घूमते थे।[196] उच्च वर्णों की महिलाओं के साथ ऐसी बात नहीं थी। उनका कार्य-कलाप केवल घर तक सीमित रहता था। शूद्र वर्ण की महिलाएं इसलिए घर से बाहर जाती थीं कि उन्हें अपने परिवार के गुजारे के लिए खेतों और चारागाहों में काम करना पड़ता था। कौटिल्य ने नियम बनाया है कि बटाईदारों और पशु-पालकों की स्त्रियों पर अपने पति द्वारा लिए गए ऋण की अदायगी का दायित्व रहेगा।[197]

सामान्यतया इस काल में जातियों में सगोत्र विवाह प्रचलित था। एरियन का कहना है कि किसान शिल्पियों के वर्ग में और शिल्पी किसानों के वर्ग में विवाह नहीं कर सकते थे।[198] किंतु कौटिल्य की दाय विधि और वर्णसंकर जातियों के बारे में उनके द्वारा तैयार की गई अंतराल नामक सूची से स्पष्ट है कि कुछ विवाह उच्च वर्ण के लोगों और शूद्रों के बीच भी हुए थे। उन्होंने निषाद, पारशव, चंडाल, पुल्कस, श्वपाक, क्षता, आयोगव, कुटक, (धर्मसूत्रों में कुक्कुटक), रथकार, वैण्य आदि की उत्पत्ति के विषय में ब्राह्मणकालीन सिद्धांत की ही पुनरावृत्ति की है।[199] कौटिल्य ने कहा है कि वैण्य और रथकार के कार्य समान ढंग के थे।[200] उन्होंने यह भी बताया है कि इन वर्णसंकर जातियों के लोगों को अपनी ही जातियों में विवाह करना चाहिए।[201] राजा को देखना चाहिए कि ये लोग अपना अपना ही व्यवसाय करें।[202] उन्होंने बताया है कि राजा इस व्यवस्था को मान्यता दे और उसके अनुसार प्रजा को चलाए।[203] यह भी निर्धारित किया गया है कि पैतृक संपत्ति में सभी संकर जातियों के हिस्से समान होंगे।[204] उनका मत है कि चंडालों को छोड़कर संकर जातियां (अंतराल) शूद्र का पेशा अपना कर अपना निर्वाह कर सकती हैं।[205] अतएव केवल चंडाल को घृणित जाति माना गया है और बौद्ध सूची के रथकारों, वेणों, पुक्कुसों और नेसादों को छोड़ दिया गया है।

पहले बताया गया है कि पाणिनि ने संभवतया चंडालों को शूद्र वर्ण में सम्मिलित किया है। किंतु कौटिल्य उन्हें शूद्र नहीं मानते।[206] उन्हें चतुर्वर्ण व्यवस्था में कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार कौटिल्य का मत है कि चंडालों और

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

जंगली जातियों को पशु और पक्षियों को नुकसान पहुंचाने के लिए उस राशि का आधा दंड दिया जाएगा जो चार वर्णों को वैसे ही पशुओं और पक्षियों को नुकसान पहुंचाने के लिए दिया जाता है।[207] चार वर्णों के अतिरिक्त कौटिल्य ने अंतावसाइनों की जाति का उल्लेख किया है,[208] जो संभवतया चंडालों के समान ही थे, क्योंकि वे गांव के बाहर श्मशान के निकट रहते थे।[209] यह विहित किया गया है कि यदि चंडाल किसी आर्य महिला को छू दे तो उस पर 100 पण का जुर्माना किया जाएगा।[210] इससे यह अर्थ निकाला जा सकता है कि यदि वह किसी शूद्र महिला का स्पर्श करे तो उसे ऐसा कोई दंड नहीं दिया जाएगा। इसी प्रकार चंडाल जिस तालाब के पानी का प्रयोग करता हो, उसे कोई दूसरा अपने उपयोग में नहीं ला सकता है, जिससे स्पष्ट है चंडालों का पानी नहीं चलता था और उन्हें अलग रखा जाता था।[211] इसलिए कोई संदेह नहीं कि चंडालों को अछूत माना जाता रहा। किंतु अन्य संकर जातियों, यथा, पारशवों और निषादों के बारे में यही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कौटिल्य ने नियम बनाया है कि यदि ब्राह्मण पिता को कोई दूसरी संतान न हो तो उसके पारशव पुत्र को हिस्सा मिलेगा।[212] अर्थशास्त्र में चंडाल के नए व्यवसाय का उल्लेख किया गया है। उसे बीच गांव में पापिनी औरत को कोड़े मारने के लिए बुलाया जा सकता है।[213] उससे यह भी कहा जा सकता है कि जो पुरुष या महिला भिन्न भिन्न प्रकार से आत्महत्या करें उनकी लाश को रस्सी से बांधकर सड़क पर घसीटता हुआ ले जाए।[214]

कौटिल्य ने शूद्रों की धार्मिक स्थिति के बारे में कुछ जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि यदि कोई व्यक्ति देवता या पूर्वजों को अर्पित भोजन बौद्ध और आजीविक जैसे वृषल संन्यासी को खिलाए तो उसे 100 पण का जुर्माना किया जाएगा।[215] शामा शास्त्री ने वृषल को शूद्र माना है, किंतु यह परिच्छेद वस्तुतया शूद्रों का नहीं बल्कि तपस्वियों का उल्लेख करता है, जिन्हें ब्राह्मणों ने मनमाने ढंग से शूद्र करार दिया था। फिर भी अशोक तपस्वियों का आदर जाति का विचार किए बिना करता था। कहा जाता है कि एक अवसर पर जब अशोक के मंत्री ने इस कार्य के लिए उसकी निंदा की तब उसने उत्तर दिया कि जाति का विचार विवाहों और निमंत्रणों में किया जाना चाहिए, न कि धम्म के पालन में।[216]

कौटिल्य के एक नियम से ऐसा संभव दिखाई पड़ता है कि कुछ शूद्रों को धार्मिक और शैक्षिक सुविधाएं प्राप्त थीं। अमात्यों के चरित्र की जांच के लिए कुछ रीतियां विहित करते हुए उन्होंने ऐसा तरीका बताया है जिसके जरिए यह जांच की जा सकती है कि धार्मिक विश्वास के कारण राजाज्ञा की अवहेलना करने की प्रवृत्ति तो उसमें नहीं है। राजा को चाहिए कि उस पुरोहित को

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

बर्खास्त कर दे जो आदेश होने पर किसी अनधिकारी को वेद पढ़ाने अथवा यज्ञ के अनधिकारी (अयाज्यायजनाध्यापने) द्वारा किए जाने वाले यज्ञ में भाग लेने से इंकार करे।[217] बर्खास्त पुरोहित को कोशिश करनी चाहिए कि अधर्मी राजा को उखाड़ फेंकने के लिए अमात्यों का समर्थन प्राप्त करे। यदि अमात्य इस धार्मिक दुर्बलता का शिकार नहीं बनें, तो समझना चाहिए कि वे सच्चरित्र हैं।[218] इस परिच्छेद में जयमंगला ने अयाज्य शूद्रापुत्र बताया है।[219] अतः इस नियम से यह संभव मालूम पड़ता है कि उच्च वर्णों के शूद्रापुत्र राजा के कहने पर यज्ञ का संपादन और विद्याध्ययन भी कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि मौर्य-काल में राजा पूर्ण शक्तिसंपन्न होता था। किंतु सामान्य स्थिति का ज्ञान कौटिल्य के दूसरे कथन से होता है, जिसमें उन्होंने बताया है कि यदि यज्ञ का संपादन किसी ऐसे व्यक्ति के संग किया जाए जिसे शूद्र पत्नी हो तो उस यज्ञ का महत्व घट जाता है।[220] इसलिए उन्होंने हिदायत की है कि ऐसे पुरोहित को स्थान नहीं मिलना चाहिए।[221]

मौर्यकाल में राज्य की ओर से शूद्रों को बड़े पैमाने पर गुलाम, मजदूर और शिल्पी के रूप में नियोजित किया जाता था। यद्यपि इनकी मजूरी निर्धारित थी, फिर भी इनकी आर्थिक दशा संकटपूर्ण थी। चूंकि राज्य की ओर से की जाने वाली खेती के लिए पर्याप्त दास और कर्मकर उपलब्ध नहीं थे, इसलिए यह आवश्यक समझा गया कि राजकीय भूमि बटाईदारों को पट्टे पर दी जाए। ये बटाईदार प्रायः निम्न वर्ग के होते थे। दूसरी बात मालूम पड़ती है कि राज्य के घनी आबादी वाले क्षेत्रों से शूद्रों को मंगाकर नई भूमि में खेती के काम में उन्हें लगाया जाता था। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शूद्रों के प्रति पुराना भेदभाव बना रहा, किंतु ऐसा मालूम पड़ता है कि कौटिल्य ने उच्च वर्गों के लोगों के शूद्रापुत्रों को अनेक रियायतें दी थीं। वे दास नहीं बनाए जा सकते थे, उन्हें पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिल सकता था,[222] और विशेष परिस्थितियों में वे वैदिक यज्ञ और वेदाध्ययन के अधिकारी हो सकते थे। किंतु अधिकांश शूद्रों की पुरानी अशक्तताएं बनी रहीं।

अर्थशास्त्र से हमें निम्न वर्गों के सामान्य आचरण की झलक मिलती है। यह बताता है कि इस वर्ग के लोग जिस स्थिति में रहते थे उससे वे बिल्कुल खुश नहीं थे। कौटिल्य ने अपराधियों और संदिग्धों की जो सूची दी है उसमें बहुतेरे ऐसे लोग हैं जिनकी जातियों और व्यवसायों को समाज में हीन माना जाता था (हीनकर्मजातिम)। उन्हें हत्यारा, डकैत या कोषों और निक्षेपों के दुर्विनियोग का दोषी समझा जाता था।[223] कौटिल्य का विचार है कि चोरी या सेंधमारी होने पर गरीब औरतों और अपराधशील नौकरों की भी जांच करनी चाहिए।[224] उन्होंने यह भी बताया है कि यदि मालिक की हत्या हुई हो तो उसके

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

सेवकों की परीक्षा करके यह जानना चाहिए कि मालिक ने उनके प्रति कोई हिंसापूर्ण या निर्दयतापूर्ण व्यवहार तो नहीं किया है।[225] इससे प्रकट होता है कि कभी कभी घरेलू नौकर अपने मालिक की जान लेने का प्रयास करता था। कौटिल्य ने यह भी विहित किया है कि जब कोई शूद्र अपने को ब्राह्मण कहे, देवताओं की संपत्ति चुराए या राजा का बैरी हो तो विषैली दवाओं का प्रयोग करके उसकी आंखें नष्ट कर दी जाएं या उससे आठ सौ पण जुर्माना वसूला जाए।[226] इससे पता चलता है कि पुरोहितों और राजसत्ताधारियों के प्रति कुछ शूद्र बैरभाव रखते थे। एक ऐसा भी प्रसंग आया है जो पारशव के राजविद्रोहात्मक कार्यकलाप के संबंध में है। उसकी राज्यविरोधी गतिविधियों के दमन के लिए वे ही उपाय किए जाएं जो किसी राज्यविरोधी मंत्री के लिए किए जाते हैं। कहा गया है कि राजा को चाहिए कि संदिग्ध व्यक्ति के परिवार में झगड़ा लगाने के लिए खुफिया बहाल करे ताकि अंततः सरकार उसे फांसी पर लटका सके।[227] उपर्युक्त प्रसंग बताते हैं कि शूद्र वर्ण के सदस्यों का झुकाव अपने मालिक के प्रति अच्छा नहीं था। चूंकि उस समय उनकी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का कोई शांतिपूर्ण तरीका नहीं था, इसलिए कभी कभी वे अपनी प्रतिक्रिया डकैती, सेंधमारी, मंदिर की संपत्ति की चोरी, मालिक की हत्या, ब्राह्मणों के आडंबर पर प्रहार और राज्य के प्रधान के प्रति विद्रोह जैसे अपराधिक कार्यकलापों के रूप में करते थे। ये कार्य उनके मन में व्याप्त असंतोष के प्रतीक थे। किंतु एक भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलता जिससे पता चल सके कि उन लोगों ने संगठित होकर विद्रोह किया था। इस संबंध में मौर्यकाल की परिस्थितियां प्राचीन काल की परिस्थितियों से कुछ अच्छी थीं। अर्थशास्त्र में शूद्रों के संगठित विद्रोह का मुकाबला करने के लिए वैसी कोई व्यवस्था नहीं मिलती है जिसका आभास धर्मसूत्रों की कुछ कंडिकाओं में पाया जा सकता है। दूसरी ओर, शूद्रों को सेना में भर्ती करने के लिए कौटिल्य का तैयार होना उस विश्वास की भावना का परिचायक है जो समझौता और निष्ठुर नियंत्रण की उनकी दुहरी नीति से उत्पन्न हुई थी।

संदर्भ

1. मजुमदार और पुसलकर : 'दि एज आफ इंपीरियल यूनिटी', पृष्ठ 285-6 में इस विषय के संदर्भ ग्रंथों का निर्देश है. आर० पी० कांगले : 'दि कौटिलीय अर्थशास्त्र', (बंबई, 1964); तथा टामस आर० ट्रौटमैन : 'कौटिल्य ऐंड दि अर्थशास्त्र' (लाइडेन, 1971) में संदर्भ ग्रंथों की और भी बड़ी सूची है.
2. अर्थशास्त्र, XV.1.
3. वी कल्यानोव : 'डेटिंग दि अर्थशास्त्र', (23वीं इंटरनेशनल कांग्रेस आफ ओरिएंटलिस्ट्स में सोवियत प्रतिनिधि-मंडल द्वारा प्रस्तुत निबंध), पृ० 40-54.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

4. वही, पृ० 44-45.
5. वही, पृ० 45.
6. आर० गार्बे : 'हेस्टिग्स एनसाइक्लोपीडिया आफ रिलिजन ऐंड एथिक्स', VIII, पृ० 138; रयूबन : 'आइनफुहसंग इन डी इंडियेनकुण्डे', पृ० 126.
7. दीघ निकाय, I, पृ० 130; मज्झिम निकाय, II, पृ० 165.
8. कल्यानोव : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 46.
9. अर्थशास्त्र, I. 2, 8.
10. के० वी० रंगस्वामी अय्यंगर : 'इंडियन कॉमरेलिज्म', पृ० 50.
11. कल्यानोव : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 48.
12. विनयपिटक, I, 10; संयुत्त निकाय, V. 421.
13 कल्यानोव : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 52.
14. अर्थशास्त्र, II.14.
15. मैक्रिडल : 'एनशिएंट इंडिया एज डिस्क्राइब्ड बाइ मेगास्थनिज ऐंड एरियन', पृ० 86.
16. अर्थशास्त्र, III.1.
17. के० ए० नीलकंठ शास्त्री : 'रायल पावर इन एनशिएंट इंडिया', (दि प्रोसीडिंग्स आफ दि इंडियन हिस्टारिकल कांग्रेस 1944), पृ० 46.
18. मैक्रिडल : 'एनशिएंट इंडिया एज डिस्क्राइब्ड इन क्लासिकल लिटरेचर', पृ० 53.
19. अर्थशास्त्र, II. 10.
20. कल्यानोव, पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 54, टामस आर० ट्रोटमैन ने कम्प्यूटर की सहायता से अपनी पुस्तक 'कोटिल्य ऐंड दि अर्थशास्त्र' में दिखलाया है कि विभिन्न अधिकरणों के अलग-अलग लेखक हैं (पृ० 168-187).
21. अर्थशास्त्र, I.3; 'शूद्रस्य द्विजातिशुश्रुषा वार्ता' वाक्यखंड में वार्ता शब्द का प्रयोग तीन व्यवसायों, यथा, कृषि, पशुपालन और व्यापार के अर्थ में नहीं किया गया है जैसाकि शामा शास्त्री (अनुवाद, पृ० 7) ने माना है, बल्कि इसका प्रयोग जीविका के अर्थ में किया गया है. (जयमंगला, जर्नल आफ ओरियंटल रिसर्च, मद्रास), XX.11.
22. अर्थशास्त्र, I 3.
23. अर्थशास्त्र, II.1; शूद्रकर्षकप्रायं कुलशतावरं पंचशतकुलपरं ग्रामं क्रोशद्विक्रोशसीमानमन्योन्यरक्षं निवेशयेत्.
24. आई० जे० सोराबजी : 'सम नोट्स आन दि अध्यक्षप्रचार बुक II आफ दि कौटिल्यम् अर्थशास्त्रम्'. अर्थशास्त्र, II.1 में शूद्रकर्षकप्रायम्; जे० जे० मायर : 'दस अल्तिनदिस्चे बुक फाम वेल्ट-उण्ड स्टाटलेबेन', अर्थशास्त्र का अनुवाद; 1.
25. टी० गणपति शास्त्री का अर्थशास्त्र का संस्करण, I, पृ० 109; शामा शास्त्री का अर्थशास्त्र का अनुवाद, II.1.
26. टी० गणपति शास्त्री की अर्थशास्त्र के दासकर्मकरकल्प शब्द की टीका, III, 13.
27. अर्थशास्त्र, II.1; टी० गणपति शास्त्री के अर्थशास्त्र के संस्करण में 'ऐकपुरुषिकानि' शब्द का अर्थ 'एक व्यक्ति' किया गया है (I, 111) और शामा शास्त्री (अनुवाद) ने

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

इसका अर्थ आजीवन किया है.

28. अर्थशास्त्र, II. 1.
29. वही.
30. तस्यां चातुर्वर्ण्याभिनिवेशं सर्वभोगसहत्वादवरवर्णप्राया श्रेयसी बाहुल्यात् ध्रुवत्वाच्च···. अर्थशास्त्र, VII. 11. नयचंद्रिका (पृ० 33) में अवरवर्णप्राय की व्याख्या शूद्रपाय के रूप में की गई है.
31. नयचंद्रिका, पृ० 33; कर्षणभारवहनदुर्गकरणादिविनियोगः, तदोग्यत्वादित्यर्थः.
32. अर्थशास्त्र, VIII.1.
33. अर्थशास्त्र, II.1; परदेशापवाहनेन स्वदेशाभिष्यन्दवमनेन वा.
34. अर्थशास्त्र, VI.1; अवरवर्णप्रायः.
25. घोषाल : 'हिंदू रेवेन्यू सिस्टम', पृ० 55.
36. अर्थशास्त्र, II.1.
37. वही, II, 14.
38. वही.
39. मैक्रिडल : 'एनशिएंट इंडिया एज डिस्क्राइब्ड बाइ मेगास्थनिज ऐंड एरियन', पृ० 86, खंड 34.
40. मैक्रिडल : 'एनशिएंट इंडिया एज डिस्क्राइब्ड इन क्लासिकल लिटरेचर', पृ० 53, पाद टिप्पणी 4.
41. वही, पृ० 48, खंड 41.
42. (जर्नल आफ दि बांबे ब्रांच आफ दि रायल एशियाटिक सोसाइटी, बंबई, XII), पृ० 143; भट्टस्वामिन् के अनुसार रज्जुवर्तक श्वपाक और अन्य लोग थे तथा सर्पग्राहादिक शबर और अन्य लोग थे.
43. अर्थशास्त्र, I.24.
44. अर्थशास्त्र, II.24.
45. वही, II.24. भट्टस्वामिन् की टीका : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 137.
46. अर्थशास्त्र, II.24.
47. वही, अन्यत्र कृहरेभ्यः.
48. (जर्नल आफ दि बिहार ऐंड उड़ीसा रिसर्च सोसायटी, पटना, XII), पृ० 137.
49. अर्थशास्त्र, II.4; कर्मान्तिकक्षेत्रवशेन वा कुटिम्बिनम् सीमानम् स्थापयेत्.
50. अपने अनुवाद में शामा शास्त्री ने बताया है कि ये काम उन्हें सौंपे गए थे किंतु इस बात का समर्थन करने के लिए ग्रंथ में कोई तथ्य नहीं मिलता.
51 टी० गणपति शास्त्री का अर्थशास्त्र का संस्करण; I, पृ० 130.
52. शामा शास्त्री का अर्थशास्त्र का अनुवाद, पृ० 54.
53. घोषाल : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 200, पाद टिप्पणी 2.
54. अर्थशास्त्र, II.35.
55. मैक्रिडल : 'एनशिएंट इंडिया एज डिस्क्राइब्ड बाइ मेगास्थनिज ऐंड एरियन', पृ० 83-84, खंड 33.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

56. मैक्रिंडल : 'एनशिएंट इंडिया एज डिस्क्राइब्ड इन क्लासिकल लिटरेचर', पृ० 53; स्ट्रैबो : पूर्व निर्दिष्ट, खंड 46.
57. वही.
58. अर्थशास्त्र, II.35.
59. वही.
60. अर्थशास्त्र, II.15; एतावन्तो विष्टिप्रतिकरा:···दुर्गादिकर्मोपयोगिभि:; (जर्नल आफ दि बिहार ऐंड उड़ीसा रिसर्च सोसायटी, पटना, XII) पृ० 198.
61. टी० गणपति शास्त्री : पूर्व निर्दिष्ट, I, पृ० 344.
62. अर्थशास्त्र, II.15; ···दासकर्मकरवर्गश्च विष्टि:.
63. अर्थशास्त्र, II.29.
64. वही, III.13.
65. वही, II.20; स्वयम् हन्ता घातयिता हर्ता हारयिता च बध्य:.
66. अर्थशास्त्र, II.23.
67. वही, II.12.
68. वही. II.15.
69. वही, II.18.
70. वही, II.17.
71. वहीं, II.23.
72. वही, II.12.
73. वही, II.4.
74. अर्थशास्त्र, II.4; ततः परपूर्णासूत्रवेणुचर्मवर्मशस्त्रावरणकारव:शूद्राश्च पश्चिमम् दिशमधिवसेयु:.
75. वही, II.23.
76. वही, II.18.
77. मैक्रिंडल : 'एनशिएंट इंडिया एज डिस्क्राइब्ड इन क्लासिकल लिटरेचर', पृ० 53. स्ट्रैबो; पूर्व निर्दिष्ट, खंड 46.
78. मैक्रिंडल : 'एनशिएंट इंडिया एज डिस्क्राइब्ड बाइ मेगास्थनिज ऐंड एरियन', पृ० 87, खंड 34.
79. वही, पृ० 86, खंड 34.
80. अर्थशास्त्र, IV.1.
81. वही.
82. वही, III.14.
83. वही.
84. वही, IV.2.
85. वही, III.15; भर्तुरकारयतो भृतकस्याकुर्वतो वा द्वादशपणो दण्ड:.
86. वही.
87. वही, III.14.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

88. वही, III.13; कारुशिल्पिकुशीलवचिकित्सकवाग्जीवनपरिचारकादिराशाकारिकवर्गस्तु यथान्यस्तद्विध: कुर्यात्, यथा वा कुशला: कल्पयेयु:, तथा वेतनम लभेत.
89. वही, III.13.
90. वही.
91. वही.
92. वही, V.3.
93. वही.
94. वही.
95. वही.
96. ग्रामभृतक को गांव का सामान्य नौकर नहीं माना जा सकता है जैसाकि शाम शास्त्री समझते हैं (अनुवाद, पृ० 277); पांच सौ पण का उसका वेतन बताता है कि वह गांव का एक अधिकारी होता था जिसका अपना महत्व था.
97. अर्थशास्त्र. V. 3.
98. वही.
99. अर्थशास्त्र, II.15; कणिका: दासकर्मकरसूपकाराणामतोन्यद् उदनिकापूपिकेभ्यम प्रयच्छेत्. यहां संभवतया 'कणिका' शब्द का अर्थ है अनाज का कण. दवनी के बाद अन्न के जो कण बन जाते थे, वे कण कामगारों को दिए जाते थे.
100. वही.
101. अर्थशास्त्र, II.25, टी० गणपति शास्त्री की टीका सहित, I, 292; दासकर्मकरेभ्यो वा वेतनम् दद्यात्.
102. प्रेमनाथ : 'इकनामिक कंडीशंस इन एनशिएंट इंडिया', पृ० 150-1; तुलनीय, पुंस: षडभागस्सूप: अदर्धस्नेहमवराणाम्. 'प्रस्थ' शब्द जो पुंस के वैकल्पिक शब्द के रूप में शामा शास्त्री द्वारा उल्लिखित और टी० गणपति शास्त्री द्वारा स्वीकृत हुआ है, सही शब्द मालूम पड़ता है.
103. (जर्नल आफ बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसायटी, पटना, XI) पृ० 91; भट्टस्वामिन् ने उसे मध्यमप्रतिपन्तिक साधुपुरुष के रूप में चित्रित किया है.
104. अर्थशास्त्र, II.15.
105. टी० डब्ल्यू० रीज डेविड्स : बुद्धिस्ट इंडिया, पृ० 49.
106. अर्थशास्त्र, V.3.
107. वही, VIII.2.
108. वही, VI.1.
109. बी० एन० दत्त : 'स्टडीज इन इंडियन सोशल पालिटी', पृ० 185-7. जायसवाल : 'मनु ऐंड याज्ञवल्क्य', पृ० 171.
110. रायचौधरी : 'पालिटिकल हिस्ट्री आफ एनशिएंट इंडिया', पृ० 267.
111. अर्थशास्त्र, I.8 और 9.
112. वही.
113. अरस्तू : 'पालिटिक्स', पृ० 163.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

114. मैक्रिंडल : 'एनशिएंट इंडिया एज डिस्क्राइब्ड बाइ मेगास्थनिज ऐंड एरियन', पृ० 85, खंड 33.
115. वही, पृ० 138, खंड 56.
116. वही, पृ० 85-6, खंड 33.
117. अर्थशास्त्र, I.12.
118. वही.
119. वही.
120. अर्थशास्त्र, I.16; ···अन्तावसायिनोप्यवध्या:.
121. वही.
122. अर्थशास्त्र, IX.2.
123. वही; बहुलसारं वा वैश्यशूद्रबलमिति.
124. मैक्रिंडल : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 83-84, खंड 33.
125. वही, पृ० 217; एरियन, खंड 12; 'एनशिएंट इंडिया एज डिस्क्राइब्ड इन क्लासिकल लिटरेचर', पृ० 53; स्ट्रैबो, खंड 47.
126. राक इडिक्ट आफ अशोक 4 (शाहबाजगढ़ी), I.12.
127. मैक्रिंडल : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 88, खंड 34.
128. वही, पृ० 217, खंड 12.
129. अर्थशास्त्र, II.1.
130. वही, III.11.
131. वही.
132. वही, III.1.
133. वही, III.11.
134. वही,···अन्यथावादे दंडश्चानुबन्ध:. शामा शास्त्री ने जो अनुवाद किया है (पृ० 200) उसमें 'अनुबंध:' शब्द को छोड़ दिया गया है.
135. अर्थशास्त्र, III.11.
136. मैक्रिंडल : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 70, खंड 27.
137. अर्थशास्त्र, III, 18.
138. वही, III.I9.
139. वही, IV.13 ब्राह्मन्यामगुप्तायाम् क्षत्रियस्योत्तम:, सर्वस्वम् वैश्यस्य, शूद्र: कटाग्निना दह्येत.
140. टी० गणपति शास्त्री ने इस अनुच्छेद को शामा शास्त्री से भिन्न ढंग का बताया है. जहां गणपति शास्त्री ने लिखा है 'श्वपाकस्यार्यागमने वध:' (II, 181), वहां शामा शास्त्री शूद्रश्वपाकस्य भार्यागमनवध: (अर्थशास्त्र, IV.13, पृ० 236) लिखते हैं. टी० गणपति शास्त्री ने 'आर्य' शब्द का प्रयोग ठीक ही किया है, जो म्यूनिख की पांडुलिपि में भी पाया जाता है (अनुवाद, पृ० 264).
141. अर्थशास्त्र, IV.13.
142. वही.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

143. वही, II.5.

144. वही, III.6.

145. वही.

146. वही.

147. वही.

148. वही, III.6.

149. वही.

150. वही. III.13.

151. वही, III.13; उदरदासवर्जमार्यप्राणमप्राप्तव्यवहारं शूद्रम् विक्रयाधानं नयतस्वजनस्य द्वादशपणो दंडः.

152. जायसवाल : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 242.

153. अर्थशास्त्र (III.3) में कुल मिलाकर दास बनने के नौ श्रोत बताए गए हैं. हो सकता है कि अन्य प्रकार का भी दासत्व रहा हो.

154. अर्थशास्त्र, III.13.

155. वही.

156. वही, III.13; अथ वार्यमाधाय कुलबन्धनतूर्याणामापदि निष्क्रयम् चधिगम्यबालं साहाय्यदातारं वा पूर्वम निष्क्रणीरन्.

157. अर्थशास्त्र, III. 13; सिद्धमपचारकस्याभिप्रजातस्य अपक्रमणम्.

158. शामा शास्त्री का अनुवाद, पृ० 206.

159. अर्थशास्त्र, III.1.

160. वही, II.1.

161. वही, IV.13.

162. शामा शास्त्री का अर्थशास्त्र का अनुवाद, III.1 और II.1.

163. जायसवाल : पूर्व निर्दिष्ट; पृ० 209.

164. अर्थशास्त्र, III.13; आत्मविक्रयिणः प्रजामार्या विद्यात्.

165. वही, III.13.

166. वही.

167. वही.

168. वही III.13; समातृकम अदासम विद्यात्.

169. वही, III.13, गणपति शास्त्री के अनुसार.

170. पालि-इंगलिश डिक्शनरी; देखें 'भुज्जिस्स'.

171. अर्थशास्त्र, III.13.

172. वही.

173. वही.

174. वही.

175. वही.

176. वही, II.1.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

177. राक इडिक्ट आफ अशोक 9 (गिरनार), I.4; पिलर इडिक्ट आफ अशोक II (गिरनार), I.2.
178. जायसवाल : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 209; वी० एन० दत्त : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 184-187.
179. ऊपर देखें, पृ० 161-2.
180. अर्थशास्त्र, II.15 तुलनीय, अर्थशास्त्र में आर्य और नीच के बीच भेद, अर्थशास्त्र, I.14.
181. मैक्रिडल : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 211-3, खंड 10.
182. वही, पृ० 18-19.
183. मैक्रिडल : 'एनशिएंट इंडिया एज डिस्क्राइब्ड इन क्लासिकल लिटरेचर', पृ० 58; स्ट्रैबो खंड 54.
184 गुलामों की तरह वे भी भूमि से संबद्ध थे.
185. मैक्रिडल : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 41; स्ट्रैबो, खंड 34.
186. पिलर इडिक्ट आफ अशोक 4 (दिल्ली-टोपरा शिलालेख), I.15.
187. कारपस इंसक्रिप्सनम इंडिकैरम, I, 125.
188. वही, इंट्रोडक्शन, पृ० XXXVI.
189. अर्थशास्त्र, III. 15; विवाहानान्तु त्रयाणाम् पूर्वेषां वर्णानामु पाणिगहणात्सिद्धम्पावर्त्तनम् शूद्राणां च प्रकर्मणां. टी० गणपति शास्त्री ने प्रक्रमणः बताया है (II, पृ० 92). (उन्होंने इसे योनिक्षतिमवधीकृत्य, अर्थात लड़की का कौमार्यभंग बताया है. शामा शास्त्री के विवाह के अर्थ में इसके अनुवाद से कोई अर्थ नहीं निकलता.
190. अर्थशास्त्र, III.3
191. ऊपर देखें, पृ० 116.
192. अर्थशास्त्र, III.2.
193. वही, III.4.
194. वही, III.3.
195. के० वी० रंगस्वामी अय्यंगर : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 66, पाद टिप्पणी 5.
196. अर्थशास्त्र, III.4; तालापचारणमत्स्यबन्धकलुब्धकगोपालक शौण्डिकानामन्येषाम् च प्रसृष्टस्त्रिकाणाम् पथ्यनुसरणमदोषः.
197. वही, III.11; स्त्री वा प्रतिश्राविणी पतिकृतम् ऋणम् अन्यत्र गोपालकार्धसीतिकेभ्यः.
198. (इंडियन ऐंटीक्वेरी, बम्बई, V) पृ० 92.
199. अर्थशास्त्र, III.7; कौटिल्य ने व्रात्यों की नई परिभाषा की है, जो उनके मतानुसार, चारों वर्णों में से किसी वर्ण के पतित पुरुषों द्वारा निम्न वर्ण की महिला से उत्पन्न पुत्र थे. वही.
200. अर्थशास्त्र, III.7; कर्मणा वैण्यो रथकारः.
201. वही, टी० गणपति शास्त्री द्वारा एक अनुच्छेद के दिए गए पाठ के आधार पर यह अर्थ किया गया है (II, 44). शामा शास्त्री ने दूसरे ढंग की व्याख्या की है, जिससे पता चलता है कि सजातीय विवाह केवल वैण्य तक ही सीमित थे.
202. वही, III.7; पूर्वावरगामित्वम् वृत्तानुवृत्तम् च स्वधर्मान् स्थापयेत्.
203. वही, III.7.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

204. वही.

205. वही. III.7, टी० गणपति शास्त्री, II, 44, के अनुसार.

206. वही, III.7.

207. वही, IV.10; चण्डालारण्यचराणामर्धदण्ड:.

208. वही, III.18.

209. वही, II.4.

210. वही, III.20.

211. वही, I.14.

212. वही, III.6.

213. वही, III.3; इन आदिम जातियों की क्रूरता के कारण इस कार्य के लिए चंडालों को विशेष रूप से चुना गया होगा.

214. अर्थशास्त्र, IV.7; रज्जुना पढ़ें. शामा शास्त्री ने घातयेत्स्वयमात्मानं का अनुवाद किया है; 'दूसरों से आत्महत्या करवाना', जो सही नहीं मालूम पड़ता.

215. वही, III.20.

216. पी० एल० नरसू : 'दि एसेन्स आफ बुद्धिज्म', पृ० 137 से उद्धृत.

217. अर्थशास्त्र, I.10.

218. वही.

219. (जर्नल आफ ओरियंटल रिसर्च, मद्रास, XXII), 32. टी० गणपति शास्त्री ने अयाज्य का अर्थ वृषलीपति, अर्थात शूद्र स्त्री का पति किया है (I, 48).

220. अर्थशास्त्र, III.14.

221. वही, अदोषः त्यक्तुमन्योन्यम्.

222. यह रथकार और पारशव तक सीमित थी.

223. अर्थशास्त्र, IV.6.

224. वही.

225. वही IV.7; दग्धस्य हृदयमदग्धं दृष्टवा वा तस्य परिचारकजनं वा दण्डपारुष्यादतिमार्गेत्.

226. अर्थशास्त्र, IV.10; शूद्रस्य ब्राह्मणवादिनो देवद्रव्यमवस्तृणतो राजद्विष्टमादिशतो द्विनेत्रभेदिनश्च योगञ्जनेनान्धत्वमष्टशतो वा दण्य:. ब्राह्मणवादी शूद्र को देव संपत्ति चुराने वाले या राजा के वैरी व्यक्ति से भिन्न मानने का कोई औचित्य नहीं दीखता, जैसा कि शामा शास्त्री ने इस अनुच्छेद के अनुवाद में किया है, (अनुवाद, पृ० 255).

227. वही, V.1, टी० गणपति शास्त्री की टीका के आधार पर.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

प्राचीन व्यवस्था का कमजोर पड़ना
(लगभग दो सौ ई० पू० से लगभग दो सौ ई० सन)

इस काल में शूद्रों की स्थिति की अधिकांश सीधी जानकारी मनु के विधिग्रंथ से प्राप्त हुई है, जो सामान्यतया दो सौ ई० पू० से दो सौ ई० सन तक की मानी जाती है।[1] मनु ने ब्रह्मावर्त्त (सरस्वती और दृषद्वती के बीच का प्रदेश)[2] और ब्रह्मर्षिदेश (कुरु, मत्स्य, पांचाल और शूरसेन की समतल भूमि) को पवित्र माना है।[3] इस आधार पर सुझाव दिया गया है कि अपेक्षाकृत इस छोटे प्रदेश में ही विधिग्रंथ का उद्भव हुआ और सर्वप्रथम उसे प्राधिकृत माना गया।[4] इस तरह का विचार यद्यपि संभव है किंतु किसी भी तरह आवश्यक नहीं है और हो सकता है कि मनुस्मृति का प्रभाव अधिक व्यापक क्षेत्र पर पड़ा हो।

मनु ने जिसप्रकार की ब्राह्मणकालीन घोर कट्टरता का परिचय दिया है उससे उनके ग्रंथ में प्रस्तुत प्रमाण का मूल्यांकन करना कठिन हो गया है। किंतु शूद्रों की स्थिति से संबंधित परिच्छेद का विश्लेषण पतंजलि के महाभाष्य, भास के नाटक[5] और बौद्धग्रंथों, यथा, मिलिंद पञ्हो (प्रश्न), दिव्यावदान, महावस्तु और सद्धर्मपुण्डरीक से प्राप्त जानकारी के आधार पर किया जा सकता है।[6] जैन ग्रंथ पन्नवणा भी, जिससे शिल्पियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, इसी काल का कहा जा सकता है।[7] इस काल के स्मृतिमूलक और संकलिपत लेख भी शूद्र समुदाय की स्थिति पर पूर्ण प्रकाश डालते हैं।

कतिपय प्राचीन पुराणों में कलियुग के जो वर्णन मिलते हैं, वे प्रायः इसी युग का संकेत करते हैं,[8] जबकि वर्ण के आधार पर विभाजित ब्राह्मण समाज की नींव अपधर्मी संप्रदायों के कार्यकलाप और बैक्टेरियन ग्रीक, शक, पार्थियन और कुषाणों जैसे विदेशियों की चढ़ाई के कारण हिल गई थी। अंशतः अशोक की बौद्धों की समर्थक नीति और अंशतः इन नए लोगों के आगमन के चलते ब्राह्मण समाज पर जो आघात हुआ उससे मनु ने उसे बचा रखने की जी तोड़ कोशिश की है, और इसके लिए उन्होंने न केवल शूद्रों के विरुद्ध कठोर दंड का विधान किया है, बल्कि वाहरी तत्वों को वर्णसमुदाय में समाविष्ट करने के उद्देश्य से

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उनकी समुचित वंशावली भी बनाई है। इतना ही नहीं, उन्होंने तलवार (दंड) की शक्ति की जो अत्यधिक महिमा बताई है, उसका भी अभिप्राय यही है।[9]

मनु ने इस पुराने सिद्धांत को दुहराया है कि ईश्वर ने शूद्रों को आदेश दिया है कि वे उच्च जातियों की सेवा करें।[10] राजा को चाहिए कि वैश्य को आदेश दे कि वह व्यापार करे, रुपये का लेन देन करे, खेती करे या मवेशीपालन करे और शूद्र को यह आदेश दे कि वह तीन उच्च वर्णों की सेवा करे।[11] आपदधर्म के अध्याय में मनु ने यह भी कहा है कि शूद्र ब्राह्मण की सेवा करे जिससे उसके सभी उद्देश्य पूरे होंगे।[12] ऐसा नहीं होने पर वह क्षत्रिय की सेवा करे, अथवा किसी धनी वैश्य की भी चाकरी करके अपना जीवननिर्वाह करे।[13] इस संबंध में 'अपि' (भी) शब्द पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे ध्वनित होता है कि वैश्य शायद ही शूद्र का मालिक होता था।[14] इससे यह भी पता चलता है कि आपातकाल में शूद्र की सेवा मुख्यतया ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए सुरक्षित रहती थी। एक अन्य स्थान पर मनु ने विहित किया है कि राजा साव-धानी के साथ वैश्यों और शूद्रों को बाध्य करे कि वे अपने नियत कार्य किया करें, क्योंकि यदि ये दोनों वर्ण अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएंगे तो सारे संसार में गड़बड़ी फैल जाएगी।[15] इस परिच्छेद का विशेष महत्व है, क्योंकि यह किसी भी प्राचीन ग्रंथ में नहीं मिलता। इस तरह के विधान से सामाजिक आर्थिक संकट का आभास होता है। युग पुराण से भी इस बात की पुष्टि होती है, जिसमें कहा गया है कि इस काल में स्त्रियां भी हल जोतती थीं।[16] मनु के एक नियम की जो टीका कुल्लुक ने की है, उससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कुछ ऐसे ह्रासोन्मुख किसान और व्यापारी थे जिन्हें राजा ने अपना गुप्तचर बहाल कर रखा था।[17] मनु का दूसरा नियम है कि जिन शूद्रों को जीवननिर्वाह में कठि-नाई हो, वे देश के किसी भी भाग में (अर्थात म्लेच्छों के देश में भी) बस सकते हैं।[18] इस नियम से ऐसे संकट का संकेत मिलता है जिसका प्रभाव उत्पादन करने वाली जनता पर गंभीर रूप से पड़ा था। वैश्यों और शूद्रों से काम कराने का सुझाव देने की आवश्यकता मनु को इसलिए पड़ी होगी कि विदेशी आक्रमणों के कारण सामाजिक विप्लव गंभीर रूप धारण कर चुका होगा। प्रायः जब मौर्यों के कठोर शासन का अंत हुआ, तब वैश्यों और शूद्रों को उनके विहित कर्तव्यों की सीमा बांध रखना और भी कठिन हो गया।

उपर्युक्त निर्देशों से यह भी पता चलता है कि वैश्यों और शूद्रों के कार्यों में पड़ने वाले अंतर क्रमशः मिटते जा रहे थे। मनु ने विहित किया है कि यदि आपात-काल में वैश्य के लिए अपने व्यवसाय से भरण पोषण करना कठिन हो तो उसे शूद्रों के व्यवसाय अपनाने चाहिए, अर्थात द्विजों की सेवा करके जीवनयापन करना चाहिए।[19] मिलिंदपञ्हो के एक प्रश्न से भी इस बात की पुष्टि होती है,

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

जिसमें कृषि, व्यपार और पशुपालन वैश्य और शूद्र जैसे सामान्य जन के कार्य माने गए हैं,[20] और इन दोनों वर्गों के कार्यों का अलग से कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।

यद्यपि वैश्य को शूद्र के निकट बताने की प्रवृत्ति चल पड़ी थी, फिर भी कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता जिससे पता चले कि शूद्र स्वतंत्र रूप से जीविकोपार्जन करते थे । सामान्यतया वे भाड़े के मजदूर और गुलाम के रूप में नियोजित होते रहे, क्योंकि मनु ने उस पुराने नियम को ही दुहराया है कि शिल्पी, यांत्रिक और शूद्र, जो शारीरिक श्रम करके अपना निर्वाह करते हैं, कर चुकाने के बदले महीने में एक दिन राजा का काम करें ।[21] उन्होंने एक नया नियम बनाया कि वैश्य (अतिरिक्त) कर के रूप में अपने गल्ले का 1/8 हिस्सा चुका कर और शूद्र शारीरिक श्रम लगाकर आपतकालीन स्थिति को संभाले ।[22] इस प्रसंग में कुल्लुक ने जोरदार शब्दों में कहा है कि बुरे दिनों में भी शूद्रों पर कर नहीं लगाए जाएं ।[23] मनु ने शूद्रों को करों से विमुक्ति दी है, जिसकी पुष्टि मिलिंदपञ्हो से होती है । इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि हर गांव के अपने दास या दासी, भटक और कर्मकर होते थे, जिन्हें करों से मुक्त रखा जाता था ।[24] अतः शूद्र को राज्य का कर चुकाने वाला किसान नहीं बताया गया है और यह स्थिति वैश्यों से भिन्न मालूम पड़ती है । राजा के अष्टविध कर्म की चर्चा करते हुए मेधातिथि ने व्यापार, कृषि, सिंचाई, खनन, बस्तीविहीन जिलों की बंदोबस्ती, वनों की कटाई आदि का उल्लेख किया है;[25] किंतु इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि राज्य अपनी पहल पर दासों और कर्मकरों को कृषिकर्म में नियोजित करता था जैसा मौर्य काल में होता था । महावस्तु में ग्राम मुखिया का वर्णन आया है जो खेत का काम देखने के लिए तेजी से जा रहा है । किंतु यह पता नहीं चलता है कि वह इस कार्य का संपादन राजा की ओर से करता था ।[26] मालूम पड़ता है कि अलग अलग मालिक शूद्रों से कृषि मजदूर का काम कराते थे । पतंजली ने एक ऐसे भूस्वामी का जिक्र किया है जो एक जगह बैठकर भाड़े के पांच मजदूरों द्वारा की जाने वाली जुताई का निरीक्षण करता है ।[27] मनु ने किसान मालिक के नौकरों की भी चर्चा की है ।[28] उनका कथन है कि कृषक को अपनी पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे में ब्राह्मण पुत्र के लिए एक अतिरिक्त हिस्सा बनाकर रखना चाहिए ।[29] स्पष्ट है कि यह ब्राह्मणों के अधीन रहने वाले कृषि मजदूरों का हवाला देता है ।

यद्यपि मनु ने इस विचार की पुनरावृत्ति की है कि शूद्रों को शिल्पियों का व्यवसाय तभी अपनाना चाहिए जब सीधे उच्च वर्णों की सेवा से उनकी जीविका नहीं चल सके,[30] फिर भी मालूम होता है कि इस काल में शिल्पियों की संख्या तो काफी बढ़ी ही, उनकी परिस्थिति में भी सुधार हुआ । यह बात बढ़इयों, लोहारों, गंधियों, जुलाहों, सुनारों और चर्म व्यवसायियों द्वारा बौद्ध भिक्षुओं को

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उपहार स्वरूप दी गई अनेक गुफाओं, स्तंभों, पट्टों, ताबूतों आदि से प्रमाणित होती है।[31] इनके अतिरिक्त उत्कीर्ण लेखों में रंगसाजों, धातु और हाथी दांत के काम करने वालों, जौहरियों, मूर्तिकारों और मछुओं के भी कार्य दिखाई पड़ते हैं।[32] गंधियों और कुछ हद तक स्वर्णकारों को बार बार उदार उपासक कहा गया है जिससे लक्षित होता है कि शिल्पियों के कई समृद्ध वर्ग बन गए थे। यद्यपि गंधियों की तरह जुलाहों की चर्चा दानपत्रों में बार बार नहीं मिलती है, फिर भी मनुस्मृति में उपलब्ध प्रमाण से ज्ञात होता है कि शिल्पियों के रूप में उनका स्थान महत्वपूर्ण था, क्योंकि कहा गया है कि वे ग्यारह पल का भुगतान करें और चूक होने पर बारह पल दें।[33] स्पष्ट है कि ये कर जुलाहों द्वारा तैयार किए गए सामान पर वस्तु के रूप में लिए जाते थे। प्राय: मथुरा[34] और अन्य नगरों में उत्पन्न वस्त्रों के व्यापार में इन जुलाहों की खूब चलती थी। उत्कीर्ण लेखों से पता चलता है कि अधिकांश शिल्पी मथुरा और पश्चिमी दक्कन क्षेत्र में सीमित थे जहां रोम के साथ बढ़ते हुए व्यापार से उन्हें अपना विकास करने का अवसर मिलता था।

पुरालेख बताते हैं कि शिल्पी अपने प्रधानों के अधीन संगठित थे जो प्राय: राजा के प्रिय पात्र होते थे। हमें आनंद के उपहार की भी बात सुनने में आई है जो श्री शातकर्णि के शिल्पियों का प्रमुख था।[35] किंतु साहित्यिक प्रमाण बताते हैं कि पूर्व काल की अपेक्षा इस काल में शिल्पियों के संघ बहुत बड़े पैमाने पर बने थे। महावस्तु ने एक सूची में 11 प्रकार के शिल्पियों का उल्लेख किया है; यथा, मालाकार, कुंभकार, बढ़ई, धोबी, रंगरेज, पात्र निर्माता, स्वर्णकार, जौहरी, शंख सीपी वस्तु निर्माता, आयुधिक और रसोइया जो अपने अपने प्रधानों के अधीन काम करते थे।[36] इसी स्रोत से राजगृह के अष्टदश श्रेणियों का उल्लेख मिलता है जिसके अंतर्गत स्वर्णकार, गंधी, जौहरी, तेली, आटा पीसने वाले आदि भी हैं। इस सूची में फल, कंद, आटा और चीनी के विक्रेता भी शामिल हैं।[37] स्वर्णकार और जौहरी का उल्लेख दोनों ही सूचियों में हुआ है और मालूम पड़ता है कि इस काल में लगभग दो दर्जन शिल्पी संघ वर्तमान थे।[38] यह भी ध्यान देने योग्य है कि शिल्पी संघों की दूसरी सूची जातकों में वर्णित सूची से बिल्कुल भिन्न है।[39] यद्यपि शिल्पियों की नियुक्ति राजा करता था,[40] फिर भी संभव है कि शिल्पी संघों की संख्या बढ़ने से शिल्पियों पर राज्य का सीधा नियंत्रण कमजोर पड़ गया हो। विशेष महत्व की बात यह है कि अर्थशास्त्र में भी उतने प्रकार के शिल्पी नहीं दिखाई पड़ते, जितने इस अवधि में देखने में आते हैं। महावस्तु में छत्तीस प्रकार के कामगारों की एक सूची दी गई है जो राजगृह नगर में रहते थे।[41] यह सूची व्यापक नहीं मालूम पड़ती है, क्योंकि इसके अंत में कहा गया है कि सूची में जितने कामगारों का उल्लेख हुआ है उनके अतिरिक्त और भी कामगार थे।[42]

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

मिलिंद पञ्हो में इससे भी लंबी सूची दी गई है, जिसमें लगभग 75 प्रकार के व्यवसाय गिनाए गए हैं जो अधिकतर शिल्पियों के थे ।[43] बौद्धों की सूचियों के बहुत से शिल्पियों की चर्चा एक जैन ग्रंथ में भी हुई है, जिसमें 18 प्रकार के शिल्पियों का उल्लेख हुआ है और एक खास बात यह है कि इस ग्रंथ में दर्जियों, बुनकरों और रेशम बुनकरों को भी आर्य शिल्पी बताया गया है।[44] इससे प्रकट होता है कि जैन इन शिल्पों को हीन नहीं मानते थे ।

इन शिल्पियों की सूची का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि इस काल में कई नए शिल्पों का विकास हुआ । दीघ निकाय में दिए गए लगभग दो दर्जन शिल्पों[45] के मुकाबले हमें मिलिंद पञ्हो में पांच दर्जन शिल्पों की चर्चा मिलती है। इनमें से आठ शिल्प धातुकर्म संबंधी हैं,[46] जिनसे अच्छी प्रगति का पता चलता है । ऐसा जान पड़ता है कि वस्त्र निर्माण, रेशम बुनाई[47] एवं अस्त्र शस्त्र और विलास सामग्रियों[48] के निर्माण में भी अच्छी प्रगति हुई थी । इन सब बातों से पता चलता है कि इस काल के शिल्पियों ने तकनीकी और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था ।

ये शिल्पी अपने ग्राहकों से उस रूप में नहीं जुड़े थे, जिस प्रकार दास और कर्मकर अपने मालिकों से संबद्ध थे । इस तरह पतंजलि से हमें जानकारी मिलती है कि बुनकर (जुलाहे) स्वतंत्र रूप से अपना काम करते थे।[49] दास और कर्मकर तो भोजन और वस्त्र पाने के उद्देश्य से काम करते थे, किंतु शिल्पी अपना काम करके मजदूरी पाने की आशा रखते थे।[50]

मनु ने कई ऐसे विधान बनाए हैं जिनसे शूद्रों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । उन्होंने वर्ण के अनुसार ब्याज की भिन्न भिन्न दरें निर्धारित की हैं; यह पुराना नियम था ।[51] वर्णों के अनुसार ब्याज की दरें क्रमशः दो, तीन, चार या पांच प्रतिशत होनी चाहिए ।[52] नासिक के उत्कीर्ण लेख से पता चलता है कि जब रुपए बुनकर संघ के पास जमा किए जाते थे तब उनके द्वारा चुकाए जाने वाले ब्याज की दरें प्रति मास एक से लेकर ¾ प्रतिशत तक होती थीं।[53] ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि शूद्र के रूप में उन्हें ब्याज की उत्तम दरें चुकानी पड़ती थीं । सनातन परंपरा के एक आधुनिक समर्थक ने ब्याज के इस वर्गीकरण को इस आधार पर उचित बताने का प्रयास किया है कि यह उधार लेने वालों की सामाजिक सेवाओं के अनुपात को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया है,[54] जिसका अर्थ है कि शूद्रों द्वारा की जाने वाली सेवाएं नगण्य सी थीं । किंतु वास्तविकता यह है कि अपने उत्पादन कार्य द्वारा वे, वैश्यों के साथ, पूरे सामाजिक ढांचे को कायम रखे हुए थे । हो सकता है कि मनु का ब्याज संबंधी विधान अमल में नहीं लाया गया हो, किंतु ब्याज वसूलने में प्रायः ब्राह्मणों के प्रति कुछ नरमी बरती जाती थी और शूद्रों को अपना ऋण चुकाकर ही मुक्त होना पड़ता था ।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

मनु का विचार है कि शूद्र को संपत्ति जमा नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि इससे वह ब्राह्मणों को सताने लगेगा।[55] कहा गया है कि इस तरह की निषेधाज्ञा खुद शूद्रों को संबोधित अतिरंजित मंतव्य (अर्थवाद) है,[56] किंतु ऐसे विचार के लिए मूल ग्रंथ में कोई आधार नहीं है। इस निषेधाज्ञा की तुलना अंग्रेजी प्रार्थना-ग्रंथ के उस प्रबोधन वाक्य से भी की जाती है, जिसमें गरीब को कहा गया है कि 'उसके पास जो कुछ भी हो, उसी से वह संतुष्ट रहे।'[57] चूंकि प्रसंगाधीन परिच्छेद आपतकाल संबंधी अध्याय में आया है, अतः यह बौद्ध भिक्षुओं या विदेशी शासकों के संबंध में कहा गया होगा, जिन्हें शूद्र ही माना जाता था। जो भी हो, दाय विधि से यह स्पष्ट है कि शूद्रों की संपत्ति होती थी।[58] यह निष्कर्ष मनु द्वारा दुहराए गए उस पुराने नियम से भी निकाला जा सकता है, जिसके अनुसार वैश्यों और शूद्रों को धन के अनुदान द्वारा अपनी विपत्ति का निराकरण करना चाहिए।[59]

मनु के अनुसार रुपए जिस व्यक्ति के पास जमा किए जाएं, उसकी एक योग्यता यह होनी चाहिए कि वह आर्य हो।[60] शूद्र स्पष्ट ही उस योग्यता से वंचित है। किंतु ई० सन की दूसरी शताब्दी में सातवाहन के राज्य में रुपए कुंभकारों, तेल मिल के मालिकों[61] और बुनकरों[62] के पास भी जमा किए जाते थे। यह प्रथा बौद्ध उपासकों में प्रचलित थी, जो भिक्षुओं को परिधान देने और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रुपए जमा करते थे। ब्राह्मण धर्मावलंबी भी इन प्रथाओं का अनुसरण करते थे, क्योंकि ऐसा अभिलेख मिला है जिससे पता चलता है कि हुविष्क के राज्यकाल (लगभग 106-138 ई०) में एक प्रमुख ने मथुरा के आटा व्यापारी संघ के पास एक नियत धनराशि जमा की थी, जिसके ब्याज से प्रतिदिन 100 ब्राह्मणों को खिलाया जाता था।[63] इन प्रथाओं से भी सिद्ध होता है कि शिल्पकार संघ बनाकर स्वतंत्र रूप से काम करते थे। स्पष्ट है कि वे जमा की हुई इस धनराशि से अपने लिए कच्चा माल और उपकरण (औजार) खरीद सकते थे और उत्पादित सामग्री को बेचने से हुई आय से उक्त राशि का ब्याज चुका सकते थे।

मनु ने विहित किया है कि ब्राह्मण अपने शूद्र दास के सामान को निर्भयतापूर्वक जब्त कर ले सकता है, क्योंकि उसे संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है।[64] जायसवाल का विचार है कि इसके द्वारा संभवतया बौद्ध संघ की संपत्ति जब्त करने की क्रिया को कानूनी मान्यता दी गई है, क्योंकि संघ के पास अपार संपत्ति इकट्ठी हो गई थी।[65] किंतु यह नियम संभवतया उन शूद्रों पर ही लागू होता है जो दास के रूप में काम करते थे। मनु का मत है कि क्षत्रिय भूखा क्यों न रह जाए, वह किसी पुण्यात्मा ब्राह्मण की संपत्ति हरण नहीं कर सकता, लेकिन वह किसी दस्यु या अपने पवित्र कर्तव्य से च्युत होने वाले लोगों की संपत्ति हड़प

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

सकता है।[66] इससे पता चलता है कि जो क्षत्रिय और वैश्य अपने अनिवार्य धार्मिक कृत्यों की अवहेलना करते थे, उनकी संपत्ति हरण कर ली जा सकती थी। ऐसी स्थिति में शूद्रों को सुरक्षित नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि मनु ने नियम बनाया है कि चूंकि शूद्र को यज्ञ से कोई सरोकार नहीं है, इसलिए यज्ञ करने वाले द्विज यज्ञ के लिए अपेक्षित दो या तीन सामग्री उससे ले सकते हैं।[67] इन सभी नियमों से मालूम पड़ता है कि मनु ने शूद्रों को आर्थिक दृष्टि से हीन बनाकर रखने का प्रयास किया है।

मौर्योत्तर काल में कामगारों को दी जाने वाली मजूरी और निम्न वर्ग के लोगों के जीवननिर्वाह की सामान्य स्थिति का कुछ आभास मिलता है। एक बात में मनु ने कौटिल्य के सिद्धांत का अनुसरण किया है और बताया है कि मजूरी पर रखा गया चरवाहा मालिक की सहमति से दस गायों में से सबसे अच्छी एक गाय को दूह ले सकता था।[68] इस मामले में मनु भाड़े के मजदूर के प्रति कौटिल्य की अपेक्षा अधिक उदार मालूम पड़ते हैं,[69] क्योंकि उन्होंने मजदूर को सबसे अच्छी गाय का दूध ले जाने की अनुमति दी है। मनु ने चरवाहे के जिम्मे रखी गई गायों के प्रति उसकी जिम्मेवारी पर भी जोर दिया है, और भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उसके विभिन्न कर्तव्यों का उल्लेख भी किया है।[70] किंतु उन्होंने यह नहीं कहा है कि यदि कोई मवेशी खो जाए तो उसके चरवाहे को कोड़े से पीटा जाए, जैसा कि आपस्तंब में बताया गया है, अथवा उसे मृत्यु की सजा दी जाए, जैसा कि कौटिल्य ने कहा है। मनु ने एक नया प्रावधान बनाया है जिसके अनुसार गांवों के चारों ओर लगभग चार सौ हाथ चौड़ा क्षेत्र और नगरों के चारों ओर इसका तिगुना क्षेत्र चरागाह के लिए रखा जाए। यदि इस क्षेत्र के अंतर्गत किसी के बाड़ा रहित प्लाटों में कोई मवेशी भटक कर चला जाए और उसकी फसल को नुकसान पहुंचाए तो उसके लिए चरवाहे को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता।[71] इस तरह इस स्मृतिकार ने चरवाहों के हितों को कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान की है।

यह बताते हुए कि शूद्रों का काम ब्राह्मणों की सेवा करना है, उन्होंने विहित किया है कि शूद्रों का निर्वाह व्यय तय करने में उनकी योग्यता, काम और आश्रितों की संख्या का ख्याल किया जाना चाहिए।[72] उन्होंने गौतम के उस अनुदेश को दुहराया है कि इन सेवकों को जूठन और पुराने कपड़े तथा बिस्तर दिए जाने चाहिए। किंतु उन्होंने यह भी बताया है कि इन्हें अनाज के कण भी दिए जाएं।[73] ये नियम स्पष्टतया उन शूद्रों के पारिश्रमिक का निर्देश देते हैं जो घरेलू नौकर का काम करते थे। मनु ने कहा है कि राजा की सेवा में नियोजित दासियों और दासों की मजूरी समय और स्थान को ध्यान में रखकर तय की जानी चाहिए।[74] उन उत्कृष्ट और अपकृष्ट कार्यकर्ताओं को एक पण से लेकर छः पण तक दैनिक मजूरी मिलनी चाहिए।[75] इसके अतिरिक्त उनके लिए भोजन

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

और वस्त्र आदि का भी प्रबंध किया जाना चाहिए जो उनके ओहदे के अनुसार भिन्न भिन्न किस्म के हो सकते हैं।[76] यह स्पष्ट नहीं है कि उत्कृष्ट और अपकृष्ट शब्द उच्च और नीच वर्णों के द्योतक हैं, जैसा कि एक अन्य प्रसंग में अर्थ लगाया गया है।[77] किंतु पतंजलि से हमें विदित होता है कि एक ओर कर्मकरों और भृतकों की मजूरी और दूसरी ओर पुरोहितों तथा अन्य लोगों की मजूरी में बहुत बड़ा अंतर था। इस प्रकार जहां पुरोहितों को मजूरी के रूप में गायें दी जाती थीं, वहां कर्मकरों और भृतकों को प्रतिदिन 1/4 निष्क,[78] अर्थात महीने में $7\frac{1}{2}$ निष्क मिलते थे। कहा गया है कि निष्क और कार्षापण का मूल्य बराबर होता था।[79] किंतु यदि इस कथन को स्वीकार किया जाए तो किसी कामगार की दैनिक मजूरी 1/4 पण होगी, जबकि मनु के लगभग समकालीन प्रमाण बताते हैं कि श्रमिक की न्यूनतम मजूरी एक पण और अधिकतम मजूरी छः पण होती थी। अर्थशास्त्र में कामगार की दैनिक मजूरी 3/5 पण से लेकर $2\frac{2}{5}$ पण तक बताई गई है, जो एक और चार के अनुपात में है,[80] किंतु इन स्रोतों के आधार पर पण की आपेक्षिक क्रयशक्ति का आकलन संभव नहीं है।

श्रमिकों की कार्यस्थिति को विनियमित करने के बारे में मनु ने जो उपबंध किए हैं, वे कौटिल्य के उपबंध जितने व्यापक नहीं हैं। किंतु कौटिल्य की ही तरह उन्होंने लापरवाह मजदूर के प्रति कड़ा रुख अपनाया है। भाड़े का मजदूर जो, बीमार नहीं रहने पर, अहंकारवश, अपना कार्य संपादन समझौते के अनुसार नहीं करेगा, उस पर आठ कृष्णल का जुर्माना लगाया जाएगा और उसे कोई मजूरी नहीं दी जाएगी।[81] किंतु जो मजदूर अस्वस्थता के कारण अपना काम नहीं कर सकेगा और स्वस्थ होने पर उसे पूरा कर लेगा, वह अपनी अनुपस्थिति की लंबी अवधि के लिए मजूरी पा सकेगा।[82] दूसरी ओर, यदि स्वस्थ होने पर वह अपना काम पूरा नहीं करेगा तो उसको उस अवधि के लिए भी मजूरी नहीं चुकाई जाएगी जिसमें उसने काम किया हो।[83] इससे पता चलता है कि यदि अस्वस्थता के कारण मजदूरों को काम छोड़ना पड़ता था तो उन्हें कोई दंड नहीं दिया जाता था। लेकिन शर्त यह थी कि वे वादा करें कि चंगा होने पर काम पूरा कर देंगे, अथवा दूसरों से पूरा करवा देंगे। नियोजकों से मजदूर के हितों की रक्षा के लिए मनु ने और कोई अन्य नियम नहीं बनाए हैं, जैसे अर्थशास्त्र में मिलते हैं। उनके द्वारा प्रयुक्त एक उपमा से पता चलता है कि सेवक को अपनी मजूरी पाने के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी।[84]

मालूम पड़ता है कि नगरों में मजूरों के लिए अलग मुहल्ले होते थे। एक बौद्ध ग्रंथ में भृतकवीथी (संभवतया राजगृह में) की चर्चा आई है, जहां ब्राह्मण और गृहस्थ (संभवतया वैश्य) भाड़े के मजदूर ठीक करने जाते थे।[85] एक अन्य स्रोत में दरिद्रवीथी और नगर के सुसंपन्न व्यक्तियों के विलासपूर्ण भवनों के बीच तुलना

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

की गई है।[86] संभवतया यह दरिद्रवीथी और भृतकवीथी एक जैसी थी, जिनमें मजूरी पर निर्वाह करने वाले गरीब रहते थे। हमें तीन ऐसे भृतकों की जानकारी मिलती है जो धनी व्यक्तियों के घर के आसपास की गंदगी साफ करते थे और उसी घर के निकट फूस की झोपड़ी में रहते थे।[87] पतंजलि ने बार बार बताया है कि वृषल अर्थात शूद्र का घर केवल एक दीवाल का होता था (कुड्य)।[88] इससे मालूम होता है कि उसके घर में मिट्टी या ईंट की प्रायः एक ही दीवाल होती थी और शेष तीन भागों में फूस के टाट लगे रहते थे। यह भी संभव है कि यहां 'कुड्य'[89] शब्द झोंपड़ी का द्योतक हो।

भृतक अपने जीर्ण शरीर, अस्त व्यस्त बाल और मैले कुचैले कपड़े से पहचाना जाता था,[90] क्योंकि शुभ्र वस्त्र धारण करने वाले को दिन भर प्रतीक्षा करने के बाद भी भृतकवीथी में रोजी नहीं मिल सकती थी।[91] मनु ने घरेलू नौकरों के रूप में नियोजित शूद्रों के भोजन और पोशाक का कुछ वर्णन किया है। इस संबंध में उन्होंने केवल गौतम के पुराने उपबंधों को दुहराया है और उनका विश्लेषण किया है। इसके अनुसार मालिक को चाहिए कि अपने शूद्र नौकर को उसकी योग्यता, परिश्रम और परिवार के आकार की दृष्टि से समुचित निर्वाह व्यय दे।[92] उसे जूठन, खुद्दी, जीर्ण शीर्ण वस्त्र और पुराने विस्तर दिए जाने चाहिए।[93] मिलिंद पञ्हो में यह वर्णन आया है कि क्षत्रिय, ब्राह्मण और गहपतियों की कोमलांगी पत्नियां स्वादिष्ट रोटियां और मांस खाती हैं, लेकिन इस प्रसंग में शूद्रों की पत्नियों का कोई जिक्र नहीं हुआ है।[94]

मौर्योत्तर काल में शूद्रों और वैश्यों के बीच आर्थिक भेदभाव मिटते जा रहे थे, पर शूद्र मुख्यतया अलग-अलग भूस्वामियों के खेतों में कृषि मजदूर का काम कर रहे थे। पूर्व काल की अपेक्षा शिल्पी अधिक स्वच्छंद होकर अपना काम करते थे। इन शिल्पियों की न केवल संख्या बढ़ी थी और उनमें विविधता आई थी बल्कि उनके उज्ज्वल भविष्य के लक्षण भी दिखाई पड़ने लगे थे। मनु के विधान, जिनके द्वारा शूद्रों पर नई आर्थिक अशक्तताएं आरोपित की गई थीं, प्रायः प्रभावहीन हो गए थे। किंतु शूद्र समुदाय के रहन सहन की स्थिति में किसी प्रकार के परिवर्तन का आभास नहीं मिलता है।

मनु ने मौर्योत्तर कालीन राज्य व्यवस्था में शूद्रों की स्थिति के बारे में विशद सूचना दी है। उन्होंने विहित किया है कि स्नातक को शूद्र शासक के देश में नहीं रहना चाहिए।[95] इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि उस काल में शूद्र शासक होते थे। किंतु ये शासक चतुर्थ वर्ण के नहीं मालूम होते हैं, क्योंकि उस काल के राजनीतिक इतिहास में इनकी कोई चर्चा नहीं है। ये प्रायः ग्रीक, शक, पर्थियन और कुषाण शासकों का निर्देश देते हैं जो बौद्ध धर्म और वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और जिन्हें मनु ने ऐसा पतित क्षत्रिय बताया है जो ब्राह्मणों से परामर्श न लेने और

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

बताए गए वैदिक कृत्यों के संपादन में चूक के कारण शूद्रत्व की स्थिति में पहुंच गए थे।[96] पुराण में कलियुग के जो वर्णन आए हैं, उनमें बताया गया है कि शूद्र राजा अश्वमेध यज्ञ[97] करते थे और ब्राह्मण पुरोहितों से यजन कराते थे।[98] कलि शासकों का हवाला देते हुए विष्णुपुराण में कहा गया है कि विभिन्न देशों के लोग इन शासकों में मिल जाते थे और उनका अनुसरण करने लगते थे।[99] संभव है कि यह बात विदेशी मूल के शासकों के बारे में कही गई हो। वे अपधर्मी संप्रदायों के अनुयायी थे,[100] जिसके चलते उनके प्रति मनु की वैरभावना और भी तीव्र रही होगी। ब्राह्मणों और इन शासकों में संपर्क नहीं बढ़ने पाए, इसके लिए मनु ने इन शासकों के राज्यों में स्नातकों का बसना निषिद्ध माना है। उन्होंने यह भी विहित किया है कि ब्राह्मणों को क्षत्रिय जाति के अलावा किसी भी राजा का उपहार नहीं ग्रहण करना चाहिए।[101] स्पष्ट है कि ये सारे नियम इस उद्देश्य से बनाए गए थे कि ब्राह्मण विदेशी शासकों को मान्यता न दें। किंतु धीरे धीरे यह उत्कट वैरभावना घटने लगी और उनके प्रति सहिष्णुता बढ़ने लगी। अंततः विदेशी शासकों को हीन कोटि के ही सही लेकिन क्षत्रियों की मान्यता दी गई।

इस काल के कुछ ऐसे बौद्ध भी मिलते हैं जो नीच जाति के शासकों को अच्छा नहीं मानते। मिलिंद पन्हो बताता है कि जिस व्यक्ति का जन्म नीच जाति में हुआ हो और जिसकी वंशपरंपरा हीन हो, वह राजा बनने योग्य नहीं है।[102]

मनु ने विहित किया है कि राजा को ऐसे सात या आठ मंत्री नियुक्त करने चाहिए, जिनके पूर्वज राजा के निष्ठावान अधिकारी रहे हों, जो अस्त्र शस्त्र के संचालन में निपुण हों, जो संभ्रांत परिवार के हों और अनुभवी हों।[103] स्पष्ट है कि शूद्र शायद ही इतनी योग्यता वाला होगा।

मनु ने चेतावनी दी है कि जिस राज्य में शूद्र विधि (कानून) का व्यवस्थापन करे और राजा देखता रहे, उस राज्य की स्थिति वैसे ही गिरती जाती है, जैसे दलदल में फंसी गाय नीचे की ओर धंसती जाती है।[104] ऐसे नियम प्रायः उन बर्बर शासकों के राज्यों का निर्देश करते हैं जिन्होंने न्याय प्रशासन या अन्य प्रशासनिक कृत्यों के संपादन के लिए कुछ शूद्रों को नियुक्त किया होगा। किंतु मनु जोर देकर कहते हैं कि ऐसा ब्राह्मण भी जो मुख्यतया अपनी जाति के नाम पर (अर्थात अपने को केवल ब्राह्मण बताकर) ही जीवनयापन करता है, विधि का निर्वचन कर सकता है, पर शूद्र किसी भी दशा में न्यायाधीश (धर्मप्रवक्ता) नियुक्त नहीं किया जा सकता।[105] टीकाकारों का मत है कि आवश्यक होने पर क्षत्रियों की नियुक्ति न्यायाधीश के रूप में की जा सकती है,[106] लेकिन टीका में वैश्यों का उल्लेख नहीं हुआ है। यह मनु के विचार के अनुकूल जान पड़ता है, जिसके अनुसार क्षत्रिय ब्राह्मण के बिना और ब्राह्मण क्षत्रिय के बिना उन्नति नहीं कर सकते। किंतु मिल-जुलकर रहने पर वे इस लोक और परलोक में भी सुखी रह सकते हैं।[107]

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

प्राय: ब्राह्मणप्रधान राज्यों में सभी प्रशासकीय और न्याय संबंधी पदों पर प्रथम दो वर्णों का एकाधिकार था।

मनु ने उस पुराने सिद्धांत को दुहराया है जिसके अनुसार चारों वर्ण के सदस्य और अछूत अपने अपने समुदायों के मुकदमों में गवाह बन सकते हैं।[108] किंतु उन्होंने बताया है कि क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो गृहस्थ और पुत्रवान हैं और देश के रहने वाले हैं, वादी द्वारा बुलाए जाने पर गवाही दे सकते हैं।[109] कुल्लूक की राय में यह बात दीवानी, अर्थात ऋण आदि से संबंधित मुकदमों में लागू होती है।[110] मनु का यह नियम पहले के नियमों की अपेक्षा अवश्य ही सुधरा हुआ है, जिसके अनुसार उच्च वर्णों के सदस्यों के मामले में शूद्रों को गवाह के रूप में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी गई है। जहां तक मानहानि, हमला, जारकर्म और चोरी के मामले का प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति को गवाही देने के लिए बुलाया जा सकता है, भले ही उसमें दीवानी मुकदमे के लिए अपेक्षित योग्यता हो या नहीं।[111] यदि योग्य गवाह उपलब्ध न हो तो मनु ने चाकरों और सेवकों को भी गवाह बनने की अनुमति दी है।[112] मनु ने गांवों के बीच होने वाले सीमा विवादों के मामलों के लिए वर्ण विभेद नहीं किया है; गवाहों की जांच ग्रामीण समूह के समक्ष होती थी।[113] जिन लोगों को मनु ने गवाहों के रूप में (खासकर दीवानी मामलों में) उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी है, वे हैं शिल्पकार, कलाकार और नर्तक।[114] कुल्लूक ने ऐसे निषेध को इस आधार पर उचित बताया है कि ये लोग बराबर अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं और घूस देकर इन्हें अपने पक्ष में किया जा सकता है।[115] मनु के अनुसार जन्मजात गुलामों को भी गवाही देने की अनुमति नहीं है।[116]

मनु ने अभिसाक्ष्य देने के पहले विभिन्न वर्णों के लोगों को चेतावनी देने के पुराने नियम को दुहराया है।[117] यदि कोई शूद्र गलत साक्ष्य दे तो वह भारी पाप का भागी होगा,[118] और उसे भयानक दैवी यातनाएं भोगनी होंगी।[119] किंतु उन्होंने बताया है कि न्यायाधीश को चाहिए कि ब्राह्मण को सत्यनिष्ठा की, क्षत्रिय को रथ की या जिस पशु की सवारी वह करता हो उसकी, और वैश्य को अपनी गाय, अन्न और स्वर्ण की शपथ दिलाए, और शूद्र को इस आशय की कि सभी रिष्टिकर पापों का अपराध उसके माथे चढ़ेगा।[120] किंतु यह बड़ा अर्थपूर्ण है कि मनु ने शूद्र गवाह के लिए कोई विशेष राजदंड विहित नहीं किया है। उन्होंने यह सामान्य सिद्धांत निरूपित किया है कि झूठी गवाही देने पर राजा तीन नीच वर्णों के लोगों को जुर्माना और निर्वासन का दंड दे सकता है, लेकिन ब्राह्मण को केवल निर्वासित ही करेगा।[121] इसी प्रकार, ब्राह्मण शारीरिक दंड के भी भागी नहीं हैं। यह दंड केवल तीन नीच वर्णों के लोगों को ही दिया जा सकता है।[122] इसलिए इन दृष्टियों से शूद्र को क्षत्रिय और वैश्य के साथ समान स्तर पर रखा गया है।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

यह विहित किया गया है कि राजा को वादियों के मुकदमों को उनके वर्णक्रम से ग्रहण करना चाहिए।[123] विधि का व्यवस्थापन करने में उसे हर जाति के रीति रिवाजों का ध्यान रखना चाहिए।[124] मनु भद्र लोगों के आचरण को विधि का स्रोत मानते हैं,[125] और जैसा कि ई० सन की 17वीं शताब्दी के एक टीकाकार ने बताया है; भद्र शूद्रों की प्रथा भी इसका स्रोत है।[126]

पुराने विधिनिर्माताओं की तरह मनु न्याय के प्रशासन में वर्णविभेद की भावनाओं से प्रेरित हैं, जिसका शूद्रों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यदि कोई क्षत्रिय किसी ब्राह्मण की मानहानि करे तो उसे सौ पण और इसी अपराध के लिए वैश्य को एक सौ पचास या दो सौ पण का जुर्माना किया जाएगा, किंतु शूद्र को शारीरिक दंड दिया जाएगा।[127] यदि कोई ब्राह्मण किसी क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र की मानहानि करे तो उसे क्रमशः 50, 25 या 12 पण का जुर्माना किया जाएगा।[128] यह ध्यान देने की बात है कि यदि कोई ब्राह्मण किसी शूद्र को अपशब्द कहे तो उसके लिए 12 पण का जुर्माना विहित किया गया है, क्योंकि गौतम धर्मसूत्र में ऐसी स्थिति के लिए किसी भी जुर्माने का उपबंध नहीं किया गया है।[129]

साधारणतया मनु ने उच्च वर्णों के लोगों के प्रति अपराध करने वाले शूद्रों के लिए बहुत कठोर दंड विहित किए हैं। यदि कोई शूद्र किसी द्विज को गाली देकर अपमानित करे तो उसकी जीभ काट ली जाएगी।[130] द्विज (द्विजाति) शब्द केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि किसी शूद्र द्वारा किसी वैश्य को दुर्वचन कहे जाने पर यह दंड देना स्पष्टतया निषिद्ध है।[131] मनु ने यह भी विहित किया है कि यदि कोई शूद्र द्विज के नाम और जातियों की चर्चा तिरस्कारपूर्वक करे तो दस अंगुल लंबी गर्म लाल लोहे की कांटी उसके मुंह में ठूंस दी जाएगी।[132] यदि वह उद्दंडता के साथ ब्राह्मणों को उनका कर्तव्य सिखाए तो राजा उसके मुंह और कान में गर्म तेल डलवा देगा।[133] जायसवाल की राय है कि ये नियम धर्मप्रचार करने वाले विद्वान शूद्रों, अर्थात बौद्ध या जैन शूद्रों और उस तरह के अन्य शूद्रों के लिए बनाए गए हैं जो उच्च वर्णों के साथ समानता का दावा करते हैं।[134] स्पष्ट है कि ये नियम मनु के उन राजनीतिक विरोधियों के प्रति उद्दिष्ट हैं जो सुस्थापित व्यवस्था का निरादर करते हैं।[135] यह कहना कठिन है कि इस कानून का प्रवर्तन कहां तक हुआ। संभवतया वे कट्टरपंथी के प्रलाप थे और उन पर शायद ही अमल किया गया होगा।[136]

प्रहार और इसी प्रकार के अन्य अपराधों के मामले में शूद्रों के लिए विहित दंड बहुत कठोर थे। ऐसा उपबंध किया गया है कि अंत्यज (नीच जाति) जिस अंग से उच्च जाति (श्रेष्ठः) को कष्ट पहुंचाए वह अंग काट लिया जाएगा।[137] यहां कुल्लूक ने अंत्यज का अर्थ शूद्र किया है,[138] जो पूर्वकाल के ऐसे ही नियम से

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

मिलता है।[139] 'श्रेष्ठ' शब्द से ब्राह्मणों का बोध होता है, न कि तीन उच्च वर्ण के लोगों का जैसा कि कहीं कहीं समझा गया है।[140] एक श्लोक में मनु ने बताया है कि जो कोई अपना हाथ या छड़ी उठाएगा उसका हाथ काट लिया जाएगा; जो क्रोध में आकर पैर से मारेगा उसका पैर काट लिया जाएगा।[141] संभवतया यह भी ब्राह्मणों के प्रति शूद्रों द्वारा किए जाने वाले अपराध का संकेत करता है। आगे यह भी विहित किया गया है कि यदि 'अपकृष्टजः' (नीच कुल में जन्मा कोई व्यक्ति) उसी स्थान पर बैठने का प्रयास करे जिस पर उच्च जाति का कोई व्यक्ति (उत्कृष्टः) बैठा हो तो उसका चूतड़ दाग कर उसे निर्वासित कर दिया जाएगा अथवा राजा उसके चूतड़ में घाव करवा देगा।[142] 'अपकृष्टजः' शब्द शूद्र के लिए और 'उत्कृष्ट' ब्राह्मण के लिए प्रयुक्त हुए हैं।[143] इसी प्रकार यदि अहंकारवश कोई शूद्र किसी ब्राह्मण पर थूके तो राजा उसके दोनों होंठ कटवा देगा; यदि वह उस पर पेशाब कर दे तो उसका लिंग और यदि उसके सामने गंदी हवा छोड़े तो उसकी गुदा कटवा देगा।[144] यदि शूद्र ब्राह्मण का बाल पकड़कर खींचे तो राजा बेहिचक उसके हाथ कटवा देगा। उसे ऐसी ही सजा ब्राह्मण के पैर, दाढ़ी, गर्दन और अंडकोश पकड़कर घसीटने के लिए दी जाएगी।[145] मनु ने ब्राह्मणों को जानबूझ कर कष्ट पहुंचाने वाले नीच शूद्र के लिए एक सामान्य दंड का विधान किया है, जिसके अनुसार राजा आतंक फैलाने के लिए कई प्रकार के शारीरिक दंड दे सकता है।[146] ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाने का अर्थ उसे शारीरिक दुःख देना या संपत्ति चुरा लेना किया गया है।[147]

ऊपर बताए गए अधिकांश नियम ब्राह्मणों के प्रति अपराध करने वाले शूद्रों के लिए बनाए गए हैं। विधिग्रंथ में इन नियमों के मात्र लिखे रहने से भी यह पता चलता है कि उच्चतर और निम्नतर वर्णों के बीच संबंध बहुत तनावपूर्ण था। यह सुनिश्चित करने का शायद ही कोई प्रमाण मिलता है कि ये नियम अमल में लाए जाते थे। किंतु महावस्तु से जानकारी मिलती है कि भाड़े के मजदूरों से काम कराने के लिए उन्हें कठिन से कठिन शारीरिक यातनाएं दी जाती थीं। इस ग्रंथ से मालूम पड़ता है कि कुछ लोग इन मजदूरों को बेड़ियों और जंजीरों में जकड़वा देते थे और आदेश देकर कितनों के हाथ-पांव छेदवा देते थे तथा उनकी नाक, मांस, नसों, बांहों और पीठ को पांच या दस बार चिरवा देते थे।[148] सद्धर्मपुंडरीक में कहा गया है कि एक संभ्रांत परिवार का नवयुवक काठ की बेड़ियों में जकड़ दिया गया था।[149] अतएव यह बहुत आश्चर्य की बात नहीं कि शूद्र अपराधियों को शारीरिक दंड दिए जाते थे। किंतु यह संदिग्ध बना हुआ है कि मनु के दंड-विधान उन पर अक्षरशः लागू किए जाते थे।

एक ही कोटि की जातियों के लोगों के आपस में लड़ जाने पर कठोर दंड विहित नहीं हैं। कहा गया है कि जो अपनी समकक्ष जाति का चमड़ा उधेड़े या

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उसका खून बहाए, उसे सौ पण जुर्माना किया जाएगा; जो मांसपेशी काटे उसे छः निष्क और जो हड्डी तोड़ दे उसे निर्वासित किए जाने की सजा दी जाएगी।[150] राघवानंद की राय है कि यह नियम शूद्र द्वारा शूद्र पर प्रहार करने का संकेत है।[151]

मनु ने हत्या के पाप का प्रायश्चित चांद्रायण व्रत द्वारा विहित किया है जिसकी अवधि मारे गए व्यक्ति के वर्ण के अनुसार घटती बढ़ती है। ब्राह्मण की हत्या करने पर तीन वर्ष का व्रत विहित किया गया है और शूद्र की हत्या के लिए $2\frac{1}{4}$ महीने का।[152] शूद्र की हत्या करने पर मनु के अनुसार दस गाय और एक सांड़ का वैरदेय चुकाना पड़ता है,[153] जैसा कि पुराने विधिग्रंथों में भी पाया जाता है। मनु ने यह भी बताया है कि इस जुर्माने का भुगतान ब्राह्मण को किया जाएगा।[154] इसी प्रकार पूर्वकाल के विधिनिर्माताओं की भांति उन्होंने शूद्र का वध करने के लिए वही व्रत विहित किया है जो छोटे छोटे पशु एवं पक्षियों को मारने के लिए विहित है।[155] ये उपबंध निस्संदेह बताते हैं कि मनु शूद्र के जीवन को बहुत तुच्छ समझते थे। किंतु विस्मय की बात यह है कि हत्या के संबंध में मनु के एक नियम में वर्णविभेद की कोई चर्चा नहीं दिखाई पड़ती है। यदि सत्य बोलने से किसी क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के वध की संभावना हो तो मिथ्या वचन बोला जा सकता है और उस पाप के लिए सरस्वती को चरु चढ़ाकर प्रायश्चित किया जा सकता है।[156] मनु ने यह भी स्पष्ट किया है कि नारी, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय का वध करना मामूली अपराध है, जिसके लिए अपराधी को जातिच्युत कर दिया जाता है।[157] किंतु इस नियम का एकमात्र उद्देश्य ब्राह्मण के जीवन की महत्ता पर जोर देना है।

मनु का विचार है कि वर्ण जितना ही ऊंचा हो, चोरी का अपराध उतना ही भारी होगा। शूद्र का यह अपराध लघुतम अपराध माना गया है,[158] क्योंकि यह समझा जाता है कि चोरी का अभ्यास उसके लिए सामान्य बात है।

दायविधि में मनु ने ब्राह्मण के शूद्र पुत्र को संपत्ति का दसवां भाग देने के पुराने नियम का समर्थन किया है, अगर उसे उच्च जातियों की पत्नियों से पुत्र नहीं भी हो।[159] यहां उस पुराने विचार को भी दुहराया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य का शूद्रपुत्र कोई भी हिस्सा पाने का हकदार नहीं है। उसका पिता उसे जो दे दे वही उसका हिस्सा बन जाता है।[160] शूद्र को नातेदार तो माना जा सकता है, किंतु उत्तराधिकारी नहीं।[161] जहां तक शूद्रों में हिस्से देने का प्रश्न है, उन्हें सौ पुत्र क्यों न हों, सब के हिस्से बराबर होंगे।[162] इस प्रकार केवल उच्च जाति के लोगों के शूद्र पुत्रों को हिस्सा मिलना निश्चित नहीं था। सामान्यतया शूद्र वर्ण के सदस्यों को संपत्ति का अधिकार प्राप्त था। एक अन्य विधान से भी यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, जिसके अनुसार राजा को

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

चाहिए कि जिस किसी वर्ण के सदस्यों की संपत्ति चोरों ने चुरा ली हो, उन्हें वह संपत्ति अवश्य वापस दिला दे।[163]

मनु के जारकर्म संबंधी नियमों में शूद्र महिला के प्रति उतना विभेद नहीं किया गया है जितना शूद्र पुरुष के प्रति। यदि कोई ब्राह्मण अपने से तीन छोटे वर्णों की किसी अरक्षित महिला का गमन करे तो उसे पांच सौ पण जुर्माना किया जाएगा किंतु किसी अंत्यज महिला के प्रति इसी तरह का अपराध किए जाने पर जुर्माना बढ़ा कर एक हजार पण कर दिया जाएगा।[164] यदि कोई क्षत्रिय या वैश्य किसी रक्षित शूद्र महिला के साथ संभोग करे तो उसके लिए भी जुर्माने की राशि उतनी ही होगी।[165] यदि कोई ब्राह्मण किसी वृषली के साथ रात बिताए तो वह भिक्षाटन पर निर्वाह करके और प्रतिदिन धर्मग्रंथों का पाठ करके तीन वर्ष में उस पाप को दूर कर सकेगा।[166] यद्यपि अधिकांश नियम ब्राह्मणों के नैतिक पतन को रोक कर उसकी पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हैं, फिर भी उनसे स्पष्ट है कि मनु शूद्र महिला के सतीत्व की भी रक्षा करना चाहते हैं। यह उनके सिद्धांत के अनुकूल है कि चारों वर्णों की महिलाओं की रक्षा की जानी चाहिए।[167]

किंतु मनु का यह नियम कि लोगों को दूसरे की स्त्री से बातचीत नहीं करनी चाहिए, शूद्रों के कुछ वर्गों यथा, अभिनेताओं और गायकों पर लागू नहीं होता, क्योंकि वे अपनी पत्नियों से प्रच्छन्न कर्म (वेश्या, कुटनी आदि का काम) कराकर निर्वाह करते हैं।[168] इतना ही नहीं, जो कोई इन स्त्रियों और किसी मालिक की अधीनस्थ दासी से बातचीत करे उसे मामूली जुर्माना चुकाना पड़ेगा।[169] इस कोटि में बौद्ध और जैन भिक्षुणियों को भी रखा गया है,[170] क्योंकि उन्हें प्राय: नीच जातियों से नियुक्त किया जाता था और भिक्खुओं की तरह उन्हें भी शूद्र मानकर हेय दृष्टि से देखा जाता था।[171] मनु ने जारकर्मी शूद्र पुरुष के लिए अत्यंत कठोर दंड विहित किया है। जो शूद्र द्विज जाति की किसी अरक्षित महिला का समागम करे, वह अपराध करने वाले अंग और अपनी सारी संपत्ति से च्युत कर दिया जाएगा और यदि ऐसा अपराध किसी रक्षित महिला के साथ किया जाएगा तो उसे अपना सर्वस्व और अपनी जान भी गंवा देनी पड़ेगी।[172] यहां द्विज (द्विजाति) शब्द प्राय: ब्राह्मण का संकेत देता है, क्योंकि नीचे के दो नियमों में ब्राह्मण महिला के साथ क्षत्रिय और वैश्य द्वारा किए गए अपराध के दंड का विधान किया गया है।[173] किंतु यदि ये दोनों किसी रक्षित ब्राह्मणी, जो किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण की पत्नी हो, के प्रति अपराध करें तो इन्हें भी शूद्र की तरह दंडित किया जाएगा अथवा सूखी घास की आग जलाकर उसमें जला दिया जाएगा।[174] स्मरणीय है कि ऐसे मामले में कौटिल्य ने केवल शूद्र अपराधी के लिए जलाकर मार डालने का दंड विहित किया है।[175] वसिष्ठ ने क्षत्रिय और वैश्य अपराधियों

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

के लिए भी इसी तरह के दंड का प्रावधान किया है।[176] मनु के एक परिच्छेद का यह अर्थ लगाया जाता है कि इस तरह के मामले में शूद्र को मृत्युदंड दिया जाएगा।[177] चूंकि जारकर्मी शूद्र के लिए मृत्युदंड का समर्थन सामान्यतया अन्य स्रोतों से भी होता है, अतः मनु का यह प्रावधान निष्प्रभावी नहीं रहा होगा।

दासता के संबंध में मनु के नियम शूद्र की नागरिक हैसियत पर पूर्ण प्रकाश डालते हैं। कौटिल्य का मत है कि आर्य मां या बाप का शूद्र पुत्र दास नहीं बनाया जा सकता है। किंतु यद्यपि मनु ने शूद्र पुत्रों को परिवार की संपत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार दिया है, फिर भी उन्होंने इस प्रथा का कोई हवाला नहीं दिया है। सर्वप्रथम उन्होंने ही यह सिद्धांत निरूपित किया कि दासता शूद्र के जीवन का शाश्वत रूप है। किंतु यह केवल ब्राह्मणों और शूद्रों के संबंध पर लागू होता है। मनु कहते हैं कि शूद्र खरीदा हुआ हो या नहीं, उसे दास बनना ही होगा, क्योंकि परमात्मा ने उसका सृजन ब्राह्मण की सेवा के लिए किया है।[178] बाद के श्लोक में उन्होंने बताया है कि शूद्र भोगाधिकार से मुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि भोगाधिकार उसमें अंतर्जात है।[179] शूद्र की तुलना में द्विज जातियों के सदस्य को दास नहीं बनाया जा सकता है। यदि कोई ब्राह्मण किसी द्विज जाति के लोगों को दास के रूप में कार्य करने के लिए बाध्य करे तो राजा उसे छः सौ पण जुर्माना करेगा।[180] इस संबंध में कौटिल्य ने जुर्माने की वर्गीकृत योजना बनाई है। सबसे अधिक जुर्माना 48 पण है, जो ब्राह्मण को दास बनाने के लिए किया जा सकता है।[181] मनु ने इन विभेदों का कोई निर्देश नहीं दिया है, पर तीन उच्च वर्णों के लोगों को दास बनाने के अपराध के लिए कहीं अधिक जुर्माने का उपबंध किया है।

मनु के विधिग्रंथ में भी सभी शूद्रों को दास नहीं माना गया है।[182] शूद्र और दास के बीच कानूनी भेदभाव को मनु ने स्पष्ट रूप से मान्यता दी है और दासी (शूद्र के दास की दासी) से उत्पन्न शूद्र के बेटे की चर्चा की है।[183] इस प्रकार यद्यपि दास की बहाली सामान्यतया शूद्र वर्ण से की जाती थी, फिर भी कभी कभी शूद्र भी दास रखते थे। किंतु शूद्र और उसके दास के बीच अंतर उतना व्यापक नहीं था जितना द्विज और उसके दास के बीच था। मनु का मत है कि यदि पिता की अनुमति मिले तो दासी से उत्पन्न शूद्र का पुत्र पैतृक संपत्ति में हिस्सा पा सकता है।[184] किंतु द्विज के ऐसे ही पुत्र के लिए उपबंध नहीं किया गया है। फलस्वरूप, मनु के उपर्युक्त नियम से जान पड़ता है कि दास को संपत्ति का अधिकार था। कुल्लूक ने मनु के एक परिच्छेद की जो टीका की है उसके अनुसार जब मालिक विदेश गया हो, तब उसके कारोबार संबंधी लेन देन में दास उसके परिवार का प्रतिनिधित्व कर सकता है, जिसे उसका मालिक रद्द नहीं कर सकता है।[185] किंतु एक अन्य स्थल पर मनु ने इसे अस्वीकार किया है और कहा है कि

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

वास्तविक स्वामी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा की गई बिक्री अमान्य घोषित कर दी जाती है।[186] पहले बताया गया है कि सक्षम गवाहों के नहीं प्रस्तुत होने पर दास और नौकर भी गवाही दे सकते हैं। इन बातों से पता चलता है कि दासों को भी कानून की दृष्टि से कुछ हैसियत प्राप्त थी। कुछ दृष्टि से घरेलू दासों को परिवार का सदस्य माना जाता था। मनु ने परिवार के प्रधान को आदेश दिया है कि वह अपने मां-बाप, बहन, पुत्रवधू, भाई, पत्नी, पुत्र, पुत्री और दास से वाद-विवाद नहीं करे।[187] उन्होंने इसका कारण बताया है कि पत्नी और पुत्र गृहपति के शरीर के अंग हैं,[188] पुत्री दया की पात्र है और दासों का वर्ग उसकी अपनी छाया है। इसलिए मनु का कहना है कि यदि ये लोग गृहपति का अनादर भी करें तो भी उसे शांतिपूर्वक उनके साथ रहना चाहिए।[189] क्या इसका यह अर्थ लिया जाए कि पुरानी पारिवारिक एकात्मकता अस्थायी रूप से शिथिल पड़ गई थी? यह अजीब बात लगती है कि यह विधिनिर्माता मालिक को कहे कि दासों द्वारा किया गया अनादर सहन कर ले।

किंतु दासों और भाड़े के मजदूरों को नागरिकों की भांति अधिकार प्राप्त नहीं थे। यह निष्कर्ष मालवा और क्षुद्रक गणराज्यों में उस समय की स्थितियों से निकाला जा सकता है। पाणिनि के एक परिच्छेद की टीका करते हुए पतंजलि ने बताया है कि क्षुद्रकों और मालवों के बेटे तो क्रमशः क्षौद्रक्य और मालव्य कहलाते हैं, पर उनके दासों और मजदूरों के बेटों पर यह बात लागू नहीं होती।[190]

शूद्रों की राजनीतिक-सह-विधिक स्थिति के बारे में मनु अधिकतर पुराने विधिनिर्माताओं की राह पर चलते हैं। उनके नए नियमों में से कुछ नियम विदेशी शासकों और बाह्य धर्म के अनुयायियों के विरुद्ध हैं, जिन्हें अपमान की भावना से शूद्र कहा गया है और कुछ नियम खास शूद्र के लिए ही हैं। जो नियम शूद्रों के लिए ही हैं, वे भी मुख्यतया ब्राह्मणों के प्रति अपराध करने वाले शूद्रों से ही संबंधित हैं, किंतु इस संबंध में भी शूद्रों के प्रति मनु की घोर भेदभाव की नीति का कोई उल्लेखनीय प्रभाव लक्षित नहीं होता। उन्होंने शूद्र की हत्या के लिए न केवल वैरदेय का पुराना नियम रख लिया है बल्कि शूद्र को गाली देने वाले ब्राह्मण के लिए 12 पण का जुर्माना भी विहित किया है। यह ऐसा प्रावधान है जिसे हम पूर्व के विधिग्रंथों में नहीं पा सकते। यह महत्वपूर्ण है कि इस काल के अंतिम भाग में सातवाहन शासक गौतमी पुत्र शातकर्णि (ई० सन 106-130) ने दावा किया है कि उन्होंने ब्राह्मणों और शूद्रों (अवरों) को समझा बुझा कर वर्ण-व्यवस्था की गड़बड़ी को दूर किया और पुनः चातुर्वर्ण्य व्यवस्था स्थापित की।[191] वर्णों का यह नया व्यवस्थापन ब्राह्मण शासकों ने क्षत्रियों के विरोध में किया था,[192] क्योंकि ये क्षत्रिय प्रायः बाहर के शासक वंश के थे।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

शूद्रों की सामाजिक स्थिति के बारे में मनु के नियम बहुत हद तक पुराने विधिनिर्माताओं के विचारों की पुनरुक्ति लगते हैं। किंतु उन्होंने शूद्रों के प्रति कुछ नए भेदभाव भी बनाए हैं। उन्होंने सृष्टि रचना की पुरानी कथा दुहराई है, जिसमें शूद्र का स्थान सबसे नीचे है।[193] मनु ने चारों वर्णों के प्रति किए जाने वाले अभिवादन (प्राय: जैसा ब्राह्मण करते थे) की रीति की निर्धारक विधियों को भी दुहराया है।[194] किंतु उन्होंने यह भी बताया है कि जो ब्राह्मण सही ढंग से अभिवादन का उत्तर नहीं दे उसे विद्वतजन कभी अभिवादन नहीं करें, क्योंकि वह शूद्र के समान है।[195] पतंजलि बताते हैं कि अभिवादन का उत्तर देने में शूद्रों के संबोधन का ढंग गैरशूद्रों से भिन्न था। शूद्रों को संबोधित करने का स्वर तेज नहीं होना चाहिए। 'भो' शब्द का प्रयोग राजन्य या वैश्य के संबोधन में किया जाता था, शूद्र के संबोधन में नहीं।[196] अत: व्याकरण के नियमों में भी वर्णविभेदों के आभास मिलते हैं। मनु का नियम है कि यदि कोई शूद्र सौ वर्ष का हो जाए तो उसका आदर किया जा सकता है।[197] किंतु यह नियम शूद्रों की बहुत सीमित संख्या पर ही लागू हुआ होगा।

मनु ने बच्चों के नामकरण संस्करण में भी वर्ण का विभेद किया है जिससे स्वभावतया शूद्रों की हीनता झलकती है। उनका मत है कि ब्राह्मण का नाम मंगलसूचक, क्षत्रिय का नाम बलसूचक, वैश्य का नाम धनसूचक और शूद्र का नाम निंदासूचक होना चाहिए।[198] इसी के अनुपूरक के तौर पर उन्होंने बताया है कि चारों वर्णों की उपाधि क्रमश: सुखवाचक (शर्मा), सुरक्षावाचक (वर्मा), समुन्नितवाचक (भूति) और सेवावाचक (दास) होनी चाहिए।[199] इसके प्रमाण नहीं मिलते कि यह परिपाटी व्यापक रूप से प्रचलित थी, किंतु नामों के संबंध में मनु के नियमों से जान पड़ता है कि नीच वर्ण के लोग ब्राह्मणकालीन समाज में सामान्यतया घृणा के पात्र थे। इस प्रकार शूद्र के लिए प्रयुक्त 'वृषल' शब्द अपमानजनक माना जाता था। पाणिनि के समास संबंधी नियम का उदाहरण देते हुए पतंजलि ने बताया है कि 'दासी के सदृश (दास्या: सदृश:)' और 'वृषली के सदृश (वृषल्या: सदृश:)' पद गाली हैं,[200] जिनका अर्थ यह हुआ कि शूद्र और दास समाज में गर्हित माने जाते थे। वृषल को चोर की कोटि में रखा गया था और दोनों के प्रति ब्राह्मणप्रधान समाज वैरभाव रखता था।[201] यह भी जानकारी मिलती है कि वृषल, दस्यु और चोर घृणा के पात्र समझे जाते थे।[202]

शूद्र की संगत ब्राह्मण को दूषित करने वाली समझी जाती थी। मनु ने बताया है कि जो ब्राह्मण भद्रजनों की संगत में रहता है और सभी नीच लोगों का परित्याग करता है, वह प्रतिष्ठित बन जाता है, किंतु इसके विपरीत आचरण करने पर वह भ्रष्ट होकर शूद्र की स्थिति में पहुंच जाता है।[203] उन्होंने इस प्रावधान को पुन: उद्धत किया है कि स्नातक को शूद्रों के साथ नहीं घूमना फिरना चाहिए।[204]

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

मनु ने प्राचीन नियम को पुनः उद्धृत किया है कि यदि वैश्य और शूद्र, किसी ब्राह्मण के घर अतिथि बनकर आएं तो उन्हें कृपापूर्वक नौकरों के साथ भोजन करने की अनुमति दी जानी चाहिए ।[205] मनु का नियम है कि स्नातक को शूद्र का अन्न नहीं खाना चाहिए ।[206] स्नातक को जिनका अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए उनकी लंबी सूची में लोहार, निषाद, अभिनेता, स्वर्णकार, टोकरीनिर्माता, शिकारी कुत्ते पालने वाला, शौण्डिकी (शराब चुलाने और बेचने वाले), धोबी और रंगरेज शामिल किए गए हैं ।[207] यह भी कहा गया है कि राजा का अन्न खाने से स्नातक का तेज क्षीण होता है, शूद्र का अन्न खाने से विद्या (ब्रह्मवर्चस्) का, स्वर्णकार का अन्न खाने से आयु का और चर्मावकर्त्तिन (चर्मकार) का अन्न खाने से यश का ह्रास होता है ।[208] यह बड़े अचरज की बात है कि शूद्र समुदाय के विभिन्न वर्गों के अन्न के साथ ही राजा का अन्न भी स्नातक के लिए अकल्याणकारी बताया गया है । मनु ने यह भी बताया है कि शिल्पियों का अन्न खाने से स्नातक संतानविहीन होता है, धोबी का अन्न खाने से उसका बल घटता है और गण तथा गणिका (वेश्या) का अन्न उसे परलोक से च्युत करता है ।[209] यदि वह अनजाने इन लोगों में से किसी का अन्न खाए तो उसे तीन दिन अवश्य उपवास करना चाहिए; किंतु यदि उसने जानबूझकर इनका अन्न ग्रहण किया हो तो उसे एक कठिन प्रायश्चित, जिसे 'कृछ्र' कहते हैं, करना चाहिए ।[210] मालूम पड़ता है कि इन सभी प्रसंगों में प्रायः स्नातक का अर्थ है, वेद पढ़ने वाला ब्राह्मण वर्ण का छात्र । यदि इन प्रतिबंधों को लागू किया जाए तो परिणाम होगा नीच जातियों और शिक्षित ब्राह्मणों के बीच सभी प्रकार के सामाजिक संपर्क को निषिद्ध करना । मनु ने विहित किया है कि पंडित ब्राह्मण को शूद्र का, जो श्राद्ध नहीं करते, सिद्धान्न कभी नहीं खाना चाहिए । किंतु यदि उसके निर्वाह के अन्य सभी साधन लोप हो जाएं तो वह शूद्र से उतना कच्चा अन्न ले सकता है जिससे एक रात गुजारी जा सके ।[211] असामान्य स्थिति में ये नियम मान्य नहीं हैं । मनु ने श्रेष्ठ मुनियों के कई दृष्टांत प्रस्तुत किए हैं, जिन्होंने आपतकाल में निषिद्ध अन्न ग्रहण किया ।[212] भूखे विश्वामित्र, जो अच्छे और बुरे में विभेद कर सकते थे, चंडाल से प्राप्त कुत्ते की रान खाने को तैयार थे ।[213] सामान्य स्थिति में साधारणतया शूद्र का अन्न स्वीकार्य था । मनु का नियम है कि कोई व्यक्ति उस शूद्र का अन्न खा सकता है, जो उसका बटाईदार हो, उसके परिवार का मित्र हो, उसका चरवाहा हो, उसका दास और उसका हजाम हो ।[214] पतंजलि से हमें सूचना मिलती है कि बढ़इयों, धोबियों और लोहारों ने जिस थाली में भोजन किया हो, उसे अच्छी तरह साफ करके उसका इस्तेमाल किया जा सकता है ।[215] इससे पता चलता है कि उच्च वर्णों और शूद्र समुदाय के इन वर्गों के बीच भोजन करने-कराने की प्रथा थी । शूद्र का जूठा खाना महापाप समझा जाता था । कहा गया है कि जिसने औरतों और शूद्रों का जूठा खा लिया

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

हो उसे सात दिन और सात रात तक जौ का घोल पीकर अशुचि का निवारण करना चाहिए।[216] प्राय: यह नियम ब्राह्मण के लिए है। इसी प्रकार जो ब्राह्मण शूद्र का जूठा हुआ पानी पी ले, उसे कुश डालकर तीन दिनों तक उबाला गया पानी पीकर अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहिए।[217] मनु के नियम शूद्रों के आहार पर कुछ प्रकाश डालते हैं। द्विज को चाहिए कि यदि वह सुखाया हुआ मांस, जमीन में उगा हुआ कुकुरमुत्ता और कोई ऐसा मांस खा ले जिसके बारे में वह नहीं जानता हो कि मांस किस जीव का है अथवा मांस किस कसाई खाने से लाया गया है, तो उसे चांद्रायण व्रत रखना चाहिए।[218] इसी प्रकार यदि कोई द्विज मांसभक्षी प्राणी, सूअर, ऊंट, मुर्गा, कौआ, मनुष्य और गदहे का मांस खा ले तो उसे अति कठिन व्रत, जो 'तप्तकृछ्र' कहलाता है, रखना चाहिए।[219] यदि इन प्रसंगों में द्विज को प्रथम तीन वर्णों का सदस्य माना जाए तो इसका अर्थ होगा कि शूद्र सभी प्रकार का मांस खाने के लिए स्वतंत्र थे। मनु के एक परिच्छेद की टीका में कुल्लूक ने बताया है कि लहसुन और अन्य निषिद्ध कंद खाकर शूद्र ऐसा अपराध नहीं करता कि उसे जातिच्युत कर दिया जाए।[220] इससे मालूम होता है कि लहसुन, प्याज और अनेक प्रकार के मांस नीच वर्ग के लोगों के वैध आहार माने जाते थे।

अनुमान है कि वैश्यों और शूद्रों के विवाह की रीति उच्च वर्णों से भिन्न थी। मनु ने विधिनिर्माताओं के मत उद्धृत किए हैं, जिनके अनुसार प्रथम चार प्रकार के विवाह, अर्थात ब्राह्म, दैव, आर्ष और प्राजापत्य ब्राह्मण के लिए विहित हैं, राक्षस क्षत्रिय के लिए और आसुर वैश्य तथा शूद्र के लिए।[221] उन्होंने यह भी बताया है कि ब्राह्मण 'आसुर' और 'गांधर्व' विवाह को भी अपना सकते हैं, क्षत्रिय भी आसुर, गांधर्व और पैशाच विवाह अपना सकते हैं और वही पद्धतियां वैश्य तथा शूद्र के लिए भी हो सकती हैं।[222] इस तरह क्षत्रिय के लिए राक्षस पद्धति से विवाह करने का नियम बनाकर उन्हें केवल वैश्य और शूद्र से अलग किया गया है। किंतु यहां प्राय: मनु का मुख्य उद्देश्य है ब्राह्मणों को अन्य तीन वर्णों से अलग करना। जहां तक दो नीच वर्णों का संबंध है, वास्तविक स्थिति मनु द्वारा उद्धृत विवरण, जो आदिपर्व में भी आया है,[223] से स्पष्ट होती है, जिसमें कन्या का आसुर विवाह (खरीदकर विवाह करना) सामान्यतया वैश्यों और शूद्रों में प्रचलित था। मनु का विचार है कि 'आसुर' और 'पैशाच' पद्धति से विवाह कभी नहीं करना चाहिए।[224] कुल्लूक ने अपनी टीका में बताया है कि यह नियम ब्राह्मणों और क्षत्रियों पर लागू होता है,[225] जिससे पता चलता है कि विवाह की ये दोनों पद्धतियां खासकर दो नीच वर्णों के लिए अभिप्रेत थीं।

मनु के स्त्री धन संबंधी नियम विवाह की पद्धतियों के अनुसार भिन्न भिन्न हैं। कहा गया है कि यदि आसुर, राक्षस और पैशाच पद्धति से विवाहिता स्त्री

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संतानहीन मर जाए तो स्त्री धन उसके मां-बाप को, अर्थात उसके माता-पिता के परिवार को मिलेगा न कि उसके पति के परिवार को, जैसा कि प्रथम चार और गांधर्व रीति के विवाह में होता है।[226] इससे पता चलता है कि वैश्य और शूद्र द्वारा अपनाई गई वैवाहिक पद्धतियों में मातृकुल का महत्व था।

मनु निश्चयपूर्वक कहते हैं कि जो विवाह वैदिक मंत्रों द्वारा संपन्न कराए जाते हैं, उनमें नियोग नहीं हो सकता।[227] चूंकि ये मंत्र शूद्रों के विवाह में नहीं पढ़े जाते,[228] इसलिए यह स्पष्ट है कि नियोग मुख्यतया शूद्रों तक ही सीमित था। यह निष्कर्ष मनु द्वारा आगे बताए गए अन्य विवरण से भी निकाला जा सकता है जिसमें उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि विधवा विवाह और नियोग को शास्त्रों के जानकार द्विज पशुजन्य प्रथा मानते हैं।[229] जाली का विचार है कि नियोग और विधवा विवाह के संबंध में मनु के विचार परस्पर विरोधी हैं,[230] क्योंकि कुछ परिच्छेदों में वह इनका समर्थन करते हैं और कुछ में उनकी निंदा करते हैं। किंतु यदि हम इस बात को ध्यान में रखें कि मनु ने नियोग और विधवा विवाह का समर्थन शूद्रों के लिए किया है और तीन उच्च वर्णों के संबंध में उन्होंने इनकी निंदा की है, तो इन परिच्छेदों का समाधान आसानी से मिल जाएगा। शूद्रों में उपर्युक्त प्रथाओं के चलन से यह पता चलता है कि महिलाएं अपने समुदाय में दूसरों पर बहुत निर्भर नहीं थीं।

एक वर्ण के साथ दूसरे वर्ण के विवाह के संबंध में मनु ने पुरानी उक्ति उद्धृत की है जिसमें उच्च वर्ण के लोगों को नीच वर्ण की महिला से विवाह की अनुमति दी गई है।[231] लेकिन उन्होंने यह भी बताया है कि यदि द्विज अपने वर्ण की और अन्य छोटे वर्णों की महिला से विवाह करे तो इन पत्नियों की वरीयता, हैसियत और निवास का निर्णय वर्णों के क्रम से किया जाएगा।[232]

मनु इस विचार को नापसंद करते हैं कि ब्राह्मण या क्षत्रिय की प्रथम पत्नी कोई शूद्र महिला हो। उन्होंने बताया है कि प्राचीन कथा में इसका कोई पूर्वोदाहरण नहीं मिलता है।[233] प्रायः उच्च वर्णों के लोगों की शूद्र पत्नी का दर्जा बहुत नीचे रहता था। पतंजलि हमें सूचित करते हैं कि दासी और वृषली उच्च वर्ग के लोगों के भोग-विलास के लिए होती थी।[234] मनु का कथन है कि जो द्विज शूद्र कन्या से विवाह करते हैं वे तुरंत अपने परिवार और बच्चों को पंक्तिच्युत करके शूद्र बना देते हैं।[235] कुल्लूक का मत है कि यह नियम तीनों उच्च वर्णों पर लागू होता है।[236] अपने कथन के समर्थन में मनु ने कई प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। अत्रि का विचार है कि यदि कोई ब्राह्मण किसी शूद्र कन्या से विवाह करे तो उसे जाति से बाहर कर दिया जाए। शौनक कहते हैं कि पुत्र उत्पन्न होने पर क्षत्रिय का भी यही हाल होना चाहिए और भृगु का कथन है कि यदि वैश्य को केवल शूद्र स्त्री से पुत्र उत्पन्न हो तो उसे जाति से बहिष्कृत कर दिया जाए।[237] किंतु मनु ब्राह्मण

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

द्वारा शूद्र महिला के समागम का घोर विरोध करते हैं। उनकी राय है कि ऐसा व्यक्ति मृत्यु के उपरांत नरक में जाएगा। यदि उसे शूद्र पत्नी से संतान उत्पन्न होगी तो वह ब्राह्मण नहीं रह जाएगा,[238] और शूद्र से भिन्न कोई संतान नहीं रहने पर उसका परिवार शीघ्र नष्ट हो जाएगा,[239] क्योंकि किसी ब्राह्मण के लिए उसका शूद्र बेटा जीवित रहने पर भी मुर्दे के समान है। यही कारण है कि वह पारशव कहलाता है।[240] जो व्यक्ति वृषली का अधरपान करता है, उसकी सांस से दूषित बनता है और उससे पुत्र उत्पन्न करता है, उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता।[241] इस संदर्भ से स्पष्ट है कि यह निषेध केवल ब्राह्मण के लिए था।[242]

मनु ने पुरानी वर्णसंकर जातियों, यथा निषाद,[243] पारशव, उग्र, अयोगव, क्षतृ, चंडाल, पुक्कुस,[244] कुक्कुटक, श्वपाक और वेण[245] का उल्लेख किया है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी उत्पत्ति वर्णों के अंतर्मिश्रण से हुई है। उन्होंने इस तरह उत्पन्न नई जातियों की एक लंबी सूची दी है। ब्राह्मण उग्र की बेटी से आव्रत, अम्बष्ट की बेटी से आभीर और आयोगव जाति की स्त्री से धिग्वण को उत्पन्न करता है।[246] इतना ही नहीं, आयोगव महिला से दस्यु द्वारा सैरंध्र, वैदेहक द्वारा मैत्रेयक, और निषाद द्वारा मार्गव या दाश उत्पन्न होता है जो कैवर्त भी कहलाता है।[247] चंडाल वैदेहक महिला से पांडुसोपाक को और निषाद आहिंडक को जन्म देता है।[248] वैदेहक जाति की स्त्री से निषाद कारावर उत्पन्न करता है, और वैदेहक कारावर स्त्री से अंध्र को तथा निषाद स्त्री से मेद को जन्म देता है।[249] निषाद स्त्री चंडाल से जो पुत्र उत्पन्न करती है वह अंत्यावसायिन् कहलाता है जिसे वे लोग भी घृणा की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वह चातुर्वर्ण्य पद्धति से बाहर (बाह्य) है।[250] मनु यह भी बताते हैं कि सूत, वैदेहक, चंडाल, मागध, क्षतृ और आयोगव इन्हीं जातियों की स्त्री से ऐसी संतान उत्पन्न करते हैं जो और भी अधिक हेय तथा अपने पिता से भी अधिक अधम समझी जाती है, और उसे वर्णव्यवस्था से बाहर रखा जाता है।[251] उनका यह भी कहना है कि बाह्य और हीन (निम्न वर्ग के लोग) उच्च जातियों की महिलाओं से पंद्रह प्रकार की नीच जातियां उत्पन्न करते हैं।[252] मनु ने इन जातियों का नाम नहीं गिनाया है, लेकिन जान पड़ता है कि वे ऊपर दी गई सूची के ही अंतर्गत हैं।

उपर्युक्त जातियों में उनके व्यवसायों के आधार पर अंतर किया जाता था।[253] चंडाल, श्वपाक और अंत्यावसायिन् अपराधियों को फांसी देने का काम करते थे और उन्हें अपराधियों के वस्त्र, बिछावन और आभूषण दे दिए जाते थे।[254] निषाद मछली पकड़कर अपना निर्वाह करते थे, और मेद, अंध्र, मद्गु और चुंचु का काम जंगली जानवरों का शिकार करना था।[255] क्षतृ, उग्र और पुक्कस विवर में रहने वाले जंतुओं को पकड़ने और मारने वाले बताए गए हैं।[256] स्पष्ट है कि ये सभी लोग पिछड़ी जातियों के थे, जो ब्राह्मणप्रधान समाज में मिला लिए

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

जाने पर भी अपना व्यवसाय करते रहे। मनु बताते हैं कि कुछ संकर जातियों ने महत्वपूर्ण शिल्पों को अपनाया। आयोगव ने लकड़ी का काम शुरू किया[257] और धिग्वण तथा कारावर ने चमड़े का[258] एवं पांडुसोपाक ने बेंत के कार्य का पेशा अपनाया।[259] मार्गव या दाश नाविक के पेशे द्वारा जीविका अर्जित करते थे और आर्यावर्त के निवासी उन्हें कैवर्त कहते थे।[260] वेण ढोल पीटने वाले थे,[261] और सैरंध्र को शृंगार तथा अपने मालिक की सुश्रूषा में निपुण समझा जाता था। सैरंध्र यद्यपि गुलाम नहीं थे, फिर भी वे गुलाम की भांति ही रहते थे, अथवा जानवरों को फंसा कर गुजर बसर करते थे।[262] मैत्रेयक के बारे में कहा गया है कि वह सुरीली आवाज वाला था और सुबह होने पर घंटी बजाता था तथा महापुरुषों के प्रशस्तिगान में लगा रहता था।[263]

उपर्युक्त ढंग की कुछ नीच जातियों का उल्लेख एक बौद्ध ग्रंथ में भी हुआ है। कहा गया है कि बुद्ध या बोधिसत्त के अनुयायियों को चंडालों, कौक्कुटिकों (मुर्गीपालकों), संकरियों (सूअरवधिकों), शौंडिकों (मदिरा विक्रेताओं),[264] मनिसकसों (कसाइयों), मौष्टिकों (मुक्केबाजों), नट नर्त्तकों (अभिनेताओं और नर्त्तकों) झल्लों और मल्लों (कुश्तीबाजों) से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा।[265] बौद्ध धर्मावलंबी इन लोगों से घृणा करते थे, क्योंकि वे निर्दयी और अनैतिक कार्य करने वालों के साथ रहते थे।

अधिकांश संकर जातियां, जिनका उल्लेख मनु ने किया है, अछूत थीं। निषादों, आयोगवों, मेदों, अंध्रों, चुंचुओं, मद्गुओं, क्षत्ताओं, पुक्कसों, धिग्वणों और वेणों के कृत्यों का उल्लेख करके मनु ने कहा है कि उन्हें गांवों के बाहर बड़े बड़े वृक्षों, चैत्यों (कब्रगाहों), श्मशानों अथवा पहाड़ों और उपवनों में बसना चाहिए।[266] इससे पता चलता है कि ये जातियां ब्राह्मणों की बस्ती से बाहर रहती थीं। चंडाल और श्वपाक तो अवश्य ही गांव से बाहर रहते थे। जिस पात्र में उन्हें भोजन कराया जाता था उसे सदा के लिए फेंक दिया जाता था। उनकी संपत्ति मात्र कुत्ते और गदहे थे; वे टूटी फूटी थालियों में खाना खाते थे, लोहे के गहने पहनते थे और मृत व्यक्तियों के कपड़े धारण करते थे तथा एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे।[267] उन्हें रात को शहरों और गांवों में आने की अनुमति नहीं थी। यहां ये दिन में ही काम कर सकते थे।[268] मनु ने बताया है कि चडालों और श्वपाकों को पहचान के लिए राजशासन द्वारा निर्धारित चिह्न धारण करना चाहिए।[269] राघवानंद की इस व्याख्या के समर्थन में तत्कालीन कोई प्रमाण नहीं मिलता कि चंडालों को ललाट या किसी अन्य अंग पर कोई चिह्न दाग दिया जाए। प्रायः चंडालों और श्वपाकों को कहा गया था कि वे कुछ खास ढंग की पोशाक पहनें ताकि अन्य लोगों से उनमें स्पष्ट अंतर रहे।[270] वे विवाह में ऋण, उधार आदि का व्यवहार अपनी जाति के लोगों को छोड़ दूसरों

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

के साथ नहीं कर सकते थे। मनु का आदेश है कि उच्च वर्णों के लोग इन्हें अपने हाथ से अन्न भी नहीं दें।[271]

किंतु मनु विशेषतया यह चाहते हैं कि ब्राह्मणों और अछूतों के बीच कोई संपर्क ही नहीं रहे। उन्होंने विहित किया है कि स्नातक को (जो सामान्यतया ब्राह्मण होता है) चंडालों, पुक्कसों, अंत्यों और अंत्यावसायिनों के साथ नहीं रहना चाहिए।[272] श्राद्धकर्म करते समय ब्राह्मण पर जिनकी दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए वे हैं चंडाल, ग्रामसूअर, मुर्गा, कुत्ता आदि।[273] मनु ने यहां तक कहा है कि यदि कोई ब्राह्मण किसी चंडाल या अंत्य महिला का समागम करे या उसका अन्न ग्रहण करे तो वह ब्राह्मणत्व खो देगा। किंतु यदि वह जानबूझ कर ऐसा करे तो वह भी चंडाल या अंत्य की स्थिति प्राप्त करेगा।[274] इससे यह अर्थ निकलता है कि ब्राह्मणेतर जातियों और चंडालों के बीच ऐसे संबंध को निंदनीय नहीं माना जाता था।

मनु अस्पृश्यों और संकर जातियों को शूद्र मानते थे या नहीं यह स्पष्ट नहीं होता। उन्होंने खुलेआम कहा है कि वर्ण चार हैं।[275] इससे यह निष्कर्ष निकल सकता है कि संकर जातियों को शूद्र वर्ण में शामिल कर लिया गया था। उनकी उत्पत्ति संबंधी कथाओं से पता चलता है कि लोगों में ऐसी धारणा थी कि उनकी धमनियों में शूद्र का रक्त है। मनुस्मृति में एक स्थल पर कुल्लूक ने अंत्यज को शूद्र के रूप में चित्रित किया है।[276] किंतु मनु ने 'अंत्यज' शब्द का प्रयोग चंडाल के अर्थ में किया है।[277] सूत, वैदेहक, चंडाल, मागध, क्षतृ और आयोगव जैसी मिश्रित जातियां 'बाह्य' समझी जाती हैं, जिन्हें टीकाकारों ने चातुर्वर्ण्य से बाहर का माना है।[278] मनु ने परस्त्रीगमन के अपराध का दंड विहित करते हुए शूद्र और अंत्यज में[279] तथा साक्ष्य विधि में अंत्यावसायिन् और शूद्र में विभेद किया है। किंतु पतंजलि ने निरवसित शूद्र को चंडाल और मृतप बताया है तथा उच्च वर्णों के लिए उसके भोजन पात्र का उपयोग वर्जित माना है।[280] इससे पता चलता है कि ये अछूत शूद्र समझे जाते थे। मनु ने इन शूद्रों के लिए अपपात्र (अर्थात वे लोग जिनके पात्र का व्यवहार नहीं किया जा सकता) शब्द का प्रयोग किया है।[281] इस तरह मालूम पड़ता है कि संकर जातियों और अछूतों को हीन शूद्रों की कोटि में रखा जाता था और उनके अलग निवास, पिछड़ी संस्कृति और प्राचीन धार्मिक संप्रदाय के आधार पर साधारण शूद्रों से उनमें विभेद किया जाता था।

मनु ने शूद्रों के अन्न, उनकी संगत और उनकी महिलाओं के बहिष्कार के बारे में जो नियम बनाए हैं, वे मुख्यतया ब्राह्मणों पर लागू हैं।[282] पतंजलि के महाभाष्य में हमें ब्राह्मण और वृषल के बीच इसी प्रकार का सामाजिक विभेद देखने में आता है। ब्राह्मणों के दांत उजले हैं, तो वृषल के काले;[283] ब्राह्मण को

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

ऊंचा स्थान मिलता है तो वृषल को नीचा स्थान।[284] कोई व्यक्ति वृषल और दासी के साथ अवैध और कुत्सित कर्म कर सकता है, किंतु उसे ब्राह्मणी के साथ भद्रतापूर्ण बर्ताव करना होगा।[285]

भंडारकर का कहना है कि वृषलों का समुदाय ऐसा था जिसमें आर्यसमुदाय के ढांचे पर चारों वर्णों के लोग सम्मिलित थे।[286] किंतु साधारणतया वृषल शूद्र के समान थे। इसलिए जहां धर्मसूत्रों में स्नातक से कहा गया है कि शूद्रों के साथ यात्रा नहीं करे, वहां मनु उसे बताते हैं कि वृषलों के साथ यात्रा नहीं करे।[287] उन्होंने ब्राह्मण और वृषली के बीच संपर्क की भर्त्सना उस प्रसंग में की है जहां उन्होंने ब्राह्मण और शूद्र के बीच सभी संपर्कों पर रोक लगाई है।[288] यद्यपि महाभाष्य में कहीं भी 'वृषल' शब्द शूद्र का स्पष्ट संकेत नहीं देता,[289] फिर भी वृषली और दासी की समान हैसियत[290] और वृषल की सर्वविदित दरिद्रता से पता चलता है कि वृषल की स्थिति शूद्र से अच्छी नहीं थी।[291] 'शूद्र' शब्द की तरह 'वृषल' शब्द का भी प्रयोग व्यापक अर्थ में बर्बर और अपधर्मी दोनों को समाविष्ट करते हुए किया जाता था। किंतु आम तौर पर वृषल को चतुर्थ वर्ण का सदस्य बताया गया है और यही कारण है कि महाभाष्य में ब्राह्मण और वृषल के बीच जो विषमता दिखाई गई है वही विषमता ब्राह्मण और शूद्र में भी मानी जानी चाहिए।

मनु ने पुरानी निषेधाज्ञा की पुनरावृत्ति की है, जिसके अनुसार वेद का अध्ययन द्विज तक ही सीमित था।[292] इनकी तुलना में शूद्रों को 'एकजाति' अर्थात एक बार जन्म लेने वाला कहा गया है।[293] आर्य का पहला जन्म अपनी मां से होता है, किंतु दूसरा जन्म मूंज के मेखलासूत्रबंधन से होता है।[294] इसलिए कोई द्विज, जो वेद न पढ़कर दूसरे व्यवसायों में लग जाता है वह शूद्र समझा जाता है और उसकी संतान की भी वही गति होती है।[295] जब वेद की पढ़ाई हो रही हो, तब वहां शूद्र को कभी नहीं रहने देना चाहिए।[296]

इस तरह, नियम के होते हुए भी सुनने में आता है कि कुछ अध्यापक शूद्र को पढ़ाते थे। मनु ने विधान किया है कि शूद्र को पढ़ाने वाले या शूद्र से पढ़ने वाले ब्राह्मण को श्राद्ध में आमंत्रित नहीं किया जाना चाहिए।[297] यह स्पष्ट नहीं है कि शूद्र शिक्षक या छात्र अपधर्मी समझे जाते थे। अध्यापक से जिन दस प्रकार के लोगों को शिक्षा मिल सकती थी उनमें शुश्रूषु का नाम आया है जिसका अर्थ कुल्लूक ने नौकर (परिचारक) किया है[298] और इससे संभवतया शूद्र का निर्देश होता है।

किंतु साधारणतया ऐसा जान पड़ता है कि शूद्रों को शिक्षा से वंचित रखा गया था। वसिष्ठ की भांति मनु ने भी आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति शूद्र को परामर्श नहीं दे और न उसे कानून की व्याख्या करके समझाए।[299] इस उपबंध

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

को उन्होंने यह नियम बनाकर सबल कर दिया है कि जो कोई इसके प्रतिकूल कार्य करेगा, वह उस व्यक्ति के साथ ही असंवृत नरक में जाएगा जिसे उसने शिक्षा दी है ।[300]

धर्म के क्षेत्र में शूद्र वैदिक यज्ञ के अधिकार से वंचित ही रहे ।[301] कहा जाता है कि शूद्र जातिच्युत नहीं हो सकता, वह संस्कार पाने योग्य नहीं है और उसे आर्यों के धर्म का अनुसरण करने का कोई अधिकार नहीं है ।[302] द्विज को चाहिए कि धार्मिक अनुष्ठानों में अपनी शूद्र पत्नी को शरीक नहीं करे ।[303] यदि वह मूढ़तावश ऐसा करेगा तो उसे चंडाल की भांति घृणित समझा जाएगा ।[304] संभवतया यह नियम ब्राह्मणों से संबंधित है । यह भी विहित किया गया है कि ब्राह्मण यज्ञ के लिए अपेक्षित किसी भी वस्तु की याचना शूद्र से नहीं करे । यदि वह ऐसा करेगा तो अगले जन्म में चंडाल होगा ।[305]

किंतु ब्राह्मणों का एक वर्ग ऐसा भी था जो शूद्रों के धार्मिक अनुष्ठान में सहायक का काम करता था । मनु कहते हैं कि जो ब्राह्मण शूद्र से धन लेकर अग्निहोत्र करें, उन्हें ब्रह्मवादिन् (वेदपाठी) शूद्रों के ऋत्विज् कहकर निंदित करते हैं और अज्ञानी मानते हैं ।[306] मनुस्मृति के एक परिच्छेद की टीका करते हुए कुल्लूक ने बताया है कि शूद्र छोटे मोटे घरेलू यज्ञ (पाकयज्ञ) कर सकते हैं ।[307] हमें भास से ज्ञात होता है कि शूद्र देवताओं की पूजा बिना मंत्रों के ही करते थे ।[308] मनु कहते हैं कि यदि गुणी शूद्र भद्रजनों के जैसे आचरण करें तो वे प्रशंसा के पात्र हैं, किंतु उन्हें वेदों का पाठ किए बिना ही ऐसा करना चाहिए ।[309] उन्होंने यह नियम भी बनाया है कि शूद्र तीन उच्च वर्णों की तरह अपने पूर्वजों का तर्पण कर सकते हैं । इस प्रसंग में उन्होंने कहा है कि सुकालिन् शूद्रों के पितर हैं और वसिष्ठ उनके पूर्वज हैं ।[310] इन तथ्यों से पता चलता है कि मनु ने शूद्रों को कुछ धार्मिक अधिकार दिए हैं जो उन्हें मौर्य या मौर्यपूर्व काल में प्राप्त नहीं थे ।

मनु ने चारों वर्णों के लिए एक ही आचार संहिता विहित की है । उन्हें अहिंसा और सत्य का पालन करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, पवित्र रहना चाहिए, इच्छाओं का दमन करना चाहिए, ईर्ष्या-द्वेष से बचना चाहिए और केवल अपनी पत्नियों से संतान उत्पन्न करना चाहिए ।[311] किंतु धार्मिक दृष्टि से वे स्त्रियों और शूद्रों को समाज का अत्यंत अपवित्र अंग मानते हैं । चांद्रायण व्रत करनेवालों को इनका बहिष्कार करना चाहिए ।[312] उन्होंने इन लोगों के शुद्धिकरण के लिए कम कठिन धार्मिक संस्कार विहित किए हैं ।[313] शूद्र को महीने में एक बार बाल मुंड़वा कर अपने आपको शुद्ध रखना चाहिए और घर में जन्म और मृत्यु होने की दशा में वैश्यों की भांति शुद्धिकरण संस्कार का पालन करना चाहिए ।[314] किंतु उन्होंने प्राचीन विधिनिर्माताओं के इस विचार का समर्थन किया है कि वैश्य की अशौच अवधि 15 दिन की और शूद्र की एक महीने की

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

होगी।[315] उन्होंने यह भी बताया है कि अशौच की अवधि के अंत में ब्राह्मण पानी का स्पर्श कर, क्षत्रिय अपनी सवारी के पशु और अस्त्रों को छूकर, वैश्य अपना अंकुश या अपने बैलों की नाथ (नाक में लगी रस्सी) छूकर तथा शूद्र अपनी लाठी छूकर पवित्र हो सकता है।[316] मनु ने यह नियम भी बनाया है कि ब्राह्मण के शव को शूद्र नहीं ढोएगा, क्योंकि शवरूप में भी शूद्र के स्पर्श से दूषित हो जाने पर उसे स्वर्ग प्राप्ति नहीं हो सकती।[317] इस प्रकार वे ब्राह्मण और शूद्र में मरने के वाद भी विभेद करना छोड़ते नहीं हैं।

यदि पुराणों में आए कलियुग के वर्णन को मौर्योत्तर काल में प्रचलित स्थितियों का कुछ संकेत देने वाला माना जाए,[318] तो यह स्पष्ट होगा कि शूद्र खुलेआम वर्तमान सामाजिक व्यवस्था की अवहेलना करते थे। शूद्रों की ज्यादती का वर्णन कूर्मपुराण में किया गया है: 'राजा के मूढ़ शूद्र अधिकारी ब्राह्मणों को अपना स्थान छोड़ने के लिए बाध्य करते हैं और उन्हें पीटते हैं। राजा बदलती हुई परिस्थितियों के कारण कलियुग में ब्राह्मण का अनादर करते हैं और ब्राह्मणों के बीच शूद्र उच्च पदों पर आसीन होते हैं। ब्राह्मण, जिन्होंने वेद का अल्प अध्ययन किया है और जो कम भाग्यशाली और शक्तिशाली हैं, फूलों, अलंकरणों और अन्य मांगलिक वस्तुओं से शूद्रों का सम्मान करते हैं। इस प्रकार सम्मानित किए जाने पर भी शूद्र ब्राह्मणों की ओर देखता तक नहीं है। ब्राह्मण शूद्रों के घरों में प्रवेश करने का साहस नहीं करता और उनका अभिवादन करने का अवसर पाने के लिए उनके दरवाजे पर खड़ा रहता है। ब्राह्मण, जो अपने जीवनयापन के लिए शूद्र पर निर्भर रहते हैं, उनकी सवारी के चारों ओर इस उद्देश्य से खड़े रहते हैं कि उनका गुण बखान कर सकें और उन्हें वेद पढ़ा सकें।'[319] कुछ इस तरह का ही वर्णन मत्स्य पुराण में भी है और यह भविष्यवाणी की गई है कि श्रुति और स्मृति का धर्म बहुत शिथिल हो जाएगा और वर्णाश्रम धर्म नष्ट हो जाएगा। इसमें यह क्षोभ भी प्रकट किया गया है कि लोग वर्णसंकर होंगे, शूद्र ब्राह्मणों के साथ बैठेंगे, खाएंगे और उनके साथ यज्ञादि करेंगे तथा मंत्रोच्चार भी करेंगे।[320] वायुपुराण और ब्रह्मांडपुराण में कहा गया है कि कलियुग में शूद्र ब्राह्मणों जैसा और ब्राह्मण शूद्रों जैसा कर्म करते हैं। इन पुराणों से पता चलता है कि शूद्र का सब आदर करते हैं और राजा का आश्रय छूट जाने के कारण ब्राह्मणों को अपनी जीविका के लिए शूद्रों का भरोसा करना पड़ता है।[321]

संभवतया उपर्युक्त विवरण मौर्योत्तर कालीन परिस्थितियों का निर्देश करते हैं। ऐसा नहीं मालूम पड़ता कि वे अशोक के राज्यकाल पर लागू हैं, क्योंकि अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी होने पर भी ब्राह्मणों के प्रति अनुदार नहीं बताया जा सकता है, जैसाकि पुराणों में कहा गया है। यद्यपि कूर्मपुराण में कलियुग के वर्णन का समावेश ई० सन 700-800 में किया हुआ बताया जाता है,[322] फिर भी इससे पहले के

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

मौर्योत्तर काल का संकेत मिलता है। इस वर्णन के कुछ परिच्छेद बिल्कुल वही हैं जो उससे पहले के वायु और ब्रह्मांड पुराण में पाए जाते हैं।[323] ई० सन की पांचवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध के एक उत्कीर्ण लेख में पल्लव शासक सिंहवर्मन् के बारे में कहा गया है कि वह कलियुग के पापों से धर्म को बचाने के लिए सतत उद्यत रहता है।[324] इसके आधार पर कहा जा सकता है कि कलियुग की कल्पना बहुत पुरानी नहीं है।[325] जैसा पहले बताया जा चुका है, म्लेच्छों का उल्लेख और कलियुग के विवरण में निर्दिष्ट विभिन्न लोगों के अंतर्मिश्रण मौर्योत्तर काल की परिस्थितियों के बहुत अनुकूल हैं। पुराणों में कही गई बात कि विदेशी शासक ब्राह्मणों को जान से मार डालेंगे और दूसरों की पत्नी तथा संपत्ति का अपहरण कर लेंगे, सामान्यतया इस काल में लागू होती है[326] और यह युगपुराण में वर्णित ऐसे ही आरोपों के अनुरूप है।[327]

कलियुग के वर्णन को, जो ब्राह्मणों द्वारा शिकायत और भविष्यवाणी के रूप में किया गया है, केवल कपोलकल्पना कहकर टाला नहीं जा सकता।[328] उससे ब्राह्मणों की दयनीय स्थिति का आभास मिलता, जो ग्रीकों, शकों और कुषाणों के कार्यकलापों का परिणाम थी। संभव है कि उनके आक्रमणों के कारण शूद्रों की स्थिति में परिवर्तन हुआ हो और वे उठ खड़े हुए हों। उनमें पहले ही से असंतोष उबल रहा था। वे स्वभावतया ब्राह्मणों के दुश्मन हो गए, क्योंकि उन्होंने उनके प्रति विभेदमूलक नियम बनाए थे। यह सामाजिक उथलपुथल कब तक और देश के किस भाग में होती रही, इसका निर्धारण करना आंकड़ों के अभाव में कठिन है। किंतु जान पड़ता है कि अपधर्मी शूद्र राजाओं के प्रति ब्राह्मणों के बैरभाव का कारण यह था कि ये राजा शूद्रों से भाईचारे का व्यवहार रखते थे। दास और भाड़े के मजदूर के रूप में शूद्रों की पराधीनता शक और कुषाण शासकों की विदेश नीति से कम हुई होगी, क्योंकि वे वर्णों में विभाजित समाज का आदर्श निभाने के लिए बाध्य नहीं थे।

मौर्योत्तर काल में समाज की स्थिति संभवतया वैसी ही थी जैसी मिस्र में पुराने साम्राज्य के पतन के बाद थी। इस काल में कुछ दिनों तक आम जनता पुरोहितों और अभिजातों से लड़ती रही और सुस्थापित व्यवस्था पर चोट करती रही। मनु के नियम मौर्य साम्राज्य के पतन होने पर सामने आने वाले विघटनकारी तत्वों से निपटने के लिए बनाए गए थे, न कि अशोक के कार्यों को प्रभावशून्य बनाने के लिए। शूद्रों को गुलाम बनाकर रखने पर जो उन्होंने जोर दिया है उसकी आवश्यकता इसलिए हुई कि वे काम करने से इंकार करते थे। उन्होंने राजा को आदेश दिया है कि वह वैश्य और शूद्र को अपना अपना कर्म करने के लिए बाध्य करे,[329] जिससे प्रकट होता है कि सामान्य जन को दो उच्च वर्णों के साथ अपना हित जुड़ा हुआ नहीं दिखाई देता था। मनु का कथन है कि राजा को वर्ण-

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

धर्म कायम रखना चाहिए, क्योंकि जो राज्य वर्णों के अंतर्मिश्रण से दूषित होता है, वह अपने निवासियों सहित विनष्ट हो जाता है,[330] अर्थात सुस्थापित व्यवस्था नष्ट हो जाती है। ये आदेश सामान्यतया ई० सन की तीसरी शताब्दी में रोम साम्राज्य द्वारा जारी किए गए आदेशों के समान थे, जिनमें विभिन्न व्यवसाय के लोगों को अपने अपने व्यवसायों से लगे रहने को कहा गया है। किंतु मनु ने कुछ धार्मिक अनुशास्ति और दंड का भी विधान किया है। यदि शूद्र अपना कर्तव्य नहीं करेगा तो उसका जन्म चैलाशक (कीट पतंग खाकर रहने वाले पिशाच) के रूप में होगा,[331] और यदि वह निष्ठापूर्वक अपना कर्तव्य निभाएगा तो अगले जन्म में उच्च वर्ण में पैदा होगा।[332]

मनु ने शूद्रों के शत्रुवत व्यवहार से बचने के बहुत से उपाय बताए हैं। कौटिल्य के विपरीत उन्होंने विहित किया है कि राजा को ऐसे देश में बसना चाहिए जहां के निवासी मुख्यतया आर्य हों,[333] क्योंकि जिस राज्य में शूद्रों का बहुमत होगा (शूद्र-भूयिष्ठ), वह तुरत नष्ट हो जाएगा।[334] मनु ने राज्य के संरक्षण का भार उन लोगों तक ही सीमित रखा है जो आर्यों की तरह रहते हैं।[335] उन्होंने यह भी बताया है कि जो आर्येतर व्यक्ति (अर्थात शूद्र) आर्यों के चिह्न धारण करते हों, उन्हें कांटा समझकर तुरत हटा देना चाहिए।[336] संकर जातियों (अधिकतर शूद्रों) को खास तौर से आर्यों से भिन्न माना जाता था और वे निर्दयी तथा उग्र स्वभाव के होते थे।[337] मनु के ये सभी कथन शूद्रों के प्रति उनके पूर्ण अविश्वास और तज्जन्य शूद्रों के शत्रुवत व्यवहार (जो विदेशी आक्रमण के समय विशेषतया देखने में आता था या जिसकी उस वक्त खास तौर पर आशंका रहती थी) से बचने की चिंता के अनुरूप ही है। मनु ने जब यह कहा कि यदि क्रांति के फलस्वरूप तीन उच्च वर्णों को अपना कर्तव्य करने में बाधा उपस्थित हो तो उन्हें शस्त्र ग्रहण करना चाहिए, तब उनके मन में संभवतया ऐसी स्थिति की कल्पना रही होगी।[338] कलियुग के अंत में विद्यमान परिस्थितियों के वर्णन के प्रसंग में वायुपुराण के अंतर्गत प्रमिति (माधव के अवतार) के कामों की चर्चा की गई है, जिसने ब्राह्मणों की सशस्त्र सेना बनाई और अनेक प्रकार के लोगों यथा, म्लेच्छ तथा वृषल का विनाश करने के लिए प्रस्थान किया।[339] यह एक ओर ब्राह्मणों और दूसरी ओर शूद्रों तथा विदेशी शासकों के बीच हुए भीषण संघर्ष का हल्का संकेत है। यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि वृषल सुस्थापित व्यवस्था को तोड़ने वाले माने जाते थे, रक्षा करने वाले नहीं।[340] मनु ने ब्राह्मणों के प्रति अपराध करने वाले शूद्रों के लिए दंड का जो वृहत विधान किया है, उसका मुख्य कारण यह कहा गया है कि सुशिक्षित शूद्रों के विरुद्ध उनके मन में बैर की भावना थी।[341] किंतु उन्होंने जो नियम बनाए हैं, उन्हें समग्र रूप से देखने पर पता चलता है कि वे सामान्य शूद्रों के प्रति भी कम बैर भाव नहीं रखते थे।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

प्राचीनकाल में मुख्य विभेद शूद्र और तीन उच्च वर्णों में था। यद्यपि मनु ने भी इस विभेद को माना है, फिर भी उनके ग्रंथ से प्रकट होता है कि कानूनी उपबंधों, भोजन और विवाह के मामले में वैश्यों को शूद्र के निकट लाने की प्रवृत्ति उनमें बहुत अधिक थी। इस तरह की स्थिति का कारण प्रायः यह था कि बहुत बड़ी तादाद में वैश्य शूद्र बनाए जा रहे थे। विष्णुपुराण में कहा गया है कि कलियुग में वैश्य कृषिकर्म और व्यापार छोड़ देंगे और दासत्व प्रथा एवं यांत्रिक शिल्पों को अपनाएंगे[342] और शूद्र जातियों का बाहुल्य होगा।[343] मनु के एक परिच्छेद से स्पष्ट होता है कि परंपरागत वैश्य वर्ण क्रमशः विलीन होता जा रहा था। उनके अनुसार ब्राह्मण में सत्व गुण और क्षत्रिय में रजस् गुण[344] तथा शूद्रों और म्लेच्छों में तमस् गुण होता है (मध्यमा तामसी गतिः), जो पूर्वजन्म के कर्म के अनुसार प्राप्त होता है।[345] इस क्रम में वैश्य की चर्चा तक नहीं हुई है। इससे संकेत मिलता है कि वैश्य शूद्र समुदाय में विलीन होते जा रहे थे।

हापकिंस ने बताया है कि मनु के कुछ नियमों से एक ओर दो उच्च वर्ण और दूसरी ओर दो नीच वर्णों के बीच दुश्मनी का आभास मिलता है।[346] इनके बीच होने वाले संघर्ष से मालूम पड़ता है कि उच्च वर्णों का नेतृत्व ब्राह्मण और निम्न वर्णों का नेतृत्व शूद्र कर रहे थे। पूर्वकाल में भी शूद्रों और अन्य वर्णों के बीच संघर्ष का आभास मिलता है। किंतु मौर्योत्तर काल में इस संघर्ष ने उग्र रूप धारण कर लिया। मनु के संबंध में एक रचना में बताया गया है कि भारतीय पद्धति पर निर्मित समाज में आर्थिक विषमता और वैमनस्य विरल ही संभव थे।[347] किंतु मनु के ग्रंथ में वर्णों के बीच जिस तरह का संबंध दिखाया गया है, उससे इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती है। मनु ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि शूद्र को धन इकट्ठा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वह ब्राह्मणों को दुख देता है।[348]

किंतु मनु के शूद्रविरोध के आधार पर यह कहना उचित नहीं होगा कि मौर्योत्तर काल में शूद्रों की स्थिति की अधिकतम अवनति हो चुकी थी। इस शूद्रविरोध को ऐसा अतिवादी उपाय मानना चाहिए जो नई शक्तियों के उद्भव से समाज के पुराने ढांचे को टूटने से बचाने के लिए वांछनीय था। मनु के विधि-ग्रंथ में भी शूद्रों की स्थिति में हुए उन बहुतेरे परिवर्तनों का उल्लेख किया गया है, जो ब्राह्मणों के विरुद्ध उनके संघर्ष, नए नए लोगों के आगमन और कला एवं शिल्प के विकास के परिणाम थे।

इस तथ्य के बावजूद कि मनु ने शूद्रों की दासता की बार बार चर्चा की है, वे अब उस पैमाने पर दास और मजदूर नहीं थे जिस पैमाने पर वे मौर्यपूर्व और मौर्य काल में थे। हमें किसी वैयक्तिक या राजकीय प्रक्षेत्र (फार्म) की सूचना नहीं मिलती है, जिसमें दास या भाड़े के मजदूर काम करते हों। प्रायः मौर्यों के राजकीय प्रक्षेत्रों में काम करने वाले दास और भाड़े के मजदूर कर चुकाने वाले

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

कृषक बनते जा रहे थे। मनु ही प्रथम लेखक हैं जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में शूद्र को बटाईदार माना है,[349] और यह ऐसा तथ्य है जिसका निष्कर्ष केवल कौटिल्य के अर्थशास्त्र से निकाला जा सकता है। अर्थशास्त्र में बटाईदार (अर्द्धसीतिक) को उत्पादन का केवल $\frac{1}{5}$ या $\frac{1}{4}$ हिस्सा दिया गया है, किंतु मनु ने उसके लिए उत्पादन का आधा भाग (अर्द्धिकः) रखा है।[350] मालूम पड़ता है कि न केवल बटाईदारों का हिस्सा बढ़ा दिया गया था, बल्कि उनकी संख्या भी बढ़ी थी। अर्थशास्त्र में वेतनभोगी अधिकारियों की व्यवस्था है, किंतु मनु ने इनके बदले अधिकारियों की एक वर्गीकृत सूची प्रस्तुत की है जिन्हें पारिश्रमिक के रूप में जमीन दी जाती थी।[351] कृषिकर्म में लगे दासों की कोई चर्चा नहीं रहने के कारण हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि ये भूखंड बटाईदारों और भाड़े के मजदूरों द्वारा जोते जाते थे। प्रायः किसी दूसरे काल में शूद्रों की संख्या इतनी अधिक नहीं बढ़ी। बहुतेरी आदिम जातियों और बाह्य तत्वों को मिलाने के उद्देश्य से मनु ने वर्णसंकर की कल्पना से अपने पूर्ववर्ती ग्रंथकारों की अपेक्षा अधिक काम लिया है। अधिकांश संकर जातियों को शूद्र जाति में मिला दिया गया, जिसके लिए उनके आनुवंशिक कर्तव्य आधार माने गए।[352] किंतु ऐसा नहीं मालूम पड़ता है कि जिस प्रकार पुराने शूद्र दासों और भाड़े के मजदूरों के रूप में बहाल किए जाते थे, उस प्रकार इन नए शूद्रों की बहाली होती थी। उन्होंने अपने पुराने व्यवसायों को अपनाया और संभवतया उन्हें खेती के नए तरीके सिखाए,[353] जिससे वे क्रमशः करदाता किसान बने। हो सकता है कि मनु का दसवां अध्याय जिसमें वर्णसंकर का विशद वर्णन है चौथी-पांचवीं शताब्दी का हो। इस प्रकार एक ओर तो आदिम जातियां ब्राह्मणकालीन समाज से सभ्य जीवन का ज्ञान प्राप्त करके लाभान्वित हुईं और दूसरी ओर ब्राह्मणकालीन समाज को भी उत्पादनकर्ताओं की संख्या बढ़ाने के कारण अपनी आंतरिक कमजोरियां दूर करने का अवसर मिला।

शिल्पियों के नए संघ बनने और नए नए हस्तशिल्पों का उदय होने से उस काल के न केवल आर्थिक जीवन में बल्कि शूद्रों की स्थिति में भी अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए।[354] सर्वशक्तिसंपन्न मौर्यसाम्राज्य का पतन हो जाने पर इन संघों के जरिए शिल्पियों को अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता मिली जिससे उनकी हैसियत भी कुछ बढ़ी। यह बात इन शिल्पियों द्वारा बौद्धों को दिए गए अनेकानेक दान के पुरालेखों से प्रमाणित होती है। कुछ राजाओं की आर्थिक नीति से भी शूद्रों की स्थिति सुधरने में परोक्ष रूप से सहायता पहुंची। शक राजा रुद्रदामन्, जो वर्णाश्रित समाज का समर्थक था,[355] दावा करता है कि उसने अपनी प्रजा से बेगारी कराए बिना सुदर्शन झील की मरम्मत कराई।[356] यह उन शूद्र दासों और मजदूरों के लिए अवश्य ही वरदान सिद्ध हुआ होगा जिनसे सामान्यतया कर्वी (बेगार) ली जाती थी।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

नए हस्तशिल्पों और शिल्पी संघों के उदय के साहित्यिक प्रमाण को सिक्का साक्ष्य और विदेशी लेखकों की रचनाओं में वर्णित रोम तथा भारत के बीच के व्यापारसंबंध के साक्ष्य के साथ देखा जा सकता है। यह व्यापार ईस्वी सन की प्रथम दो शताब्दियों, खासकर सातवाहन काल में, अपने चरम उत्कर्ष पर था।[357] व्यापार के ऐसे विकास के फलस्वरूप व्यापारिक बंदरगाहों[358] और देश के भीतर के भी कुछ अन्य नगरों में जातिजन्य कटुता अवश्य घटी होगी जिससे निम्न वर्ण के लोगों की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ होगा।

इस काल में विदेशियों के आगमन से वर्णव्यवस्था का बंधन शिथिल पड़ा। ग्रीकों, शकों और पर्थियनों की संख्या भले ही बड़ी नहीं रही हो, पर कुषाणों के समय की अनेक प्राप्त वस्तुएं, यथा, सिक्के, टेराकोटा (मृण्मूर्तियां) और मूर्तियां, जो संपूर्ण उत्तरी भारत में मिली हैं, बताती हैं कि वे पर्याप्त संख्या में आए थे। स्वभावतया इससे तत्कालीन आबादी बिखरी होगी और नई नई बस्तियां बसी होंगी, और इस तरह ई० सन की पहली शताब्दी में लोगों में गतिशीलता आई होगी। चूंकि जातिप्रथा मुख्यतया स्थिर जीवन पर निर्भर होती है, इसलिए इन जातीय विप्लवों से उच्च वर्णों के विशेषाधिकारों की बुनियाद कमजोर हुई होगी और शूद्रों की स्थिति पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ा होगा।

इसी प्रकार शूद्र की कानूनी और राजनीतिक स्थिति में भी हमें कुछ सुधार दिखाई पड़ते हैं। शूद्र को गाली देने के कारण ब्राह्मणों को दंडित करने का जो विधान मनु ने बनाया है, वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है,[359] क्योंकि धर्मसूत्रों के अनुसार ब्राह्मण इस कार्य के लिए दंड का भागी नहीं था। पुनः, गौतमी पुत्र शातकर्णि ने अवरों का समर्थन प्राप्त करने की आवश्यकता महसूस की है,[360] जिससे पता चलता है कि ई० सन की दूसरी शताब्दी में उन्हें कितना महत्व दिया जाता था।

अंत में, मनु ने वसिष्ठ को शूद्र का जनक बताया है, जिससे उसकी अच्छी सामाजिक और धार्मिक स्थिति का बोध होता है।[361] शूद्रों की धार्मिक स्थिति सुधरी थी, इसका आभास इस तथ्य से भी होता है कि वे नामधेय संस्कार संपन्न कर सकते थे।[362] यह सुधार कुषाण शासकों के उदार धार्मिक दृष्टिकोण के कारण भी हुआ होगा। कट्टर ब्राह्मणवाद का समर्थक होने के बजाय वे मुख्यतया शैव और बौद्ध थे तथा निम्न वर्गों के प्रति उनका दृष्टिकोण अच्छा था। सातवाहन के राज्यों में भी ऐसे ही बातें हुई होंगी, जहां ई० सन की पहली और दूसरी शताब्दियों में निस्संदेह बौद्ध धर्म का बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव था।

शूद्र की स्थिति में परिवर्तन के इन लक्षणों से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि जिस पुराने समाज ने उन पर अनेकानेक अशक्तताएं लादकर उन्हें गुलाम बना रखा था, वह विलीन होने लगा था और उसकी जगह ऐसा नया समाज पनप रहा था जिसने उन्हें बेहतर स्थान दिया। परिवर्तन की इस प्रक्रिया को गुप्तकाल

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

में और अधिक बढ़ावा मिला। युगांत शब्द के बार बार प्रयोग से उन मूल्यों के विनाश का संकेत मिलता है जो प्राचीन समाज के आधार थे। इस प्रकार जन्म को वर्णाश्रम का आधार मानने की बात कुछ दिनों के लिए क्षीण हो गई। विदेशी आक्रमणकारियों के आचरण का वर्णन प्रस्तुत करते हुए विष्णुपुराण में भविष्य-वाणी की गई है कि इन विदेशी शासकों के समय में लोगों को धन के ही आधार पर ओहदा मिलेगा, संपत्ति ही धर्म का साधन बनेगी और दान ही धर्म का मूल होगा।[363]

संदर्भ

1. बुहलर : 'सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट', XXV, प्रस्तावना, पृ० CXIV-CXVIII; तुलनीय जायसवाल : 'मनु ऐंड याज्ञवल्क्य', पृ० 25-32; काणे : 'हिस्ट्री आफ धर्मशास्त्र,' II, पृ० XI. केतकर का यह तर्क कि यह रचना ई० पू० 272-320 (हिस्ट्री आफ कास्ट, पृ० 66) की है, युक्तिसंगत नहीं लगता.]
2. मनु, II.17.
3. वही, II.19.
4. जोहाजेन, हापकिंस : 'रिलेशंस आफ फोर कास्ट्स इन मनु में उद्धृत जोहाजेन', पृ० 4-5.
5. मजुमदार और पुसलकर : 'दि एज आफ इंपीरियल यूनिटी', पृ० 261. भास को ई० पू० पांचवीं या चौथी शताब्दी का मानने का अतिवादी विचार सामान्यतया स्वीकार नहीं किया जाता है. भास की तिथि ई० पू० दूसरी या तीसरी शताब्दी रखी जा सकती है.
6. एच० कर्न : 'सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट', XXI, प्रस्तावना, पृष्ठ XXI. चूंकि सद्धर्म-पुण्डरीक का चीनी भाषा में अनुवाद सबसे पहले ई० सन की तीसरी शताब्दी में हुआ. अतः मूल रचना ई० सन की दूसरी या पहली शताब्दी की भी कही जा सकती है. एन० दत्त : सद्धर्मपुण्डरीक, प्रस्तावना, पृ० XVII.
7. जैन : 'लाइफ एज डिपिक्टेड इन दि जैन कैनन्स', पृ० 38. इस पुस्तक में शकों, यवनों, मरुंडों, पह्लवों आदि का उल्लेख हुआ है (I, 58), जिससे मालूम पड़ता है कि यह ग्रंथ मौर्योत्तर काल की रचना है.
8. हाजरा : 'स्टडीज इन दि पुराणिक रेकर्ड्स आन हिंदू राइट्स ऐंड कस्टम्स', पृ० 208-10.
9. मनु, VII.13-30.
10. वही, I.91.
11. वही, VIII.410.
12. वही, X. 123; तुलनीय IX. 334.
13. वही, X.121-2; धमिनं वाप्युपराध्य वैश्यं शूद्रो जिजीविषेत्.
14. हापकिंस : 'दि म्युचुअल रिलेशंस आफ दि फोर कास्ट्स एकार्डिंग द मानव धर्मशास्त्र', पृ० 83.
15. मनु, VIII. 418.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

16. युग पुराण, पृ० 167.
17. कुल्लूक ने मनु, VII.154 में आए 'पञ्चवर्गम्' शब्द का अर्थ पांच प्रकार का गुप्तचर किया है, जिसके अंतर्गत 'कर्षकः क्षीणवृत्तिः' और 'वाणिजकः क्षीणवृत्तिः' भी हैं. हापकिंस : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 69; हापकिंस ने इस शब्द का अर्थ मन्त्री, साम्राज्य, नगर, संपत्ति और सेना किया है, किंतु पंचवर्ग को राज्य के पांच तत्व मानना, जो सामान्यतया सात माने जाते हैं, उचित नहीं जंचता.
18. मनु, II.24.
19. वही, X.98.
20. मिलिंद, पृ० 178, अवसेसानं पुथुवेस्सुद्दानं कसिवणिज्जा गोरक्खा करणीया.
21. मनु, VII.138.
22. वही, X.120.
23. मनु० की टीका, X.120, न तु तेभ्य आपद्यपि करो ग्राह्यः.
24. मिलिंद, पृ० 147.
25. मनुस्मृति की टीका, VII. 154. हापकिंस : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 70-71; हापकिंस की राय है कि अष्टविधम् कर्म हमें राज्य के सात तत्वों की याद दिलाता है, किंतु अष्टविध कर्म और सप्तांग में कोई साम्य नहीं है.
26. महावस्तु, I, पृ० 301.
27. महाभाष्य, II, पृ० 33.
28. मनुस्मृति, VIII.243,... भृत्यानामज्ञानात्क्षेत्रिकस्य तु.
29. वही, IX.150.
30. वही, X.99 और 100.
31. लूडर्स लिस्ट, सं० 53, 54, 68, 76, 95, 331, 345, 381, 495, 857, 986, 1006, 1032, 1051, 1061, 1177, 1203-4, 1210, 1230, 1273, 1298. तुलनीय, (इंडियन कल्चर, कलकत्ता, XII), पृ० 83-85.
32. वही, सं० 32, 53-4, 345, 857, 1005, 1092, 1129.
33. धर्मकोश I, भाग III, पृ० 1927; व्याख्यासंग्रह, स्तेयप्रकरण, पृ० 1727-8.
34. महाभाष्य, I, पृ० 19.
35. लूडर्स लिस्ट, सं० 346.
36. महावस्तु, II, पृ० 463-78.
37. वही, III, पृ० 442 एवं आगे.
38. वही, II, पृ० 463-78 और III, पृ० 442 एवं आगे, के आधार पर संगणित. इनमें से बहुत से कारीगर छोटे-मोटे व्यापारी थे.
39. (इंडियन कल्चर, कलकत्ता, XIV), पृ० 31-32.
40. 'पतंजलि आन पाणिनीज ग्रामर', II. 1.1.
41. महावस्तु, III, पृ० 442-3.
42. वही.
43. मिलिंद, पृ० 331.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

44. पन्नवणा, I, 61.
45. दीघ निकाय, II, 50.
46. मिलिंद, पृ० 331; सुवन्न, सज्झ, सीस, तिपु, लोह, वट्ट, अय, मणिकार.
47. पन्नवणा, I, 61.
48. मिलिंद, पृ० 331.
49. 'पतंजलि ग्रान पाणिनीज ग्रामर', I.4.54.
50. 'पतंजलि आन पाणिनीज ग्रामर', III.1.26; तथा यदेतद्दास कर्मकरं नामेतेपि स्वभूत्यर्थमेव प्रवर्त्तन्ते भवतं चेलम् च लक्ष्यामहे.
51. वसिष्ठ धर्मसूत्र, II.48 में आया इसी प्रकार का एक नियम बाद में अंतर्विष्ट किया गया मालूम पड़ता है, क्योंकि यह अन्य तीन धर्मसूत्रों में नहीं मिलता है.
52. मनुस्मृति, VIII.142. विष्णु के समानांतर अनुच्छेद (VI.2) की जो टीका कृष्ण-पंडित तथा अन्य टीकाकारों ने की है उसके अनुसार तथा मनुस्मृति और अन्य स्मृतियों के अनुसार यह नियम वैसे ही ऋणों पर लागू होता है जिसके लिए कोई प्रतिभूति नहीं दी जाती थी. बुहलर : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 15.
53. लूडर्स लिस्ट, सं० 1133.
54. के० वी० रंगस्वामी अय्यंगर : 'आस्पेक्ट्स आफ दि पोलिटिकल ऐंड सोशल सिस्टम आफ मनु', पृ० 148.
55. मनुस्मृति, X.129.
56. के० वी० रंगस्वामी अय्यंगर : धर्मशास्त्र, पृ० 120.
57. केतकर : 'हिस्ट्री आफ कास्ट', पृ० 98.
58. मनुस्मृति, IX. 157.
59. वही, XI.34.
60. वही, VIII.179.
61. लूडर्स लिस्ट, सं० 1137.
62 वही, सं० 1133.
63. (एपिग्राफिया इंडिका, कलकत्ता और दिल्ली, XXI), इंसक्रिप्शन नं० 10, प्रयुक्त शब्द है 'समितकर श्रेणी'. वही, पंक्ति 12.
64. मनुस्मृति, VIII. 417.
65. जायसवाल : 'मनु ऐंड याज्ञवल्क्य', पृ० 171.
66. मनुस्मृति, XI.18.
67. वही, XI.13.
68. वही, VIII.231.
69. कौटिल्य ने चरवाहे के लिए दूध का केवल 10 वां हिस्सा रखा है, किंतु यह नहीं बताया है कि उसे सबसे अच्छी गाय दूहनी चाहिए.
70. मनु, VIII. 229-44.
71. वही, VIII. 237-8.
72. वही, X. 124.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

73. वही, X.125.
74. वही, VII.125.
75. वही, VII.126.
76. वही.
77. नीचे देखें, पृ० 191-2.
78. 'पतंजलि आन पाणिनीज ग्रामर', I.3.72.
79. वी० एस० अग्रवाल : 'इंडिया एज नोन टु पाणिनि', पृ० 236-7.
80. ऊपर देखें, पृ० 155.
81. मनुस्मृति, VIII.215.
82. वही, VIII.216.
83. वही, VIII.217.
84. वही, VI.145.
85. कोवेल और नील : 'दिव्यावदान', पृ० 304.
86. सद्धर्मपुंडरीक, अध्याय IV, पृ० 76.
87. वही, IV. पृ० 78···कटपलिकुंचिकायां. 'सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट', में दिया गया इस वाक्य खंड का अनुवाद सही मालूम पड़ता है. यह एडगर्टन की 'बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत डिक्शनरी' में नहीं आया है.
88. 'पतंजलि आन पाणिनीज ग्रामर', I.2.47 और VI.3.61, कुड्यीभूतं वृषलकुलभित्ति.
89. 'कुडी' शब्द 'कुटी' शब्द का गलत पाठ है. (मोनियर विलियम्स : संस्कृत इंगलिश डिक्शनरी), और कुड्यी कुडी का एक रूप हो सकता है.
90. दिव्यावदान, पृ० 304; स्फटित पुरुषा रुक्षकेशा मलिनंवस्त्रनिवसना:. एडगर्टन को संदेह है कि 'पुरुषा' शब्द शुद्ध है और उन्होंने पुरुषा की जगह 'परुषा' शब्द का सुझाव दिया है (देखें, 'स्फटित बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत डिक्शनरी), किंतु वर्तमान पाठ से अधिक अच्छा अर्थ निकलता है.
91. दिव्यावदान, पृ० 304.
92. मनुस्मृति, X. 124.
93. वही, X.125; तुलनीय V.140.
94. मिलिंद, पृ० 68.
95. मनुस्मृति, IV.61, न शूद्र राज्ये निवसेत्.
96. वही, X.43-44, वृषलत्वं गता लोके···.
97. मत्स्य पुराण, 144.43a; ब्रह्मांड पुराण, II, 31.67b; वायु पुराण, 58.67a में गलत पाठ 'नाश्वमेघेन' है जो ब्रह्मांड पुराण के 'चाश्वमेघेन' के स्थान में आया है. हाजरा : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 206, पाद टिप्पणी 59.
98. कूर्म पुराण, अध्याय 30, पृ० 304.
99. विष्णु पुराण, IV.25.19.
100. ब्रह्मांड पुराण, II, 31.41, राजानः शूद्रभूयिष्ठाः पाखण्डानां प्रवर्त्तकाः.
101. मनुस्मृति, V.84.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

102. मिलिंद, पृ० 358.
103. मनुस्मृति, VII.54.
104. वही, VIII.21.
105. वही, VIII.20.
106. कुल्लूक, 'राघवानंद ऐंड नंदन आन मनु', VIII.20.
107. मनुस्मृति, IX.322.
108. वही, VIII.68.
109. वही, VIII.62.
110. 'कुल्लूक आन मनु', VIII.62.
111. मनुस्मृति, VIII.62 और 69, कुल्लूक की टीका सहित.
112. वही, VIII.70.
113. वही, VIII.254.
114. वही, VIII.65.
115. 'कुल्लूक आन मनु', VIII.65.
116. मनुस्मृति, VIII.66, कुल्लूक की टीका सहित; अध्यधीन की व्याख्या गर्भदास (वही) के रूप में की गई है.
117. वही, VIII 88.
118. वही.
119. संभवतः मनुस्मृति (VIII.89-101) में न्यायाधीश द्वारा किए गए तमाम उपदेश शूद्र गवाह को संबोधित हैं.
120. मनुस्मृति, VIII.113.
121. वही, VIII.123.
122. वही, VIII.124-5.
123. वही, VIII.24.
124. वही, VIII.41.
125. वही, II.6.
126. के० वी० रंगस्वामी अय्यंगर : 'राजधर्म', पृ० 155-6.
127. मनुस्मृति, VIII.267.
128. वही, VIII.268.
129. गौतम धर्मसूत्र, XII.13.
130. मनुस्मृति, VIII. 270.
131. वही, VIII.277.
132. वही, VIII.271. 'द्विजाति' शब्द की व्याख्या कुल्लूक ने 'ब्राह्मण और अन्य' की है, किंतु संभवतया यह शब्द केवल ब्राह्मणों के लिए प्रयुक्त हुआ है.
133. मनुस्मृति, VIII.272.
134. जायसवाल : 'मनु ऐंड याज्ञवल्क्य', पृ० 150.
135. के० वी० रंगस्वामी अय्यंगर : 'आस्पेक्ट्स आफ दि पोलिटिकल ऐंड सोशल सिस्टम

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

आफ मनु', पृ० 132.

136. वैशम : 'वंडर दैट वाज इंडिया', पृ० 80.

137. मनुस्मृति, VIII.279

138. 'कुल्लूक आन मनु', VIII.279.

139. गौतम धर्मसूत्र, XII.1; यह नियम अर्थशास्त्र में भी आया है.

140. बुहलर : पूर्व निर्दिष्ट, XXV. 303.

141. मनुस्मृति, VIII.280.

142. वही, VIII.281.

143. 'कुल्लूक आन मनु', VIII.28. मेधा० और गोविंदराज कुल्लूक से सहमत हैं. (बुहलर : पूर्व निर्दिष्ट, XXV. 303).

144. मनुस्मृति, VIII. 282.

145. वही, VIII. 283.

146. वही, IX. 248.

147. 'कुल्लूक आन मनु', IX.248.

148. महावस्तु, I, 18. सेनार्ट ने 'हस्तिनिगडादिभिः' शब्द माना है, किंतु बेली इसे हदियो पढ़ते हैं जो पाठ दिव्यावदान, पृ० 365 और 435 में बेड़ी के अर्थ में आया है (सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, XVI, 15, पाद टिप्पणी 2). मैथिली में 'हरहीगोरही' शब्द काठ की बेड़ी के अर्थ में प्रयुक्त होता है.

149. सद्धर्मपुण्डरीक, पृ० 289.

150. मनुस्मृति, VIII. 284.

151. बुहलर : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 304.

152. मनुस्मृति, XI. 127; तुलनीय 129-131.

153. वही, XI. 128-31.

154. वही, XI. 131.

155. मनु, XI.132, 141. यह नियम मनु और अन्य विधिनिर्माताओं द्वारा विहित धर्म और धर्मनिरपेक्ष दंडों के बीच विषमता का संकेत देता है, क्योंकि किसी शूद्र की हत्या करने पर धर्मनिरपेक्ष विधि में दस गाय और एक सांड़ के वैरदेय का दंड विहित किया गया है.

156. मनुस्मृति, VIII.104-5.

157. वही, XI.67.

158. वही, VIII.337-38.

159. वही, IX.151-154.

160. वही, IX.155.

161. वही, IX.160.

162. वही, IX.157.

163. वही, VIII.40.

164. वही, VIII.385.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

165. वही, VIII.383.
166. वही, XI.179.
167. मनुस्मृति, VIII.359.
168. वही, VIII.361-2.
169. वही, VIII.363.
170. वही.
171. जायसवाल : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 167-8.
172. मनुस्मृति, VIII.374.
173. वही, VIII.375-6.
174. वही, VIII.377.
175. अर्थशास्त्र, IV.13.
176. वसिष्ठ धर्मसूत्र, XXI.2-3.
177. मनुस्मृति, VIII.359 कुल्लूक की टीका सहित. प्रयुक्त शब्द 'अब्राह्मण' है, जिसका अर्थ कुल्लूक ने शूद्र किया है.
178. वही, VIII. 413, शूद्रंतु कारयेद्दास्यं क्रीतमक्रीतमेव वा; दास्यायेव हि सृष्टोऽसो ब्राह्मणस्य स्वयम्भुवा.
179. वही, VIII.414, न स्वामिना निसृष्टोऽपि शूद्रो दास्याद्विमुच्यते; निसर्गजं हि तत्तस्य कस्तस्मात् तमपोहति. मेधातिथि ने इसे अतिरंजना अर्थात अर्थवाद माना है, किंतु इस बात से संभवतया मनु की अपेक्षा टीकाकार के समय की स्थितियों का अधिक परिचय मिलता है.
180. वही, VIII.412.
181. अर्थशास्त्र, III.13.
182. जी० एफ० इलयिन ने इस प्रश्न पर विस्तारपूर्वक विचार किया है, 'शूद्राज उंड स्क्लेवन इन डेन एलटिण्डिश्चेन गेसेत्स बुकरेन' (सोनेत्विस्सेनसेपट गेजेलशेफ्टस्विसेनशेफ्टलिशे एब्टाइलुंग, 1952, सं० 2), पृ० 105-108. देखें, सेनार्ट : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 103.
183. मनुस्मृति, IX.179, दास्यां वा दासदास्यां वा यः शूद्रस्य सुतो भवेत.
184. वही.
185. वही, VIII.167, यहां 'अध्यधीन' शब्द का अर्थ कुल्लूक ने दास किया है.
186. वही VIII.199.
187. वही, IV. 180.
188. वही, IV.184.
189. वही IV.185.
190. नैतत्तेषां दासे वा भवति कर्मकरे वा. 'पतंजलि आन पाणिनीज ग्रामर', IV.1.168. तुलनीय 'काशिका आन पाणिनि', V.3.114. इदं तर्हि क्षौद्रकाणामपत्यं, मालवानामपत्य-मिति. अत्रापि क्षौद्रक्य : मालव्य इति.
191. दिजावर कुटूब विवधनस ··विनिवतित चातुवण संकरस, वासिष्ठीपुत्र पुलुमावि का नासिक गुफा उत्कीर्ण-लेख, उ० ले० 5-6. डी० सी० सरकार : 'सिलेक्ट इंसक्रिप्शंस', I, 197.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

192 वही.

193. मनुस्मृति, I.31.

194. वही, II 127.

195. वही, II.126.

196. 'पतंजलि आन पाणिनीज ग्रामर', VIII.2.82-83. भो राजन्यविशां वा.

197. मनुस्मृति, II.137. तुलनीय गौतम, जो घोषित करते हैं कि अस्सी वर्ष की अवस्था हो जाने पर शूद्र आदर का पात्र हो जाता है.

198. मनुस्मृति, II.31.

199. मनुस्मृति, II.32. शर्मवद्ब्राह्मणस्य स्याद्राज्ञो रक्षासमन्वितम्, वैश्यस्यपुष्टिसंयुक्तं शूद्रस्य प्रेष्यसंयुक्तम्. कुल्लूक ने टीका की है कि ये उपाधियां क्रमशः शर्मन्, वर्मन्, भूति और दास होनी चाहिए.

200. 'पतंजलि आन पाणिनीज ग्रामर', VI.2.11.

201. वही, II.2.11 और III.2.127.

202. वही, V.3.66; तुलनीय वही, III.1.107-8.

203. मनुस्मृति, IV.245.

204. वही, IV.140. किंतु उन्होंने शूद्र के स्थान में वृषल शब्द का प्रयोग किया है.

205. वही, III 112.

206. वही, IV.211.

207. वही, IV.215-16.

208 वही, IV.218.

209. मनुस्मृति, IV.219, कारुकान्नं प्रजां हन्ति बलं निर्णेजकस्य च; गणान्नं गणिकान्नं च लोकेभ्यः परिकृन्तति.

210. वही, IV.222.

211. वही, IV.223.

212. वही, X.106-8.

213. वही, X.108.

214 मूल ग्रंथ में संबंधवाचक सर्वनाम नहीं आया है, किंतु कुल्लूक ने इस अनुच्छेद का अर्थ लगाया है कि यह केवल किसी के अपने सेवकों पर लागू होता है. यह मनु की भावना के अधिक निकट मालूम पड़ता है, बनिस्बत इसके कि इसका अर्थ किया जाए सभी बटाईदार, आदि. मनुस्मृति, IV. 253. 'सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट', XXV.168 में 'आधिक' शब्द का अनुवाद 'लेबरर इन टिलेज' (जोतदार श्रमिक) गलत हुआ है. पतंजलि के महाभाष्य में चरवाहे को 'आभीर' बताया गया है.

215. 'पतजलि आन पाणिनीज ग्रामर', II.4.10.

216. मनुस्मृति, XI.153.

217. वही, XI.149, कुल्लूक की टिप्पणी सहित.

218. वही, XI.156.

219. वही, X 157.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

220. वही, X.126.
राघवानंद ने इसके साथ 'कसाईखाना रखना' भी शामिल किया है.
221. वही. III.24.
222. वही, III.23.
223. आदिपर्व, अध्याय 67.11.
224. मनुस्मृति, III.25.
225. मनुस्मृति, III.25 पर टीका, कुल्लूक यह भी कहते हैं कि राक्षस पद्धति से विवाह वैश्यों और शूद्रों के लिए भी विहित किया गया है.
226. मनुस्मृति, IX.196-7 कुल्लूक की टीका सहित.
227. वही, IX.65.
228. वसिष्ठ धर्मसूत्र, I.25.
229. मनुस्मृति, IX.66, अयं द्विजैर्हि विद्वद्भिः पशुधर्मो विगर्हितः.
230. जाली : 'हिंदू ला ऐंड कस्टम', पृ० 155.
231. मनुस्मृति, III.13.
232. वही, IX.85.
233. वही. III.14.
234. 'पतंजलि आन पाणिनीज ग्रामर', II.3.69 और I.2.43.
235. मनुस्मृति, III.15.
236. मनुस्मृति की टीका, III.15.
237. मनुस्मृति, III.16 कुल्लूक की टीका सहित.
238. मनुस्मृति, III.17.
239. वही, III.64.
240. वही, IX.178.
241. वही, III.19.
242. वही, III.17-19.
243. 'पतंजलि आन पाणिनीज ग्रामर', IV.2.104; 'जूनागढ़ राक इंसक्रिप्शंस आफ रुद्रदामन्', I, I.11; सरकार, 'सिलेक्ट इंसक्रिप्शंस', I, 172. इस काल में भी हम निषादों के देश के बारे में सुनते हैं.
244. मनुस्मृति (XII.55) में बताया गया है कि ब्राह्मण की हत्या करने वाला चंडाल या पुक्कस के गर्भ में उद्भूत होगा.
245. मनुस्मृति, X, 8-9, 12, 16, 18, 19. इस समय तक कुछ पुरानी जातियां आनुवंशिक बन चुकी थीं, क्योंकि हमें निषादों और चंडालों के बेटों की सूचना मिलती है. (पतंजलि आन पाणिनीज ग्रामर, IV.1.97).
246. मनुस्मृति, X.15.
247. वही, X, 33-34.
248. वही, X.37.
249. वही, X.36.

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

250. वही, X. 39.
251. वही, X.26-29.
252. मनुस्मृति, X.31, प्रतिकूलं वर्तमाना बाह्या बाह्यतरानपुनः; हीना हीनान्प्रसूयन्ते वर्णान् पंचदशैव च. अपनी टीका में कुल्लूक ने यह बताने का प्रयास किया है कि ऐसी कुल जातियां तीस थीं. हो सकता है कि यह बाद की बात हो.
253. वही, X.40.
254. वही, X.56.39; तुलनीय महावस्तु, II. 73.
255. मनुस्मृति, X.48.
256. वही, X. 49.
257. वही, X.48.
258. मनुस्मृति, X.36, 49. प्रसंगवश इससे पता चलता है कि तीन कोटियों के लोगों, यथा, चर्मकार, धिग्वण और कारावर के लिए चमड़े का काम महत्वपूर्ण शिल्प बन गया था.
259. वही, X 37.
260. वही, X.34.
261. वही, X 49.
262. वही, X.32.
263. वही, X.33.
264. कर्न : 'सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट', XXI, 438. इस शब्द का अनुवाद जो बकरी का मांस बेचने वाले कसाई के रूप में किया गया है, वह उपयुक्त नहीं मालूम पड़ता है.
265. सद्धर्मपुंडरीक, पृ० 180-1, 311-2; इस सूची में आजीविक, निर्ग्रंथ और लोकायतिक भी सम्मिलित हैं. देखें बोस : पूर्व निर्दिष्ट, II, 463-4. गोवधिक और उसके शिष्य-सहायक का उल्लेख 'महावस्तु', II, 125 में किया गया है.
266. मनुस्मृति, X.49-50.
267. वही, बालचरित, II.5; अविमारक, VI, 5-6. पुसलकर : 'भास—ए स्टडी', पृ० 358 और 391.
268. मनुस्मृति, X 54-55.
269. वही, X 55,…चिह्निता राजशासनैः.
270 बुहलर : 'सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट', XXV.415, पाद टिप्पणी 55; बोस : पूर्व निर्दिष्ट, II, पृ० 437. मेधातिथि इन चिह्नों को कुल्हाड़ी, बसूला आदि के रूप में देखते हैं, जिनका प्रयोग अपराधियों का वध करने में किया जाता था और जिन्हें कंधे पर ढोया जाता था. गोविंदराज उन्हें 'छड़ी आदि' बताते हैं और सर्वज्ञनारायण उन्हें लोहे का गहना, मोर के पंख, आदि बताते हैं.
271. मनुस्मृति, X, 53-54; कुल्लूक का कथन है कि यह नौकरों के माध्यम से करना चाहिए.
272. वही, IV.79.
273. वही, III.239.
274. वही, II.276.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

275. वही, X. 4.
276. वही, VIII. 279.
277. वही, IV. 6. बाद के ग्रंथों के अनुसार 'ग्रंत्यज' शब्द से रजक, कर्मकार, नट, बुरुद, कैवर्त्त, भिल्ल और मेद का बोध होता है. के० वी० रंगस्वामी अय्यंगर ने 'सम एस्पेक्ट्स आफ दि हिंदू व्यू आफ लाइफ अकार्डिंग टु धर्मशास्त्र', पृ० 115-6 में पराशर और ग्रत्रि को उद्धृत किया है.
278. मनुस्मृति, X. 29-31. मेधातिथि, गोविंदराज और कुल्लूक की टीका.
279. मनुस्मृति, VIII. 385.
280. 'पतंजलि आन पाणिनीज ग्रामर', II. 4. 10; येर्भुक्ते पात्रं संस्कारेणापि न शुध्यति ते निरवसिता:.
281. मनुस्मृति, X. 51.
282. महावस्तु, I. 188; ब्राह्मण और शूद्र शब्दों का प्रयोग 'महावस्तु' की पूरी आबादी का बोध कराने के लिए किया गया है.
283. 'पतंजलि आन पाणिनीज ग्रामर', II. 2. 8. 11.
284. वही, II. 2. 11.
285. वही, I. 3. 55.
286. भंडारकर : 'सम आस्पेक्ट्स ग्राफ एनशिएंट इंडियन कल्चर', पृ० 51 और 54.
287. मनुस्मृति, IV. 140.
288. वही, III. 19.
289. एस० के० बोस : (इंडियन कल्चर, कलकत्ता, II), पृ० 596-7.
290. 'पतंजलि आन पाणिनीज ग्रामर', II. 3. 69 और I. 2. 48.
291. वही, I. 2. 47 और VI. 3. 61.
292. मनुस्मृति, II. 165.
293. वही, X. 4.
294. वही, II. 169-70.
295. वही, II. 163. देखें, II. 172, X. 110. बताया गया है कि लड़कियों और शूद्रों का 'उपनयन' औपचारिक समारोह के बिना ही किया जाता था. रंगस्वामी अय्यंगर : 'पोलिटिकल ऐंड सोशल आस्पेक्ट्स आफ दि सिस्टम आफ मनुस्मृति', पृ० 145. किंतु इसके लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता.
296. मनुस्मृति, IV. 99 और 108.
297. वही, III. 156.
298. वही, II. 109.
299. वही, IV. 80.
300. वही, IV. 81.
301. 'पतंजलि आन पाणिनीज ग्रामर', IV. 1. 93.
302. मनुस्मृति, X. 126.
303. वही, IX. 86.

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

304. वही, IX. 87.
305. वही, XI. 24.
306. वही, XI. 42-43.
307. वही, X. 126.
308. प्रतिमा, III. 5.
309. मनुस्मृति, X. 127.
310. वही, III. 196-198. मनुस्मृति, VIII. 140 में वसिष्ठ को विधिनिर्माता कहा गया है और मनुस्मृति, I. 35 में उन्हें दस प्रजापतियों में से एक कहा गया है.
311. वही, X. 63.
312. वही, XI. 224.
313. 'पतंजलि आन पाणिनीज ग्रामर' II. 1. वही, V. 139, पतंजलि दास और भार्या को एक ही कोटि में रखते हैं.
314. मनुस्मृति, V. 140.
315. वही, V. 83.
316. वही, V. 99.
317. वही, V. 104.
318. हाजरा : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 208-10.
319. कूर्म पुराण, अध्याय 30, पृ० 304-5.
320. मत्स्य पुराण, अध्याय 272. 46-7 एवं आगे.
321. वायु पुराण, अध्याय 58. 38-49. ब्रह्मांड पुराण, भाग II, अध्याय 31. 39-49.
322 हाजरा : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 178.
323. वही, प० 174-5. इन पुराणों में कलियुग से संबंधित वर्णन वाले अंश को हाजरा ने ई० सन 200-275 का माना है.
324. (एपिग्राफिया इंडिका, कलकत्ता और दिल्ली, VIII), उत्कीर्ण लेख, सं० 15, I. 10; कलियुग दोषावसन्न-धर्म उद्धरण-नित्य सन्नद्धस्य.
325. पार्जिटर का विचार है कि कलियुग भारतयुद्ध के समय से प्रारंभ होता है, किंतु एक युग के अंत में (युगान्ते) कलियुग के पापों का वर्णन प्रायः उस दुर्व्यवस्थापूर्ण काल का संकेत करता है जो मौर्य साम्राज्य के पतन और गुप्त साम्राज्य के उत्थान के बीच आता है.
326. जायसवाल : 'हिस्ट्री आफ इंडिया' (ई० सन 150-350), पृ० 151-2.
327. वही, पृ० 46. युग पुराण, 95 एवं आगे. युग पुराण में जो चित्र खींचा गया है, वह ग्रीक विजय के परिणाम के लिए अभिप्रेत है, इसके बारे में टार्न को संदेह है. टार्न : 'दि ग्रीक्स इन बैक्ट्रिया ऐंड इंडिया' पृ० 456.
328. हिब्रू पैगंबरों ने असीरिया के पतन का वर्णन करने में इसी तरह की साहित्यिक शैली अपनाई थी.
329. मनुस्मृति, VIII. 418.
330. वही, X. 61.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

331. वही, XII. 72.
332. वही, IX. 337.
333. वही, VII. 69. कहा गया है कि देश को अनाविलम् होना चाहिए. टीकाकारों (नारद स्मृति और नंद०) ने इस शब्द का अर्थ लगाया है, जातियों के मिश्रण जैसे दूषणों से मुक्त (सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, XXV. 227).
334 टीकाकारों की ये व्याख्याएं कि इनसे शूद्र न्यायाधीशों या प्रशासी अधिकारियों की प्रमुखता का संकेत मिलता है, निराधार मालूम पड़ती हैं.
335. मनुस्मृति, IX. 253.
336. वही, IX. 260.
337. वही, X. 57-8.
338. मनुस्मृति, VIII. 348. शस्त्रं द्विजातिभिर्ग्राह्यं धर्मो यत्रोपरुद्धयते द्विजातीनां च वर्णानां विप्लवे कालकारिते. वसिष्ठ धर्मसूत्र में भी इस विधान की चर्चा है, किंतु इतने स्पष्ट शब्दों में नहीं (III. 24. 25).
339. पाटिल : 'कल्चरल लाइफ फ्राम दि वायु पुराण' पृ० 74-75 में उद्धृत. लेखक का विचार है कि यह वर्णन गुप्तकाल के पहले कि ईस्वी सन की आरंभिक शताब्दियों का है, (पृ० 128).
340. मनुस्मृति, VIII. 16. वृषो हि भगवान् धर्मस्तस्य यः कुरुते ह्यलम् वृषलं तं विदुर्देवास्तस्माद्धर्म न लोपयेत्. शांतिपर्व में भी यह विधान दुहराया गया है, किंतु प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं है.
341. जायसवाल : 'मनु ऐंड याज्ञवल्क्य', पृ० 91-92.
342. विष्णुपुराण, VI. 1. 36.
343. वही, VI. 1.51. शूद्रप्रायास्तथा वर्णा भविष्यन्ति कलौ युगे.
344. मनुस्मृति, XII. 46-8.
345. वही, XII. 43.
346. हापकिंस : 'म्युचुअल रिलेशंस आफ दि फोर कास्ट्स इन मनु', पृ० 78, तुलनीय, पृ० 82.
347. के० वी० रंगस्वामी अय्यंगर : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 151-2. उन्होंने स्वीकार किया है कि कभी कभी 'नीतिशास्त्रों' ने 'लखपतियों की खिल्ली उड़ाई है', (पृ० 159).
348. मनुस्मृति, X. 129.
349. वही, IV. 253.
350. अर्थशास्त्र, II. 23; मनुस्मृति, IV. 253. 'अर्थशास्त्र' में बटाईदारों को राज्य से जमीन मिलने की व्यवस्था है, किंतु मनु में इन्हें व्यक्ति विशेष से जमीन मिलती है.
351. मनु, VII. 119. यहां हमें सामंतवाद का महत्वपूर्ण आभास मिलता है.
352. के० वी० रंगस्वामी अय्यंगर : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 108.
353. कोसंबी : जर्नल आफ दि अमेरिकन ओरिएंटल सोसायटी', (बाल्टीमोर, LXXV), पृ० 41.
354. स्वतंत्र हस्तशिल्पों का प्रचलन सामान्यतया मध्यकालीन यूरोप के सामंतवादी समाज की महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है.

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

355. रुद्रदामन का जूनागढ़ का शिलालेख (राक इंसक्रिप्शन) I, I. 9.

356. वही, I. 16.

357. वरमिंगटन : 'दि कामर्स बिट्वीन दि रोमन एम्पायर ऐंड इंडिया', पुस्तक में इस समस्या पर विचार किया गया है. हाल के पुरातात्विक प्रमाण के लिए देखें, ह्वीलर : 'रोम बियांड दि इंपीरियल फ्रंटियर्स', अध्याय 12-13.

358. ह्वीलर : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 151. टालेमी ने समुद्र के किनारे के सोलह नगरों को वाणिज्य केंद्र बताया है.

359. मनुस्मृति, VIII. 268.

360. वासिष्ठीपुत्र पुलुमावि का नासिक गुफा-उत्कीर्ण लेख, II. 5-6 (डी० सी० सरकार, सिलेक्ट इंसक्रिप्शंस, I, 197).

361. मनुस्मृति, III. 196-198.

362. वही, II. 30-1.

363. विष्णु पुराण, IV. 24. 21-24; ततश्चार्थं एवाभिजनहेतुर धनमेवाशेषधर्मंहेतु···· दानमेव धर्महेतुः आढ्यतैव साधुत्वहेतुः. तुलनीय युग पुराण, 95-112.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

रूपांतरण की प्रक्रिया

(लगभग दो सौ-पांच सौ ई० सन)

इस काल में शूद्रों की स्थिति के अध्ययन के लिए मुख्य स्रोत हैं विष्णु, याज्ञवल्क्य, नारद, वृहस्पति और कात्यायन की स्मृतियां।[1] इनमें याज्ञवल्क्य स्मृति सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होती है क्योंकि बाद में चलकर उत्तर भारत में यही प्रमाण के रूप में अपनाई गई। गुप्तकाल में हुए सामाजिक विकासक्रम जिस वास्तविकता के साथ इसके प्रावधानों में प्रतिफलित हुए हैं, वह शायद अन्य किसी भी स्मृति में नहीं। इस स्मृति में शूद्रों के विरुद्ध मनुस्मृति में किए गए अतिवादी प्रावधानों को या तो खंडित कर दिया गया है या उनकी अवहेलना कर दी गई है और इसमें ब्राह्मणों के लिए भी दागने (अंकन), और देश से निकालने (निष्कासन) का दंड विहित किया गया है।[2]

कौन स्मृतिकार किस क्षेत्र के थे, इस विषय में हम अनुमान मात्र कर सकते हैं। याज्ञवल्क्य संभवतया मिथिला के थे।[3] नारद नेपाल के प्रतीत होते हैं।[4] अन्य स्मृतिकार भी उत्तर भारत के रहने वाले हो सकते हैं, क्योंकि उनकी स्मृतियों में जैसी स्थितियां चित्रित हैं वैसी मुख्यतया उत्तर भारत में ही पाई जाती हैं।

इन स्मृतियों में धर्मसूत्रों के वचन का विस्तार किया गया है और बहुधा मनु के श्लोक उतारे गए हैं।[5] नई जानकारी केवल पाठांतरों से निकाली जा सकती हैं, जिनका प्रत्यक्ष संबंध हमारे आलोच्य विषय से हमेशा नहीं है। पर प्रायश्चित-कांड और संस्कारकांड कहीं कहीं विस्तार से दिए गए हैं; उनसे शूद्रों की धार्मिक अवस्था का पता चलता है।

स्मृतियों में लक्षित तथ्य कभी कभी महाभारत और पुराणों के स्मृतिप्रकरणों से अनुसमर्थित और अनुपूरित होते हैं। हापकिंस का मत है कि महाभारत का उपदेशात्मक अंश अधिकतर दो सौ ई० पू० और दो सौ ई० के बीच जोड़ा गया क्षेपक है।[6] यह बात शांतिपर्व के कई श्लोकों के विषय में सत्य प्रतीत होती है, क्योंकि वे ठीक वैसे ही मनु में भी मिलते हैं। हापकिंस की अपनी मान्यता है कि बढ़ता बढ़ता अनुशासनपर्व शांतिपर्व से अलग होकर दो सौ-चार सौ ई० के बीच पृथक पर्व के रूप में मान्य हुआ।[7] पुराणों में आए स्मृति अंश का कोई निर्देश

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

ईसा से पूर्व नहीं मिलता है।[8] विष्णु,[9] मार्कण्डेय,[10] भविष्य[11] और भागवत[12] पुराणों के वर्ण धर्म-संबंधी अध्याय मोटे तौर पर गुप्तकाल के माने जा सकते हैं।

इस काल के स्मृतिग्रंथों की एक खास विशिष्टता है वैष्णव मत की ओर झुकाव। यह विशेष रूप से विष्णु स्मृति, वृहस्पति स्मृति,[13] विष्णु पुराण[14] और मत्स्य पुराण[15] में लक्षित है। संभवतया कृष्ण की उपासना और वैष्णव मत के प्रभाव के कारण ही विचार में वह उदारता आई है, जो महागाथा काव्य महाभारत में व्यापक रूप से प्रतिफलित होती है।[16] जैसाकि आगे बताया जाएगा, वैष्णव भावना के उदय से शूद्रों के प्रति ब्राह्मणों के दृष्टिकोण में उदारता आई, और उन्हें धर्म के क्षेत्र में सीमित ही सही परंतु सुनिश्चित अधिकार मिले।

कालिदास और शूद्रक की कृतियों से जो जानकारी मिलती है, वह भी स्मृतियों की भावना के अनुरूप है। कालिदास ने वर्णाश्रम के आदर्श का प्रतिपादन किया है,[17] और यह बात शूद्रक के विषय में भी कही जा सकती है।[18]

शूद्रों की स्थिति के बारे में बौद्धग्रंथ लंकावतार सूत्र और वज्रसूची में भी कुछ जानकारी मिलती है। पहला ग्रंथ 443 ईस्वी के पूर्व संकलित किया गया है,[19] किंतु द्वितीय ग्रंथ की तिथि निश्चित नहीं है। यह मौर्योत्तर काल के कवि अश्वघोष की रचना नहीं प्रतीत होती है, क्योंकि चीनी यात्री इत्सिङ् ने इनकी कृतियों की जो सूची दी है उसमें इसका उल्लेख नहीं है।[20] 973-981 ई० के बीच किया गया इसका चीनी अनुवाद बौद्ध नैयायिक धर्मकीर्ति द्वारा किया गया बताया जाता है, जो सर्वथा संभव है कि पांचवीं शताब्दी ईस्वी में हुए थे।[21] वज्रसूची में मनुस्मृति के श्लोक उद्धृत हैं, जिससे इसका परवर्ती होना सिद्ध होता है। मुख्य मुख्य बौद्ध और जैन टीका ग्रंथों[22] में भी, जो संभवतया आलोच्य काल के हैं, हमारे अध्येय विषय की प्रासंगिक चर्चाएं आई हैं।

कामंदक नीतिसार, भरत के नाट्यशास्त्र,[23] वात्स्यायन के कामसूत्र,[24] अमरसिंह के अमरकोश, और वराहमिहिर की वृहत् संहिता,[25] जैसे तकनीकी ग्रंथों से भी इस काल में शूद्रों की स्थिति के विषय में काफी जानकारी मिलती है।

हयशीर्ष पंचरात्र और विष्णुधर्मोत्तर पुराण के प्रतिमाविज्ञान विषयक भागों से भी कुछ जानकारी प्राप्त होती है। पहला ग्रंथ तो गुप्तकाल में रचा गया प्रतीत होता है,[26] लेकिन दूसरा ग्रंथ गुप्तोत्तर काल में संकलित जान पड़ता है, और गौण साक्ष्य के रूप में उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

उत्कीर्ण लेखों में वर्ण के रूप में शूद्रों का उल्लेख नहीं है, किंतु करदायी किसानों और कारीगरों का बार बार उल्लेख हुआ है और कारीगरों के संघ की भी चर्चा है। इससे हमें शूद्रों की आर्थिक स्थिति में हुए परिवर्तनों का स्वरूप पता लगाने में सहायता मिलती है।

इसी काल में हमें यह सुपरिचित सूत्र वाक्य सुनने को मिलता है कि शूद्र का

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

कर्तव्य है अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना।[27] मनु की भांति ही यह दावा किया गया है कि शूद्र को विशेषतया ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए।[28] शांतिपर्व में एक राजा का दावा है कि उसके राज्य में शूद्र किसी विद्वेष के बिना सम्यक रूप से अन्य तीनों वर्णों की सेवा और परिचर्या करते हैं।[29]

अनुशासनपर्व में कहा गया है कि शूद्र मजदूर (कर्मकर) हैं,[30] और यदि शूद्र न हों तो मजदूर न होंगे।[31] इसमें संदेह नहीं कि शूद्रों का बहुत बड़ा भाग मजदूरी कमाता था, क्योंकि मजदूरी के ग्यारहों पर्याय अमरकोश में शूद्र वर्ग में आए हैं।[32] इसी तरह मजदूरों और सेवकों की विविध कोटियों के नाम भी इसी वर्ग में गिनाए गए हैं। इसमें भृत्यकों (वेतनार्जकों) के चार नाम हैं, वाहकों के दो नाम, कुलियों के दो नाम और भृत्यों के ग्यारह नाम हैं।[33]

नारद और बृहस्पति ने भृतकों को तीन कोटियों में रखा है, एक सेना में काम करने वाले, दूसरे कृषिकर्म करने वाले और तीसरे एक जगह से दूसरी जगह भार ढोकर ले जाने वाले।[34] इनमें प्रथम को उत्तम, द्वितीय को मध्यम और तृतीय को अधम कर्मकर माना गया है।[35]

यद्यपि कुली और वाहक अधम कोटि के मजदूर माने गए हैं, फिर भी श्रमिकों में उनका महत्व कम नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि उनके कर्म के बारे में बहुत से नियम इस काल के विधिग्रंथों में दिए गए हैं। वाहकों का नियोजन मुख्यतया सौदागर (वणिक) करते थे और ये वाहक सौंपे गए माल के लिए जवाबदेह होते थे, बशर्ते कि माल की हानि का कारण राजा और दैव (भाग्य) न हो।[36] विभिन्न अवस्थाओं में काम अधूरा छोड़ने के कारण उनके लिए विभिन्न दंडों का विधान है। नारद ने कहा है कि जो वाहक माल को लक्ष्यस्थान पर पहुंचाने का करार करके ढोने से इंकार कर दे, वह अपनी मजदूरी का छठा भाग हर्जाना देगा,[37] यदि वह सामान ले जाने का समय आ जाए तब इधर उधर करे तो उसे मजदूरी का दूना हर्जाना देना पड़ेगा।[38] याज्ञवल्क्य ने भी इस नियम का समर्थन किया है।[39] किंतु परवर्ती स्मृतिकारों के अन्य प्रावधानों के अनुसार यदि वाहक कार्य आरंभ करके बीच में ही छोड़ दे तो वह अपनी मजदूरी का सातवां हिस्सा चुकाएगा, और यदि आधा रास्ता जाकर छोड़े तो पूरी मजदूरी चुकाएगा।[40] नियोजक की ओर से करार भंग होने पर वाहक को मजदूरी चुकाने का नियोजक का दायित्व उतना कड़ा नहीं प्रतीत होता है। नारद ने कहा है कि यदि सौदागर भाड़ा तय करके गाड़ी या ढोर से काम न ले तो वाहक को भाड़े का चौथा हिस्सा दिलाया जाएगा, और यदि उसे रास्ते में छोड़ दे तो पूरा भाड़ा दिलाया जाएगा।[41] यह नियम भारवाही गाड़ी और पशु के मालिकों के लिए, और पूर्ण संभवतया उन वाहकों के लिए है जो स्वयं मालिक और चालक भी हैं, न कि उन मनुष्यों के लिए जो पशु की भांति स्वयं अपने ऊपर माल ढोते हैं। फिर भी इसका प्रतिस्थानी

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

नेपाली पाठ, जो शुद्ध पाठ माना जाता है,[42] बताता है कि यदि नियोजक की गलती से वाहक कार्य रोके तो वाहक को उतनी मजदूरी दिलाई जाए जितना काम उसने संपन्न किया हो।[43]

कृषि मजदूरों और चरवाहों को मिलने वाली मजदूरी के बारे में हमें कुछ जानकारी प्राप्त है। याज्ञवल्क्य, नारद और कात्यायन ने उन्हीं दरों को दुहराया है जिनका विधान कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किया गया है। इसके अनुसार कर्षक (कृषि मजदूर) को फसल का दसवां भाग, गोपालक (चरवाहे) को घी का दसवां भाग और पैकार के भारवाहक को बिक्री मूल्य का दसवां भाग वेतन मिलना चाहिए।[44] यह व्यवस्था परंपरागत प्रतीत होती है, और गुप्तकाल में मजदूरी में जो परिवर्तन हुए उनका विचार इसमें नहीं किया गया है। ये परिवर्तन शांतिपर्व और नारद एवं वृहस्पति की स्मृतियों में पाए जाने वाले पाठांतरीय वचनों से लक्षित होते हैं। गोपालक (चरवाहे) की मजदूरी के विषय में शांतिपर्व में कहा गया है कि यदि वह दूसरों के लिए छह गायों का पालन करता है तो उसे मजदूरी में एक गाय का दूध मिलना चाहिए।[45] यह भी कहा गया है कि एक सौ गायों के पालन के लिए गोपालक को एक जोड़ा पशु मिलना चाहिए।[46] नारद ने इससे कम मजदूरी बताई है। एक सौ गाय चराने के लिए प्रति वर्ष एक बछिया दी जाएगी, दो सौ गाय चराने के लिए एक धेनु (दुधार गाय) और दोनों दशाओं में चरवाहे को हर आठवें दिन सभी गायों का दूध दिया जाएगा।[47] नारद के इस वचन से उन्हीं का वह पूर्वोक्त वचन बहुत कुछ बाधित हो जाता है जिसमें चरवाहे के लिए घी का दसवां हिस्सा परंपरागत दर बताया गया है। समसामयिक जैन स्रोतों से ज्ञात होता है कि व्यवहार में इन नियमों का मोटे तौर पर ही पालन होता था। उदाहरणार्थ, एक चरवाहे की चर्चा आई है जिसे हर आठवें दिन गाय या भैंस का सारा दूध मिलता था।[48] एक दूसरे उदाहरण में पारिश्रमिक की दर इससे अधिक है; एक गोपालक को पारिश्रमिक के रूप में दूध का चौथा हिस्सा दिया गया था।[49] इससे प्रकट होता है कि चरवाहे की मजदूरी में निश्चित रूप से वृद्धि हुई। इतना ही नहीं, इस बात से कि मजदूरी में पशु दिया जाता था, पता चलता है कि अपेक्षाकृत चरवाहे की अपनी स्वतंत्र हैसियत भी थी, जिसका अपना घर होता था और चारे के लिए कुछ जमीन भी रहती थी।

कर्षकों के पारिश्रमिक की दरें शांतिपर्व और वृहस्पति स्मृति में उनसे अधिक विहित की गई हैं जो इस काल के आसपास के अन्य ग्रंथों में विहित हैं। यथा, शांतिपर्व के अनुसार यदि कर्षकों को बीज आदि दिए जाएं तो उन्हें उपज का सातवां भाग मिल सकता है।[50] वृहस्पति तो और भी उदार हैं। उनके अनुसार खेती के काम में लगाए गए मजदूरों (सीरवाहकों) को, यदि उन्हें अन्न और वस्त्र दिया गया हो तो, उपज का चौथाई भाग मिलेगा।[51] यदि अन्न और वस्त्र

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

दिए बिना उनसे काम कराया जाए तो उन्हें उपज का तीसरा भाग दिया जाना चाहिए।[52] स्पष्टतया ये नियम खेती के मजदूरों के लिए हैं, न कि ऐसे बटाईदारों के लिए जो खेती के लिए बीज, बैल और औजार अपनी ओर से लगाते हैं। यह युक्तिसंगत नहीं है कि यहां की सीर भूमि वही है जो कौटिल्य की सीता भूमि।[53] सीता राजा की भूमि होती थी, लेकिन सीर भूमि व्यक्ति विशेष के कब्जे में रहती थी जिसमें वह खेती के लिए मजदूरों को लगाता था।[54]

वृहस्पति द्वारा विहित पारिश्रमिक की दरों से विदित होता है कि गुप्तकाल के अंतिम भाग में कृषकों की मजदूरी दूनी हो गई। इतना ही नहीं यह तथ्य कि वे अन्न और वस्त्र के बिना काम करते थे, सूचित करता है कि एक नवीन कोटि के कर्षकों का उदय हुआ था जो अपना भरण पोषण आप करने के साधनों से संपन्न होते थे और इसलिए अपने नियोजकों पर कम आश्रित रहते थे। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि इस काल में पशुपालकों और कृषि मजदूरों के पारिश्रमिक में निश्चित रूप से वृद्धि हुई और इसके फलस्वरूप शूद्रों के एक विशाल वर्ग की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ।

भृत्यों (घरेलू चाकरों) की स्थिति के बारे में भी कुछ जानकारी मिलती है। कामसूत्र में कहा गया है कि भृत्यों को खाना-पीना के अलावा मासिक या वार्षिक वेतन मिलना चाहिए।[55] शांतिपर्व में जोर देकर कहा गया है कि शूद्र सेवकों का भरण-पोषण करना ऊपर के तीनों वर्णों का कर्तव्य है।[56] किंतु इसमें वही पुराना नियम दुहराया गया है कि द्विज अपने सेवक को पुराना छाता, पगड़ी, बिस्तर व आसन, जूते और पंखे, तथा फटे हुए कपड़े दे।[57]

शांतिपर्व इस सिद्धांत की पुष्टि करता है कि शूद्र की सृष्टि प्रजापति ने अन्य तीनों वर्णों के दास के रूप में की।[58] इसलिए उसे दासधर्म के पालन का उपदेश दिया गया है।[59] परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि शूद्र दास थे। दासप्रथा प्रचलित थी,[60] इसलिए हो सकता है कि कुछ शूद्र दास रहे हों। किंतु वे उत्पादन कार्यों में लगाए जाने वाले दास नहीं थे। यद्यपि नारद ने पंद्रह प्रकार के दासों का उल्लेख किया है,[61] तथापि वे और वृहस्पति दोनों यह स्पष्ट कर देते हैं कि वे केवल अपवित्र कर्मों में लगाए जाते थे।[62] ये अपवित्र कर्म हैं प्रवेशद्वार, शौचालय और सड़क की सफाई, उच्छिष्ट भोजन, मल, मदिरा आदि हटाना, मालिक का हाथ-पांव मलना और गुह्यांगों की मालिश करना।[63] इसके विपरीत जो लोग उत्पादन संबंधी कार्यों में, अर्थात कृषि या भारवाहन के काम में लगाए जाते थे, वे पवित्र कर्म करने वाले समझे जाते थे।[64] इसलिए इस बात का शायद ही साक्ष्य मिलता है कि राजा द्वारा या प्रजाजन द्वारा कोई दास उत्पादन कर्म में लगाया गया हो, जबकि मौर्यपूर्व और मौर्यकाल में ऐसे उदाहरण पाए जाते हैं।

इस काल में ऐसी कई अन्य बातें भी दिखाई पड़ती हैं, जिनसे प्रकट होता है

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

कि दासप्रथा सामान्यतया कमजोर पड़ती गई है और दास के रूप में काम करने की बाध्यता से शूद्रों को अधिकाधिक छुटकारा मिलता गया है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, कौटिल्य का दासमुक्ति संबंधी नियम केवल उन दासों पर लागू था जो आर्य संतान हों या स्वयं आर्य हों। किंतु याज्ञवल्क्य ने बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किया कि कोई भी आदमी अपनी मर्जी के बिना गुलाम नहीं बनाया जा सकता है, ऐसे व्यक्तियों को मुक्त कर देना होगा।[65] जगन्नाथ तर्क पंचानन की टीका के अनुसार इसका यह अर्थ है कि जो कोई शूद्र, क्षत्रिय या वैश्य अपनी सम्मति के बिना दासकर्म में नियोजित किया गया हो, उसे मुक्त कराना राजा का कर्तव्य है।[66] इस प्रकार उपर्युक्त व्यवस्था ने मनु की उस मान्यता को एकदम उलट दिया जिसके अनुसार शूद्र को बलपूर्वक दास बनाया जा सकता था।[67]

पहले के ग्रंथों के अनुसार किसी भी उच्च वर्ण (द्विज) को या शूद्रा से उत्पन्न द्विज के पुत्रों को दास नहीं बनाया जा सकता था, किंतु गुप्तकाल की स्मृतियों में द्विजों के लिए ऐसा कोई विशेषाधिकार लक्षित नहीं होता है। याज्ञवल्क्य, नारद और कात्यायन कहते हैं कि दास अनुलोम क्रम से बनाया जाए, न कि प्रतिलोम क्रम से, अर्थात दास मालिक के वर्ण से नीचे के वर्ण का होना चाहिए।[68] किंतु कात्यायन का दावा है कि दासता निचले तीन वर्णों के लिए है, न कि ब्राह्मणों के लिए।[69] फिर भी इन नियमों से यह अर्थ निकलता है कि दासता शूद्रों तक ही सीमित न रही।

नारद और बृहस्पति ने ऐसे अधम व्यक्ति की घोर निंदा की है जो स्वतंत्र होते हुए भी अपने को बेच डालता है।[70] अनुशासनपर्व में कहा गया है कि कितनी ही संतानें क्यों न हों, किसी को मनुष्य का विक्रय नहीं करना चाहिए।[71] यद्यपि कौटिल्य ने दासों की, खासकर आर्यजाति के दासों की मुक्ति के नियम दिए हैं, तथापि दासमुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम नारद ने किया है।[72] इन सब बातों से दासप्रथा अवश्य कमजोर हुई होगी।

नारद ने कहा है कि स्थानीय विवादों में एक वर्गविशेष के लोग जो 'वर्गिन्' कहलाते हैं, अपने अपने वर्गों के मामलों में गवाह के रूप में बुलाए जा सकते हैं।[73] कात्यायन के अनुसार जिनके लिए 'वर्गिन्' शब्द का प्रयोग होता है उनमें दासों के नायक भी हैं।[74] इस प्रकार दासों में संगठन होने से दासप्रथा में और भी कमजोरी आई होगी।

दासियों के अस्तित्व का भी पर्याप्त प्रमाण मिलता है। ये दासियां धनी लोगों के घरों में चेरियों का काम करती थीं। अमरकोश में समूहवाचक शब्दों के उदाहरणों में दासीसभम् (दासियों का दल) शब्द भी आया है।[75] इस काल के जैनग्रंथों का अध्ययन करने से इस बात का स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

आदिम जातियों से बहुत सी दासियां और चेरियां बहाल की जाती थीं।[76]

अन्य विषयों में गुप्तकाल में दासों की सामान्य स्थिति अपरिवर्तित रही। उन्हें पीटा जा सकता था और बेड़ियों में बांधा जा सकता था।[77] वे अविश्वसनीय समझे जाते थे।[78] विधि में उनके लिए कोई स्थान नहीं था।[79] वे संपत्ति की एक इकाई समझे जाते थे और तदनुसार साझे (सामूहिक स्वामित्व) में रखे जा सकते थे[80] तथा साझेदारों के बीच बांटे जा सकते थे।[81] नारद और कात्यायन दोनों ने मनु के उस वचन को दुहराया है जिसके अनुसार दास को संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है,[82] किंतु कात्यायन ने यह भी कहा है कि लोगों के बीच अपने को बेच कर दास जो मूल्य पाता है उस पर मालिक का हक नहीं है।[83]

इन सारी बातों के होते हुए भी इतना तो स्पष्ट है कि गुप्तकाल में दासप्रथा सामान्यतया शिथिल हो गई थी। ऐसा लगता है कि वर्ण व्यवस्था ही कमजोर पड़ गई थी और इस कारण दासप्रथा में भी कमजोरी आई। वर्ण प्रथा का नियम था कि शूद्र को दास बनाना चाहिए। पर गुप्तकालीन पुराणों में जो कलि का वर्णन मिलता है उससे पता चलता है कि वैश्य और शूद्र अपने वर्ण धर्म का पालन नहीं करते थे। अर्थात किसान के रूप में अन्न पैदा कर वैश्य कर नहीं देते थे और शूद्र द्विजों की सेवा करने को तैयार नहीं थे। घोर वर्णसंकट की स्थिति पैदा हो गई थी। इसके लिए सोचा गया कि राज्य के अधिकारियों तथा पुरोहितों को गांव दान में दिए जाएं ताकि वे अपनी जीविका चलाएं और प्रदत्त क्षेत्र में शांति बनाए रखें। मजदूरी बढ़ाकर और कुछ जमीन देकर शूद्रों को संतुष्ट करने की चेष्टा की गई।

दासप्रथा के कमजोर होने का प्रमुख कारण था, बंटवारों और दानों के फलस्वरूप भूमि का टुकड़ों में बंटते जाना। धर्मसूत्रों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनुस्मृति में तथा याज्ञवल्क्य स्मृति में भी दायभाग (संपत्ति के बंटवारे) की जो विधियां हैं उनमें भूमि के बंटवारे की चर्चा नहीं है। इसकी चर्चा सर्वप्रथम नारद[84] और बृहस्पति[85] की स्मृतियों में पाई जाती है। इससे यह ध्वनित होता है कि गुप्त-काल के बीच या अंत में बड़ी बड़ी जोत रखने वाले बड़े बड़े संयुक्त परिवार छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्त होने लगे। जब भूमि के बंटवारे का सिद्धांत मान्य हो गया, तब एक बार लोगों की आबादियों के बस जाने के बाद, उत्तर भारत की उर्वर नदी घाटियों में घनी होती जा रही आबादी कृषियोग्य भूमि के विखंडीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाए बिना कैसे रह सकती थी? भूमि पर आबादी का भार किस प्रकार बढ़ रहा था, इसका संकेत पांचवीं शताब्दी ई० के एक पुराभिलेख से मिलता है। इसमें कहा गया है कि उत्तर बंगाल (बांगला देश) में डेढ़ कुल्यवाप भूमि एक जगह मिलना संभव नहीं है, अतः इतनी भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में चार भिन्न भिन्न जगह में खरीदनी पड़ी।[86] यह खरीद दान देने के लिए की गई थी, इसके उदाहरण हमें इस काल में बहुत अधिक मिलते हैं। ब्राह्मणों और देवालयों

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

को किए गए भूमिदानों से भूमि खंडन की प्रक्रिया में और भी मदद मिली। मौर्य पूर्व काल में जो पांच पांच सौ करीष के बड़े बड़े प्लाट या मौर्य काल में जो बड़े-बड़े राजकीय कृषिक्षेत्र थे, वे अब नहीं दिखाई पड़ते हैं। पुराभिलेखों में जो एक कुल्यवाप या चार, दो और एक द्रोणवाप के खेतों की चर्चा है उन्हें कोई बड़े प्लाट नहीं कह सकते हैं।[87] पार्जिटर के अनुसार एक कुल्यवाप एक एकड़ से कुछ बड़ा होता था।[88] किंतु यदि असम के कछार जिले में प्रचलित भूमिमाप कुल्यवाय को कुल्यवाप का पर्याय समझें,[89] तो कुल्यवाप का मान 13 एकड़ के लगभग हो जाएगा। एक कुल्य आठ द्रोण के बराबर होता है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर बंगाल में खेतों का विस्तार सात एकड़ से लेकर तीन एकड़ तक था। इसी काल में यदि गुजरात के अंतर्गत वलभी के मैत्रक राजाओं के भूमि दानों (अग्रहारों) का सर्वेक्षण किया जाए तो उससे प्रकट होता है कि खेतों का विस्तार दो तीन एकड़ से अधिक नहीं था।[90] स्वभावतया जोत का रकबा कम रहने के कारण भूस्वामियों का परिवार अपने खेतों को स्वयं संभाल सकता था; स्थायी रूप से भारी संख्या में शूद्र दास और मजदूर रखने की जरूरत नहीं थी। अतः अधिकांश दासों को छांट दिया गया होगा, और एक एक कृषिक्षेत्र में दो तीन दास से अधिक न लगते होंगे।

बताया गया है कि गुप्तकाल में ब्राह्मणों को अग्रहार (भूमिदान) दिए जाने से निजी उद्यम द्वारा ग्रामव्यवस्था को बढ़ावा मिला होगा।[91] यह बात मध्य और दक्षिण भारत के अविकसित क्षेत्रों में संभव रही होगी, किंतु उत्तर बंगाल में जहां एक जगह भूमि प्राप्त करना कठिन था, अथवा गुजरात में, नहीं। या तो केवल परती और अविकसित फाजिल भूमि शूद्र जनों के हाथ बंदोबस्त की गई होगी क्योंकि पुराने किसान अपनी आबाद जमीन को छोड़ना न चाहते होंगे अथवा आदिवासी कर्षकों को ही ब्राह्मणीय समाज व्यवस्था में अंतर्भुक्त कर लिया गया होगा। कृषि उत्पादन में लगाए जाने वाले दासों और श्रमिकों की धीरे धीरे छंटनी हो जाने से उन्हें स्वतंत्रता तो मिली ही, साथ ही बटाईदारों या स्वतंत्र किसानों के रूप में अपना कायापलट करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने में मदद भी मिली।

वैश्य कर्षक थे, यह परंपरागत विचार इस काल के साहित्य में भी दुहराया गया है।[92] अमरकोश में कर्षक के पर्याय वैश्य वर्ग में गिनाए गए हैं।[93] किंतु यह मानने का भी आधार है कि शूद्र भी कर्षक हो जाते थे। मनु की भांति विष्णु और याज्ञवल्क्य से भी प्रकट होता है कि आधी उपज पर शूद्रों को खेत दिया जाता था।[94] इससे यह सिद्ध होता है कि पट्टा देने की परिपाटी जोर पकड़ती जा रही थी। धीरे धीरे उन्होंने भूमि पर स्थाई कब्जा पा लिया। इस काल (250-350 ई० सन) में पल्लवों के, जिनका शासन दक्षिण आंध्र प्रदेश

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

और उत्तर तमिलनाडु पर था, एक दानपत्र से ज्ञात होता है कि जब भूमि ब्राह्मणों को दे दी गई तब भी उस पर चार बटाईदार (आर्धिक) बने रहे।[95] इस दानपत्र में दो कोलिकों के हस्तांतरण का भी उल्लेख है,[96] जो कोल जाति के कृषक या कृषि मजदूर रहे होंगे।[97] इसी काल के एक दूसरे पल्लव दानपत्र में कहा गया है कि अतुक[98] नामक व्यक्ति द्वारा आबाद किया हुआ चार निवर्तनों का एक प्लाट हस्तांतरित किया गया। यह अतुक भी बटाईदार रहा होगा। इससे यह ध्वनित होता है कि अविकसित इलाकों में भूमि का हस्तांतरण हो जाने पर भी बटाईदार उस भूमि से बेदखल नहीं किए जा सकते थे; वे संभवतया शूद्र की कोटि में थे। नारद ने कीनाश (किसान) की गणना उन लोगों में की है जो साक्षी बनाने के पात्र नहीं हैं।[99] सातवीं शताब्दी के एक टीकाकार असहाय[100] ने इस 'कीनाश' शब्द का अर्थ शूद्र किया है।[101] यह व्याख्या ठीक प्रतीत होती है, क्योंकि कीनाश के बाद शूद्रा स्त्री से उत्पन्न पुत्र के बारे में भी नारद ने कहा है कि वह साक्षी होने का पात्र नहीं है।[102] इससे लक्षित होता है कि शूद्र संभवतया किसान समझे जाते थे। वृहस्पति स्मृति से भी इसकी पुष्टि होती है। खेतों के सीमा विवाद में आगे रहने वाले शूद्र के लिए उसमें कठोर शारीरिक दंड का विधान है।[103] यह स्पष्ट है कि वे ऐसे विवादों में खेत के मालिक के रूप में ही अगुआ हो सकते थे। मार्कण्डेय पुराण में ग्राम उस बस्ती को कहा गया है जहां बहुत से शूद्र जन हों और कृषक लोग समृद्ध हों।[104] इन कृषकों में कुछ शूद्र भी रहे होंगे। कात्यायन का विधान है कि यदि कोई ऋण न चुका सके तो उससे काम कराकर ऋण वसूला जाए और यदि वह काम करने योग्य भी न हो तो उसे जेल भेज दिया जाए। किंतु यह विधान निचले तीन वर्गों के किसानों पर लागू है, ब्राह्मण पर नहीं।[105] वृहत्संहिता में कहा गया है कि दक्षिण में आग लगने से उग्रों और वैश्यों को कष्ट होगा, और पश्चिम में आग लगने से शूद्रों और कृषकों को।[106] इससे ध्वनित होता है कि शूद्र और कृषक एक दूसरे के बड़े करीब माने जाते थे। इस प्रकार उपर्युक्त निर्देशों से यह प्रकट होता है कि शूद्र धीरे धीरे किसान होते जा रहे थे।

मध्य भारत के एतत्कालीन दानपत्रों में कर चुकाने वाले कुटुंबिन् और कारु लोगों का बार बार उल्लेख है।[107] इसमें कोई संदेह नहीं कि कारु कामगार होने के नाते शूद्र थे, किंतु उतनी ही दृढ़ता के साथ कुटुंबिन् के विषय में नहीं कहा जा सकता है। कुटुंबिन का अर्थ कृषक[108] या घरेलू चाकर[109] किया गया है। ऐसा भी बताया गया है कि संभवतया कुटुंबिन् पेशेवर कारीगरों के ऐसे वर्ग के लोग कहलाते थे जो जीविका के गौण साधन के रूप में खेती करते थे।[110] किंतु प्रतीत होता है कि कारु के विपरीत कुटुंबिन् लोग कृषिकर्मी गृहस्थ होते थे। प्राचीन पालि ग्रंथों में ये धनवान गृहस्थ[111] प्रतीत होते हैं और संभवतया ये वैश्य

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

रहे होंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गणपति शास्त्री ने बटाई खेती करने वाले कुटुंबिन् लोगों को शूद्र माना है।[112] ऐसा लगता है कि कुनबी जो महाराष्ट्र में पाए जाते हैं और कुर्मी जो बिहार में पाए जाते हैं, कुटुंबिन् से ही संबंध रखते हैं। आजकल ये दोनों शूद्र माने जाते हैं, पर यह परिवर्तन संभवतया गुप्तकाल में प्रारंभ हुआ। अतएव यह असंभव नहीं कि गुप्तकाल के करदाता कृषक परिवारों में शूद्र भी शामिल थे।

पुनश्च, यदि 'उपरिकर' शब्द का अर्थ अस्थाई किसानों से लिया जाने वाला कर विशेष माना जाए,[113] तो ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्ववर्ती काल में जो दास और कर्मकर राज्य के या वैयक्तिक स्वामियों के कृषि क्षेत्रों में काम करते थे, उन्हें इस काल में अस्थाई रूप से खेत मिलने लगा था।

संभवतया कृषकों की संख्या बढ़ने, भूमि पर आबादी का भार अधिक होने और ऊंची दर पर कर चुकाने में नए किसानों के असमर्थ होने के कारण ही भूमि राजस्व उपज के चतुर्थांश से घटाकर षष्ठांश कर दिया गया।[114] वृहस्पति का वचन है कि राजा खेती के स्वरूप और उसकी उपज को देखते हुए षष्ठांश, अष्टमांश, या दशांश उपज ले सकता है।[115]

सातवीं शताब्दी ई० के पूर्वार्द्ध में हुआन चाङ ने शूद्रों को खेतिहारों के वर्ग के रूप में वर्णित किया है।[116] नृसिंह पुराण से इस वर्णन की पुष्टि होती है। वहां कृषि को शूद्र का कर्म बताया गया है।[117] किंतु प्रतीत होता है कि यह महत्वपूर्ण परिवर्तन गुप्तकाल में हुआ होगा। कृषक वर्गों में वहुत बड़ा भाग शूद्र का है,[118] यह धारणा गुप्तकाल के विषय में जितनी सही होगी उतनी शायद पूर्ववर्ती काल के विषय में नहीं।

अपरिपक्व सुझाव के तौर पर ऐसा विचार पेश किया जा सकता है कि इस महापरिवर्तन के आगमन में लोहे के प्रयोग का व्यापक प्रचलन भी सहायक हुआ होगा। अमरकोश में लोहे के सात नाम और लोहे के विकार (जंग) (आयरन रस्ट) के दो नाम आए हैं,[119] और इस काल के एक बौद्ध ग्रंथ में धातुओं का सविस्तार वर्गीकरण किया गया है।[120] अमरकोश में फाल के भी पांच नाम दिए गए हैं,[121] जिससे यह अर्थ निकाला जा सकता है कि ये परम महत्वपूर्ण कृषि उपकरण सदा तैयार मिलते थे और खेती गहन रूप से की जाती थी। इस औजार की प्रचुर मात्रा में उपलब्धि के बिना पहले जमाने के दास, कर्मकर और आदिवासी जन तथा उच्च वर्णों के अधिकाधिक परिवार—ये सब लोग खेती के काम में नहीं लग पाते। दुर्भाग्यवश, उत्तर भारत की ग्रामीण बस्ती के विविध संस्तरों के उत्खनन की ओर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है, जिससे यह पता चलता है कि पूर्वकाल में लोहे के कृषि उपकरणों का प्रयोग किस हद तक होता था। यों, स्मृतिकारों ने बताया है कि मजदूरों को औजार

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

दिए जाते थे जो काम के बाद वापस कर देने पड़ते थे।[122] किंतु कृषि मजदूर स्वयं अपने औजार रखे बिना काश्तकार नहीं बन सकते थे। ये औजार उन्हें इस काल में विकासोन्मुख लौह उद्योग की बदौलत ही मिलते होंगे।

इस काल में शूद्र कारीगरों के महत्व में वृद्धि हुई। पूर्ववर्ती काल के स्मृतिकारों ने शूद्रों को शिल्पकर्म की अनुमति उसी दशा में दी है जब वे द्विज की सेवा करके अपनी जीविका न चला सकें। इस काल में आकर यह शर्त हटा ली गई,[123] और शिल्पकर्म शूद्रों के सामान्य कर्तव्यों में आ गया।[124] बृहस्पति ने शिल्प का अर्थ किया है सोने, हीन धातु, काष्ठ, धागे, पत्थर और चमड़े का काम।[125] अमरकोश में शिल्पियों की सूची शूद्र वर्ग में है; इसमें सामान्य शिल्पियों, उनके संघ (श्रेणी) के प्रधानों, मालियों, धोबियों, कुम्हारों, राजमिस्त्रियों, जुलाहों, दर्जियों, चित्रकारों, शस्त्रकारों, चर्मकारों, लुहारों, शंखशिल्पियों और ठठेरों में प्रत्येक के दो नाम हैं।[126] इस सूची में स्वर्णकार के चार नाम और बढ़ई के पांच नाम हैं।[127] अमर ने ढोल बजाने वाले, पानी वाले, वंशी और वीणा बजाने वाले,[128] अभिनेता, नर्तक और कलाबाज इन सभी का समावेश भी शूद्र वर्ग नामक प्रकरण में किया है।[129] इस सूची से सिद्ध होता है कि शूद्र सभी प्रकार के शिल्पों और कलाओं का व्यवसाय करते थे।[130]

यह पुराना नियम कि शिल्पी लोग मास में एक दिन राजा का काम करेंगे, बृहस्पति ने भी दुहराया है।[131] यह नियम चालू था, क्योंकि पश्चिम भारत में मिले छठी शताब्दी ई० के एक उत्कीर्ण लेख में कहा गया है कि ग्रामश्रेष्ठ (वारिक) सुनारों, रथकारों, नापितों और कुम्हारों से बेगारी (विष्टि) लें।[132] वसिष्ठ का विधान है कि शिल्प द्वारा अर्जित धन पर करारोपण नहीं किया जाना चाहिए।[133] मौर्योत्तर काल में केवल बुनकरों पर कर लगाया गया था।[134] मगर इस काल में शिल्पियों पर कर लगाने की परिपाटी चल पड़ी। शांतिपर्व में यह विधान है कि शिल्पियों और व्यापारियों के उत्पादन की स्थिति और शिल्प के प्रकार को देखते हुए उन पर कर लगाया जाना चाहिए। करनिर्धारण उत्पादित वस्तुओं की संख्या के आधार पर किया जाए और उसकी वसूली जिन्स के रूप में की जाए।[135] इसमें कोई संदेह नहीं कि शिल्पी राजा को कर चुकाते थे, क्योंकि यह बात इस काल के उत्कीर्ण लेखों में बार बार आई है। दक्षिण भारत में प्राप्त 446 ई० के एक पल्लव अभिलेख से ज्ञात होता है कि लुहार, चमार, बुनकर और नाई तक राजा को कर देते थे।[136] इन सारी बातों से यह प्रमाणित होता है कि इस काल में शूद्र शिल्पियों की आर्थिक स्थिति सुधरी थी और समाज में उनका महत्व बढ़ा था। कामसूत्र के एक संदर्भ की टीका से प्रकट होता है कि शूद्र भी शिल्पी, अभिनेता आदि के व्यवसाय से धन अर्जित करके नागरिक अर्थात सम्मानित एवं प्रतिष्ठित नागरिक बन सकते थे।[137]

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

कारोरपण संबंधी विधानों से प्रकट होता है कि कारीगर लोग जिस प्रकार मौर्यकाल में राज्य द्वारा नियोजित और नियंत्रित रहते थे, उस प्रकार इस काल में नहीं रह गए थे। शायद राजधानी में रहने वाले कारीगर[138] राजाश्रित रहते होंगे। किंतु गांवों के कारीगरों का जो बार बार उल्लेख मिलता है, उससे प्रकट होता है कि जनपदों में उनकी संख्या कहीं अधिक थी, जहां वे कुछ न कुछ स्वतंत्रता के साथ रह सकते थे और काम कर सकते थे।

संघों के सुदृढ़ होने से कारीगरों का महत्व बढ़ता गया। ये संघ (श्रेणियां) राजधानियों और नगरों के संगठन का अंग माने जाते थे।[139] ये स्पष्टतया कारीगरों और व्यापारियों के संघ थे।[140] जहां प्राचीन विधिग्रंथों और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है कि राजा के संघों के रीति-रिवाजों (श्रेणिधर्म) का आदर करना चाहिए,[141] वहां गुप्तकाल के विधिग्रंथों में राजा को उपदेश दिया गया है कि वह संघों में प्रचलित रीति-रिवाजों (रूढ़ियों) का पालन कराए।[142] वृहस्पति ने कहा है कि संघों के प्रधान अन्य लोगों के प्रति विहित नियमों के अनुसार जो कुछ भी करे, राजा को उसका समर्थन करना होगा, क्योंकि वे कार्य व्यवस्थापक के रूप में नियुक्त घोषित हैं।[143] उन्होंने चेताया भी है कि यदि देशाचार, जात्याचार और कुलाचार का पालन न किया जाएगा तो प्रजा असंतुष्ट होगी और उससे संपत्ति घटेगी।[144] इससे प्रतीत होता है कि संघ जैसा चाहें, वैसा करने के लिए स्वतंत्र थे और राजा को उनका निर्णय मानना पड़ता था।[145] दूसरे शब्दों में संघ उत्पादन की बहुत कुछ स्वतंत्र इकाइयों के रूप में काम करने वाले और राजकीय नियंत्रण से परे प्रतीत होते हैं। वे पूर्ववत निक्षेप के रूप में धन प्राप्त करते थे, उस पर ब्याज चुकाते थे और स्पष्टतया उस धन को अपने व्यापार में लगाते थे, जैसा कि इंदौर में स्थापित तैलिक संघ के पांचवीं शताब्दी ई० के एक उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है।[146] ऐसे कार्यकलापों के सहारे वे स्वभावतया समृद्धिशाली हो जाते थे, जैसा कि पांचवीं शताब्दी ई० में मंदसौर के रेशमी वस्त्र बुनकरों द्वारा किए गए एक सूर्यमंदिर के निर्माण और मरम्मत से सिद्ध होता है।[147] यह समझना गलत होगा कि ब्राह्मण पुरोहितों की शक्ति के बढ़ने पर संघों का पतन होने लगा।[148] ब्राह्मण स्मृतिकारों ने संघों को मान्यता दी है। इतना ही नहीं, बल्कि गुप्तकाल के पुराभिलेखों में उल्लिखित दो संघों को या तो ब्राह्मणों का संपोषण प्राप्त था या ब्राह्मण भी उससे संबद्ध थे।[149]

नियोजकों और कर्मकरों के पारस्परिक संबंध के विषय में जो नियम मिलते हैं उनसे प्रकट होता है कि शूद्रवर्ग से बहाल किए जाने वाले कई कोटि के कर्मकरों की स्थिति में सुधार हुआ। बताया जा चुका है कि अंगीकृत कार्य पूरा न करने पर कौटिल्य ने 12 पण जुर्माना विहित किया है, जो उनके द्वारा विहित मजदूरी का पांच गुना से बीस गुना तक है।[150] किंतु गुप्तकाल के अधिकांश स्मृतिकारों ने यह

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

नियम बनाया है कि यदि कर्मकर मजदूरी लेकर काम न करे तो उससे मजदूरी का दूना जुर्माना लिया जाए।[151] लेकिन वृहस्पति ने ऐसी स्थिति में कर्मकर की क्षमता के अनुसार अतिरिक्त जुर्माने का विधान किया है।[152] विष्णु का वचन है कि कोई कर्मकर अपना काम पूरा न करे तो वह अपनी पूरी मजदूरी नियोजक को चुकाने के साथ साथ सौ पण जुर्माना राजा को चुकाए।[153] परंतु इस विधान को उन्होंने एक और नियम बनाकर प्रतिसंतुलित कर दिया है, जिसमें काम पूरा न कराने पर नियोजक के लिए भी वैसा ही दंड विहित किया गया है।[154] इस संबंध में वृहस्पति ने कुछ ऐसे नियम दिए हैं जो इस काल के अन्य विधिग्रंथों में नहीं मिलते हैं। एक नियम में वृहस्पति ने किसी विवेचना के बिना ही मनु का वह वचन उतार लिया है जिसमें कहा गया है कि यदि कोई कर्मकर शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हुए भी केवल दर्पवश अंगीकृत कर्म पूरा न करे तो वह अपनी मजदूरी से वंचित होगा और साथ ही आठ कृष्णल के दंड का भी भागी होगा।[155] किंतु आगे उन्होंने यह भी कहा है कि यदि कर्मकर अपना काम पूरा न करे तो वह अपनी मज़दूरी से वंचित होगा और उस पर न्यायालय में मुकदमा चलाया जाएगा।[156] वृहस्पति ने कर्मकर के हित की रक्षा के लिए नियम बनाया है कि यदि नियोजक किसी कर्मकर को काम पूरा कर देने पर भी मजदूरी न दे तो उसे राजा उचित दंड देगा।[157] नारद ने यह भी कहा है कि ऐसी स्थिति में नियोजक से ब्याजसहित मजदूरी दिलाई जाएगी।[158] यह स्पष्टतया उस नियम के प्रवर्तन के लिए कहा गया है, जिसके अनुसार नियोजित सेवक को प्रतिज्ञात मजदूरी नियमित रूप से देते रहना नियोजक का कर्तव्य है।[159] इनके एक अन्य नियम का उल्लेख पहले किया जा चुका है जिसमें इन्होंने कहा है कि यदि भारवाहक नियोजक के दोष से काम अधूरा रह जाए तो उसे उतने ही काम का पारिश्रमिक मिलेगा जितना उसने पूरा किया हो।[160] यह नियम संभवतया अन्य प्रकार के कर्मकरों पर भी लागू किया गया होगा।

चरवाहों के बारे में जो विधान हैं, उनमें इस बात पर जोर दिया गया है कि चरवाहों को सौंपे गए पशुओं की रक्षा करना उनका कर्तव्य है,[161] किंतु पशुओं के नष्ट होने पर मृत्युदंड का विधान, जोकि कौटिल्य ने किया है, नहीं पाया जाता है। फिर भी वृहस्पति ने कहा है कि चरवाहों के जिम्मे लगाया गया पशु यदि फसल को नुकसान पहुंचाए तो चरवाहों को पीटना चाहिए।[162]

इस प्रकार, कुल मिलाकर, काम न करने का दंड जितना कठोर मौर्यकाल में था उतना इस काल में न रहा, और कुछ ऐसे नियम बने जिनसे नियोजक की ओर से मजदूरी न चुकाए जाने या बुरा बर्ताव किए जाने की स्थिति में कर्मकरों के हितों की रक्षा हो। फिर इस काल के स्मृतिग्रंथों में कर्मकरों के लिए प्रेरणादायक पारितोषिक का भी विधान किया गया है। कौटिल्य ने केवल

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

बुनकरों के लिए पारितोषिक की सिफारिश की है,[163] किंतु याज्ञवल्क्य ने कहा है कि यदि कर्मकर आशा से अधिक काम करे तो उसके लिए अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाए।[164] अतः गुप्तकाल में नियोजकों और कर्मकरों के पारस्परिक संबंध के विषय में जो व्यवस्था दिखाई पड़ती है उससे यह धारणा वनती है कि पूर्व काल की तुलना में इस काल में नियोज्य-नियोजक संबंध अधिक सदय और उदार था, और परिणामस्वरूप यह अनुमान किया जा सकता है कि मजदूरी पर खटने वाले शूद्र वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ।

गुप्तकाल में वाणिज्य को भी शूद्रों का कर्तव्य माना जाने लगा। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि यदि शूद्र द्विजाति की सेवा से अपनी आजीविका चलाने में असमर्थ हो तो वह वाणिज्य कर सकता है।[165] वृहस्पति कहते हैं कि हर प्रकार की वस्तुओं की बिक्री करना शूद्रों का सामान्य कर्तव्य है।[166] पुराणों में भी कहा गया है कि शूद्र क्रय विक्रय[167] और व्यापारिक लाभ से जीवननिर्वाह कर सकता है।[168] सम्मिलित व्यापार का साझेदार यदि शूद्र हो तो राजा को अपने लाभ का षष्ठांश देगा, वैश्य हो तो नवमांश, क्षत्रिय हो तो दशांश और ब्राह्मण हो तो बीसवां अंश।[169] इससे प्रकट होता है कि शूद्रों के लिए व्यापार की शर्तें उतनी अनुकूल नहीं थीं, जितनी उच्च वर्णों के लिए। इतना ही नहीं, भले शूद्र कुछ वस्तुओं के क्रय विक्रय से परहेज रखते थे, जैसे मद्यविक्रय;[170] किंतु इतना तो निश्चित है कि शूद्र व्यापार कर सकते थे और इस विषय में ब्राह्मण स्मृतिकारों ने न केवल शूद्रों और वैश्यों के बीच, अपितु शूद्रों और दो उच्चतम वर्णों के बीच भी भेदभाव खतम कर दिया है। सामान्यतया शूद्र लोग पैकार (वैदेहक) का काम करते थे। इस काल के स्मृतिकारों ने अर्थशास्त्र के इस नियम को दुहराया है कि पैकार को विक्रयागम का दसवां भाग मिलना चाहिए,[171] किंतु शांतिपर्व में इसे बढ़ाकर सातवां भाग कर दिया गया है।[172] शायद यह परिवर्तन गुप्तकाल की स्थिति का सूचक है।

व्यापार और वाणिज्य की तीसरी शताब्दी में भारी उन्नति हुई,[173] और इनकी तरक्की में शिल्पी और व्यापारी के रूप में शूद्रों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। संभवतया गुप्तकाल में किसान के रूप में भी शूद्रों ने प्रगति की, और देश के कृषि मूलक अर्थतंत्र को सुदृढ़ बनाए रहे।

किंतु उच्च वर्णों के लोगों की तुलना में शूद्रों का जीवनस्तर पूर्ववत निम्न बना रहा। वराहमिहिर ने गृहनिर्माण के बारे में जो नियम दिए हैं, उनके अनुसार ब्राह्मण के घर में पांच कमरे, क्षत्रिय के घर में चार, वैश्य के घर में तीन और शूद्र के घर में दो होने चाहिए। हर स्थिति में मुख्य कमरे की लंबाई-चौड़ाई चारों वर्णों की हैसियत के अनुसार भिन्न भिन्न होनी चाहिए।[174] ऐसे नियमों का पालन तो शायद कट्टर ब्राह्मण लोग ही करते होंगे, फिर भी इनसे प्रकट होता है कि

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

निम्न वर्णों के लोगों के बारे में ऐसा नहीं सोचा जा सकता कि वे अच्छे भवनों में रहते हों।

इस काल में भी हमें शूद्र राजाओं की चर्चा मिलती है, जैसे सौराष्ट्र, अवंति, अबुर्द और मालवा के। इनके साथ साथ परंपरागत शूद्र, आभीर[175] और म्लेच्छ राजाओं का भी उल्लेख मिलता है, जो सभी सिंधु और काश्मीर प्रदेशों में शासन करने वाले वताए गए हैं। पार्जिटर ने इनका समय चौथी शताब्दी ई० सन् बताया है।[176] परंतु इन्हें जो शूद्र कहा गया है इसका कारण यह नहीं है कि ये शूद्र वंश के थे, वल्कि इसलिए कहा गया है कि इन जनजातीय या विदेशी शासकों ने ब्राह्मणों को विशेष संरक्षण नहीं प्रदान किया था और ब्राह्मणधर्म के अनुयायी नहीं थे।[177] किंतु एक नाटक में एक चरवाहे के राजा हो जाने की कथा आई है।[178] याज्ञवल्क्य ने प्राचीन धर्मादेश दुहराया है कि स्नातक को ऐसे राजा से दान नहीं लेना चाहिए जो क्षत्रिय न हों। उनके ध्यान में उस समय ऐसे ही राजा लोग (या तो जन-जातीय या शूद्र) रहे होंगे।[179] किंतु कालक्रमेण इन शासकों को ब्राह्मणों ने मान्यता देकर सम्मान्य क्षत्रिय बना दिया।

मंत्रियों की नियुक्ति के विषय में याज्ञवल्क्य और कामंदक ने उसी पुराने मत को दुहराया है कि वे कुलीन और वेदज्ञ हों,[180] जिससे शूद्रों के मंत्री बनने की संभावना ही नहीं रह जाती। किंतु शांतिपर्व में नई व्यवस्था स्थापित की गई है, जिसके अनुसार आठ व्यक्तियों की मंत्रिपरिषद में चार ब्राह्मण, तीन राजभक्त, शिष्ट और विनीत शूद्र और एक सूत रखे जाएं।[181] हमें ज्ञात नहीं कि इस व्यवस्था का कहां तक पालन हुआ, किंतु यह शूद्रों के प्रति ब्राह्मण समाज के रुख में महत्वपूर्ण परिवर्तन का सूचक तो है ही।

न्यायाधीशों और सभ्यों (कौंसिलरों) की नियुक्ति में ऐसी उदारता के चिह्न नहीं मिलते। याज्ञवल्क्य ने कहा है कि राजा विद्वान ब्राह्मणों की सहायता से न्याय करे; जहां राजा स्वयं न्याय करने में असमर्थ हो वहां वह इन ब्राह्मणों से न्याय कराए।[182] कात्यायन ने यह भी कहा है कि ब्राह्मण न मिले तो क्षत्रिय या वैश्य न्यायाधिकारी बनाया जाए, लेकिन शूद्र का सर्वथा परिहार किया जाए।[183] ठीक यही विचार वृहस्पति ने सभ्यों की नियुक्ति के बारे में व्यक्त किया है।[184] उन्होंने मनु की उस चेतावनी को भी दुहराया है कि जो राजा शूद्र (वृषल) की सहायता से राजकाज करेगा उसके राज्य के बल का और कोष का क्षय होगा।[185]

किंतु विषय (जिला) स्तर पर प्रशासन के कार्य में शिल्पियों के मुखिया का कुछ हाथ रहता था, और वह शूद्र होता था। 433 और 438 ई० के दामोदरपुर में मिले दो ताम्रपत्रों से ज्ञात होता है कि प्रथमकुलिक धृतिमित्र कोटिवर्ष (उत्तर बंगाल स्थित) की जनपद सभा का सदस्य था, जो कुमारामात्य के अधीन था।[186]

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

'कुलिक' शब्द का अर्थ कोई नगर न्यायाधीश प्रवर (सीनियर टाउन जज) लगाते हैं,[187] तो कोई वणिक्।[188] किंतु ऐसा अर्थ पूर्वकालीन ग्रंथों से समर्थित नहीं है। संभव है कि यह कुलिक शब्द अमरकोश का कुलक हो जिसका अर्थ है शिल्पियों का प्रधान और यह उक्त ग्रंथ में शूद्र वर्ग में आया है।[189] लगता है यह शब्द शिल्पी अर्थ में नारद स्मृति में भी आया है, जहां कुलिक की गणना असत् साक्षियों में की गई है।[190] अत: प्रथम कुलिक का अर्थ होगा कुलिकों में प्रथम,[191] अर्थात शिल्पि-संघ का अध्यक्ष; और इसी नाते वह उत्तर बंगाल स्थित कोटिवर्ष जिले की सभा में रखा गया होगा। शायद वैशाली जिला मुख्यालय में भी यही परिपाटी रही होगी, जहां दो प्रथम कुलिकों की अलग अलग मुद्राएं पाई गई हैं।[192] शिल्पि-संघों के प्रधान को जनपदीय प्रशासन में जो स्थान दिया गया है, वह इस काल में उनके बढ़ते हुए महत्व के अनुरूप ही है। इसका आभास हमें इस काल के एक जैन ग्रंथ में भी मिलता है, जिसमें बढ़ई अर्थात वास्तुकार को चतुर्दश रत्नों में गिनाया गया है।[193] इन सब बातों से प्रकट होता है कि शूद्र शिल्पियों की नागरिक प्रतिष्ठा में कुछ सुधार हुआ।

सामान्यतया शूद्र छोटे छोटे प्रशासनिक कार्य करते रहे। कामंदक ने कौटिल्य के इस विचार को दुहराया है कि घरेलू सेवकों से राज्य के ऊंचे अधिकारियों की गतिविधि के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का काम लिया जाए।[194] नारद ने कहा है कि चंडालों, जल्लादों (वाधकों) और इस तरह के अन्य लोगों से गांव के भीतर चोरों का पता लगाने का काम लिया जाए और गांव के बाहर रहने वाले गांव के बाहर चोरों का पता लगाएं।[195]

न्यायप्रशासन में पुराने भेदभाव पूर्ववत बने रहे। वृहस्पति ने नियम बनाया है कि साक्षी कुलीन हों और नियमपूर्वक वेदों और स्मृतियों में विहित धार्मिक कर्म करने वाले हों।[196] इनसे स्वत: शूद्र बहिष्कृत हो जाते हैं। शूद्र शूद्रों के लिए ही साक्षी हो सकते हैं, इस नियम को इस काल के स्मृतिकारों ने भी दुहराया है।[197] कात्यायन कहते हैं कि किसी मुकदमे में अभियुक्त के खिलाफ गवाही वही दे सकता है जो जाति में उसके समकक्ष हो। निम्न जाति का वादी उच्च जाति के साक्षियों से अपना वाद प्रमाणित नहीं करा सकता है।[198] नारद ने जो असत् साक्षियों की सूची दी है उसमें जादूगर, नट, मद्यविक्रयी, तेली, महाबत, चर्मकार, चंडाल, शूद्र किसान (कीनाश), शूद्रापुत्र और जाति बहिष्कृत (पतित) लोग समाविष्ट हैं।[199] नारद ने साक्ष्य देने में पुरानी वर्णभेदमूलक व्यवस्था में कुछ सुधार लाते हुए कहा है कि सभी वर्णों के वाद में सभी वर्णों के साक्षी लिए जा सकते हैं।[200] व्यभिचार, चोरी, अवमानन, और हमले के मामलों में कोई भी साक्षी हो सकता है।[201] घरों और खेतों के सीमाविवाद में, वृहस्पति के अनुसार, कृषक, शिल्पी, मजदूर, चरवाहा, शिकारी, उन्छक (सिल्ला वीनने वाला), कंद खोदने वाले और कैवर्त (मछुवा) नैसर्गिक

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

साक्षी हो सकते हैं।[202] यह महत्वपूर्ण परिवर्तन है, क्योंकि याज्ञवल्क्य ने यह प्रतिष्ठा, केवल खेतों के सीमाविवाद में, मात्र चरवाहों, किसानों और वनवालों को दी है।[203] मनु ने तो इस विषय में इससे भी अधिक अनुदारता बरती है, क्योंकि उन्होंने केवल ग्रामसीमा के विवाद में ही शिकारियों, बहेलियों, चरवाहों, मछुओं, कंद खोदने वालों, सपेरों, सिल्ला बीनने वालों और वनचारियों को साक्षी बनाने की अनुज्ञा दी है, और वह भी वहां जहां दो-चार पड़ोसी गांवों में साक्षी न मिलें।[204] बृहस्पति ने जो साक्षी गिनाए हैं वे अधिकांशतया शूद्र वर्ग के हैं, अतः उनकी इस व्यवस्था से शूद्रों की प्रतिष्ठा में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जो किसान और कारीगर के रूप में इनकी नई हैसियत के अनुरूप है। यह महत्वपूर्ण अधिकार है, क्योंकि सीमाविवाद स्वभावतया अन्य प्रकार के किसी भी विवाद से अधिक मात्रा में उठते रहे होंगे।

फिर भी इस काल के स्मृतिकारों ने पूर्ववत, गवाही लेते समय दी जाने वाली चेतावनी को, भिन्न भिन्न वर्णों के लिए भिन्न भिन्न बनाए रखा है। इसमें शूद्रों को दी जाने वाली चेतावनी सबसे कड़ी है।[205]

दिव्यों (दैवी साधनों से दोष पता लगाने में) में वर्णमूलक भेद व्यवहार, जो मनु में नहीं पाया जाता है,[206] इस काल के स्मृतिकारों ने स्थापित किया है।[207] याज्ञवल्क्य ने कहा है कि अग्नि, जल और विष का दिव्य केवल शूद्र से कराया जाए और ब्राह्मण से तुला दिव्य कराया जाए।[208] इस संबंध में उन्होंने क्षत्रिय और वैश्य का उल्लेख नहीं किया है, किंतु अन्य स्मृतिकारों ने कहा है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से की जाए, क्षत्रिय की अग्नि से, वैश्य की जल से और शूद्र की विष से।[209] किंतु यहां भी बृहस्पति ने यह विकल्प रख दिया है कि सभी वर्णों से सभी दिव्य कराए जा सकते हैं, सिर्फ विषवाला दिव्य ब्राह्मण से न कराया जाए।[210] नारद का भी वैकल्पिक नियम है कि विष दिव्य क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से कराया जा सकता है।[211] विष्णु ने कहा है कि यह दिव्य ब्राह्मण से नहीं कराया जा सकता है,[212] जैसा कि नारद और कात्यायन का भी मत है।[213] विष्णु ने नकारे गए निक्षेप, या चोरी या लूट के माल के मूल्य के अनुसार शूद्रों के लिए विभिन्न प्रकार के शपथ और अभिमंत्रित जल पिला कर दिव्य कराने का विधान किया है।[214] यदि मूल्य आधे सुवर्ण से अधिक हो तो न्यायाधीश शूद्र से तुला, अग्नि, जल और विष चारों में से कोई भी दिव्य करा सकता है।[215] किंतु विष्णु ने इन चारों दिव्यों के प्रयोग के बारे में विस्तृत नियम बताते हुए भी,[216] अन्य स्मृतिकारों की भांति वर्णभेद से दिव्यभेद का विधान नहीं किया है। शायद ब्राह्मणों के विषय में कुछ विशेष अनुग्रह दिखाया गया है, जिनसे विषदिव्य नहीं कराया जा सकता है; इसके सिवा दिव्य के विषय में वर्णमूलक व्यवहार भेद नहीं होता था। जल का दिव्य तीसरी शताब्दी ई० में संभवतया सातवाहनों के राज्य में चलता था।[217]

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

परंतु यह किसी खास वर्ण में ही चलता था, इसका कोई प्रमाण नहीं है। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि जो कबीले और विदेशी जन ब्राह्मण समाज में लीन होने की प्रक्रिया में थे उनके बीच भिन्न भिन्न प्रकार के दिव्य प्रचलित रहे होंगे। इसलिए कात्यायन ने कहा है कि अस्पृश्यों, अधर्मों, दासों और म्लेच्छों के जो अपने दिव्य हैं, उनसे वे ही दिव्य कराए जाएं।[218]

मनु का विधान है कि न्यायालय में अर्जी वर्ण के क्रम से सुनी जाए,[219] किंतु इस काल के स्मृतिकारों ने शायद इस नियम का उल्लेख नहीं किया है। फिर भी व्यवहार विधियों में वर्णमूलक भेदभाव चलता रहा। जिन वादों में प्रतिभूति देने की आवश्यकता है, वहां कात्यायन ने द्विजों और शूद्रों के बीच भेद का विधान किया है। प्रतिभूति न देने पर द्विज को केवल प्रहरियों की देखभाल में रख देना चाहिए; शूद्र और अन्य लोगों को बेड़ी लगाकर कैदखाने में रखना चाहिए।[220] परंतु उन्होंने बंधन तोड़कर भागने वाले सभी लोगों के लिए, चाहे वे किसी भी वर्ण के हों, समान रूप से आठ पण जुर्माने का विधान किया है।[221] उन्होंने यह भी कहा है कि बंधन में रहते समय किसी भी वर्ण के दैनिक नित्यकर्मों के अनुष्ठान पर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए।[222]

दाय विधि (ला आफ इनहेरिटेंस) में यह नियम पूर्ववत बना रहा कि उच्च वर्ण के शूद्रापुत्र को दाय में सबसे कम अंश मिलेगा।[223] विष्णु ने विविध परिस्थितियों में ब्राह्मण के शूद्रापुत्र का अंश निर्धारित करते हुए[224] यह उदारतापूर्वक नियम बनाया है कि द्विज पिता और शूद्र माता से उत्पन्न पुत्र अपने पिता के आधे धन का उत्तराधिकारी होगा।[225] किंतु वृहस्पति ने उसी पुराने नियम को दुहराया है कि शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न पुत्र पिता के अन्य पुत्र न होने पर भी केवल भरण पोषण पाने का अधिकारी होगा।[226] कहा गया है कि द्विज पिता और शूद्र माता से उत्पन्न पुत्र भूमि संपत्ति में अंश पाने का हकदार नहीं है।[227] किंतु एक जगह अनुशासनपर्व में जोर देकर कहा गया है कि शूद्रापुत्र को संपत्ति अवश्य मिलनी चाहिए।[228] इस विधान की इस काल के अन्य स्मृतिग्रंथों से भी पुष्टि होती है।

ऐसा नियम है कि शूद्र की संपत्ति उसके पुत्रों के बीच समान अंशों में बांटी जाएगी।[229] याज्ञवल्क्य ने कहा है कि शूद्र पिता और दासी माता से उत्पन्न पुत्र को संपत्ति में तभी हिस्सा मिलेगा, जब पिता चाहे।[230] अनुशासनपर्व में इतना और जोड़ा गया है कि यह अंश संपत्ति का दसवां भाग ही होगा।[231]

चारों विभिन्न वर्णों के लिए ब्याज की भिन्न भिन्न दरें निर्धारित करने वाला प्राचीन नियम इस काल के दो स्मृतिग्रंथों में भी दुहराया गया है।[232] परंतु याज्ञवल्क्य ने इसको सुधारते हुए बताया है कि करार से जो भी तय हो, वही ब्याज चुकाया जा सकता है।[233]

निखात निधि संबंधी नियम वर्णभेद पर आश्रित है। स्मृतिकारों के अनुसार

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

यदि ब्राह्मण निखात निधि (गड़ा खजाना) पाए तो वह उसे पूर्णतया ले सकता है।[234] विष्णु ने इसमें यह भी जोड़ा है कि यदि क्षत्रिय निधि पाए तो उसकी एक एक चौथाई राजा और ब्राह्मण को देगा और आधा स्वयं रख लेगा, यदि वैश्य पाए तो एक चौथाई राजा को देगा, आधा ब्राह्मण को देगा और एक चौथाई स्वयं रखेगा, और शूद्र पाए तो उसे बारह भागों में बांटकर पांच पांच भाग राजा और ब्राह्मण को देगा और दो भाग स्वयं रखेगा।[235] यद्यपि निखात निधि में शूद्र का अंश सबसे कम है, फिर भी यह कौटिल्य के अनुसार मजदूर (भृतक) को मिलने वाले अंश का दूना है।[236] यह कहना कठिन है कि निखात निधि संबंधी यह नियम कहां तक प्रचलन में था। एक जैन ग्रंथ में ऐसा उल्लेख है कि जब निखात निधि एक वणिक को मिली तब राजा ने उसे जब्त कर लिया, किंतु जब इसी तरह ब्राह्मण को ऐसी निधि मिली, तब राजा ने उसे पुरस्कृत किया।[237]

सामान्यतया ब्राह्मण के विरुद्ध किए गए अपराध कर्म के लिए शूद्रों को क्रूर शारीरिक दंड देने के विधान को, नारद ने, और कुछ मामलों में वृहस्पति ने भी, दुहराया है।[238] वृहस्पति ने कहा है कि शूद्र को आर्थिक दंड नहीं दिया जाए, बल्कि ताड़न, बंधन और निंदन का दंड दिया जाए।[239] वृहस्पति विशेष रूप से प्रतिलोमों (अर्थात उच्च वर्ण की माता और निम्न वर्ण के पिता की संतानों) और अंत्यों (अछूतों) के प्रति कठोर हैं, जिन्हें वे समाज का मल समझते हैं। यदि वे ब्राह्मण का अपराध करें तो उन्हें पीटना चाहिए और अर्थदंड कभी नहीं करना चाहिए।[240] यही विधान नारद ने श्वपचों, मेदों, चंडालों, हस्तिपों (महावतों), दासों आदि के लिए किया है।[241] नारद ने इतना और कहा है कि इन मामलों में अपराध से पीड़ित व्यक्ति स्वयं अपराधी को दंड दें, क्योंकि अपराधी को दिए जाने वाले दंड से राजा को कोई मतलब नहीं है।[242] यह राजकीय शक्ति के ह्रास का महत्वपूर्ण संकेत है। यदि कोई ब्राह्मण शूद्र को दुर्वचन कहे तो उसे साढ़े बारह पण का दंड दिया जाए, यह नियम इस काल की स्मृतियों में भी दुहराया गया है।[243] किंतु वृहस्पति ने यह भी कहा है कि यह नियम गुणवान शूद्रों के विषय में ही लागू होता है, गुणहीन शूद्रों को दुर्वचन कहने के लिए ब्राह्मण दंडनीय नहीं है।[244] संभवतया यह अस्पृश्य शूद्रों के विषय में कहा गया है, जिनके लिए ऐसे विषयों में विधि में कोई परित्राण नहीं है। किंतु इस विषय में शूद्रों के अन्य वर्गों को उच्च वर्ण के लोगों द्वारा किए गए अपराध के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा प्राप्त थी।[245]

यद्यपि यह कहा गया है कि शूद्रों को शारीरिक दंड दिया जाए, तथापि वृहस्पति ने वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण को दुर्वचन कहने के लिए विहित दंडों की जो तालिका दी है, उसमें इसका कोई संकेत नहीं मिलता है।[246] फाहियान ने लिखा है कि मध्य देश में राजा मृत्युदंड या अन्य शारीरिक दंड दिए बिना ही

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

शासन करता था ।[247] यह अत्युक्ति हो सकती है, फिर भी इससे यह ध्वनित होता है कि शारीरिक दंड का प्रचलन पूर्व की तुलना में कम हो गया था, जिससे शूद्रों का कल्याण हुआ । याज्ञवल्क्य वर्णमूलक विधान का सिद्धांत तो मानते हैं,[248] फिर भी उन्होंने शूद्र अपराधियों के लिए मनु के क्रूर दंडविधान को दुहराया नहीं है। उनके हमला संबंधी एक नियम में वर्णभेद का आभास नहीं है। उन्होंने कहा है कि यदि दोनों पक्ष अस्त्रप्रहार की धमकी दें तो सबको समान दंड मिलेगा,[249] किंतु यदि कोई अब्राह्मण ब्राह्मण को पीड़ित करे तो उसका अंग काट लिया जाएगा ।[250] यह स्पष्ट नहीं होता है कि यह नियम ब्राह्मण पर हमला करने वाले शूद्रों पर भी लागू था या नहीं ।

विष्णु ने अपनी जाति की परस्त्री का संग करने पर उत्तम कोटि के दंड का और निम्नतर जाति की परस्त्री का संग करने पर मध्यम कोटि के दंड का विधान किया है ।[251] परंतु यह अद्भुत बात है कि उन्होंने अंत्यज स्त्री से संभोग करने पर सीधे मृत्युदंड का विधान कर दिया है[252] (बशर्ते कि वहां 'वध्य' शब्द पिटाई के अर्थ में प्रयुक्त न माना जाए)। परंतु यह उनके अपने ही एक दूसरे विधान के विरुद्ध है, जिसके अनुसार यदि कोई ब्राह्मण चंडाल स्त्री से एक रात संभोग करे तो तीन वर्षों तक भिक्षाटन पर जीने और निरंतर गायत्री जपने से शुद्ध होगा ।[253] किंतु यह द्रष्टव्य है कि द्विजाति स्त्री का संग करने पर शूद्र के लिए मनु ने जो कठोर दंड विहित किया है, वह इस काल की किसी भी विधि-संहिता में नहीं पाया जाता है ।

इस काल के विधिग्रंथों में विभिन्न वर्णों के वध के लिए प्रतिकार का भिन्न भिन्न मानदंड विहित नहीं किया गया है । फिर भी विष्णु ने हत्या के पाप के लिए प्रायश्चित के भिन्न भिन्न मानदंड विहित किए हैं। जैसे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र की हत्या के पाप की शुद्धि के लिए क्रमशः 12, 9 और 3 वर्ष महाव्रत नामक तप करना है ।[254] इसका कोई प्रमाण तो नहीं मिलता है कि ऐसे प्रायश्चित वस्तुतया कराए जाते थे, किंतु इससे प्रकट होता है कि चारों वर्णों के जीवन का आपेक्षिक महत्व क्या था। परंतु विष्णु और याज्ञवल्क्य क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के वध को चतुर्थ कोटि का अपराध (उपपातक) मानते हैं,[255] और विष्णु के अनुसार अपराधी को चांद्रायण या पराक नामक व्रत या गोमेध यज्ञ करना चाहिए ।[256] इस तरह के उपबंध से शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय एक कोटि में आते हैं और ब्राह्मण को उन सबों से विशिष्ट स्थान मिलता है। शांतिपर्व के एक हस्तलेख में पाए जाने वाले एक संदर्भ से भी यह चित्तवृत्ति लक्षित होती है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र ब्रह्महत्या करे तो या तो उसकी आंखें निकाल ली जाएं या उसे मार दिया जाए, किंतु यदि कोई ब्राह्मण ऐसा अपराध करे तो देश से निष्कासित कर दिया जाए ।[257] उसी हस्तलेख के एक

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

दूसरे संदर्भ में कहा गया है कि जो ब्राह्मण पापकर्म करने वाला हो और हत्यारा हो या विप्रों के बीच चोर हो, तथा जो क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र ब्राह्मण की हत्या का अपराधी हो उसकी आंखें निकाल ली जाएं।[258] इस प्रकार यहां दंड में वर्ण-भेद नहीं किया गया है।

प्रतीत होता है कि दंडविधान में वर्णभेद गुप्तकाल में कमजोर हो चला था। पश्चिम भारत के छठी शताब्दी के एक उत्कीर्ण लेख में मानहानि, हमला और हिंसा के लिए वर्णानुसार दंडों का उल्लेख नहीं है।[259] फाहियान ने बताया है कि मध्य देश में हर अपराधी को उसके अपराध के गुरुत्व के अनुसार दंड दिया जाता था,[260] जिससे ध्वनित होता है कि अपराधी को उसके वर्ण के अनु-सार दंड नहीं दिया जाता था। हो सकता है कि दंडविधान में ब्राह्मणों के प्रति कुछ अनुग्रह किया जाता हो, किंतु जिस प्रकार पूर्वकाल में कठोर दंड केवल शूद्रों के लिए थे, वैसा इस काल में नहीं पाते हैं।

नारद ने इस पुराने मत को अपनाया है कि चोरी करने पर ब्राह्मण का अपराध सबसे अधिक और शूद्र का अपराध सबसे कम माना जाएगा।[261] यह शायद इस सिद्धांत पर आधारित है कि ब्राह्मण को धर्म के चारों चरणों (पूरी मात्रा) का पालन करना है, क्षत्रिय को तीन (3/4) का, वैश्य को दो चरणों का और शूद्र को एक चरण का। चारों वर्णों के प्रायश्चित के लिए पाप का गुरुत्व या लघुत्व इसी सिद्धांत पर निर्धारित किया जाना चाहिए।[262] कात्यायन ने जो यह कहा है कि शूद्र के लिए जो दंड है, क्षत्रिय या ब्राह्मण को उसका दूना दंड मिलना चाहिए,[263] उसका भी तात्पर्य चोरी से ही रहा होगा। यहां वैश्यों का उल्लेख न होना इस बात का सूचक है कि वे शूद्रों में समाविष्ट होते जा रहे थे। किंतु इन सबों से यह लक्षित होता है कि शूद्र स्वभावतया चोर समझे जाते थे, और इस अनुमान का समर्थन अमरकोश से भी होता है जहां चोरों और दस्युओं के पर्याय शूद्र वर्ग में गिनाए गए हैं।[261]

दस्युओं का उल्लेख शांतिपर्व में राजा के शत्रु और प्रजा की सुख शांति पर खतरा पहुंचाने वाले के रूप में बारंबार किया गया है।[265] संभवतया इसका संकेत राज्य के बाहरी शत्रुओं की ओर है, न कि शूद्रों की ओर, क्योंकि कहा गया है कि यदि दस्युओं के उत्पात से वर्णों के मिश्रण की आशंका हो तो ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र सभी शस्त्रग्रहण कर सकते हैं।[266] यह तर्क दिया गया है कि शूद्र हो या और कोई वर्ण, जो सेतुहीन धारा में सेतु का काम करे, पार होने के साधनांतर के अभाव में तरणि का काम करे, वह अवश्य ही सर्वत्र पूजनीय है।[267] जो व्यक्ति दस्युओं से असहायों की रक्षा करे वह स्वजनवत् सब के लिए आदरणीय है।[268] धनुर्वेद संहिता[269] में कहा गया है कि तीन ऊंचे वर्णों के लोग सामान्यतया शस्त्र-ग्रहण कर सकते हैं, किंतु शूद्र केवल आपतकाल में ही ऐसा कर सकता है।[270]

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

लेकिन उसमें आगे यह भी कहा गया है कि ब्राह्मण धनुष का प्रयोग करें, क्षत्रिय तलवार का, वैश्य बरछे का और शूद्र गदा का।[271] इस प्रकार उपर्युक्त संदर्भों से सिद्ध होता है कि शूद्रों को शस्त्र ग्रहण करने का अधिकार दे दिया गया था। इससे शूद्रों की नागरिक प्रतिष्ठा में महत्वपूर्ण परिवर्तन की सूचना मिलती है, क्योंकि पूर्व काल के स्मृतिकारों ने उन्हें शस्त्र ग्रहण की अनुमति नहीं दी थी। यह नवीन परिवर्तन शूद्रों के कृषक वर्ग के रूप में परिणत होने के साथ साथ हुआ, और यह सिद्ध करता है कि वर्णव्यवस्था के अनुयायियों के हृदय में अब पहले की यह आशंका नहीं रही कि शूद्र उनके काबू से कहीं बाहर हो जाएंगे। मालूम होता है कि शूद्र सेना में भरती किए जाते थे। इस काल के एक नाटक में दो सैनिक पदाधिकारी क्रमशः नाई और चमार जाति के हैं।[272]

परंतु शूद्रों के प्रति किए गए इन अनुग्रहों के बावजूद इन वर्णों के बीच भीतरी संघर्ष का अंत न हुआ। शांतिपर्व में कम से कम नौ ऐसे श्लोक हैं जिनमें ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच मेलमिलाप की आवश्यकता पर जोर दिया गया है,[273] जिससे शायद यह सूचित होता है कि वैश्य और शूद्र वर्ग संयुक्त रूप से विरोध के लिए सन्नद्ध थे। कहा गया है कि एक बार शूद्रों और वैश्यों ने जान बूझकर ब्राह्मणों की स्त्रियों का संग करना शुरू किया।[274] कई ऐसे प्रसंग आए हैं, जिनसे ध्वनित होता है कि शूद्र विशेष रूप से वर्तमान समाजव्यवस्था के विरोधी थे। अनुशासनपर्व में कहा गया है कि शूद्र राजा के नाशक होते हैं, इसलिए चतुर राजा को इस खतरे के प्रति लापरवाह नहीं रहना चाहिए।[275] अश्वमेधिक पर्व के एक लंबे परिच्छेद में जो अंशतः वसिष्ठ धर्मशास्त्र से उद्धृत है, शूद्रों को शत्रु, हिंसक, अहंकारी, क्रोधी, मिथ्याभाषी, परम लोभी, कृतघ्न, नास्तिक, आलसी और अपवित्र कहा गया है।[276] इसी प्रकार, मनु की भांति शांतिपर्व में कहा गया है कि वृषल (अर्थात शूद्र) वह है जो धर्म (स्थापित समाज व्यवस्था) का विरोध करे।[277] शूद्रों के विरोधी रुख का आभास नारद स्मृति के एक श्लोक में भी मिलता है। इसमें कहा गया है कि यदि राजा दंड का प्रयोग न करे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सभी अपना अपना कर्तव्य त्याग देंगे, किंतु इसमें शूद्र तो सबसे आगे बढ़ जाएंगे।[278] याज्ञवल्क्य ने कौटिल्य के इस वचन को दुहराया है कि यदि शूद्र दूसरों की आंखें निकाले,[279] ब्राह्मण होने का पाखंड करे, और राजविरोधी कार्य करे तो उसे 800 पण जुर्माना किया जाए।[280] नट, जुआरी, जुआघर चलाने वाले आदि शूद्र राज्य में अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले माने जाते थे, क्योंकि वे भद्र नागरिकों (भद्रिकाः प्रजाः) का अपकार करते थे।[281] शांतिपर्व में कहा गया है कि दासों और म्लेच्छों के साथ निपटने की जिम्मेदारी एक ही प्रकार के अधिकारी को दी जाए और चंडालों व म्लेच्छों के प्रति बलप्रयोग किया जाए।[282] इन बातों से ध्वनित होता है कि शूद्रों और शासक वर्गों के बीच पुराना संघर्ष किसी

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

न किसी रूप में बना रहा, पर इसकी पुरानी तीव्रता जाती रही, संभवतया इन कारणों से—शूद्र मंत्रियों का रखा जाना, जिला प्रशासन के कार्यों में शिल्पिसंघों के प्रधानों को सहयोजित करना, न्याय में वर्णमूलक भेद भाव में न्यूनता आना, और अंत में संकट की घड़ी में शूद्रों को हथियार उठाने का अधिकार मिलना।

चारों वर्णों की उत्पत्ति की पुरानी कहानी[283] तो पूर्ववत दुहराई जाती रही, किंतु वायु और ब्रह्मांड पुराणों में मनु के इस कथन का समर्थन किया गया है कि शूद्रों के मूल पुरुष वसिष्ठ थे,[284] जिसका अर्थ हुआ कि उनकी सुधरी सामाजिक प्रतिष्ठा की मान्यता कायम रही।

सफेद, लाल, पीला और काला इन चार रंगों का संबंध जो क्रमशः ब्राह्मणादि चार वर्णों से जोड़ा गया है, वह वर्णों की सापेक्षिक सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक है।[285] नटों अर्थात अभिनेताओं का वर्णन करते हुए नाट्यशास्त्र में कहा गया है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए लाल परिधान होना चाहिए,[286] और वैश्य व शूद्र के लिए काला या श्याम।[287] इस ग्रंथ में यह भी कहा गया है कि प्रेक्षागृह में ब्राह्मणों का स्थान सूचित करने के लिए एक श्वेत स्तंभ खड़ा किया जाए, क्षत्रियों का स्थान सूचित करने के लिए लाल स्तंभ, वैश्यों का स्थान सूचित करने के लिए पीला स्तंभ और शूद्रों का स्थान सूचित करने के लिए श्याम स्तंभ।[288] ब्राह्मण स्तंभ के तल भाग में सोने के और कान के आभूषण डाले जाएं, क्षत्रिय स्तंभ के तल भाग में ताम्र के, वैश्यों के स्तंभ के तल भाग में चांदी के, और शूद्र स्तंभ के तल भाग में लोहे के।[289] यह कल्पना प्लेटो की उस कल्पना से मिलती है जिसमें कहा गया है कि दार्शनिकों का निर्माण स्वर्ण से हुआ, सैनिकों का चांदी से, तथा कृषकों और शिल्पियों का पीतल और लोहे से।[290]

शूद्रों का ही उपनाम दास होना चाहिए,[291] इस नियम का अनुसरण शायद नहीं किया गया है। उदाहरणार्थ, रविकीर्ति नामक ब्राह्मण के एक पूर्वज का नाम वराहदास था,[292] और चंद्रगुप्त द्वितीय के सामंत सनकानीकों के एक शासक का नाम महाराज विष्णुदास था।[293] नाट्यशास्त्र में कहा गया है कि नाटक में ब्राह्मणों और क्षत्रियों के नाम अपने गोत्र और कर्म के सूचक, वणिकों के नाम उनकी उदारता के सूचक और सेवकों के नाम विभिन्न पुष्पों के सूचक होने चाहिए।[294] मालूम नहीं कि शूद्रों का नाम फूल पर क्यों रखा जाता था।

कुशल पूछने में विभिन्न वर्णों के विषय में विभिन्न शब्द के प्रयोग का जो नियम था उस पर इस काल में जोर दिया गया नहीं जान पड़ता है। किंतु नाट्यशास्त्र में कहा गया है कि दासी-दासों, शिल्पियों और यांत्रिकों के साथ बातचीत करने में उन्हें आज्ञावाचक शब्दों से संबोधित किया जाना चाहिए।[295] इससे यह सूचित होता है कि निम्न जाति के लोग अनादरपूर्वक संबोधित किए जाते थे। मृच्छकटिक नाटक में अधम वर्ग के लोगों के संबोधन में 'दासी के बेटे', 'रखैल के

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

बेटे', 'जार के बेटे' आदि गालियों का प्रयोग किया गया है।[296]

नाट्यशास्त्र में भी मंचस्थ नीच पात्रों का चित्रण करते हुए उनके लिए भिन्न प्रकार के पद संचार और अंग संचार का विधान किया गया है। इस विधान के अनुसार ऐसे पात्रों के शरीर का कोई भाग या माथा या हाथ अथवा पांव झुका रहना चाहिए और उनकी नजर विभिन्न वस्तुओं पर फिरती रहनी चाहिए।[297] ऐसी भंगिमाओं से उनमें आत्मबल का अभाव झलकता है और यह सिद्ध होता है कि उन्हें अपने प्रभुओं के समक्ष सिर ऊपर उठाने की गुस्ताखी नहीं करने दी जाती थी।

याज्ञवल्क्य ने कहा है कि वयोवृद्ध शूद्रों का आदर करना चाहिए।[298] पूर्व के स्मृतिकारों की भांति इन्होंने इस बात पर जोर नहीं दिया है कि यदि वैश्य और शूद्र अतिथि होकर आएं तो उनसे काम कराया जाए और उन्हें भृत्यों के साथ खिलाया जाए। फिर भी इन्होंने यह विधान किया है कि अतिथियों का सत्कार और उनके भोजन उनके वर्ण के अनुरूप होने चाहिए।[299] परंतु इन्होंने जो कहा है कि शाम के समय आए अतिथि को जाने नहीं दिया जाए और जो ही कुछ संभव हो उससे उनका सत्कार करना चाहिए,[300] वह किसी वर्ण विशेष तक ही सीमित नहीं है। वैश्वदेव अनुष्ठान के बाद चंडालों को खिलाने का जो नियम धर्मसूत्र में था वह इस युग में भी दुहराया गया है,[301] और इसमें चंडाल के साथ दास, श्वपाक और भिखारी का भी उल्लेख है।[302]

इस काल के ग्रंथों में बार बार कहा गया है कि ब्राह्मण को शूद्र का अन्न नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे ब्रह्मवर्चस् (आध्यात्मिक बल) घटता है।[303] शांतिपर्व में बढ़ई, चर्मकार, धोबी और रजक का अन्न ब्राह्मण के लिए निषिद्ध बताया गया है।[304] याज्ञवल्क्य के अनुसार शूद्रों और पतितों का अन्न स्नातकों के लिए अग्राह्य है।[305] उन्होंने आगे स्पष्ट किया है कि स्नातक को रंगजीवी, बांस का काम करने वाले, स्वर्णकार, शस्त्रविक्रेता, शिल्पी, दर्जी, रंगरेज, कुत्तों से जीविका चलाने वाले, कसाई, धोबी या तेली का अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए।[306] कई शूद्रों के अन्न को क्षत्रिय के लिए भी अग्राह्य करने की परंपरा चली। कहा गया है कि जो शूद्र कुमार्गगामी और सर्वभक्षी हों, उनका अन्न क्षत्रिय के लिए भी वर्जनीय है।[307] अनुशासनपर्व घोषित करता है कि जो शूद्र का अन्न खाता है, वह धरती का मल खाता है, शरीर का विकार पीता है और समस्त संसार के कलुष का भागी होता है।[308] शायद ऐसा इसलिए कहा गया है कि ब्राह्मण डर कर ऐसा करने से विरत रहे। जो ब्राह्मण शूद्र का अन्न ग्रहण करे या वैश्य और क्षत्रियों की पंगत में खाए उसके लिए प्रायश्चित का विधान किया गया है।[309]

शूद्रान्न के वर्जन संबंधी नियम बहुत सीमित मात्रा में लागू होते हैं। वे या तो ब्राह्मणों पर लागू हैं या स्नातकों पर, जो अधिकतर ब्राह्मण होते होंगे।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

ब्राह्मण को भी शूद्र के घर से दूध और दही लेने की अनुज्ञा है।[310] यदि ब्राह्मण द्विजों से अन्न प्राप्त कर अपनी जीविका चलाने में असमर्थ हो तो वह शूद्र का अन्न भी ग्रहण कर सकता है।[311] याज्ञवल्क्य ने मनु के इस नियम को दुहराया है कि शूद्रों के बीच स्नातक अपने चरवाहे का, परिवार के मित्र का, दास का, नाई का, बटाईदार का, और भरण पोषण के लिए शरणापन्न व्यक्ति का अन्न ग्रहण कर सकता है।[312] बृहस्पति ने भी दासों और शूद्रों का अन्न ग्राह्य बताया है।[313]

शूद्र का उच्छिष्ट खाना या छूना द्विज के लिए घोर कुकर्म समझा जाता था और इसके लिए समुचित प्रायश्चित का विधान किया गया है।[314]

कोई प्रमाण नहीं मिलता कि चंडालों और अन्य अछूतों को छोड़कर कुछ शूद्र जातियों का पानी पीना निषिद्ध था। मृच्छकटिक में कहा गया है कि ब्राह्मण और शूद्र एक ही कुएं से पानी भरते थे।[315]

याज्ञवल्क्य ने कुछ वस्तुओं को द्विजों के लिए अखाद्य बताया है। द्विज को मद्य पीने की अनुज्ञा नहीं है। इस नियम का उल्लंघन करने वाली ब्राह्मणी के लिए प्रायश्चित का विधान है,[316] किंतु विज्ञानेश्वर के अनुसार यदि शूद्र की स्त्री मद्यपान करे तो उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है।[317] लगता है नशाखोरी की बुराई शूद्रों में खास तौर से थी, क्योंकि मद्यों, उनके निर्माण की प्रक्रियाओं और नशा के वाचक शब्द अमर ने शूद्रवर्ग में ही गिनाए हैं,[318] और जुआ संबंधी शब्द भी इसी वर्ग में परिगणित हैं।[319] पंचतंत्र में एक मदमत जुलाहे का चित्रण है[320] जो अपनी स्त्री को पीटता है। याज्ञवल्क्य ने ऐसी गाय के दूध को अखाद्य बताया है जो गरमाई हुई या दस दिन के भीतर ब्याई हुई हो या जिसका बछड़ा या बछिया मर गई हो; उन्होंने ऊंट, एक खुर वाली पशु, महिला, जंगली पशु, या भेड़ के दूध का भी निषेध किया है।[321] देवताओं के लिए अभिप्रेत वलि (उपहार), हव्य (यज्ञ के लिए बना खाद्य), अनुत्सृष्ट (देवताओं को न समर्पित) मांस, कवक (फफूंद), मांसभक्षी पशु, तथा कई पक्षी, जैसे तोता, हंस, वक, चकवा इत्यादि द्विजों के लिए अखाद्य घोषित किए गए हैं,[322] और कुछ विषयों में इस नियम के उल्लंघन के पाप को दूर करने के लिए प्रायश्चितों का भी विधान है।[323] याज्ञवल्क्य ने यह भी कहा है कि पंचनखों (पांच पंजों वाले जानवरों) में साही, घड़ियाल, गोह, कछुआ और खरहा द्विजों के लिए अभक्ष्य हैं, उन्होंने चार प्रकार की मछलियां भी बताई हैं जो द्विजों के लिए भक्ष्य हैं।[324] उन्होंने मूली, प्याज, लहसुन, घरेलू सूअर, कुकुरमुत्ता और गंदना (चम्मोकन) खाना भी वर्जित किया है और इसका उल्लंघन करने वालों के लिए चांद्रायण व्रत का प्रायश्चित बताया है।[325] फाहियान ने कहा है कि प्याज और लहसुन केवल चंडाल खाते थे।[326] याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जो व्यक्ति शूद्र को अखाद्य वस्तु खिलाए वह प्रथम कोटि के दंड के आधे दंड का पात्र होगा, और यह अपराध यदि उच्च वर्ण के लोगों के

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

प्रति किया जाए तो दंड और अधिक होगा।[327] इससे ध्वनित होता है कि कुछ वस्तुएं शूद्रों के लिए भी अभक्ष्य थीं, किंतु इनका नामोल्लेख याज्ञवल्क्य ने नहीं किया है। दूसरी ओर यह तो स्वतः सिद्ध है कि द्विजों के लिए जो वस्तुएं अखाद्य बताई गई हैं, उन्हें शूद्र खा सकते थे। बृहस्पति स्मृति में कहा गया है कि मध्य देश में कर्म-कर (मजदूर) और शिल्पी लोग गोमांस खाते थे,[328] जिससे यह प्रकट होता है कि गोवध के विरुद्ध प्रबल ब्राह्मण भावना भी जनसाधारण में प्रचलित गोमांस भक्षण की पुरानी प्रथा को रोकने में सदा समर्थ न हुई। इसका अनुमान एक उपदेशात्मक कथा से भी लगाया जा सकता है, जो संभवतया आलोच्य काल में वायुपुराण में प्रक्षिप्त की गई है। कथा है कि एक बार मनु वैवस्वत के पुत्र पृषध्र ने अपने गुरु की गाय का मांस खा लिया, और इस पर च्यवन ने शाप दिया कि तुम शूद्र हो जाओ।[329] इस आख्यान से प्रकट होता है कि शूद्र की भोजन परिपाटी द्विजों की भोजन परिपाटी से कुछ भिन्न थी।

पारिवारिक जीवन के नियम शूद्रों के लिए भी वैसे ही हैं जैसे अन्य वर्ण के लोगों के लिए।[330] किंतु शूद्रों में विवाह की अपनी खास परिपाटी पूर्ववत बनी रही।[331] अनुशासनपर्व में कहा गया है कि द्विजों का विवाह मंत्रपूर्वक पाणिग्रहण से संपन्न होता है किंतु शूद्रों का विवाह संभोग से।[332] एक जैन ग्रंथ में चर्चा आई है कि तोसली में एक स्वयंवर भवन में एक दासकन्या ने दासकुमारों की एक जमात से अपने पति का वरण किया।[333] कई संदर्भों से ध्वनित होता है कि शूद्रों के बीच उच्च वर्णों की अपेक्षा स्त्रियों को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। याज्ञवल्क्य के एक श्लोक की व्याख्या करते हुए विश्वरूप ने यह मत व्यक्त किया है कि स्मृति ग्रंथों में जो नियोग का विधान है वह केवल शूद्रों के लिए है,[334] और अपने इस मत के समर्थन में उसने वृद्ध मनु के दो श्लोक और वायुपुराण की एक गाथा उद्धृत की है।[355] पति के दूर देश चले जाने पर विवाह विच्छेद करके दूसरा पति कर लेना शूद्र स्त्री के लिए अन्य वर्णों की स्त्री की अपेक्षा अधिक आसान था। ऐसी दशा में अनुशासनपर्व ने शूद्र स्त्री के लिए प्रतीक्षा की अवधि केवल एक वर्ष विहित की है।[336] परंतु वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए प्रतीक्षा की अवधि विहित करते हुए नारद ने कहा है कि विदेश गए शूद्र की स्त्री के लिए प्रतीक्षा की कोई अवधि निर्धारित नहीं है।[337] यह उपबंध जो दुहराया गया है कि गोपालक, तेली, सूंड़ी आदि की स्त्रियां अपने पति द्वारा किए गए ऋण की अदायगी के लिए उत्तरदायी होती हैं,[338] उससे प्रकट होता है कि ये शूद्र स्त्रियां अपने जीवननिर्वाह के लिए हमेशा अपने मर्दों पर आश्रित नहीं रहती थीं।

विष्णु ने कहा है कि यदि युवती हो जाने के बाद भी कन्या विवाहित न हो तो वह पतित स्त्री समझी जानी चाहिए।[339] टीकाकार नंदराज ने कहा है कि यह नियम केवल निम्न वर्णों की युवतियों के लिए है,[340] किंतु मूल ग्रंथ में ऐसी कोई

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

बात नहीं है जिससे कि ऐसा माना जाए।

उच्च वर्णों के लोग निम्न वर्णों से कन्या ले सकते हैं यह मत इस काल के ग्रंथों में भी व्यक्त किया गया है।[341] किंतु यह भावना भी बनी रही कि अधम वर्ण अर्थात शूद्र जाति की स्त्रियां केवल आनंद के लिए ब्याही जाती हैं।[342] कामशास्त्र ने कुंभदासियों (पनहारिनों या वेश्याओं ?) तथा धोबी और जुलाहे की स्त्रियों को वेश्याओं से भिन्न नहीं माना है।[343] इस ग्रंथ के अनुसार शूद्र स्त्री के साथ संभोग करना मना तो नहीं है, लेकिन उसे बहुत अच्छा भी नहीं माना जाता।[344] वात्स्यायन ने अपने ही वर्ण में विवाह को प्रशंसनीय बताया है।[345] इस काल के ग्रंथों में विशेष रूप से ब्राह्मणों के लिए शूद्रा से विवाह करना या उसके साथ संभोग करना या उससे पुत्र उत्पन्न करना परम निंदनीय बताया गया है।[346] परंतु इस नियम के उल्लंघन के कई उदाहरण मिलते हैं। मृच्छकटिक नाटक में चारुदत्त नामक ब्राह्मण ने वसन्तसेना नामक वेश्या से विवाह किया है, हालांकि यह विवाह राजा की विशेष अनुज्ञा से हुआ है।[347] इसी नाटक में शर्विलक नामक ब्राह्मण का विवाह मदनिका नाम की दासी से कराया गया है।[348] इस काल के साहित्य में ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जहां क्षत्रियों ने शूद्रा से विवाह किया है।[349]

विभिन्न उच्च वर्णों के बीच आपस में विवाह की परिपाटी पूर्णतया समाप्त नहीं हो गई थी, यह बात वर्णसंकरों की उत्पत्ति के पुराने सिद्धांत के आवर्तन से ध्वनित होती है।[350] अनुशासनपर्व में पंद्रह पुरानी संकर जातियां गिनाई गई हैं,[351] और चार नई जातियों का उल्लेख किया गया है—मंस, स्वादुकार क्षौद्र और सौगंध, जो मागधी माता और क्रमशः चार वर्णों के दुष्ट पिता से उत्पन्न बताए गए हैं।[352] इनमें एक मद्रनाभ जाति का भी उल्लेख है और कहा गया है कि ये लोग निषाद से उत्पन्न हैं और गधों की गाड़ी पर चढ़ते हैं।[353] व्रात्य का उल्लेख अपने कर्मों से च्युत द्विजों के रूप में नहीं किया गया है, बल्कि यह कहा गया है कि क्षत्रिय स्त्री और शूद्र पुरुष से उत्पन्न संतान व्रात्य है,[354] और उसे चंडालों की कोटि में रखा गया है।[355] यह भी कहा गया है कि वैद्य का जन्म वैश्य माता और शूद्र पिता से हुआ है। पूर्व काल में चिकित्सकों की इज्जत कितनी कम थी इसका यह एक ज्वलंत उदाहरण है। अमरकोश में एक नवीन जाति माहिष का उल्लेख है जो वैश्य स्त्री (अर्या) से उत्पन्न क्षत्रिय की संतान बताया गया है।[356] संभवतया वे महिषकों के समान थे जिन्हें द्रविड़, कलिंग, पुलिन्द, उशीनर, कोलिसर्प, शक, यवन और काम्बोज के साथ पतित शूद्र बताया गया है।[357] यद्यपि वर्णों के मिश्रण से जातियों की उत्पत्ति की कहानी मनगढ़ंत है, तथापि इस काल में आकर इस अनुश्रुति ने सामाजिक विकास की दिशा को प्रभावित किया है, क्योंकि वर्तमान काल में भी असवर्ण विवाह के उदाहरण पूर्वी नेपाल में पाए जाते हैं।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

इस काल के स्मृतिग्रंथों में शूद्रों और अछूतों के बीच पूर्ववत अंतर रखा गया है। यथा, याज्ञवल्क्य ने कहा है कि चंडाल स्त्री के साथ संभोग करने से शूद्र चंडाल हो जाता है।[358] शूद्रों और श्वपाकों का पृथक रूप में उल्लेख कई ग्रंथों में मिलता है।[359] किंतु अमरकोश में वर्णसंकरों और अस्पृश्यों को शूद्र जाति का ही अंग माना गया है। इस ग्रंथ के शूद्रवर्ग में दस संकर जातियां गिनाई गई हैं, जैसे, करण, अम्बष्ठ, उदग्र, (संभवतया उग्र), मागध, महिष, क्षत्तृ, सूत, वैदेहक, रथकार और चंडाल।[360] लेकिन वैदेहक (व्यापारी) का उल्लेख वैश्यवर्ग में भी किया गया है।[361]

अमर ने चंडालों के दस नाम दिए हैं—उनमें प्लव, दिवाकीर्ति, जनंगम आदि कई जातियों का उल्लेख पूर्व काल के ग्रंथों में विरल है,[362] जिससे प्रकट होता है कि चंडाल जाति की जनसंख्या बढ़ी। इसका अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि चंडालों का उल्लेख पूर्व काल के ग्रीक लेखकों ने नहीं किया है जबकि इस ओर फाहियान का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट हुआ।[363]

डोम्ब, जिस जाति के लोग परवर्ती काल में उत्तर भारत में बहुत बड़ी तादाद में अछूत माने गए, संभवतया गुप्तकाल में जाति के रूप में आविर्भूत हुए; जैन स्रोत उन्हें उपेक्षित वर्ग का मानते हैं।[364] शायद ये एक आदिवासी कबीले (जन) के लोग थे, जो ब्राह्मणीय समाज के निचले वर्गों में मिला लिए गए। किरात, शबर और पुलिंद, ये वन जातियां म्लेच्छों के साथ साथ अमरकोश में शूद्र वर्ग में समाविष्ट की गई हैं,[365] जिससे प्रकट होता है कि आदिवासी जनसमुदाय बड़ी संख्या में शूद्र समुदाय में लीन होते जा रहे थे।

प्रतीत होता है कि इस काल में न केवल अस्पृश्यों की संख्या में वृद्धि हुई बल्कि अस्पृश्यता की प्रथा भी कुछ दृढ़ हुई। वृहस्पति ने चंडालों के स्पर्श से होने वाली अपवित्रता (पाप) को दूर करने के लिए प्रायश्चित का विधान किया है।[366] फाहियान ने बताया है कि जब कोई चंडाल किसी नगर या बाजार के भीतर प्रवेश करता था तो वह एक लकड़ी को पीटता चलता था ताकि लोग पहले ही समझ जाएं कि चंडाल आ रहा है और उसके स्पर्श से बचने की कोशिश करें।[367] मार्कण्डेय पुराण में ऐसे व्यक्तियों के लिए भी प्रायश्चित कर्म का विधान है जिनकी नजर किसी अंत्यज या अंत्यावसायिन पर जाए।[368] किंतु इस अस्पृश्यता नियम का पालन मुख्यतया चंडाल के विषय में किया जाता था। ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता है कि डोम्ब अस्पृश्य माने जाते थे। इसी प्रकार इसका भी कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि चर्मकार, जो परवर्ती काल में अछूत समझे जाने लगे, इस काल में भी वैसा माने जाते थे।

इन संकर जातियों और अछूतों की आजीविका के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। मनु का यह नियम कि इन जातियों की पहचान इनके

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

पेशों से की जाए, अनुशासनपर्व में भी दुहराया गया है।[369] चंडालों का पेशा सड़कों, गलियों की सफाई करना, श्मशान का काम करना, अपराधियों को फांसी पर लटकाना और रात में चोरों का अनुसंधान करना पूर्ववत जारी रहा।[370] शिकार निम्नस्तरीय शूद्रों का एक प्रमुख पेशा था। बड़े कौतूहल की बात है कि अमरकोश में शूद्रवर्ग में न केवल बाजों और शिकारियों के पर्याय ही दिए गए हैं,[371] बल्कि साधारण कुत्ते, शिकार के लिए प्रशिक्षित कुत्ते, घरेलू सूअर और दाहिनी ओर घायल हिरण के भी पर्याय आए हैं।[372] इसी वर्ग में चिड़ियों को फंसाने के फंदे, जाल, रस्सी और पिंजरे का भी उल्लेख किया गया है।[373] फाहियान ने बताया है कि चंडाल लोग मछुवे और शिकारी होते थे तथा मांस बेचते थे।[374] किंतु कालिदास ने चंडालों का उल्लेख बहेलियों और मछुओं से भिन्न रूप में किया है, हालांकि ये सभी एक ही वर्ग के हैं।[375] इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि इस काल में चंडाल मूलतया शिकारी नहीं होते थे, किंतु शिकार उनका एक गौण व्यवसाय रहा होगा। एक जैन ग्रंथ में बताया गया है कि मेद जन दिन रात तीर धनुष से शिकार करते रहते थे।[376] यह भी पता चलता है कि श्वपाक कुत्तों का मांस पकाते थे और धनुष की तांत बेचते थे।[377]

इन वर्णसंकरों और खासकर चंडालों के रीति-रिवाजों और धार्मिक विश्वासों के विषय में कुछ जानकारी मिलती है। ये संकर जातियां गांव के बाहर बसती थीं और इनमें लोहे के गहनों का प्रचलन था।[378] एक चंडाल का वर्णन कुत्तों और गधों द्वारा उड़ाई गई धूलि से धूसरित रूप में किया गया है।[379] फाहियान ने बताया है कि चंडाल ही मद्य पीते थे और लहसुन-प्याज खाते थे,[380] जिससे सूचित होता है कि वे खास तौर से इन वस्तुओं के व्यसनी होते थे। बहेलिया और शिकारी होने के कारण स्वभावतया वे मांसभक्षी होते थे।[381] एक बौद्ध ग्रंथ में कहा गया है कि जो मांस खाता है, वह पुनः पुनः चंडालों, पुक्कसों, और डोम्बों के कुल में जन्म लेता है।[382] आगे पुनः कहा गया है कि जब कोई कुत्ता मांस खाने के इच्छुक पुरुषों को दूर से भी देखता है तो वह ऐसा सोचकर आतंकित हो उठता है कि 'ये मृत्यु-व्यापारी हैं, ये मुझे भी मार डालेंगे।'[383]

प्रतीत होता है कि लोगों के मनोरंजन के लिए गीत गाना संभवतया डोम्बों का महत्वपूर्ण पेशा था।[384] वे गीत गा गाकर और डगरा, सूप आदि बेचकर अपनी जीविका चलाते थे।[385] अमरकोश में शूद्रवर्ग में एक प्रकार की ग्राम्य वीणा, चंडालिका का उल्लेख है,[386] जिससे सूचित होता है कि सार्वजनिक मनोरंजन में चंडालों का भी हाथ रहता था।

डोम्बों और मातंगों के अपने देवता होते थे जो यक्ष (जक्ख) कहलाते थे।[387] मातंगों के जक्खों का पूजास्थल सद्यः मृत मनुष्यों की हड्डियों पर बनाया जाता

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

था।[388] यह परिपाटी शायद इसलिए चली कि चंडाल प्रायः श्मशानों से अनुबद्ध रहते थे।

अछूतों और खासकर चंडालों का वर्णन बड़े निंद्य रूप में किया गया है। कहा गया है कि अपवित्रता (अशुचि), असत्य, चोरी, नास्तिकता, निरर्थक कलह, काम, क्रोध और लोभ अंत्यावसायिनों के लक्षण हैं।[389] चंडता (अर्थात उग्रता) चंडालों के चरित्र की विशेषता है। मृच्छकटिक में चंडाल कहते हैं कि हम चंडाल कुल में उत्पन्न होकर भी चंडाल नहीं हैं, क्योंकि चंडाल और पापिष्ठ वे हैं जो निरपराध का गला काटते हैं।[390] एक बौद्ध ग्रंथ में कहा गया है कि यदि कोई ब्राह्मण, सत्य, संन्यास, दम (इंद्रिय निग्रह) और भूत दया से रहित हो तो वह चंडाल के तुल्य है।[391] ऐसे ही आशय से यह भी कहा गया है कि गायों और ब्राह्मणों की सेवा करने से अक्रूरता, दया, सत्यवादिता और क्षमा का आचरण करने से और अपनी जान लगाकर दूसरों की जान बचाने से अंत्यज भी सिद्धि पा सकते हैं।[392]

सर्वप्रथम शांतिपर्व में घोषणा की गई है कि चारों वर्णों को वेद सुनाना चाहिए,[393] और शूद्र से भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए।[394] यह विधान मनु के विधानों के नितांत विरुद्ध हैं जिन्होंने ऐसे मामलों में कठोर दंड बताया है। शांतिपर्व का यह उपदेश शूद्रों के वेद पढ़ने के अधिकार के विरुद्ध बद्धमूल धारणा के कारण अनसुना कर दिया गया होगा,[395] परंतु इतिहास पुराण पढ़ने के द्वार शूद्रों के लिए वस्तुतः खोल दिए गए। भागवतपुराण में कहा गया है कि स्त्रियों और शूद्रों के लिए महाभारत ही वेद है।[396] यहां यह स्पष्ट नहीं कहा गया है कि शूद्र महाभारत पढ़ भी सकते थे या केवल सुन सकते थे। लेकिन पुराणों के विषय में भविष्यपुराण बताता है कि शूद्र इन्हें पढ़ नहीं सकते हैं, केवल सुन सकते हैं।[397] सदुपदेश और मोक्ष के लिए सभी वर्गों के लोगों को पुराण और रामायण-महाभारत की कथा सुनाने की धार्मिक परिपाटी शायद गुप्तकाल से ही चली है।

विद्या की दूसरी शाखा है नाट्यशास्त्र जिसका द्वार शूद्रों के लिए खुला हुआ था। यह पंचम वेद कहा गया है, जो चारों वेदों के सार से रचा गया है और जिसका उपयोग सभी जातियों के लोग कर सकते हैं।[398] इतना ही नहीं, योग[399] और सांख्य[400] दर्शन भी, जो संभवतया गुप्तकाल में ही अपने चरम रूप में विकसित हुए थे, शूद्रों के लिए वर्जित नहीं थे।[401] यह तथ्य कि सांख्यदर्शन के अनुसार चार प्रमाणों में एक प्रमाण वेद भी है उस दर्शन की दृष्टि से असंगत नहीं मालूम पड़ता है, क्योंकि वह सभी जातियों के लिए सुलभ है। इसी तरह वैदिक उद्धरणों से भरे इतिहास (रामायण महाभारत) भी शूद्र समान रूप से सुन सकते हैं।[402]

गुप्तकाल में भी कई शिक्षित शूद्रों के उदाहरण दिखाई पड़ते हैं। याज्ञवल्क्य के एक श्लोक से प्रकट होता है कि भृतकों के लिए भी अध्यापक होते थे।[403] मृच्छकटिक में न्यायाधीश शकार को फटकारता है 'अरे नीच, तुम वेद की बात कर

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

रहे हो, और तब भी तुम्हारी जीभ नीचे न गिरी।'[404] विद्वान शूद्रों का अस्तित्व वज्रसूची से भी प्रमाणित होता है, जिसमें वेद, व्याकरण, मीमांसा, सांख्य, वैशेषिक, लग्न आदि शास्त्रों के ज्ञाता शूद्रों की चर्चा है।[405] यह संदर्भ बौद्ध धर्मावलंबियों के बारे में नहीं बल्कि शूद्रों के बारे में है, क्योंकि ब्राह्मणीय मुहावरे में बौद्धों को निंदास्वरूप शूद्र कहा जाता था, बौद्धों के मुहावरे में नहीं। जायसवाल ने कहा है कि बौद्ध ग्रंथों में विद्वान और संस्कृत बोलने वाले जिन शूद्रों की चर्चा है, वे शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न ब्राह्मणों के पुत्र थे।[406] यह संभव तो है, किंतु हो सकता है कि शूद्रों के कुछ उन्नत वर्गों ने शिक्षा प्राप्त की हो और अपने बंधु वर्गों के उत्थान के लिए काम किया हो।

फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं कि उच्च वर्णों की तुलना में शूद्रों का सांस्कृतिक स्तर नीचे था। उदाहरणार्थ, नाटकों में स्त्रियां और निम्न जाति के पात्र गंवारों की भाषा प्राकृत बोलते थे, जबकि उच्च वर्गों के पात्र शिक्षितों की परिष्कृत भाषा संस्कृत बोलते थे।[407] लेकिन नाट्यशास्त्र में कहा गया है कि रानियां, वेश्याएं और कलाकार महिलाएं परिस्थिति के अनुसार संस्कृत बोल सकती हैं।[408] कभी कभी प्राकृत की विभिन्न बोलियों के प्रयोग में भी जातीय स्तर का विचार किया जाता था, नाटकों में ऊंची हैसियत के पात्र सौरसेनी बोलते थे और नीच पात्र मागधी प्राकृत।[409] नाट्यशास्त्र में चंडालों, पुल्कसों आदि विभिन्न जातियों और पेशों के पात्रों के लिए विभिन्न स्थानीय बोलियां (विभाषाएं) विहित की गई हैं।[410] इन सबों से पता चलता है कि निम्न वर्ग के लोगों को लिखने-पढ़ने की शिक्षा नहीं दी जाती थी जिससे वे परिमार्जित भाषा संस्कृत बोल सकें।

कहा जाता है कि धनुर्वेद के छात्र के रूप में शूद्र का वैदिक मंत्रपूर्वक उपनयन संस्कार होता था,[411] किंतु धनुर्वेद संहिता में इस संस्कार की चर्चा नहीं है। कारीगर के रूप में शूद्रों को व्यावसायिक और शिल्पिक प्रशिक्षण अपने परिवार में ही या किन्हीं बाहरी विशेषज्ञों से मिलता रहा होगा, किंतु इस प्रशिक्षण में लिखने-पढ़ने का कोई स्थान नहीं था। फिर भी इतना स्पष्ट है कि गुप्तकाल के ग्रंथों में शूद्रों के विषय में न केवल उदार दृष्टिकोण ही आया है, बल्कि कुछ शिक्षित शूद्रों के अस्तित्व का प्रमाण भी मिलता है।

शूद्रों को धर्म-कर्म का अधिकार नहीं है, यह पुरानी मान्यता इस काल में भी दुहराई गई है।[412] इसमें यह तर्क दिया गया है कि ऊपर के तीन वर्णों की सेवा ही शूद्रों के लिए यज्ञ कर्म है।[413] इसी दृष्टि से नारद ने कहा है कि अभिषेक जल नास्तिकों, व्रात्यों और दासों को न दिया जाए।[414] परंतु विष्णु ने कहा है कि कुछ परिस्थितियों में शूद्र को अभिषेक द्वारा दिव्य करना पड़ता है।[415] शूद्रों की धार्मिक हैसियत में परिवर्तन के अन्य आभास भी मिलते हैं। मार्कण्डेय पुराण

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

ने दान देना और यज्ञ करना शूद्र का कर्तव्य बताया है।[416] इसमें संदेह नहीं कि शूद्रों को पंच महायज्ञ करने की छूट दी गई है।[417] मनु ने तो स्पष्टतया ऐसा नहीं कहा है, किंतु याज्ञवल्क्य ने साफ कर दिया है कि शूद्र (ओंकार के बदले) नमः का प्रयोग करते हुए पंच महायज्ञ कर सकते हैं।[418] हापकिंस का यह कथन सही है कि यह वचन शूद्र के लिए नहीं है,[419] क्योंकि इस बात की अन्य स्रोतों से भी पुष्टि होती है।[420] मनु ने यज्ञ दीक्षा को द्विज का एक जन्म माना है,[421] किंतु याज्ञवल्क्य के समानांतर श्लोक में द्विजों के इस विशेषाधिकार का उल्लेख नहीं है।[422] यह याज्ञवल्क्य की उदार मनोवृत्ति के अनुरूप ही है, जो शूद्रों को यज्ञ करने की अनुमति देते हैं। शांतिपर्व में मुक्त कंठ से कहा गया है कि त्रयी (वेदों) के अनुसार स्वाहाकार और नमस्कार मंत्र शूद्र के लिए विहित है और वह औपचारिक रूप से दीक्षित होकर प्रथम दो मंत्रों से पाकयज्ञ कर सकता है।[423] इस सुधार के समर्थन में शूद्र पैजवन ने एक पाकयज्ञ किया और एक दिन में पूरा होने वाले ऐंद्राग्नि नामक यज्ञ के नियमानुसार उसने सौ हजार पूर्णपात्र (चावल से भरे कलश) दक्षिणा स्वरूप दिए।[424] यह हमें आधुनिक युग के सामाजिक सुधारों की उस परिपाटी की याद दिलाता है जिसमें विधवा विवाह, तलाक आदि के समर्थन में इसी तरह के प्राचीन उदाहरण ढूंढ़ निकाले गए। शूद्रों के लिए गृह्य यज्ञ की छूट देते हुए शांतिपर्व ने यह महत्वपूर्ण बात कही है कि सभी वर्णों को यज्ञ करने का अधिकार है, बशर्ते कि उनमें श्रद्धा हो।[425]

शूद्रों को यज्ञ करने का अधिकार दिए जाने के एक महत्वपूर्ण उपांग के रूप में उन्हें व्रतानुष्ठान का भी अधिकार दिया गया। याज्ञवल्क्य ने चांद्रायण व्रत शूद्रों के लिए विहित किया है, जो स्पष्टतया इनके द्वारा प्रयुक्त अवकृष्ट शब्द के अर्थ के अंतर्गत है।[426] यह वचन प्रक्षिप्त माना जाता है,[427] किंतु यह याज्ञवल्क्य की उदार मनोवृत्ति के अनुरूप ही है और इसी तरह का वचन वृहस्पति स्मृति में भी आया है जिसमें ब्राह्मण के यज्ञोपवीत को तोड़ने के अपराधी शूद्र के लिए प्राजापत्य व्रत का प्रायश्चित बताया गया है।[428]

वृहस्पति स्मृति में शूद्रों के लिए कर्णवेधन[429] और चूड़ाकरण[430] संस्कार विहित हैं। इनमें प्रथम का उल्लेख गृह्यसूत्रों में नहीं है, किंतु द्वितीय का विधान इनमें किया गया है।[431] मनु ने इसे केवल द्विजों के लिए विहित किया था,[432] जिसका विस्तार अब शूद्रों तक हो चला था।

कई ग्रंथों में संन्यास आश्रम शूद्रों के लिए वर्जित है। कालिदास ने रामायण में किए गए शूद्र तपस्वी शंबूक के निंदन को दुहराया है।[433] राम ने जो शंबूक को प्राणदंड दिया, इसकी उन्होंने प्रशंसा की है और बताया है कि इस मृत्युदंड के परिणामस्वरूप उसने जो पुण्यात्माओं का पद प्राप्त किया उसे वह अपनी उग्र तपस्या से नहीं पा सकता था, क्योंकि तपस्या तो वह अपने वर्णधर्म के

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

विरुद्ध कर रहा था।[434] किंतु आश्रमों के साथ वर्णों के संबंध के विषय में शांतिपर्व की मनोवृत्ति कुछ भिन्न है। इसके अनुसार ब्राह्मण के लिए चारों आश्रम अनिवार्य हैं, किंतु अन्य वर्णों के लिए नहीं;[435] अन्य तीन वर्णों के लिए संन्यास आश्रम वर्जित है।[436] इसका अर्थ हुआ कि शूद्र यदि चाहे तो प्रथम तीन आश्रमों में प्रवेश कर सकता है, और चतुर्थ का द्वार न केवल शूद्र के लिए अपितु वैश्य और क्षत्रिय के लिए भी बंद है। किंतु कात्यायन ने कहा है कि यदि शूद्र संन्यासी संन्यासाश्रम का परित्याग करे तो वह राजा द्वारा दंडनीय है।[437] याज्ञवल्क्य ने देवों और पितरों के निमित्त शूद्र संन्यासी को खिलाना वर्जित किया है।[438] इसका तात्पर्य या तो जैन या बौद्ध भिक्षुओं से हो सकता है या शूद्र वर्ण के संन्यासियों से।

शूद्रों की धार्मिक प्रतिष्ठा में सुधार का बड़ा संकेत मिलता है मूर्तिस्थापन संबंधी नियमों में। मूर्ति बनाने के लिए उपयुक्त वस्तुओं की गिनती कराते हुए एक वैष्णव ग्रंथ में कहा गया है कि सभी जातियों के लोग मूर्ति बना सकते हैं।[439] इससे प्रकट होता है कि शूद्र भी मूर्तियां बनाकर उन्हें पूज सकते थे और इनकी मूर्तियां भी उसी वस्तु की होती थीं जिसकी अन्य वर्णों के लोगों की। लेकिन इस काल के एक अन्य ग्रंथ में मूर्ति बनाने के लिए उपयुक्त लकड़ी चुनने में वर्णमूलक विभेद विहित किया गया है, और तदनुसार चार वर्णों के लिए क्रमशः चार प्रकार की लकड़ी बताई गई है।[440] एक गुप्तोत्तरकालीन वैष्णव उपपुराण में इसी तरह का नियम आया है जिसमें कहा है कि मंदिर और मूर्ति बनाने में श्वेत काष्ठ ब्राह्मणों के लिए शुभ है, लाल क्षत्रियों के लिए, पीला वैश्यों के लिए, और काला शूद्रों के लिए।[441] मूर्ति बनाने में इसी ग्रंथ में चारों वर्णों के लिए क्रमशः इन्हीं चार वर्णों के पत्थर विहित किए गए हैं।[442] लकड़ी और पत्थर के चुनाव में वर्ण-विभेद के रहते हुए भी, प्रतिमाविज्ञान विषयक ग्रंथों के अवलोकन से इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि शूद्र भी मूर्ति बना सकते थे और उसकी पूजा कर सकते थे।

कहा गया है कि शूद्र की अर्थी में ब्राह्मण शामिल नहीं हो सकता है; यदि वह ऐसा करेगा तो वह स्नान करके आग को छूकर और घी पीकर शुद्ध होगा।[443] वह पुराना नियम जिसमें शूद्र के मरने पर उसके परिवार के लोगों के लिए अशौच की सबसे लंबी अवधि बताई गई है, इस काल के कई ग्रंथों में भी पूर्ववत बना रहा।[444] लेकिन इस विषय में याज्ञवल्क्य ने सामान्य शूद्रों के लिए एक मास तक और धार्मिक (न्यायवर्ती) शूद्रों के लिए 15 दिन तक अशौच बताया है, और इस प्रकार धार्मिक शूद्र को वैश्य का दर्जा दिया है।[445] व्रतों के अनुष्ठान में भी वैश्य और शूद्र समान कोटि में रखे गए हैं। कहा गया है कि वैश्य और शूद्र केवल एक रात के लिए व्रत करें।[446] यदि मूर्खतावश वे द्विरात्र या त्रिरात्र व्रत करें तो उससे उनका अभ्युदय न होगा।[447] फिर भी विशेष अवसरों पर वे दो रातों तक

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

व्रत कर सकते हैं।[448] लेकिन कभी कभी इस बात पर भी जोर दिया गया है कि उपवास व्रत केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय कर सकते हैं।[449]

वृहस्पति ने कहा है कि मरे बच्चे का जन्म (जन्म हानि) होने पर ब्राह्मण दस दिनों में शुद्ध होता है, क्षत्रिय सात दिनों में, वैश्य पांच दिनों में और शूद्र तीन दिनों में।[450]

कर्मानुष्ठानों के अवसर के संदर्भ में महिलाओं और शूद्रों की अपवित्रता का विधान इस काल के ग्रंथों में भी सुरक्षित है।[451] कई दशाओं में शूद्रों और पतितों (अंत्यजों) को जो कुत्ते के समान अपवित्र माने जाते थे, देखने पर प्रायश्चित विहित किया गया है।[452] यह भी विधान है कि यदि क्षत्रिय ब्रह्मचारी को वैश्य या शूद्र स्पर्श करे और वैश्य ब्रह्मचारी को शूद्र, तो उसे प्रायश्चित करना होगा।[453]

गृह्यसूत्रों के अनुसार श्राद्ध कर्म शूद्रों के लिए विहित नहीं है,[454] किंतु इस काल के ग्रंथों में यह कर्म शूद्रों के लिए भी स्पष्टतया विहित किया गया है।[455] शूद्र साधारण श्राद्ध तो कर ही सकता है,[456] असाधारण (वृद्धि) श्राद्ध भी कर सकता है, जिसमें पुत्रप्राप्ति आदि के विशेष अवसर पर पितरों की अर्चना की जाती है।[457] यह भी बताया गया है कि मरने पर कर्मानुष्ठान करने वाले ब्राह्मण को प्राजापत्य लोक मिलता है, रण से न भागने वाले क्षत्रिय को ऐंद्रलोक मिलता है, अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले वैश्यों को मारुतलोक मिलता है, और भृत्य कर्म में रत शूद्रों को गांधर्वलोक मिलता है।[458]

शूद्र अपने पितरों को, जो पुराणों में सुकालिन संज्ञा से अभिहित हैं[459] और काले रंग में बताए गए हैं,[460] जलांजलि और अन्य उपहार चढ़ा सकते थे। किंतु जहां ऋषियों की संतान के रूप में वर्णित द्विजों के प्रवर होते थे, वहां शूद्रों के प्रवर नहीं होते थे।[461]

इस काल की उल्लेखनीय धार्मिक घटना है शूद्रों के दान देने के अधिकार पर जोर।[462] दान शूद्रों के लिए सर्वोत्तम साधन माना गया है, इसके द्वारा वह सारी सिद्धियां प्राप्त कर सकता है।[463] जो शूद्र सत्य और ईमानदारी पर चलता है, मंत्र और ब्राह्मण का आदर करता है और दान देता है, वह स्वर्ग जाता है और अगले जन्म में ब्राह्मण होता है।[464] वेश्याओं के लिए विहित अनंगदान नामक विशेष व्रत में यह विधान किया गया है कि वेश्या से, जो सामान्यतया शूद्र जाति की मानी जाती थी, गोदान लेते समय ब्राह्मण वैदिक मंत्र पढ़े।[465] आगे हम यह भी पाते हैं कि लीलावती नामक शैव वेश्या और एक शूद्र सुनार ने दान दिए जिसके फलस्वरूप मृत्यु के बाद वेश्या को शिव लोक (शिव मंदिर) मिला और सुनार मूर्ति नामक सम्राट हुआ।[466] ईस्वी सन की पांचवीं शताब्दी के एक बौद्ध टीका ग्रंथ में ऐसे कम से कम एक दर्जन उदाहरण आए हैं जहां निम्न वर्णों के

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

लोगों ने बुद्ध, भिक्षुओं, या संघ को दान देने के फलस्वरूप स्वर्ग का आनंद और बौद्ध 'विमानों' का सुख भोग प्राप्त किया।[467] इस प्रकार दान का सिद्धांत बौद्ध और ब्राह्मणीय दोनों धर्मों में एक समान था।

ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है जिससे यह सिद्ध हो कि याज्ञवल्क्य स्मृति से पहले दान धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए जोरदार प्रचार किया गया।[468] वृहस्पति स्मृति की रचना के बाद तो दान द्वारा मोक्षप्राप्ति का सिद्धांत पराकाष्ठा पर पहुंच गया।[469] दान की यह महिमा जो शूद्रों के संबंध में ही उदात्त स्वर में गाई गई है, यह सिद्ध करती है कि शूद्र वर्ग दान देने की स्थिति में था और यह स्थिति उसकी आर्थिक अवस्था में हुए परिवर्तन के अनुरूप ही है।

यज्ञ, व्रत, श्राद्ध, तथा अन्य कर्मों का अनुष्ठान जो शूद्रों के लिए विहित किया गया है, उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इन कर्मों में वे ब्राह्मणों को नियोजित करते होंगे, जो इन अवसरों पर किया गया दान ग्रहण करते होंगे।[470] शूद्रों द्वारा किए जाने वाले इन कर्मों में पुरोहित का काम करने वाले ब्राह्मणों (शूद्र याजकों) की जो बार बार निंदा की गई है,[471] उससे इन पुरोहितों के विरुद्ध परंपरागत पूर्वग्रह तो प्रकट होता ही है, साथ ही यह भी ध्वनित होता है कि इन कर्मों में ब्राह्मणों को नियोजित करने की प्रथा अधिकाधिक प्रचलित होती जाती थी। मनु ने जिस तरह शूद्र पुरोहितों (ऋत्विजों) की निंदा की है,[472] वैसा याज्ञवल्क्य ने नहीं किया है। वज्रसूची में दृढ़तापूर्वक कहा गया है कि ब्राह्मण कैवर्तों, रजकों, और चंडालों के परिवार में भी मिलेंगे, जिनके बीच चूड़ाकरण, मुंज, दंड और काष्ठ आदि संस्कार किए जाते हैं।[473] इससे ज्ञात होता है कि ब्राह्मण निम्नतम कोटि के शूद्रों के यहां भी याजक होते थे। वज्रसूची में यह भी कहा गया है कि क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यज्ञ करते और कराते हुए अध्ययन और अध्यापन करते हुए तथा दान लेते हुए देखे जाते हैं।[474] यदि यह परिवर्तन वस्तुतया हुआ हो तो इससे प्रकट होता है कि याजन (पौरोहित्य) कर्म पर ब्राह्मणों का जो एकाधिकार था उसके विरुद्ध कुछ वर्गों के लोगों में चेतना जग गई थी। इस तरह के कई आंदोलन हाल में भी हुए हैं।

इधर बौद्ध धर्म के महारथी जन्ममूलक वर्णभेद का खंडन करते रहे,[475] और उधर कई सुधारवादी विचारधाराओं, विशेषकर वैष्णव संप्रदाय का उदय हुआ, जिससे बहुत हद तक शूद्रों को धार्मिक समता प्राप्त हुई। वैष्णव धर्म गुप्तकाल में विकास की चोटी पर पहुंच गया था, जब न केवल उत्तर भारत में अपितु दक्षिण और पश्चिम भारत के कई भागों में इस संप्रदाय के अद्वितीय प्रभाव को प्रमाणित करने वाले पुरालैखिक, मुद्रात्मक और मूर्ति संबंधी अभिलेख भारी संख्या में मिलते हैं।[476] महाभारत और पुराणों में इस संप्रदाय के जो सिद्धांत प्रतिपादित हैं, उनसे प्रकट होता है कि ब्राह्मण धर्म की प्राचीन कट्टरपंथी परंपरा की भांति इस वैष्णव संप्रदाय ने शूद्रों और अस्पृश्यों के लिए अपना द्वार बंद नहीं रखा, बल्कि उन्हें भी

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

ईश्वर को जानने और मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार दिया।[477] वैष्णव ग्रंथों में इस बात पर हमेशा जोर डाला जाता रहा कि कृष्ण, नारायण या वासुदेव की भक्ति के द्वारा स्त्रियां और शूद्र भी मुक्ति पा सकते हैं।[478] भगवान को यह घोषित करते हुए चित्रित किया गया है कि ब्राह्मण से लेकर श्वपाक तक सभी मेरी भक्ति से पवित्र हो जाते हैं।[479] श्रद्धालु और भक्त श्वपाक भी मुझे उस ब्राह्मण से अधिक प्रिय हैं जो अन्य गुणों से समन्वित रहने पर भी भगवान का भक्त नहीं है।[480] यदि अंत्यज एक बार भी ईश्वर का नाम लेता है तो वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है।[481] यह कहा गया है कि 'वेदज्ञ ब्राह्मण पुण्यवान शूद्र को विश्व के दीप्तिमान देव विष्णु जैसा ही मानते हैं और संसार में सर्वोत्तम भी मानते हैं।[482] जो व्यक्ति विष्णु भक्त शूद्र का अपमान करता है, वह करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है।[483] इसलिए ज्ञानवान व्यक्ति को विष्णुभक्त चंडाल का भी अपमान नहीं करना चाहिए।[484] विष्णुभक्ति के द्वारा राजन्य विजय पाते हैं, ब्राह्मण विद्या पाते हैं, वैश्य धन पाते हैं और शूद्र आनंद पाते हैं।[485]

इसी प्रकार का मंतव्य चारों वर्णों के ऐसे लोगों के लिए अभिव्यक्त किया गया है जो महादेव की ऋचाओं का पाठ करते हैं।[486] जो वैश्य, स्त्रियां और शूद्र ब्राह्मण के मुंह से दक्ष-शिव युद्ध की कथा सुनते हैं, वे रुद्रलोक में स्थान पाते हैं।[487] द्विजों की भांति शिवभक्त शूद्र भी गणपति की कोटि में पहुंच सकता है, बशर्ते कि वह मद्यपायी न हो।[488] इस प्रकार यह प्रकट होता है कि शैव संप्रदाय का द्वार भी शूद्रों के लिए समान रूप से खुला था।

तंत्र में भी, जो वैष्णव और शैव दोनों संप्रदायों से संबद्ध है, धर्म के विषय में वर्णभेद नहीं माना गया है। ई० सन की पांचवीं शताब्दी के एक तंत्रग्रंथ जयाख्य संहिता[489] में कहा गया है कि चारों वर्णों के लोग ब्राह्मण से तांत्रिक दीक्षा ले सकते हैं।[490] यदि ब्राह्मण न मिले तो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण के योग्य व्यक्ति अपने अपने वर्ण के लोगों के लिए और अपने से निम्न वर्ण के लोगों के लिए गुरु का काम कर सकते हैं।[491]

गुप्तकाल में शासक वर्ग के बहुत से लोग वैष्णव और कुछ लोग शैव थे। किंतु निचले वर्णों में इन संप्रदायों का कैसा प्रभाव था, यह जानने का साधन हमारे पास नहीं के बराबर है। कहा गया है वैशाली में शिल्पियों का वर्ग वैष्णव धर्म से बहुत प्रभावित था, क्योंकि दो शिल्पियों (कुलिकों) के नाम हरि पाए गए हैं।[492] यह स्थिति अन्य स्थानों पर भी रही होगी।

सुधारवादी संप्रदायों के प्रभाव के फलस्वरूप इस काल के धार्मिक ग्रंथों का आग्रह कर्मकांडों और संस्कारों से हटकर सदाचार पर आ गया, जो व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा का नियामक है। कहा गया है कि न अग्निहोत्र सार्थक है, न वेद का ज्ञान,[493] क्योंकि श्रुति के अनुसार देवता केवल सदाचार से संतुष्ट होते हैं।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

जो ब्राह्मण शीलवान नहीं है, वह शूद्रवत माना जाए,[494] और उसका आदर नहीं किया जाना चाहिए। इसके विपरीत यदि शूद्र भी धर्मात्मा हो तो वह आदरणीय है।[495] जो शूद्र शुद्ध हृदय वाला और मन वश में रखने वाला है वह न केवल (यज्ञोपवीत संस्कार के बिना ही) द्विज हो सकता है, बल्कि वह द्विजों की भांति पूजनीय भी हो जाता है,[496] क्योंकि न कोई जन्म से संस्कृत होता है, न संस्कार से, न विद्या से, और न संतति से, अपितु केवल शील से होता है।[497] महाभारत और पुराणों के उपदेशात्मक भागों में बार बार कहा गया है कि आचारवान शूद्र अगले जन्म में ब्राह्मणत्व प्राप्त करता है,[498] और यह बात वज्रसूची में भी दुहराई गई है।[499]

उपर्युक्त मत के समर्थन में समुचित उपाख्यान उद्धृत किए गए हैं। वनपर्व में एक कहानी आई है कि कौशिक को एक धर्मज्ञ व्याध ने विभिन्न वर्णों के धर्म और आचार सिखाए।[500] मिथिला के धर्मव्याध ने दावा किया है कि वह गुरुजनों और बड़ों की सेवा करता रहा, सदा सत्य बोला, कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की, विभवानुसार दान करता रहा तथा देवों, अतिथियों और आश्रितों के परितोषण के बाद बनी वस्तुओं से जीवननिर्वाह करता रहा। उसने न किसी की निंदा की और न किसी से घृणा।[501] ऐसा मत व्यक्त किया गया है कि यह कहानी बौद्ध संप्रदाय की है,[502] किंतु धर्मव्याध ने जो प्रतिपादन किया है उसका तत्व वैष्णव सिद्धांतों के अनुकूल ही है और उसे बौद्ध से प्रभावित मानना आवश्यक नहीं जंचता है। वज्रसूची में जो बौद्धों ने यह तर्क दिया है कि व्यास, कौशिक, विश्वामित्र और वसिष्ठ सभी जन्मत: अधम होते हुए भी इहलोक में अच्छा आचरण करने के कारण ब्राह्मण माने गए,[503] वह भी स्पष्टतया पुराणों में वर्णित पुरानी परिपाटी से निकला प्रतीत होता है।

परंतु सुधारवादी संप्रदायों को अधिक महत्व देना ठीक न होगा। शासक वर्गों ने वैष्णव धर्म का उपयोग वर्णभेदमूलक समाज व्यवस्था के मूलाधार को बनाए रखने के लिए ही किया था। वैश्य, स्त्रियां और शूद्र जन्मत: अधम माने जाते थे।[504] कहा गया है कि द्विजों की सेवा करना और विष्णु की भक्ति करना, इन दोनों के सिवा शूद्र के उद्धार का कोई अन्य उपाय नहीं है।[505] यह धारणा बहुत हद तक कर्मवाद के सिद्धांत का ही अंग है और इस सामान्य विश्वास पर आधारित है कि जिस वर्ण में जो उत्पन्न हुआ है उसके लिए उसी वर्ण के कर्तव्यों का पालन अनिवार्य है। जान पड़ता है कि ब्राह्मणवादी आदर्श ने निम्न वर्णों के लोगों के बीच भी इस मत में आस्था उत्पन्न कर दी थी।[506] मृच्छकटिक में एक गाड़ीवान वसंतसेना को मार डालने का अपने मालिक का हुक्म मानना इसलिए अस्वीकार करता है कि भाग्य ने और पापकर्मों ने मुझे जन्म से दास बना डाला है, मैं पुन: उसी दुर्गति में पड़ना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं यह पापकर्म करने से

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

इंकार करता हूं।[507] निम्नवर्गों के लोगों में जो ऐसा विश्वास था, इससे अधिकांश लोगों के मन में यह जिज्ञासा कभी न उठ सकी कि उनकी दुरवस्था के मानवकृत कारण क्या हैं।

लेकिन इसमें संदेह नहीं कि गुप्तकाल में शूद्रों के धार्मिक अधिकारों में वृद्धि हुई और कई कर्मानुष्ठानों के विषय में उन्हें तीनों उच्च वर्णों की समकक्षता मिली। ऐसा मत व्यक्त किया गया है कि शूद्रों के आध्यात्मिक उत्थान के पीछे ब्राह्मणों का स्वार्थ काम कर रहा था, क्योंकि वे चाहते थे कि अधिक से अधिक लोग ब्राह्मणीय कर्मों का अनुष्ठान करें।[508] किंतु पूर्वकाल में भी तो ब्राह्मणों का ऐसा स्वार्थ रहा होगा, जबकि ऐसी प्रवृत्ति का आभास बहुत कम मिलता है। वास्तव में शूद्रों के धार्मिक अधिकारों में वृद्धि उनकी भौतिक स्थिति में परिवर्तन के कारण हुई। इसकी बदौलत वे पुरोहितों को समुचित दक्षिणा देकर संस्कार और यज्ञ कराने में समर्थ हुए, क्योंकि यज्ञ कराने की योग्यता व्ययवहन क्षमता के साथ निकटत: संवद्ध मानी जाती थी, जो स्वाभाविक ही है।[509] मोटे तौर पर कह सकते हैं कि गुप्तकाल में शूद्रों की धार्मिक प्रतिष्ठा में जो सुधार हुआ, उसकी तुलना हम मिश्र के मिड्ल किंगडम के आरंभ में हुए घटनाक्रमों से कर सकते हैं, जब केवल फेरो और सामंतों में प्रचलित कई अंतिम संस्कार संबंधी कर्म साधारण जनों में भी प्रचलित हुए।[510] इसके साथ उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ था,[511] जो बात गुप्तकाल में शूद्रों की स्थिति के विषय में भी सही प्रतीत होती है।

गुप्तकाल में शूद्रों की हैसियत में कई भारी परिवर्तन हुए। यही नहीं कि मजदूरों, कारीगरों और भारवाहकों की मजदूरी की दरें बढ़ीं, बल्कि दास और मजदूर लोग धीरे धीरे बटाईदार और किसान होते जा रहे थे। सातवीं सदी तक पहले पहल शूद्र बड़े पैमाने पर किसान के रूप में दिखलाई पड़ते हैं। यह परिवर्तन शूद्रों की राजनीतिक सहविधिक स्थिति में व्यापक रूप से प्रतिफलित हुआ है। शांतिपर्व में शूद्र मंत्री नियुक्त करने का जो उपदेश दिया है,[512] उसको तो अधिक महत्व नहीं भी दिया जा सकता है, किंतु इसमें संदेह नहीं कि शिल्पीसंघों के प्रधान जिला प्रशासन के कार्य से जुड़े थे, और संकट की घड़ियों में शूद्रों को शस्त्र उठाने का अधिकार मिल गया था। वर्णविषयक कानूनों में कुछ ढिलाई आई और शूद्रों के प्रति बरते जाने वाले कई निष्ठुर नियम रद्द किए गए। शूदों के धार्मिक अधिकार में काफी वृद्धि हुई। हां, अस्पृश्यों की सामाजिक स्थिति पहले से भी अधिक बुरी हुई। यद्यपि वे सिद्धांततया शूद्र माने जाते थे, किंतु सभी व्यावहारिक विषयों में वे पृथक समुदाय ही थे। फिर भी ऐसा सोचना गलत होगा कि गुप्तकाल में शूद्रों का कोई अन्य वर्ग भी सामाजिक दृष्टि से अधोगत था[513] भोजन और विवाह के रिवाज के बारे में इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। जहां तक शिक्षा

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

का प्रश्न है, शूद्रों को रामायण-महाभारत और पुराण सुनने का और कभी कभी वेद सुनने का भी अधिकार निस्संदेह रूप से मिल गया था। सभी बातों पर विचार करते हुए, कह सकते हैं कि गुप्तकाल में शूद्रों की स्थिति में जो आर्थिक, राजनीतिक-सह-विधिक, सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन हुए, वे उक्त समुदाय की बदलती हुई सामाजिक स्थिति के सूचक हैं।

संदर्भ

1. काणे : 'हिस्ट्री आफ धर्मशास्त्र', II, भाग 1, पृ० XI; काणे ने इन स्मृतियों की तिथियां इस प्रकार बताई हैं—विष्णु 100-300 ई०, याज्ञवल्क्य 100-300 ई०, नारद 100-400 ई०, वृहस्पति 300-500 ई०, कात्यायन 400-600 ई०. यद्यपि विष्णु और याज्ञवल्क्य स्मृतियां कुछ पूर्व की प्रतीत होती हैं, तथापि मोटे तौर पर ये सभी स्मृतियां गुप्तकाल के संबंध में प्रामाणिक मानी जा सकती हैं.
2. याज्ञवल्क्य, II.270; विष्णु, V.3. हापकिंस : 'म्युचुअल रिलेशंस आफ दि फोर कास्ट्स इन मनु', पृ० 31; हापकिंस का मत है कि यह याज्ञवल्क्य के विषय में कदाचित् ही संभव हो सकता है. किंतु कई विषयों में याज्ञवल्क्य का जैसा जनप्रिय रुख देखते हैं, तदनुसार यह संगत ही लगता है.
3. हापकिंस : 'कैंब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया', I, पृ० 279.
4. वही, पृ० 280.
5. 'गायकवाड़ ओरिएंटल सिरीज', सं० LXXV, इंट्रोडक्शन, पृ० 118, वृहस्पति स्मृति अपने मूल रूप में मनु संहिता की अनुगामी टीका जैसी रही होगी.
6. हापकिंस : 'दि ग्रेट एपिक आफ इंडिया', पृ० 397-98.
7. वही, तुलनीय 'कैंब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया', I, पृ० 258.
8. हाजरा : 'पुराणिक रेकर्ड्स आन हिंदू राइट्स ऐंड कस्टम्स', पृ० 5.
9. वही, पृ० 175.
10. वही, पृ० 174.
11. वही, पृ० 188.
12. वही, पृ० 177; संभवतया छठी शताब्दी ई० का पूर्वार्ध.
13. 'गायकवाड़ ओरिएंटल सिरीज', अंक LXXXV, इंट्रोडक्शन, पृ० 173.
14. हाजरा : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 19.
15. वही, पृ० 51. ब्रह्मांड पुराण में कुछ अध्याय हैं जिनसे वैष्णव प्रभाव का संकेत मिलता है. वही, पृ० 18.
16. हापकिंस : 'इथिक्स आफ इंडिया', पृ० 241; तुलनीय.
17. दासगुप्त : 'हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर', भूमिका, पृ० XXX.
18. कहा जाता है कि शूद्रक महान ब्राह्मण मंत्री था. तुलनीय चारपेंटियर : (जर्नल आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी आफ ग्रेट ब्रिटेन ऐंड आयरलैंड, लंडन, 1923), पृ० 596-7.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

19. सुजुकी : लंकावतार-सूत्र, इंट्रोडक्शन, पृ० XLIII.
20. एस० के० डे० : 'हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर', पृ० 71.
21. दासगुप्त : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 532, पाद टिप्पणी. कीथ इनका समय सातवीं शताब्दी ई० बताते हैं. कीथ : 'हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर', प्रीफेस, पृ० XXII.
22. मोतीचंद : भारतीय वेशभूषा, अध्याय IX; मोतीचंद ने इनका उपयोग गुप्तकालीन वेशभूषा का वर्णन करने के लिए किया है.
23. मजुमदार और पुसलकर : 'दि एज आफ इंपीरियल यूनिटी', पृ० 270; तीसरी शताब्दी ई० इस ग्रंथ का संभाव्य रचनाकाल प्रतीत होता है. तुलनीय, द्वितीय शताब्दी ई०, एम० घोष : नाट्यशास्त्र, अनुवाद, इंट्रोडक्शन, पृ० LXXXVI; और दासगुप्त : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 522.
24. दासगुप्त : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 645 पर उद्धृत. स्मिथ इसका काल द्वितीय शताब्दी ई० पू० रखते हैं और हरप्रसाद शास्त्री प्रथम शताब्दी ई०, किंतु बनर्जी, शास्त्री, चकलादार, जाली और विंटरनिज इसे तीसरी-चौथी शताब्दी ई० का मानते हैं. चकलादार : 'सोशल लाइफ इन एनशिएंट इंडिया', पृ० 33-37. चकलादार का मत है कि वात्स्यायन पश्चिम भारत में हुए थे (वही, पृ० 96).
25. वराहमिहिर का काल 505-587 ई० माना जाता है, और इनकी सभी कृतियां छठी शताब्दी के मध्य की मानी जाती हैं.
26. बनर्जी : 'डेवलपमेंट आफ हिंदू आइकनोग्राफी', पृ० 28-9.
27. कामंदक नीतिसार, II.21; 'सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत' शांतिपर्व', 60.26; 92.2; अनुशासनपर्व 9.18; भागवत पुराण, XI.17.19; भविष्य पुराण, I.44.27; मार्कण्डेय पुराण, 28.3-8; विष्णु पुराण, III.8.32 और 33.
28. 'सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत', आश्वमेधिक पर्व, 97.29.
29. वही, शांतिपर्व, अध्याय 78.17.
30. वही, अनुशासन पर्व, 208.34.
31. वही, 208.33.
32. अमरकोश, II.10.38-39.
33. अमरकोश, II.10.15-18.
34. नारद, V.23; वृहस्पति, XV.12 और 13.
35. वही.
36. विष्णु, V.155-6; याज्ञवल्क्य, II.197; नारद, VI.9.
37. नारद, VI.6-7.
38. वही, VI.3.
39. याज्ञवल्क्य, II.198.
40. वही.
41. नारद, VI.7.
42. जाली : 'सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट', XXXIII, पृ० 140-1.
43. वही, VI.6 की पाद टिप्पणी.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

44. अर्थशास्त्र, III.13; याज्ञवल्क्य, II.194; नारद, VI.2-3; कात्यायन, श्लोक 656.
45. 'सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत', शांतिपर्व, अध्याय 60.24.
46. वही.
47. नारद, VI.10. इसके अनुसार आठ गाएं चराने का पारिश्रमिक एक गाय का दूध होता है.
48. पिंड निर्युक्ति, पृ० 368-369.
49. वृहत्कल्प भाष्य, 2.358.
50. शांतिपर्व, 60.25. शांतिपर्व के नियम वैश्य गोपालकों और कर्षकों के प्रसंग में हैं, किंतु ये नियम शूद्रों पर भी लागू रहे होंगे.
51. वृहस्पति, XVI.1-2.
52. वही.
53. प्राणनाथ : 'इकानामिक कंडीशन इन एनशिएंट इंडिया', पृ० 158.
54. तुलनीय, विलसन : 'ए ग्लासरी आफ जुडिशियल ऐंड रेवेन्यू टर्म्स', पृ० 485.
55. कामसूत्र, IV.1.33 और 42, टीका सहित.
56. शांतिपर्व, 60.31,·· अवश्यभरणीयो हि वर्णानां शूद्र उच्यते.
57. वही, 60.32-33.
58. वही, 60.27.
59. 'सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत', अनुशासन पर्व, 208.34.
60. 'कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकोरम', III, सं० 6, पंक्ति 2. गुप्तकाल के एक उत्कीर्ण लेख में दासों के क्रय-विक्रय की उपमा आई है. वृहस्पति ने दासलेख्य अर्थात दास की बिक्री के दस्तावेज का उल्लेख किया है (VI.7). मृच्छकटिक में दास वृत्ति राजा द्वारा अनुज्ञात एक प्रथा के रूप में वर्णित हैं. (इंडियन हिस्टारिकल क्वार्टर्ली, कलकत्ता, V), पृ० 307.
61. नारद, V.26-28. इन दासों में कुछ को दास कहना, विवादार्णव-सेतु के एक उद्धरण के अनुसार, जो वृहस्पति का माना गया है, ठीक नहीं है. एच० टी० कोलब्रुक : 'ए डाइजेस्ट आफ हिंदू ला', II, 12. एतत्कालीन जैन ग्रंथों में छः प्रकार के दासों का उल्लेख प्रतीत होता है, जैन : 'लाइफ एज डिपिक्टेड इन जैन कैनन्स', पृ० 107.
62. नारद, V.5; वृहस्पति, XV.15-16.
63. नारद, V.6-7.
64. वही, V.23-25.
65. याज्ञवल्क्य, II.182; बलाद्दासीकृतश्चौरेरविक्रीतश्चापि मुच्यते.
66. कोलब्रुक : पूर्व निर्दिष्ट, II, पृ० 25.
67. कात्यायन, श्लोक 722, इस मान्यता को कात्यायन ने दुहराया है.
68. याज्ञवल्क्य, II.182-3; नारद, V.39; कात्यायन, श्लोक 716.
69. श्लोक 715; तुलनीय विष्णु, V.154.
70. नारद, V.37; वृहस्पति, XV.243; विक्रीणीते स्वतन्त्रो यः स्वमात्मानं नराधम; स जवेघन्यतमस्त्वां सोऽपिदास्यान्न मुच्यते.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

71. अनुशासन पर्व, 45.23; काणे : पूर्व निर्दिष्ट, II, भाग I, पृ० 182 में उद्धृत.
72. नारद, V.42-43; तुलनीय कात्यायन में दास मुक्ति संबंधी नियम, श्लोक 715. लेकिन नारद ने कहा है कि कुछ कोटियों के दास स्वामी के अनुग्रह के बिना मुक्त नहीं हो सकते थे (V.29).
73. धर्मकोश, I, भाग 1, पृ० 299 में उद्धृत.
74. कात्यायन, श्लोक 350.
75. अमरकोश, III.5.27.
76. जैन : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 362-65, वृहत्कथाभाष्य गाथा में तीन नापित दासियों की चर्चा है (6094).
77. घोषाल : 'दि क्लासिकल एज', पृ० 558, कात्यायन, श्लोक 962-63, शूद्रक : मृच्छकटिक, VIII.25.
78. शूद्रक : मृच्छकटिक (करमारकर संस्करण, पृ० 309).
79. कात्यायन, श्लोक 92.
80. विष्णु, XVIII. 44.
81. कात्यायन, श्लोक 882, वृहस्पति (सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट), XXV.82-83.
82. नारद, V.41; कात्यायन, श्लोक 724.
83. श्लोक 724. यह विक्रय स्वामी की अनुमति के बिना संभव नहीं रहा होगा. काणे ने विवाद चिंतामणि के पाठ को अच्छा माना है, कात्यायन, पृ० 267, पाद टिप्पणी, श्लोक 724 पर.
84. नारद, XIII.38.
85. वृहस्पति, XXVI.10, 28, 43, 53 और 64.
86. (एपिग्राफिया इंडिका, कलकत्ता और दिल्ली, XX), उत्कीर्ण लेख सं० 5, पंक्ति 5-11; एस० के० मैती : 'दि इकानामिक लाइफ आफ नार्दर्न इंडिया इन दि गुप्ता पीरियड', पृ० 50-51.
87. (एपिग्राफिया इंडिका, कलकत्ता और दिल्ली, XX), उत्कीर्ण लेख सं० 5, पंक्ति 5-11.
88. (इंडियन एंटीक्वेरी, बम्बई, XXXIX), पृ० 215-16.
89. भारतवर्ष, 1349, भाग I, पृ० 384 (हिस्ट्री आफ बंगाल, I, 652 में उद्धृत).
90. कृष्णकुमारी जे० विरजी : 'एनशिएंट हिस्ट्री आफ सौराष्ट्र', पृ० 246-47, 267 और आगे.
91. कोसम्बी : (जर्नल आफ अमेरिकन ओरिएंटल सोसायटी, बाल्टी मोर, LXXV), पृ० 237.
92. शांतिपर्व, 60.24-26, 92.2.
93. अमरकोश, II.9.6.
94. मनुस्मृति, IV.253 और विष्णु, LVII.16 में आर्धिक शब्द का प्रयोग है, किंतु याज्ञवल्क्य I.166 में अर्धसीरिक शब्द का.
95. (एपिग्राफिया इंडिका, कलकत्ता और दिल्ली, I.), उत्कीर्ण लेख सं० 1, पंक्ति 39. बुहलर ने आर्धिक शब्द का अनुवाद 'लेबरर' या मजदूर किया है, जो गलत है. वही, पृ० 9.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

96. (एपिग्राफिया इंडिका, कलकत्ता और दिल्ली, XXIX), उत्कीर्ण लेख सं० 1, पंक्ति 39. कुलिकों को वृहस्पति (संस्कार 404) ने एक 'जन' बताया है. ये 11वीं शताब्दी के पाल उत्कीर्ण लेख में भी जनों की सूची में गिनाए गए हैं.
97. कोल छोटा नागपुर के मुंडा समुदाय का एक महत्वपूर्ण आदिवासी वर्ग है.
98. (एपिग्राफिया इंडिका, कलकत्ता और दिल्ली, VIII), उत्कीर्ण लेख सं० 12, पंक्ति 6.
99. नारद, I.181.
100. मजुमदार और पुसलकर : 'दि एज आफ इंपीरियल यूनिटी', पृ० 299.
101. नारद, I.181 की टीका, कीनाशः शूद्र कदर्यो वा.
102. नारद, I.181.
103. वृहस्पति, XIX.6, यदि शूद्रो नेता स्यात्….
104. मार्कण्डेय पुराण, 49.47. तथा शूद्रजनप्रायः स्वसमृद्धिकषीवला : 'तुलनीय अनुशासनपर्व, अध्याय 68 में शूद्र ग्रामों का वर्णन. बंद्योपाध्याय : 'इकानामिक लाइफ 'ऐंड प्रोग्रेस इन एनशिएंट इंडिया', पृ० 329 में उद्धृत.
105. कात्यायन, श्लोक 479-80 …कवकान् क्षत्रविट्शूद्रान् समहीनास्तु दापयेत्. यहां प्रसंग से सिद्ध होता है कि 'कर्वकान्', 'क्षत्रविट्शूद्रान्' का विशेषण है. काणे ने कर्षकान् का अनुवाद उसे स्वतंत्र संज्ञा मानकर किया है (श्लोक 479-80 का अनुवाद), जो संदर्भ के आशय के अनुकूल नहीं लगता है, क्योंकि संदर्भ में यह ब्राह्मण और क्षत्रविट्शूद्र इन दोनों पदों के बीच में आया है. तुलनीय, कात्यायन, श्लोक 586.
106. वृहस्पति, संस्कार, 31.3-4.
107. 'कार्पस इस्क्रिप्शनम इंडिकेरम', III, उत्कीर्ण लेख सं० 60, पंक्ति 12; सं० 27, पंक्ति 6; सं० 26, पंक्ति 6.
108. फ्लीट : 'कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम', III, पृ० 123.
109. कीलहार्न : (एपिग्राफिया इंडिका, III), पृ० 314.
110. प्राणनाथ : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 157.
111. पालि-इंगलिश डिक्शनरी; देखें 'कुटुंबिक' शब्द.
112. अर्थशास्त्र, I, 130.
113. फ्लीट : पूर्व निर्दिष्ट, III, पृ० 98; घोषाल : 'हिंदू रेवेन्यू सिस्टम', 191, 210. अन्य मतों के लिए देखें, बार्नेट : (जर्नल आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी आफ ग्रेट ब्रिटेन ऐंड आयरलैंड, लंडन, 1931), पृ० 165; सरकार : 'सलेक्ट इंसक्रिप्शंस, I', पृ० 266, पाद टिप्पणी 5.
114. रघुवंश, XVII.65; नारद, XVIII.48; वृहस्पति, आपद्धर्म, 7.
115. वृहस्पति, I.43-44. मूल ग्रंथ में 'कीनाश' शब्द का प्रयोग है, जिसका अर्थ नारद I.181 की असहाय कृत टीका के अनुसार शूद्र होता है.
116. वाटर्स : 'आन युआन चुआङ्स ट्रैवल्स इन इंडिया', I, पृ० 168, चतुर्थ वर्ग शूद्रों या खेतिहरों का है, ये खेत को आबाद करने का काम करते हैं और बोने व काटने के समय बड़े उद्यमशील रहते हैं.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

117. नृसिंह पुराण, 58.10-15. यह पुराण अलबीरूनी को ज्ञात था (सांची, I, I, 30), इसलिए इसके नवीनतम संकलन का काल दसवीं शताब्दी ई० रखा जा सकता है.
118. हापकिंस : 'कैंब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया', I, पृ० 268, हापकिंस शायद शूद्र के बदले 'स्लेव' शब्द का प्रयोग करते हैं.
119. अमरकोश, II.9.98 और 99.
120. विभङ्ग अट्ठकथा, पृ० 63, पालि-इंगलिश डिक्शनरी में 'लोह' शब्द पर उद्धृत. जैसा कि चंद्र के मेहरौली लोहस्तंभ से प्रकट होता है, लोहा बनाने की कला इस काल में उन्नति की चोटी पर पहुंच गई थी.
121. अमरकोश, II.9.13.
122. याज्ञवल्क्य, II.193; नारद, V.4.
123. किंतु यह विचार भागवतपुराण, XI.18.49 में भी आया है.
124. कामंदक नीतिसार, II.21; तुलनीय IV.54-56; मार्कण्डेय पुराण, 28.3-8; विष्णु पुराण, III.8.32-33; याज्ञवल्क्य, I.120; विष्णु, III.5; शूद्रस्य···सर्व शिल्पानि, वृहस्पति, संस्कार, श्लोक 530.
125. वृहस्पति, XIII.33.
126. अमरकोश, II.10.5-10.
127. वही, II.10.8 और 9.
128. वही, II.10.13.
129. वही, II.10.12.
130. इनमें से कुछ शिल्पियों की चर्चा कामसूत्र (I.4.28, V.2.12, VI.1.9) में भी आई है, जो संभवतया 'नागरक' के विलासार्थ अपेक्षित होते थे, जैसे मालाकार, स्वर्णकार, धोबी, अभिनेता, नर्तक आदि.
131. गौतम धर्मसूत्र, X.31-33; वसिष्ठ धर्मसूत्र, XIX.28; मनुस्मृति, VII.138; विष्णु, III.32.
132. (जर्नल आफ दि रायल एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल, कलकत्ता, सीरीज III, XIV) पृ० 121, ला० न० 72. यह स्पष्ट नहीं है कि यह बेगारी राजा के लिए ली जाती थी कि ग्राममहत्तरों के लिए.
133. वसिष्ठ धर्मसूत्र, XIX.37.
134. पीछे देखें, अध्याय VI.
135. शांतिपर्व, 88.1-12 में श्लोक 12 पर टिप्पणी, राजधर्म के आलोचनात्मक संस्करण के श्लोक 12 पर टिप्पणी, भाग II, अनुलिपि 19, पृ० 668 तुलनीय 87.16-77.
136. (एपिग्राफिया इंडिका, XXIV), उत्कीर्ण लेख सं० 43, पंक्ति, 18-19. इस अभिलेख में विवाह-कर का भी उल्लेख है, जो प्रथा हाल तक उत्तर भारत में प्रचलित थी.
137. कामसूत्र, I.4.1.
138. वृहस्पति, I.34. कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी यह बात है.
139. अमरकोश, II.8.18.
140. शिल्पिसंघ का उल्लेख रघुवंश, XVI.38 में आया है, तथा पंचतंत्र, पृ० 4-5 में प्रधान

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

राजमिस्त्री के अधीन कई राजमिस्त्रियों की चर्चा है.

141. गौतम, XI 21-22; मनुस्मृति, VIII.41 और 46; मुखर्जी : 'लोकल गवर्नमेंट इन एनशिएंट इंडिया', पृ० 125-131.
142. नारद, X.2; तुलनीय, विष्णु, V.168 में संविद् शब्द का प्रयोग है; तेषां वृत्ति पालयेत्, याज्ञवल्क्य, II.192; तुलनीय, I.361.
143. वृहस्पति, XVII.18.
144. वही, I.126.
145. मजूमदार : 'कार्पोरेट लाइफ इन एनशिएंट इंडिया', पृ० 62.
146. 'कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम', III, स्कंदगुप्त का इंदौर ताम्रपत्र (465 ई०).
147. वही, उत्कीर्ण लेख सं० 18, पृ० 80-85.
148. नरसू : 'एसेंशियल आफ बुद्धिज्म', पृ० 141.
149. स्कंदगुप्त के इंदौर ताम्रपत्र के अनुसार इंदौर की 'तैलिक श्रेणि' (तेली-संघ) में एक ब्राह्मण ने धन-निक्षेप किया था; उसी प्रकार मंदसौर प्रस्तर अभिलेख के अनुसार रेशम के बुनकरों ने ब्राह्मणों के देवता सूर्य का मंदिर बनवाया था.
150. अर्थशास्त्र, III, 14; ऊपर देखें, पृ० 155.
151. याज्ञवल्क्य, II.193; नारद, VI.5; XVI.5-6.
152. वृहस्पति, XVI.5.
153. विष्णु, V.153-4.
154 वही, V.157-8.
155. मनुस्मृति, VIII.215; वृहस्पति, XVI.4 और 8; इसके एक पाठांतर में आठ कृष्णल की जगह 200 पण आया है (सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट), XXXXIII, 345, वृहस्पति, XVI.15 पर पाद टिप्पणी.
156. वृहस्पति, XVI.3
157. वही, XVI.11.
158. नारद, नेपाली पाठ, 'सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट', XXXIII, 140-1, VI.7 पर पाद टिप्पणी.
159. वही, VI.2.
160. वही, पृ० 140-1, VI.7 पर पाद टिप्पणी.
161. नारद, VI.11-17; वृहस्पति, XVI.10, 13-17.
162. वृहस्पति, XVI.17.
163. अर्थशास्त्र, II.23.
164. याज्ञवल्क्य, II.195.
165. वही, I.120.
166. वृहस्पति, संस्कार, श्लोक 530,···विक्रयः सर्वपण्यानां शूद्रधर्म उदाहृतः.
167. मार्कण्डेय पुराण, 28.3-8.
168. विष्णु पुराण, III.8.32-33.
169. वृहस्पति, XIII.16.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

170. भविष्यत् पुराण, I.44.32.
171. अर्थशास्त्र, III.13; याज्ञवल्क्य, II.194; नारद, VI.2-3; कात्यायन, श्लोक 656.
172. शांतिपर्व, 60.25. यद्यपि शांतिपर्व में मजदूरी की व्यवस्था वैश्य पंकारों के लिए है, तथापि यह शूद्रों पर भी लागू रही होगी.
173. यह बात साझेदारी (सम्भू समुत्थान) के विषय में दिए गए विस्तृत नियमों से सिद्ध होती है, जो नियम सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य में आए हैं. यह प्रेक्षणीय है कि कौटिल्य और मनु (VIII.206-210) का अनुसरण न करते हुए, याज्ञवल्क्य (II.265) ने साझा-संबंधी नियम प्रथमतः बनियों और विदेश व्यापारियों के लिए दिया है और आगे कहा है कि ये ही नियम पुरोहितों की और कृषकों एवं शिल्पियों की साझेदारी में लागू होते हैं. इसी प्रकार इस काल में जो विदेश व्यापार बढ़ता जा रहा था, उसके चलते नारद को यह नियम भी देना पड़ा कि विदेशों में किए गए ऋण के करारों के स्थान में प्रचलित नियम ही लागू होंगे. नारद, I.105-106. तुलनीय जायसवाल : 'मनु ऐंड याज्ञवल्क्य', पृ० 198 और 211. गुणाढ्य की बृहत्कथा में, जो लगभग 500 ई० की कृति है (कीथ : हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर, पृ० 268), राजा-महाराजाओं की उतनी कहानियां नही हैं जितनी बनियों, व्यापारियों, समुद्रयात्रियों और शिल्पकारों की (वही). पर संभव है कि ये कहानियां दूसरी-तीसरी सदी की हैं। जब वाणिज्य व्यापार पराकाष्ठा पर था.
174. बृहत्संहिता, 52.12-13.
175. अमरकोश, II.6.13; अमरकोश में शूद्री और शूद्रा का अर्थ भिन्न भिन्न किया गया है; शूद्री का अर्थ है शूद्र की पत्नी, किंतु शूद्रा का अर्थ है शूद्र जाति की महिला. आभीर जाति की महिला को महाशूद्री कहा गया है.
176. पार्जिटर : 'डायनेस्टीज आफ दि कलि एज', पृ० 55.
177. वही.
178. आर्यक, जिसे गोपालदारक कहा गया है (मृच्छकटिक, VI.11). इसमें कुछ संदेह है, क्योंकि हो सकता है कि गोपाल व्यक्ति विशेष का नाम हो.
179. याज्ञवल्क्य, I.141.
180. मनुस्मृति, VIII. 54; कामंदक नीतिसार, IV. 25; याज्ञवल्क्य, XIII.312 तुलनीय कामंदक नीतिसार, V. 68-70; कात्यायन, श्लोक 11 में कहा गया है कि अमात्य ब्राह्मण होना चाहिए.
181. शांतिपर्व, 85.7-10 परंतु शांतिपर्व के आलोचनात्मक संस्करण में वह भाग नहीं है, जिसमें कहा गया है कि 37 के अमात्य-मंडल में चार ब्राह्मण, आठ क्षत्रिय, इक्कीस वैश्य, तीन शूद्र और एक सूत रहने चाहिए (शांतिपर्व, कलकत्ता, 85.7.11).
182. याज्ञवल्क्य, II.1-3; तुलनीय बृहस्पति, I.67.
183. कात्यायन, श्लोक 67.
184. बृहस्पति, I.79.
185. वही, I.72.
186. (एपिग्राफिया इंडिका, XV), पृ० 130.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

187. जायसवाल : 'हिंदू पालिटी', भाग I, पृ० 53; भाग II, पृ० 105.
188. टी० ब्लाख : 'आर्क्योलोजिकल सर्वे (आफ इंडिया) रिपोर्ट्स', 1903-4, पृ० 104.
189. अमरकोश, II.10.5, कुलकः स्यात् कुलश्रेष्ठः. दीक्षितार इस अर्थ को मानते हैं. गुप्त, पालिटी, पृ० 257.
190. नारद, I.187, लगता है शूद्र साक्षियों के विषय में पुराना दुराग्रह इस काल में भी बना रहा.
191. ब्लाख : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 104; कुलिकों (शिल्पि-संघों के प्रधानों) की अठारह मुद्राएं बसाढ़ (वैशाली) में मिली हैं.
192. वही, पृ० 117. ईसा की दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दियों में चंबा राज्य में कुलिकों का उल्लेख शौल्किक, गौल्मिक आदि के साथ छोटे अधिकारी के रूप में हुआ है. फोगेल : 'एंटिक्विटीज आफ चंबा स्टेट', भाग I, उत्कीर्ण लेख सं० 15, पंक्ति 8-9. उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मिले 1031 ई० के एक उत्कीर्ण लेख में शौल्किक, गौल्मिक आदि के साथ महापांधाकुलिक का भी उल्लेख है. (एपिग्राफिया इंडिका, VII, उत्कीर्ण लेख सं० 9, पंक्ति 34). संभवतया कुलिक और महापांधाकुलिक शिल्पिसंघों से कर तहसीलने वाले अधिकारी थे.
193. जंबुद्दीवपन्नत्ति, 3.55 (पृ० 229).
194. कामंदक, XII.44-45.
195. नारद, XIV.26.
196. बृहस्पति, V.38.
197. याज्ञवल्क्य, II.69; कात्यायन, श्लोक 341; नारद, I.154, उन्होंने अनिंद्य शूद्र शब्द का प्रयोग किया है.
198. कात्यायन, श्लोक 348.
199. नारद, I.178, 181-185.
200. वही, I.154.
201. याज्ञवल्क्य, II.72.
202. वही, XIX.26-27.
203. वही, II.150.
204. मनु, VIII.258-260.
205. विष्णु, VIII.20-23; नारद, I.199.
206. मनु, VIII.114-116.
207. याज्ञवल्क्य, II.98; बृहस्पति, VIII.12; कात्यायन, श्लोक 422.
208. याज्ञवल्क्य, II.98.
209. नारद, I.334-335; बृहस्पति, VIII.12; कात्यायन, श्लोक 422.
210. श्लोक 422. कात्यायन ने अग्नि, जल और विष वाले दिव्य उन लोगों के लिए भी वर्जित किए हैं, जो इनका कारबार करते हैं (श्लोक 424).
211. नारद, I.322.
212. विष्णु, IX.27.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

213. नारद, I.335; कात्यायन, श्लोक 422.
214. विष्णु, IX.3-10.
215. वही, IX.11.
216. वही, IX, X, XI और XII.
217. जोहान्स स्ट्रावायो (500 ई०) द्वारा उद्धृत बार्डसन, मैक्रिडल : 'एनशिएंट इंडिया ऐज डिस्क्राइब्ड बाई क्लासिकल राइटर्स', पृ० 172-4.
218. कात्यायन, श्लोक 433.
219. मनु, VIII.24.
220. कात्यायन, श्लोक 118, द्विजातिः प्रतिभूहीनो रक्ष्यः स्याद् बाह्यचारिभिः, शूद्रादीन् प्रतिभूहीनान् बन्धयेन्निगडेन तु.
221. वही, श्लोक 119.
222. वही.
223. याज्ञवल्क्य, II.125; वृहस्पति, XXVI.41-42; अनुशासनपर्व (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत), 82. 18 और 21, (नार्दर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 47.18 और 21.
224. विष्णु, XVIII.38-39.
225. वही, XVIII.32.
226. वृहस्पति, XXVI.125 तुलनीय अनुशासनपर्व, (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत), 85.15, (नार्दर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 47.15.
227. वृहस्पति, XXVI.122.
228 अनुशासनपर्व (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत), 19.82, (नार्दर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 47.19.
229. वही (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत), 82.57, (नार्दर्न एडिशन आफ दि महाभारत), 47.56.
230. याज्ञवल्क्य, II.133.
231. अनुशासनपर्व, (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 84.18.
232. याज्ञवल्क्य, II.37; विष्णु, VI.15.
233. वही, II.38.
234. विष्णु, II.58; याज्ञवल्क्य, II.34-35; नारद, VII.6-7.
235. विष्णु, III.59-61.
236. अर्थशास्त्र, IV.1, द्वादशांशो भृतकः.
237. निशीथ चूर्णि, 20, पृ० 281; जैन : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 62 पर उद्धृत.
238. नारद, XV और XVI.22, 23-25, 26-28. इंट्रोडक्शन टु प्लेंट, II.37.
239. वृहस्पति, IX.20, ताडनं बंधनं चैव तथैव च विडन्नकम; एष दण्डो हि शूद्रस्य नार्थदण्डो वृहस्पतिः. मातृका 1 का पाठ विडम्बनम्, जो रंगस्वामी अय्यंगर ने अपने वर्गीकरण में दिया है, विडन्नकम् की अपेक्षा अच्छा अर्थ देता है.
240. वही, IX.18.
241. नारद, XV-XVI.11-14.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

242. वही, XV-XVI.13.
243. मनुस्मृति, VIII.267-9; नारद, XV और XVI.16; वृहस्पति, XX.12.
244. वृहस्पति, XX.13.
245. वही, XX.10.
246. वही, XX.16.
247. जे० लेगि : 'ए रेकार्ड आफ बुद्धिस्टिक किंगडम्स', पृ० 43.
248. याज्ञवल्क्य, II.206.
249. वही, II.216, परस्परं तु सर्वेषां शस्त्रे मध्यमसाहसः.
250. वही, II.215, इस संदर्भ में पीडनम् का अर्थ विज्ञानेश्वर ने ताड़नादि किया है.
251. विष्णु, V.40-41.
252. वही, V.41, अंत्यागमने वध्यः.
253. वही, LIV.9.
254. वही, L.6 और 12-14.
255. वही, XXXVII.13, 34; याज्ञवल्क्य, II.236.
256. विष्णु, XXXVII.35. गोमेध का विधान स्पष्टतया बहुत प्राचीन है, और ऐसा नहीं माना जा सकता है कि यह गुप्तकाल में प्रचलित रहा होगा. निस्संदेह विष्णु ने बिना सोचे-विचारे इस विधान को प्राचीन स्रोत से लेकर रख दिया है.
257. हस्तलेख डी 7 एस (आलोचनात्मक संस्करण के वर्गीकरण के अनुसार), श्लोक 45. मृच्छकटिक (IX.39) में न्यायाधीश ने ब्राह्मण चारुदत्त को प्राणदंड से छूट देने की सिफारिश की है. ऐसी छूट के लिए कात्यायन श्लोक 483 भी देखें.
258. हस्तलेख डी 7 एस (आलोचनात्मक संस्करण के वर्गीकरण के अनुसार), श्लोक 55.
259. (जर्नल आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल, कलकत्ता, सीरीज, III, XVI), पृ० 118.
260. एस० बील : 'ट्रैवेल्स आफ फाहियान', पृ० 54-55. जाइल्स ने भी ऐसा ही अनुवाद किया है (ट्रैवेल्स आफ फाहियान, पृ० 21), किंतु लेगि ने इस प्रकार अनुवाद किया है 'अपराधियों को (हर केस की) परिस्थितियों के अनुसार दंड मिलता था'. 'ए रेकार्ड आफ बुद्धिस्टिक किंगडम्स', पृ० 43, जिससे वर्णभेद ध्वनित होता है.
261. मनुस्मृति, VIII-337 और 8; नारद, परिशिष्ट (स्तेय), परिशिष्ट, 51 और 52.
262. शांतिपर्व, 36.28-29.
263. कात्यायन, श्लोक 485.
264. अमरकोश, II.10.25-26. तुलनीय अनुशासनपर्व (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत), 143.21, (नार्दर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 94.21.
265. शांतिपर्व, 12.27, 25.11, 67.2, 76.5, 88.26, 90.8, 98.8, 101.3.
266. शांतिपर्व, 79.17-18, अभ्युत्थिते दस्युबले क्षत्रार्थे वर्णसंकरे. ब्राह्मणो यदि वा वैश्य शूद्रो वा राजसत्तम । दस्युभ्योऽथ पूजां रक्षेद् दण्डं धर्मेण धारयन्···वही, 79.34-36.
267. शांतिपर्व, 78.37.
268. वही, 78.38.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

269. यद्यपि इसके रचयिता वसिष्ठ कहे जाते हैं, किंतु इसकी शैली वसिष्ठ धर्मसूत्र की शैली से नहीं मिलती है. फिर भी इसमें तीरंदाजी पर जो बहुत जोर दिया गया है उससे लक्षित होता है कि इसका संकलन गुप्तकाल के बाद नहीं हुआ होगा.

270. धनुर्वेद संहिता, श्लोक 3.

271. वही, श्लोक 8.

272. मृच्छकटिक में वीरक और चंदनक के दृष्टांत, VI.22 और 23.

273. शांतिपर्व, 73.9, 74.4, 5, 8, 10, 28, 32, 75.13, 22.

274. वही, 49.60-61.

275. अनुशासनपर्व (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत), 214.58; शूद्रः पृथिव्यां बहवो राज्ञां बहुविरोधकाः. तस्मात प्रमादं सुश्रोणि न कुर्यात् पण्डितो नृपः.

276. वसिष्ठ धर्मसूत्र, IV.24; आश्वमेधिक पर्व (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत), 118. 17-20. अमरकोश (II.10.9) में शूद्रों को आलसी और दक्ष बताया गया है.

277. शांतिपर्व, 91.12-13.

278. नारद, XVIII. 14-16.

279. वीरमित्रोदय के अनुसार.

280. याज्ञवल्क्य, II. 304. मनुस्मृति (IX. 224) में द्विजलिंगी (ब्राह्मण का स्वांग रचने वाले) शूद्र के लिए प्राणदंड का विधान है. किंतु इस प्रसंग में राजा के विरोध की चर्चा नहीं है.

281. शांतिपर्व, 89.13-14 कौटिल्य ने ऐसे लोगों के लिए नई बस्ती में प्रवेश वर्जित किया है. अर्थशास्त्र, II.1.

282. पांडुलिपि, डी 7 एस (आलोचनात्मक संस्करण के वर्गीकरण के अनुसार), श्लोक 20.

283. याज्ञवल्क्य, III. 126.

284. वायु पुराण, II. 11.90; ब्रह्मांड पुराण, III. 10.96.

285. वायु पुराण, परिशिष्ट सं० 818, पाटिल : 'कल्चरल हिस्ट्री फ्राम दि वायु पुराण', पृ० 304, में उद्धृत, यह विभेद शांतिपर्व में भी आया है.

286. एक अन्य हस्तलेख में 'गौर' वर्ण विहित किया गया है.

287. नाट्यशास्त्र, XXI. 113. पंचालों, शूरसेनों, मागधों, अंगों और कलिंगों के लिए काला भी विहित किया गया है (वही, XXI. 112).

288. वही, II. 49-52.

289. वही, II. 55.

290. प्लेटो : 'दि रिपब्लिक' (जावेट का अनुवाद), पृ० 126-7.

291. विष्णु पुराण, XXVII. 6-9.

292. 'कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम', III, सं० 35 (समयांक 533-34 ई०), पंक्ति 9-12.

293. वही, सं० 3 (समयांक 401-2), पंक्ति 1-2; तुलनीय फ्लीट, पूर्वोद्धृत, पृ० 11, पाद टिप्पणी 1.

294. नाट्यशास्त्र, XVII. 95-99.

295. वही, XVII. 73.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

296. मृच्छकटिक, अंक 1, पृ० 5, अंक 2, पृ० 63-64. इनमें से कुछ गालियां, जैसे 'छिण्णालिआ पुत्त' बिहार में आज भी प्रचलित है.
297. नाट्यशास्त्र, XII. 146-8,···नीचादि चेटादिनाम्.
298. याज्ञवल्क्य, I 116, गौतम की भांति इन्होंने इसके लिए 80 वर्ष की वय: सीमा नहीं निर्धारित की है.
299. वही, I. 107.
300. वही.
301. आपस्तंब धर्मसूत्र, II. 4.9.5; बौधायन धर्मसूत्र, II. 3.5.11.
302. याज्ञवल्क्य, I. 103; अनुशासनपर्व (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत), 154. 22; 250.15.
303. आश्वमेधिक पर्व (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 110. 17-20, 61.44-45; वृहस्पति, श्राद्धखंड, श्लोक 43.
304. शांतिपर्व, 37.22-23. 'रंगजीवन' शब्द का अर्थ रंगरेज या अभिनेता किया जा सकता है.
305. याज्ञवल्क्य, I. 160.
306. वही, I. 161-5 चाक्रिक शब्द का अर्थ तेली, भारवाहक या गाड़ीवान हो सकता है.
307. अनुशासनपर्व, (नार्दर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 135.2-3, (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत), 198.2-3.
308. वही (नार्दर्न एडिशन आफ दि महाभारत), 135.5, (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 198.5.
309. वही (नार्दर्न एडिशन आफ दि महाभारत), 136.20-22, (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 199.20-22.
310. आश्वमेधिक पर्व (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत), 110.24.
311. वही, 110.32.
312. याज्ञवल्क्य, I. 166.
313. वृहस्पति, XV. 19.
314. वृहस्पति, प्रायश्चित, श्लोक 34, 86-88, आचार, श्लोक 87.
315. मृच्छकटिक, I. 32.
316. याज्ञवल्क्य, III. 255-6.
317. वही, III. 255-6 की टीका.
318. अमरकोश, II. 10.39-43.
319. वही, II. 10.44-46.
320. पंचतंत्र, पृ० 15.
321. याज्ञवल्क्य, I. 170.
322. वही, I. 171-173.
323. वही, I. 175-6.
324. वही, I. 177-8.
325. वही, I. 176.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

326. लेगि : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 43.
327. याज्ञवल्क्य, II. 296.
328. वृहस्पति, पृ० 21, श्लोक 128; मध्यदेशे कर्मकराः शिल्पिनश्च गवाशिनः. अंबेडकर का तर्क है कि गोमांसभक्षण अस्पृश्यता के उद्भव का एक मूल कारण था. अंबेडकर : 'दि अनटचेबुल्स', अध्याय 9. किंतु यह सिद्ध करने का कोई आधार नहीं है कि ये मजदूर और कारीगर अछूत माने जाते थे.
329. पाटिल : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 38 में वायु पुराण से उद्धृत.
330. मार्कण्डेय पुराण, 69.72, हाजरा : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 232 में उद्धृत.
331. अनुशासनपर्व (नार्दर्न एडिशन आफ दि महाभारत), 44.9, (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत, 79.9) में यह पुराना नियम दुहराया गया है कि आसुर और पैशाच विवाह शायद द्विजों के लिए श्रेयस्कर नहीं हैं.
332. अनुशासनपर्व, (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत), 249.9. उत्तमानां तु वर्णानां मंत्रवत्पाणिसंग्रहः. विवाहकरणं चाहु: शूद्राणां सम्प्रयोगतः.
333. वृहत्कल्पभाष्य, 2.3446, जैन : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 159 में उद्धृत.
334. याज्ञवल्क्य, I. 69, एवं ताच्छूद्राणां नियोगाधिकारः उक्तः. काणे : पूर्व निर्दिष्ट, II, भाग 1, 604.
335. काणे : पूर्व निर्दिष्ट, II, भाग I, पृ० 604-5 में मूल उद्धृत.
336. अनुशासनपर्व (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत), 149.15-16.
337. नारद, XII. 100.
338. याज्ञवल्क्य, I.48; कात्यायन, श्लोक 568.
339. विष्णु, XXIV. 41.
340. जाली : 'सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट', VII, 109, पाद टिप्पणी 41.
341. नारद, XII. 4-6; अनुशासनपर्व (नार्दर्न एडिशन आफ दि महाभारत), 44.11, (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 79.11.
342. अनुशासनपर्व (नार्दर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 44.12 और 13.
343. कामशास्त्र, VI. 6.54, टीका सहित.
344. वही, I. 5.3.
345. वही, III. 1.1.
346. याज्ञवल्क्य, I. 56-7; वृहस्पति, आपद्धर्म, श्लोक 47, संस्कार, श्लोक 375-7; अनुशासनपर्व (नार्दर्न एडिशन आफ दि महाभारत), 44.13, 47.8-9; आश्वमेधिक पर्व (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 117.10. यदि कोई व्यक्ति पुक्कसी के साथ संभोग करे तो पराक व्रत उसका प्रायश्चित है. वृहस्पति, प्रायश्चित, श्लोक 70.
347. मृच्छकटिक, अंक 10.
348. (एपिग्राफिया इंडिका, XV), पृ० 301. ईस्वी सन की आठवीं शताब्दी के एक पुरालेख से हमें पता चलता है कि शासक लोकनाथ के मातृपक्षीय पूर्वज, जो ब्राह्मण थे, को शूद्र पत्नी से एक पुत्र (पारेशव) था.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

349. मालविकाग्नि मित्र, अंक 1, पृ० 10; जैन : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 155-6.
350. याज्ञवल्क्य, I. 91.94; नारद, XII. 108, 111 और 113; अमरकोश, II. 10. 1-4.
351. अनुशासनपर्व, (नार्दर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 48 5-27 (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 83. 5-27 (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 84.17.
352. वही, (नार्दर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 47.22, (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 83.22.
353. वही, (नार्दर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 47.23, (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 83.23.
354. वही, (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 49.9.
355. वही, पृ० 84.28.
356. वही, (नार्दर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 49.9.
357. वही, (कल०), 33. 21-23.
358. याज्ञवल्क्य, II. 294.
359. कात्यायन, श्लोक 351; आश्वमेधिक पर्व, (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 116.19.
360. अमरकोश, II.10.1-4.
361. वही, II. 9.78.
362. वही, II. 10.20.
363. लेगि : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 43.
364. व्यवहार-भाष्य, 3.92; निशीथ चूर्णि, 11, पृ० 747, जैन : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 360 में उद्धृत.
365. अमरकोश, II.10.21.
366. वृहस्पति, प्रायश्चित, श्लोक 49-50. यदि रजस्वला का श्वपाक से स्पर्श हो जाए, तो उसके लिए भी प्रायश्चित बताया गया है (वही, प्रायश्चित, श्लोक 87).
367. लेगि : पूर्व निर्दिष्ट, प० 43.
368. मार्कण्डेय पुराण, 25. 34-36.
369. अनुशासनपर्व, (नार्दर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 47.29-30, (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 83.29-39.
370. महावंश, 93. व्यवहार-भाष्य, 7.449-462, पृ० 79; नारद, XIV, 26.
371. अमरकोश, II.10.14.
372. वही, II. 10 22-24.
373. वही, II. 10.26-27.
374. लेगि : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 43. जाइल्स ने चंडाल शब्द का अनुवाद 'फाउल मैन (लेपर)' किया है. जाइल्स : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 21.
375. उपाध्याय : 'इंडिया इन कालिदास', पृ० 170.
376. वृहत्कल्पभाष्य, गाथा, 2766.
377. व्यवहार भाष्य, 3.92; निशीथ चूर्णि, 11, पृ० 747, जैन : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 360 में उद्धृत.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

378. अनुशासनपर्व, (नार्दर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 47.32, (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 83.32.
379. वही, (नार्दर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 101.3, (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 158 4.
380. लेगि : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 43.
381. तुलनीय, मृच्छकटिक, X.
382. लंकावतार सूत्र, पृ० 258.
383. वही, पृ० 246.
384. जैन : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 360. डोम्ब अधम गायकों की जाति है जो उत्तर भारत की प्राचीन जातियों में एक है.
385. जैन : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 144-5.
386. अमरकोश, II. 10.31-32.
387. जैन : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 220-22. जट्ट-जट्टी के गीत आज भी बिहार में निम्न जातियों के लोगों में प्रचलित हैं.
388. आवश्यक चूर्णि, II. पृ० 294, जैन : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 222 में उद्धृत.
389. भागवत पुराण, XI. 17.20, तुलनीय VII. 11.30.
390. मृच्छकटिक, X. 22.
391. वज्रसूची (एस), श्लोक 16, पृ० 5.
392. अनुशासनपर्व, (नार्दर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 47.33-35, (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 83.33-5.
393. महाभारत, XII. 328.49, श्राव्येच्च चतुरो वर्णान. हापकिंस : 'दि रेलिजन्स आफ इंडिया', पृ० 425 में उद्धृत.
394. महाभारत, XII. 319.87 और आगे, उद्धृत, वही. प्राप्यं ज्ञानम्···शूद्रादपि:.
395. मार्कण्डेय पुराण, XXI. 31; नाट्यशास्त्र, I. 14.
396. भागवत पुराण I. 4.25; I. 4.29. स्त्रीशूद्रद्विजबन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा. कर्मश्रेयसि मूढानां श्रेय एवं भवेदिह. इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्. भागवत पुराण.
397. भविष्यत् पुराण, I, I. 72, ···श्रोतव्यमेव शूद्रेण नाध्येतव्यं कदाचन्.
398. नाट्यशास्त्र, I. 12 और 13.
399. कीथ : 'दि सांख्य सिस्टम', पृ० 57. पंतजलि का योगसूत्र संभवतया तीसरी शताब्दी ई० से पहले का नहीं है.
400. वही, पृ० 57. चीनी साक्ष्य के अनुसार सांख्यकारिका के रचयिता ईश्वरकृष्ण वसुबंधु के पूर्व समकालीन थे और वसुबंधु संभवतया 300 ई० के लगभग हुए थे.
401. वही, पृ० 100.
402. वही, पृ० 100.
403. याज्ञवल्क्य, I. 233, भृतकाध्यापकः.
404. मृच्छकटिक IX. 21. वेदार्थान् प्राकृतस्त्वं वदसि, न च ते जिह्वा निपतिता.
405. वज्रसूची (एम), पृ० 4.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

406. जायसवाल : 'मनु ऐंड याज्ञवल्क्य', पृ० 241.
407. नाट्यशास्त्र, XVII. 37.
408. वही, XVII. 39.
409. कीथ : 'हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर', पृ० 31,
410. नाट्यशास्त्र, XVII, 54-56.
411. मुखर्जी : 'एनशिएंट इंडियन एडुकेशन', पृ० 347.
412. याज्ञवल्क्य, III. 262; अनुशासनपर्व, (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 149. 13; तुलनीय शांतिपर्व, 70.5.
413. अनुशासनपर्व, (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 147.1, शूद्रा परिचार—यज्ञाः··· तुलनीय ब्रह्मांड पुराण, II. 29 55.
414. नारद, I. 332.
415. विष्णु, IX 10.
416. मार्कण्डेय पुराण, 28. 7-8.
417. ब्रह्मांड पुराण, III. 12.19. यज्ञ पांच हैं—ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, बलि और नृयज्ञ मनुस्मृति, III. 69-70.
418. याज्ञवल्क्य, I. 121.
419. हापकिंस : 'म्यूचुअल रिलेशंस आफ फोर कास्ट्स इन मनु', पृ० 86, पाद टिप्पणी.
420. ब्रह्मांड पुराण, III. 12.19.
421. मनुस्मृति, II. 169.
422. याज्ञवल्क्य, I. 39.
423. शांतिपर्व, 60.36, स्वाहाकार—नमस्कारौ मन्त्रः शूद्रे विधीयते. ताभ्यां शूद्रः पाकयज्ञैर्यजेत् व्रतवान् स्वयम्. सर्वाधिक महत्वपूर्ण हस्तलेखों में यह विभेद किया गया है कि कौन यज्ञ शूद्र कर सकता है और कौन द्विज. इसमें स्वाहाकार, नमस्कार और मंत्र का प्रयोग शूद्र के लिए वर्जित किया गया है, किंतु दीक्षाव्रत के बिना ही पाकयज्ञ करने की अनुज्ञा दी गई है. आलोचनात्मक टिप्पणी, शांतिपर्व, 60. राजधर्म, भाग II, खंड 19, पृ० 660-661. पाकयज्ञ सभी दस्युओं के लिए भी विहित है (शांतिपर्व, 65. 21-22), जिससे सूचित होता है कि ये यज्ञ ब्राह्मणिक समाज की परिधि से बाहर भी फैलते जा रहे थे. तुलनीय, बृहस्पति, संस्कार, श्लोक 529.
424. शांतिपर्व, 60.37-38.
425. शांतिपर्व, 60. 39-43. तुलनीय 51-52. ···यज्ञो मनीषया तात सर्ववर्णेषु भारत. ···तस्मात् सर्वेषु वर्णेषु श्रद्धायज्ञो विधीयते···. टीका सी एन (आलोचनात्मक संस्करण के वर्गीकरण के अनुसार) में 'सर्व वर्ण', शब्द का अर्थ 'त्रैवर्णिक' किया गया है. पुलिंदा 19, पृ० 660-61.
426. याज्ञवल्क्य, III. 262.
427. गैम्पर्ट : 'डाई जुहनेरेरमोनियन इन डर अल्टिनडिस्चेन रेख्टलिटरेटुर', पृ० 94.
428. बृहस्पति, प्रायश्चित, श्लोक 60.
429. बृहस्पति, संस्कार, श्लोक 101 किंतु कान छेदने के अंकुश की धातु विभिन्न वर्णों के

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

बच्चों के लिए भिन्न भिन्न बताई गई है (वही).

430. वही, संस्कार, श्लोक 154 (a).

431. आर० बी० पांडेय : हिंदू संस्कार, पृ० 161.

432. मनुस्मृति, II. 35, चूडाकर्ण द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः.

433. संभवतः राम के हाथ संबूक के वध की कहानी, जिसमें मनु की मनोवृत्ति का आभास मिलता है, रामायण (उत्तर कांड, अध्याय 74-76) में मौर्योत्तर काल में प्रक्षिप्त की गई है.

434. रघुवंश, XV. 53; तुलनीय अनुशासनपर्व (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 270 11.

435. शांतिपर्व, 63. 9-11; 63.9 पुलिंदा 19, पृ० 662 पर आलोचनात्मक टिप्पणी.

436. वही, 63. 12-14.

437. कात्यायन, श्लोक 486, मार्कण्डेय पुराण में भी शूद्रसंन्यासी का उल्लेख है (22.19), किंतु उनके समय के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है.

438. याज्ञवल्क्य, II. 235.

439. हरिभक्ति-विलास के 18वें विलास में गोपालभट्ट द्वारा हयशीर्ष पंचरात्र से उद्धृत और वहां से बनर्जीकृत डेवलपमेंट आफ हिंदू आइकोनोग्राफी, पृ० 227, पाद टिप्पणी 1 में प्रत्युद्धृत.

440. वृहत्संहिता (सुधाकर द्विवेदी संस्करण), 58. 5-6.

441. विष्णुधर्मोत्तर महापुराण, III. 89.12.

442. वही, III. 90.2, शुक्ला शस्ता द्विजातीनां क्षत्रियाणां च लोहिता. विषां पीताहिता कृष्णा शूद्राणां च हितप्रदा.

443. याज्ञवल्क्य, III. 26.

444. ब्रह्मांड पुराण, III. 14.86-87; विष्णु पुराण, III. 13.19; वृहस्पति, अशौच, श्लोक 39.

445. याज्ञवल्क्य, III. 23.

446. अनुशासनपर्व, (नार्दर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 101.11-12, (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 163. 11-12.

447. वही.

448. वही, (नार्दर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 101.13, (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 163.13.

449. वही, (नार्दर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 106.2, (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 163.2.

450. वृहस्पति, अशौच, श्लोक 34-35. कुछ वर्ग के लोग सदा शुचि माने जाते थे, जैसे शिल्पी, कृषक, वैद्य, दास-दासी, नापित, राजा और वेदज्ञ ब्राह्मण. याज्ञवल्क्य, III. 28-29; वृहस्पति, अशौच, श्लोक 9.

451. शांतिपर्व, 36.35.

452. वृहस्पति, आचार, श्लोक 37.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

406. जायसवाल : 'मनु ऐंड याज्ञवल्क्य', पृ० 241.
407. नाट्यशास्त्र, XVII. 37.
408. वही, XVII. 39.
409. कीथ : 'हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर', पृ० 31,
410. नाट्यशास्त्र, XVII, 54-56.
411. मुखर्जी : 'एनशिएंट इंडियन एडुकेशन', पृ० 347.
412. याज्ञवल्क्य, III. 262; अनुशासनपर्व, (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 149. 13; तुलनीय शांतिपर्व, 70.5.
413. अनुशासनपर्व, (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 147.1, शूद्रा परिचार—यज्ञा:··· तुलनीय ब्रह्मांड पुराण, II. 29 55.
414. नारद, I. 332.
415. विष्णु, IX 10.
416. मार्कण्डेय पुराण, 28. 7-8.
417. ब्रह्मांड पुराण, III. 12.19. यज्ञ पांच हैं—ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, वलि और नृयज्ञ मनुस्मृति, III. 69-70.
418. याज्ञवल्क्य, I. 121.
419. हापकिंस : 'म्यूचुअल रिलेशंस आफ फोर कास्ट्स इन मनु', पृ० 86, पाद टिप्पणी.
420. ब्रह्मांड पुराण, III. 12.19.
421. मनुस्मृति, II. 169.
422. याज्ञवल्क्य, I. 39.
423. शांतिपर्व, 60.36, स्वाहाकार—नमस्कारो मन्त्रः शूद्रे विधीयते. ताभ्यां शूद्रः पाकयज्ञैर्यजेत् व्रतवान् स्वयम्. सर्वाधिक महत्वपूर्ण हस्तलेखों में यह विभेद किया गया है कि कौन यज्ञ शूद्र कर सकता है और कौन द्विज. इसमें स्वाहाकार, नमस्कार और मंत्र का प्रयोग शूद्र के लिए वर्जित किया गया है, किंतु दीक्षाव्रत के बिना ही पाकयज्ञ करने की अनुज्ञा दी गई है. आलोचनात्मक टिप्पणी, शांतिपर्व, 60. राजधर्म, भाग II, खंड 19, पृ० 660-661. पाकयज्ञ सभी दस्युओं के लिए भी विहित है (शांतिपर्व, 65. 21-22), जिससे सूचित होता है कि ये यज्ञ ब्राह्मणिक समाज की परिधि से बाहर भी फैलते जा रहे थे. तुलनीय, वृहस्पति, संस्कार, श्लोक 529.
424. शांतिपर्व, 60.37-38.
425. शांतिपर्व, 60. 39-43. तुलनीय 51-52. ···यज्ञो मनीषया तात सर्ववर्णेषु भारत. ···तस्मात् सर्वेषु वर्णेषु श्रद्धायज्ञो विधीयते···. टीका सी एन (आलोचनात्मक संस्करण के वर्गीकरण के अनुसार) में 'सर्व वर्ण', शब्द का अर्थ 'त्रैवर्णिक' किया गया है. पुलिंदा 19, पृ० 660-61.
426. याज्ञवल्क्य, III. 262.
427. गैम्पर्ट : 'डाई जुहनेरेरमोनियन इन डर अल्टिनडिस्चेन रेख्टलिटरेटुर', पृ० 94.
428. वृहस्पति, प्रायश्चित, श्लोक 60.
429. वृहस्पति, संस्कार, श्लोक 101 किंतु कान छेदने के अंकुश की धातु विभिन्न वर्णों के

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

बच्चों के लिए भिन्न भिन्न बताई गई है (वही).

430. वही, संस्कार, श्लोक 154 (a).

431. आर० बी० पांडेय : हिंदू संस्कार, पृ० 161.

432. मनुस्मृति, II. 35, चूडाकर्ण द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः.

433. संभवतः राम के हाथ संबूक के वध की कहानी, जिसमें मनु की मनोवृत्ति का आभास मिलता है, रामायण (उत्तर कांड, अध्याय 74-76) में मौर्योत्तर काल में प्रक्षिप्त की गई है.

434. रघुवंश, XV. 53; तुलनीय अनुशासनपर्व (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 270 11.

435. शांतिपर्व, 63. 9-11; 63.9 पुलिंदा 19, पृ० 662 पर आलोचनात्मक टिप्पणी.

436. वही, 63. 12-14.

437. कात्यायन, श्लोक 486, मार्कण्डेय पुराण में भी शूद्रसंन्यासी का उल्लेख है (22.19), किंतु उनके समय के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है.

438. याज्ञवल्क्य, II. 235.

439. हरिभक्ति-विलास के 18वें विलास में गोपालभट्ट द्वारा हयशीर्ष पंचरात्र से उद्धृत और वहां से बनर्जीकृत डेवलपमेंट आफ हिंदू आइकोनोग्राफी, पृ० 227, पाद टिप्पणी 1 में प्रत्युद्धृत.

440. वृहत्संहिता (सुधाकर द्विवेदी संस्करण), 58. 5-6.

441. विष्णुधर्मोत्तर महापुराण, III. 89.12.

442. वही, III. 90 2, शुक्ला शस्ता द्विजातीनां क्षत्रियाणां च लोहिता. विषां पीताहिता कृष्णा शूद्राणां च हितप्रदा.

443. याज्ञवल्क्य, III. 26.

444. ब्रह्मांड पुराण, III. 14.86-87; विष्णु पुराण, III. 13.19; वृहस्पति, अशौच, श्लोक 39.

445. याज्ञवल्क्य, III. 23.

446. अनुशासनपर्व, (नार्दर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 101.11-12, (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 163. 11-12.

447. वही.

448. वही, (नार्दर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 101.13, (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 163.13.

449. वही, (नार्दर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 106.2, (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 163.2.

450. वृहस्पति, अशौच, श्लोक 34-35. कुछ वर्ग के लोग सदा शुचि माने जाते थे, जैसे शिल्पी, कृषक, वैद्य, दास-दासी, नापित, राजा और वेदज्ञ ब्राह्मण. याज्ञवल्क्य, III. 28-29; वृहस्पति, अशौच, श्लोक 9.

451. शांतिपर्व, 36.35.

452. वृहस्पति, आचार, श्लोक 37.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

453. वृहस्पति, प्रायश्चित, श्लोक 74-75.
454. पांडेय : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 439.
455. याज्ञवल्क्य, I. 121; वायु पुराण, II. 13.49.
456. मत्स्यपुराण, 17.63-64.
457. वही, 17.70.
458. मार्कण्डेय पुराण, 49.77-81; विष्णु पुराण, I. 6.34-35.
459. ब्रह्मांड पुराण, III. 10.96-99; वायु पुराण, II, 11.90; मार्कण्डेय पुराण, 96.23.
460. मार्कण्डेय पुराण, 96.36.
461. ब्रह्मांड पुराण, II. 32.90, 121-122.
462. मार्कण्डेय पुराण, 28. 3-8.
463. मत्स्यपुराण, 17.71, दानेन सर्वकामाप्तिरस्य संजायते.
464. अनुशासनपर्व (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत), 217.13-15. पाप की शुद्धि के लिए दान की महिमा के बारे में हाजरा : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 250.
465 मत्स्यपुराण, 69.51-54…क इदं कस्माददिति वैदिकं मन्त्रमीरयेत्. हाजरा ने जीवानंद के संस्करण के अध्याय 70-71 के समानांतर अध्याय 69-72 का काल लगभग 550-650 ई० रखा है. हाजरा : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 176.
466. मत्स्यपुराण, 91.23-32.
467. बी० सी० ला : 'हेवन ऐंड हेल', पृ० 36-45 में प्रस्तुत विमानवत्थु टीका के सार के आधार पर संगणित.
468. हाजरा : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 247.
469. के० वी० रंगस्वामी अय्यंगर : वृहस्पति, इंट्रोडक्शन, पृ० 162.
470. वृहस्पति, संस्कार, श्लोक 288.
471. विष्णु, LXXXII.14 और 22; शांतिपर्व, पांडुलिपि डी एस 5; ब्रह्मांड पुराण, III.15.44.
472. मनुस्मृति, XI.42.
473. वज्रसूची, (वी बी), पृ० 7.
474. वही, (ओ), पृ० 4.
475. वही, (ई ई) और (जी आई), पृ० 8 और 9.
476. के० जी० गोस्वामी : 'वैष्णविज्म', (इंडियन हिस्टारिकल क्वार्टर्ली, कलकत्ता, XXXI), पृ० 132.
477. रायचौधरी : 'दि अर्ली हिस्ट्री आफ दि वैष्णव सेक्ट', पृ० 117.
478. भगवद्गीता, IX.32; भागवत पुराण, VII.7.54-55; XI.5.4.
479. भागवत पुराण, III.16.6.
480. वही, III.33.7.
481. वही, V.I.35 देखें, आश्वमेधिक पर्व (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत), 117.2.
482. शांतिपर्व (कल०), 296.28, वैदेहकं शूद्रमुदाहरन्ति द्विजा महाराज श्रुतोपपन्नाः. अहं हि पश्यामि नरेन्द्र देवं विश्वस्य विष्णुं जगतः प्रधानम्. यहां शूद्र के विशेषण के रूप में

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

'वैदेहक' शब्द का प्रयोग विचित्र है.

483. आश्वमेधिक पर्व (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत), 116.21.

484. वही, 116.22.

485. वही, 116.31.

486. अनुशासनपर्व (नार्दर्न एडिशन आफ दि महाभारत), 18.8, (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 49.81.

487. वायुपुराण, I, 30.18.

488. वही, II, 39.352-4. वायुपुराण के परिशिष्ट में दी गई कहानी के अनुसार मंख नाम के नापित ने वाराणसी में गणेश क्षेमक की मूर्ति स्थापित की. पाटिल : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 38.

489. बी० भट्टाचार्य : जाख्यसंहिता, फोरवर्ड, पृ० 34, शिलालेखीय प्रमाणों से यह पुस्तक 450 ई० के आस-पास की मानी गई है.

490. जाख्यसंहिता, 18.3-5.

491. वही, 6-9. सु (स ?) जातीयेन शूद्रेण तादृशेन महाधिया. अनुग्रहाभिषेकौच कार्यौ शूद्रस्य सर्वदा.

492. के० जी० गोस्वामी : पूर्व निर्दिष्ट, (इंडियन हिस्टारिकल क्वार्टर्ली, कलकत्ता, XXXI), पृ० 125.

493. फिर भी कई वचनों में विशेषतया ब्राह्मणों के लिए कर्मकांडों के अनुष्ठान की आवश्यकता पर जोर दिया गया है. यदि ब्राह्मण संध्यावंदन या अग्निहोत्र न करे और वाणिज्य-वृत्ति या कृषि-वृत्ति अपनाए तो वह शूद्र या वृषल की कोटि में आ जाएगा. अनुशासनपर्व (नार्दर्न एडिशन आफ दि महाभारत), 104.19-20, (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत), 161.20, (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 217.10-12, आश्वमेधिक पर्व (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 116.11-12, तुलनीय शांतिपर्व, XII.63.3-5, अग्निहोत्र, उपनयन, व्रत आदि धार्मिक कर्मों और संस्कारों का अनुष्ठान न करना, अयाजकों के यहां यज्ञ कराना तथा शूद्रों की सेवा करना ब्राह्मणों के लिए उपपातक बताए गए हैं. याज्ञवल्क्य, III. 234-242.

494. आश्वमेधिक पर्व (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत), 116.5-6.

495. अनुशासनपर्व (नार्दर्न एडिशन आफ दि महाभारत), 48.48 (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 83.47.

496. वनपर्व (कल०), 215.13. यस्तु शूद्रो दमे सत्ये धर्मे च सततः स्थितः. तं ब्राह्मणमहं मन्ये वृत्तेन हि भवेद् द्विजः.

497. अनुशासनपर्व (कल०), 143.46-50 तुलनीय वनपर्व (कल०), 181.42-43,…न योनिर्नापि संस्कारो न श्रुतं न च सन्ततिः.

498. अनुशासनपर्व (कल०), 143.51; शांतिपर्व (कल०), 189.8; वनपर्व (कल०), 180.25-26, तुलनीय 35-36, भविष्य पुराण, I.44.31, तुलनीय भागवत पुराण, VII.11.35.

499. वज्रसूची (के के), श्लोक 43, पृ० 10.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

500. वनपर्व (कल०), 205.44; 206.10-25.
501. वही, 206.20-22.
502. हापकिस : 'रेलिजन्स आफ इंडिया', पृ० 425 में उद्धृत, होल्त्समैन : 'न्यूजेन बूखेर', पृ० 86.
503. वज्रसूची (जी), श्लोक 9 और 10, पृ० 2; तुलनीय (वाई), श्लोक 27, पृ० 7.
504. गीता, IX.32 धर्मव्याध का भी ऐसा विश्वास है कि सेवा ही शूद्रों का धर्म है (कर्म शूद्रे···).
505. द्विजशुश्रूषणं धर्मः भक्तितोमयि···आश्वमेधिक पर्व (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत), 118.15-16.
506. मनुस्मृति, IX.335.
507. मृच्छकटिक, VIII.25, करमारकर का अनुवाद, पृ० 232. जेण ह्मि गब्भदासे विणिम्मिदे भाअधेअदोसेहिं. अहिग्रं च न किणिस्सं तेण अकज्जं पलिहलामि.
508. घुर्ये : 'कास्ट ऐंड क्लास,' पृ० 95.
509. अनुशासनपर्व (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत), 164.2-3 (नार्दर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 107.2-3.
510. मरे : 'दि स्प्लेंडर दैट वाज इजिप्ट', पृ० 185.
511. मोरेट और डेवी : 'फ्राम ट्राइब टु इम्पायर', पृ० 222.
512. शांतिपर्व, 85.7-10.
513. घुर्ये : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 94. घुर्ये ऐसा ही सोचते हैं. उनकी राय है कि 300 ई० से 1000 ई० तक शूद्र सामाजिक दृष्टि से और भी अधोगत हुए.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

सारांश और निष्कर्ष

आरंभिक काल से लेकर लगभग पांच सौ ई० तक शूद्रों की स्थिति में हुए परिवर्तन के प्रमुख चरणों का विवरण मोटे तौर पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसा जान पड़ता है कि आर्यों और अनार्यों के पराजित और बेदखल कर दिए वर्ग शूद्र बना दिए गए और विजेता उसे अपनी सामूहिक संपत्ति मानने लगे। चूंकि अधिकांश शूद्र मूलत: आर्य समुदाय के ही अंग थे, इसलिए परवर्ती वैदिक समाज में भी उनके अनेक जनजातीय अधिकार, खासकर धार्मिक अधिकार बने रहे। किंतु जब प्राक्मौर्य काल (लगभग छ: सौ ई० पू० से तीन सौ ई० पू० तक) में वर्णाश्रित समाज पूर्णतया स्थापित हो गया, तब उन्हें इन अधिकारों से वंचित कर दिया गया और तमाम आर्थिक, राजनीतिक एवं कानूनी और सामाजिक तथा धार्मिक अशक्तताएं उन पर लाद दी गईं। शूद्र को दास समझा जाने लगा, हालांकि कानूनन शूद्रों का केवल एक वर्ग ही दास रहा होगा। 'शूद्र' शब्द को दास का पर्याय मानना गलत है, यद्यपि हार्पकिंस ने ऐसा ही माना है।[1] इसी प्रकार शूद्र को कृषि दास (सर्फ) कहना भी ठीक नहीं है, जैसा कि वेदिक इंडेक्स[2] में कहा गया है, क्योंकि कृषि दास वह है जो भूमि के साथ बंधा रहकर सेवा करता हो और उसके साथ हस्तांतरित किया जा सकता हो। हम मोटे तौर पर कह सकते हैं कि बहुत दिनों तक शूद्र शब्द का प्रयोग उन बहुविध मजदूर वर्गों के लिए सामूहिक रूप में किया जाता रहा जो तीन उच्च वर्णों की ताबेदारी करते थे। इस दृष्टि से उनकी तुलना सामान्यतया स्पार्टा के गुलामों से की जा सकती है। शूद्रों की चाकरी कई प्रकार की थी। वे घरेलू नौकरों और दासों, कृषि दासों, भाड़े के मजदूरों और शिल्पियों के रूप में काम करते थे। हाल के एक लेखक ने निंदा भरे शब्दों में बताया है कि वे कोई रचनात्मक कार्य करने योग्य नहीं थे।[3] किंतु यह दृढ़ता के साथ कहा जा सकता है कि शूद्रों के श्रम और कौशल तथा वैश्य किसानों द्वारा किया गया अतिरिक्त उत्पादन प्राचीन भारतीय समाज के विकास के भौतिक आधार थे।

मौर्यकाल में शूद्र से कृषि मजदूर का काम लेने की प्रवृत्ति पराकाष्ठा पर

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

थी और उसके पहले या पश्चात किसी भी समय दासों, भाड़े के मजदूरों और कारीगरों पर राज्य का इतना अधिक नियंत्रण नहीं रहा। कहा गया है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शूद्रों को आर्य माना गया है और वे गुलाम नहीं बनाए जा सकते थे। किंतु संबद्ध परिच्छेदों के सूक्ष्म विवेचन से इस मत की पुष्टि नहीं होती।[4] अशोक ने न्याय प्रशासन में वर्ण विभेदों को दूर करने का जो प्रयास किया उससे प्राय: ब्राह्मण नाराज हो गए और निम्न वर्णों को भी लाभ नहीं पहुंचा।

मौर्योत्तर काल (लगभग दो सौ ई० पू० से दो सौ० ई० सन) में शूद्रों की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। मनु का कट्टर शूद्रविरोधी रुख और ब्राह्मण-विरोधी कार्यों के लिए पुराणों में की गई शूद्रों की भर्त्सनाएं तीव्र वर्णसंघर्ष का संकेत देती हैं और यह संघर्ष शूद्रों के हक में संभवतया विदेशियों द्वारा किए गए हस्तक्षेप से तीव्रतर हो गया था। संभवतया इस संघर्ष के फलस्वरूप और प्रबल मौर्य साम्राज्य के पतन तथा नए नए कला कौशल के विकास के कारण शूद्रों की स्थिति में परिवर्तन के आसार दिखाई पड़ने लगे और गुप्तकाल (लगभग दो सौ ई० पू० से पांच सौ ई० सन) में ये परिवर्तन अधिक स्पष्ट हो गए।

इस काल में शूद्रों ने कुछ धार्मिक और नागरिक अधिकार प्राप्त किए और कई दृष्टियों से वे वैश्यों के समकक्ष बन गए। वैश्यों और शूद्रों का संयुक्त उल्लेख तो प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है, किंतु मौर्योत्तर काल और गुप्तकाल के ग्रंथों में ऐसा उल्लेख अधिकाधिक संख्या में मिलने लगता है। अन्यान्य विकासों की रोशनी में, गुप्तकाल में, ऐसे उल्लेखों का अपना एक अलग और नया महत्व है। स्पष्ट है कि वैश्यों की हैसियत घटाकर उन्हें पराधीनता की ओर ढकेल दिया गया और शूद्रों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वाधीनता की ओर अग्रसर किया गया। इनमें पहली प्रक्रिया का अनुमान विकसित क्षेत्रों में ब्राह्मणों को दिए गए अनेकानेक भूमिदानों से किया जा सकता है, जिनके चलते पुराने किसानों और राजा के बीच एक मध्यवर्ती सत्ता कायम होने से इन किसानों की स्थिति ह्रासोन्मुख हो गई।[5] बेगार (विष्टि) की प्रथा जो मौर्यकाल में दासों और कर्मकारों तक ही सीमित प्रतीत होती है, अब किसानों पर भी लागू कर दी गई और इससे वैश्यों तथा शूद्रों के बीच की असमानता और भी कम हो गई। शूद्रों का वैश्यों के दर्जे में पहुंचना, किसान के रूप में उनके रूपांतरण और शिल्पियों तथा व्यापारियों के रूप में उनके बढ़ते हुए महत्व से भी स्पष्ट होता है। मालूम पड़ता है कि अविकसित क्षेत्रों में ब्राह्मणों को दिए गए भूमिदानों से शूद्र किसानों की संख्या बढ़ी थी। ऐसे किसान आदिवासी जनजातियों से ब्राह्मणिक सामाजिक संगठन में आत्मसात किए जा रहे थे। प्राचीन काल में शूद्रों का काम था उच्च वर्णों के लिए श्रम की आपूर्ति करना; किंतु गुप्तकाल के बाद अब उनका काम था शिल्पी, व्यापारी और विशेषकर किसानों के रूप में उत्पादन कर्म द्वारा सामानों की

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

आपूर्ति। उनकी पुराने ढंग की पराधीनता अभी भी बनी हुई थी, किंतु ऐसी स्थिति में पड़े शूद्रों की संख्या इस काल के नए ढंग के शूद्रों की अपेक्षा कम थी।

गुप्तकाल से पहले की शूद्र समुदाय की पराधीन हैसियत और दयनीय स्थिति के बावजूद शूद्रों के विद्रोह का कोई प्रमाण शायद ही मिलता है। हां, मौर्योत्तर काल में इनके घोर ब्राह्मणविरोधी कार्यकलापों के प्रसंग मिलते हैं। रोम के दासों द्वारा की गई क्रांतियों की तुलना में शूद्रों के सांयोगिक और छिटपुट राज्य-विरोधी कार्यकलाप महत्वपूर्ण नहीं हैं। उत्तर भारत की सामाजिक और ग्रामीण अर्थव्यवस्था (छः सौ ई० पू० से दो सौ ई० सन) संबंधी एक रचना में बताया गया है कि निम्नवर्गीय वैश्य मध्यमवर्ग (हीन मध्यमवर्ग) के थे,[6] और शूद्र एवं द्विज वर्णों के बीच संतुलन बनाए हुए थे।[7] 'द्विज वर्गों' ('द्विज क्लासेज') शब्द का प्रयोग ठीक नहीं है, क्योंकि वैश्यों को भी द्विज माना जाता था। किंतु यह तथ्य भी कि वैश्य एक ओर प्रथम दो वर्णों और दूसरी ओर शूद्रों के बीच संतुलन का काम करते थे; केवल ई० सन के आरंभ होने के पहले तक के काल के लिए ही सही हो सकता है, क्योंकि मोटे तौर पर उसी समय से दोनों निम्न वर्ण एक दूसरे के निकट पहुंचने लगे थे और गुप्तकाल आते आते उनका अलग अलग अस्तित्व समाप्त सा हो चुका था।

किंतु प्राचीन भारतीय समाज में शूद्रों की आपेक्षिक शांतिप्रियता को स्पष्ट करने के लिए कुछ अन्य कारण भी बताए जा सकते हैं। भारत में संभवतया मुद्रामूलक अर्थव्यवस्था उस हद तक विकसित नहीं हुई थी जिस हद तक वह ग्रीस[8] और रोम में थी। अतः शूद्रों की सैद्धांतिक दासता के बावजूद, उनमें से बहुत कम को ही ऋण की अदायगी नहीं करने के कारण दास बनाया जाता था। ग्रीस में दासता का यह प्रमुख साधन था।[9] मौर्यपूर्व काल और मौर्यकाल को छोड़कर कृषि दासों से काम लेने के बहुत कम प्रमाण मिलते हैं। दास अधिकतर घरेलू कार्यों के लिए रखे जाते थे। इस व्यवस्था में मालिक के साथ उनका घनिष्ठ संबंध रहता था, तथा घरेलू सोपान पंक्ति में दास को सर्वथा एक भिन्न वर्ग का नहीं माना जाता था, बल्कि उसे सदस्यों के बीच ही सबसे नीचे रखा जाता था।

हो सकता है कि जोर-जबर्दस्ती किए जाने की स्थिति में, शूद्र मजदूरों ने स्वतंत्र जनजातियों के पास शरण ली हो,[10] अथवा वे एक राज्य को छोड़कर दूसरे में चले गए हों। इतना ही नहीं, ब्राह्मणों और क्षत्रियों की तुलना में शूद्र कोई सुसंगठित, रुद्धद्वार समुदाय नहीं था जो अपने मालिकों के विरुद्ध कोई संयुक्त कार्रवाई करने में सक्षम हो। ज्यों ज्यों समय बीतता गया, शूद्र विभिन्न तरह की सामाजिक प्रतिष्ठा वाली अनेक उपजातियों में बिखर गए और अनेकानेक जनजातियों के अंतःप्रवेश से तो इन उपजातियों की संख्या और भी बढ़ती गई। कहा गया है कि अमरकोश में मालाकार, कुंभकार, राज कारीगर,

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

जुलाहा, दर्जी, रंगसाज आदि को उत्तरोत्तर अपकृष्टता के क्रम से रखा गया है।[11] इसमें कोई संदेह नहीं कि शूद्रों के बीच घरेलू नौकरों, बटाईदारों, चरवाहों और नापितों को अधिकांश अन्य प्रकार के शूद्रों की अपेक्षा, समाज में ऊंचे दर्जे वाला माना जाता था, क्योंकि उनके ब्राह्मण मालिक भी उनका अन्न ग्रहण कर सकते थे।[12] निचली जातियों की इससे भी बड़ी कमजोरी थी, शूद्रों और अछूतों के रूप में उनका विभाजन, जो पाणिनि के समय में प्रकट हुआ, बाद में भी रहा और गुप्तकाल में तीव्र हुआ। शूद्रों ने न केवल अपने को उच्च वर्णों की बराबरी में लाकर, बल्कि अपने को अछूतों से श्रेष्ठ बताकर अपना ओहदा बढ़ाया; ताकि ब्राह्मणिक समाज की सोपान पंक्ति में वे अपने से नीचे की जाति के प्रति मिथ्या अभिमान कर सकें।

कदाचित असंतुष्ट शूद्र हथियार न उठा लें, इसके लिए विधिनिर्माताओं ने हमेशा उन्हें निःशस्त्र रखने की नीति बनाई, जिसमें संभवतया गुप्तकाल में परिवर्तन हुए।

वर्णव्यवस्था के बुनियादी ढांचे को बनाए रखने और शूद्रों को अधम बनाकर रखने में जो एक बात बहुत सहायक हुई, वह है आम जनता को कर्म के सिद्धांत में विश्वास करा देना और यह समझा देना कि ईश्वर द्वारा निर्धारित वर्ण या जाति के कर्तव्यों का पालन नहीं करने के कुपरिणाम भोगने पड़ेंगे। कहा जाता है कि चूंकि आम जनता व्यापक रूप में शिक्षित थी और वह गुण दोष का विचार करने में समर्थ थी, अतः वह उच्च वर्णों की स्वाभाविक श्रेष्ठता में विश्वास नहीं कर सकी।[13] किंतु ऐसे दावे का कोई आधार नहीं है। इसके विपरीत, मजदूर वर्गों का दिमाग ब्राह्मणिक आदर्श से इस तरह जकड़ा हुआ था कि शूद्रों को प्रत्यक्ष रूप से दबाने सताने अथवा शूद्रों द्वारा उग्र विद्रोह की गुंजाइश बहुत कम थी।

किंतु ब्राह्मणिक सिद्धांतों को मानने वाले हमेशा अपने सिद्धांतों के गुलाम नहीं थे। आदिवासी और विजातीय शासकों के लिए उपयुक्त क्षत्रिय वंशावली गढ़ लेने में उन्हें उनके वास्तविक जन्म की भावना बाधा नहीं पहुंचा सकी।[14] प्रायः कुछ साहसी शूद्र, जो समय समय पर अपनी धाक जमा सके होंगे, ब्राह्मणिक प्रणाली में बखूबी क्षत्रिय के रूप में अपना लिए गए होंगे, ताकि वे नवधर्मान्तरित व्यक्ति के समान पूरे उमंग और उत्साह से उच्च वर्णों की प्रमुखता की रक्षा कर सकें। ब्राह्मण कौटिल्य द्वारा शूद्र कुलजात चंद्रगुप्त को समर्थन देने का जो परंपरागत वृत्तांत मिलता है, उससे स्पष्ट है कि ऐसी घटनाएं असंभव नहीं थीं।

बौद्ध, जैन, शैव और वैष्णव, इन सुधारवादी धार्मिक आंदोलनों में कर्मफल-वाद पर, जो कि ब्राह्मणिक समाज व्यवस्था का सैद्धांतिक आधार था, कोई आपत्ति नहीं उठाई गई। इन आंदोलनों ने अन्य प्रकार की समानता के बदले धार्मिक समानता का आश्वासन देकर, नीच जाति के लोगों को वर्तमान सामाजिक

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

ढांचे के अनुकूल बनाया । सामाजिक विषमताओं के प्रति विरोध की भावना, जो आरंभिक अवस्था में इन आंदोलनों का प्रमुख लक्षण थी, कालक्रम से विलीन हो गई और वे अपने को वर्णाश्रम व्यवस्था का अभिन्न अंग मानने लगे । इस प्रकार इन सारे तथ्यों के संयुक्त प्रभाव से शूद्र अपेक्षाकृत शांत बने रहे और उनकी पराधीनता स्थाई बन गई ।

संदर्भ

1. हापकिंस : 'कैंब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया', I. पृ० 268.
2. वेदिक इंडेक्स, II, पृ० 389.
3. वल्वलकर : 'हिंदू सोशल इंस्टिट्यूशंस', पृ० 327-8.
4. कौटिल्य : अर्थशास्त्र, III. 13.
5. सरकार : 'सेलेक्ट इंसक्रिप्शंस', I, पृ० 188, उत्कीर्ण लेख सं० 82, पंक्ति 11, भूमिदान का प्राचीनतम शिलालेखीय साक्ष्य ई० पू० प्रथम शताब्दी का कहा जा सकता है, किंतु गुप्तकाल में ऐसे भूमिदान अधिक प्रचलित पाए जाते हैं.
6. तकनीकी दृष्टि से यह शब्द मध्यवर्गीय दुकानदारों के लिए प्रयुक्त होता था, किंतु इस काल में वैश्य मुख्यतया किसान थे.
7. बोस : पूर्व निर्दिष्ट, II, पृ० 486-87.
8. टामसन : 'स्टडीज इन एनशिएंट ग्रीक सोसायटी', II, पृ० 194-6, तुलनीय.
9. 'सोलन्स डेट लाज टुवार्ड्स दि बिगनिंग आफ दि सिक्स्थ सेंचुरी बी० सी०', तुलनीय.
10. पीड़ित प्रजा द्वारा पांचाल राज्य छोड़ने का एक उद्धरण जातक में मिलता है.
11. कोसंबी : (जर्नल आफ ओरिएंटल रिसर्च, मद्रास, XXIV, 61).
12. याज्ञवल्क्य, I. 166.
13. के० वी० रंगस्वामी अय्यंगर : 'आस्पेक्ट्स आफ दि सोशल ऐंड पोलिटिकल सिस्टम आफ मनुस्मृति', पृ० 134.
14. 'सेन्सस आफ इंडिया', 1891, 13 (मद्रास), पृ० 213, (साइटश्रिफ्ट डेर डोय्चेन मेर्गेनलेंडिशेन गेजेलशाफ्ट, बर्लिन, 1, 510 में उद्धृत.) यह प्रक्रिया हाल तक चलती रही है.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

ग्रंथ सूची

(एक से अधिक अध्यायों में प्रयुक्त संदर्भ ग्रंथ)

अ. मूल

महाकाव्य :

(कलकत्ता संस्करण) संपादक एन० शिरोमणि और अन्य, बिब्लिओथेका इंडिका, कलकत्ता, 1834-39. अनुवादक के० एम० गांगुली। पी० सी० राय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित, 1884-96।

(कुंभकोनम संस्करण) संपादक टी० आर० कृष्णाचार्य और टी० आर० व्यासाचार्य, बंबई, 1905-10।

(आलोचनात्मक संस्करण) संपादक विभिन्न व्यक्ति, पूना, 1927-64। जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, निर्देश इसी संस्करण के हैं।

रामायण, वाल्मीकिकृत

संपादक काशीनाथ पांडुरंग, 2 खंड, बंबई, 188।

पुराण :

अग्नि पुराण

अनुवादक एम० एन० दत्त, 2 जिल्द, कलकत्ता, 1903-4।

दि पुराण टेक्स्ट आफ दि डायनेस्टीज आफ दि कलि एज

अनुवादक एफ० ई० पार्जिटर, आक्सफोर्ड, 1913।

ब्रह्मांड पुराण

बंबई, 1913।

भविष्य पुराण

बंबई, 1910।

भागवत पुराण

बंबई, 1905।

मत्स्य पुराण

संपादक जीवानंद विद्यासागर, कलकत्ता, 1876।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

मार्कण्डेय पुराण
संपादक माननीय के० एम० बनर्जी, बिब्लिओथेका इंडिका, कलकत्ता, 1862, अनुवादक एफ० ई० पार्जिटर, कलकत्ता, 1904।

वायु पुराण, संपादक आर० एल० मित्र, 2 जिल्द, बिब्लिओथेका इंडिका, कलकत्ता, 1880-88।

विष्णु पुराण, श्रीधरस्वामी टीका सहित, संपादक जीवानंद विद्यासागर, कलकत्ता, 1882, अनुवादक एच० एच० विलसन, 5 जिल्द, लंदन, 1864-70।

उत्कीर्ण लेख

डी० सी० सरकार, सेलेक्ट इंसक्रिप्शंस बियरिंग आन इंडियन हिस्ट्री ऐंड सिविलाइजेशन, i, कलकत्ता, 1942।

आ. शब्दकोश और निर्देश ग्रंथ

ए० ए० मैकडानल ऐंड ए० बी० कीथ, वैदिक इंडेक्स आफ नेम्स ऐंड सबजेक्ट्स, 2 जिल्द, लंदन, 1912।

एच० एच० विल्सन, ए ग्लासरी आफ जुडीशियल ऐंड रेवेन्यू टर्म्स, लंदन, 1885।

एच० जी० लिडेल और आर० स्काट, ए ग्रीक इंगलिश लेक्सिकन, 2 जिल्द, आक्सफोर्ड 1925-40।

जी० पी० मलसेकेरा, ए डिक्शनरी आफ पाली प्रापर नेम्स, 2 जिल्द, लंदन, 1937-8।

जे० म्यूर, ओरिजनल संस्कृत टेक्स्ट्स, i, लंदन, 1872।

टी० डब्ल्यू० रीज डेविड्स और डब्ल्यू० स्टीड, पाली-इंगलिश डिक्शनरी, पी० टी० एस० लंदन, 1921।

डब्ल्यू० एच० गिलबर्ट, कास्ट इन इंडिया (ग्रंथ-सूची), खंड 1, चक्रमुद्रित प्रति, वाशिंगटन, 1948।

मोनियर-विलियम्स, ए संस्कृत इंगलिश डिक्शनरी, आक्सफोर्ड, 1951।

लक्ष्मणशास्त्री जोशी, धर्मकोश, जिल्द i (तीन खंडों में), वई, जिला सतारा, 1937-41।

इ. भारतीय साहित्य के इतिहास

ए० बी० कीथ, ए हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर, आक्सफोर्ड, 1928।

एम० विंटरनिज, (i) ए हिस्ट्री आफ इंडियन लिटरेचर, जिल्द i, श्रीमती केतकर द्वारा जर्मन से अनूदित, कलकत्ता।
(ii) गेसिस्टे डेर इंडिश्चेन लिटरेटुर, जिल्द ii-iii, लिपजिग, 1920।

एलब्रेख्ट वेबर, दि हिस्ट्री आफ इंडियन लिटरेचर, जे० मन्न ऐंड टी जकराया

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

द्वारा द्वितीय जर्मन संस्करण का अनुवाद, लंदन, 1876।
एस० एन० दासगुप्त और एस० के० डे, ए हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर (क्लासिकल पीरियड), जिल्द i, कलकत्ता, 1947।
बी० सी० ला, ए हिस्ट्री आफ पाली लिटरेचर, जिल्द i, लंदन, 1933।

ई. सामान्य ग्रंथ

आर० सी० मजूमदार, एच० सी० रायचौधरी और के० के० दत्त, एन एडवांस्ड हिस्ट्री आफ इंडिया, लंदन, 1948।
आर० सी० मजूमदार और ए० डी० पुसलकर, (i) दि वेदिक एज, लंदन, 1951। (ii) दि एज आफ इंपीरियल यूनिटी, बंबई, 1951।
ई० जे० रैप्सन, दि कैंब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया, जिल्द i, कैंब्रिज, 1922।
ए० एल० बाशम, दि वंडर दैट वाज इंडिया, लंदन, 1954।
एच० सी० रायचौधरी, पोलिटिकल हिस्ट्री आफ एनशिएंट इंडिया, छठा संस्करण, कलकत्ता, 1953।
एल० डी० बार्नेट, एंटिक्विटीज आफ इंडिया, लंदन, 1913।
के० ए० नीलकंठ शास्त्री, दि मौर्याज ऐंड सतवाहनाज, बंबई, 1957।
क्रिश्चियन लैसेन, इंडिश्चे अल्टरथुम्सकंडे, 4 जिल्द, लिपजिग, 1847-1861।
गुन्नर लैंटमैन, दि ओरिजिन आफ दि इनइक्वेलिटी आफ दि सोशल क्लासेज, लंदन, 1938।
डी० डी० कोसंबी, एन इंट्रोडक्शन टु दि स्टडी आफ इंडियन हिस्ट्री, बंबई, 1956।
वाल्टर र्‌यूबेन, एनफुरंग इन डी इंडियनकुंडे, बर्लिन, 1954।
वी० ए० स्मिथ, अर्ली हिस्ट्री आफ इंडिया, चतुर्थ संस्करण, एस० एम० एडवर्ड्स द्वारा संशोधित, आक्सफोर्ड, 1924।

उ. प्राचीन भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन पर गौण कृतियां

अतींद्रनाथ बोस, सोशल ऐंड रूरल इकानमी आफ नार्दर्न इंडिया (लगभग छः सौ ई० पू० दो सौ ई० पू०), 2 भाग, कलकत्ता, 1945।
आर० के० मुखर्जी, (i) एनशिएंट इंडियन एडुकेशन, लंदन, 1940। (ii) लोकल गवर्नमेंट इन एनशिएंट इंडिया, आक्सफोर्ड, 1920।
आर० सी० मजूमदार, कारपोरेट लाइफ इन एनशिएंट इंडिया, कलकत्ता, 1922।
आर० सी० हाजरा, स्टडीज इन दि पुराणिक रेकर्ड्स आन हिंदू राइट्स ऐंड कस्टम्स, ढाका, 1940।
ई० डब्ल्यू० हापकिंस, पोजिशन आफ दि रूलिंग कास्ट इन एनशिएंट इंडिया,

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

जर्नल आफ दि अमेरिकन ओरिएंटल सोसायटी, बाल्टी मोर, XIII, 57-376।
ए० एस० अल्टेकर, एडुकेशन इन एनशिएंट इंडिया, बनारस, 1934।
एच० रिजले, दि पीपुल आफ इंडिया, लंदन, 1915।
एन० के० दत्त, ओरिजिन ऐंड ग्रोथ आफ कास्ट इन इंडिया, जिल्द i, (लगभग दो हजार ई० पू०-तीन सौ ई०), लंदन, 1931।
ए० बेन्स, एथनोग्राफी, स्ट्रैसबर्ग, 1912।
एमिल सेनार्ट, कास्ट इन इंडिया, फ्रेंच संस्करण, लेस कास्ट्स दा ल इंडे (पेरिस, 1896) का डेनिसन रास द्वारा अनुवाद, लंदन, 1930।
एस० ए० डांगे, इंडिया फ्राम प्रिमिटिव कम्युनिज्म टु स्लेवरी, बंबई, 1949।
एस० वी० केतकर, दि हिस्ट्री आफ कास्ट इन इंडिया, न्यूयार्क, 1909।
के० एम० शरण, लेबर इन एनशिएंट इंडिया, बंबई, 1957।
के० एल० दफ्तरी, दि सोशल इंस्टिट्यूशंस इन एनशिएंट इंडिया, नागपुर, 1947।
के० पी० जायसवाल, (i) हिंदू पालिटी, 2 खंड, कलकत्ता, 1924।
(ii) मनु ऐंड याज्ञवल्क्य, कलकत्ता, 1930।
के० वी० रंगस्वामी अय्यंगर, सम आस्पेक्ट्स आफ दि हिंदू व्यू आफ लाइफ अकार्डिंग टु धर्मशास्त्र, बड़ौदा, 1952।
जगदीशचंद्र जैन, लाइफ इन एनशिएंट इंडिया ऐज डिपिक्टेड इन दि जैन केनन्स, बंबई, 1947।
जी० एस० घुर्ये, कास्ट ऐंड क्लास इन इंडिया, बंबई, 1950।
जे० एच० हटन, कास्ट इन इंडिया, आक्सफोर्ड, 1951।
जे० जाली, हिंदू ला ऐंड कस्टम, कलकत्ता, 1928, एस० के० दास द्वारा 1896 के जर्मन संस्करण से अनूदित।
देवराज चानना, स्लेवरी इन एनशिएंट इंडिया, पांडीचेरी, 1957।
नारायणचंद, बंद्योपाध्याय, इकनामिक लाइफ ऐंड प्रोग्रेस इन एनशिएंट इंडिया, कलकत्ता, 1945।
पी० एच० वल्वलकर, हिंदू सोशल इंस्टीट्यूशंस, लंदन, 1939।
पी० वी० काणे, हिस्ट्री आफ धर्मशास्त्र, जिल्द ii, पूना, 1941।
प्राणनाथ, ए स्टडी इन दि इकनामिक कंडीशन आफ एनशिएंट इंडिया, लंदन, 1929।
बी० आर० अंबेडकर, (i) हू वेयर दि शूद्राज ? (हाउ दे केम टु बी दि फोर्थ वर्ण इन दि इंडो-एरियन सोसायटी ?), बंबई, 1946।
(ii) दि अनटचेबुल्स (हु वेयर दे ? ऐंड हाउ दे बिकेम अनटचेबुल्स ?) नई दिल्ली, 1948।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

बी० ए० सैलेटोर, दि वाइल्ड ट्राइब्स इन इंडियन हिस्ट्री, लाहौर, 1935।
बी० सी० ला, ट्राइब्स इन एनशिएंट इंडिया, पूना, 1943।
भूपेंद्रनाथ दत्त, स्टडीज इन इंडियन सोशल पालिटी, कलकत्ता, 1944।
यू० एन० घोषाल, कांट्रिब्यूशंस टु दि हिस्ट्री आफ हिंदू रेवेन्यू सिस्टम, कलकत्ता 1929।
रामशरण शर्मा, प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार एवं संस्थाएं, मैकमिलन, दिल्ली, 1977।
वाल्टर र्‌यूबेन, डी लाग डर स्क्लैवेन इन डेर आल्टिनडिस्चेन गेजेलशाफ्ट, बर्लिन, 1957।
संतोषकुमार दास, दि इकनामिक हिस्ट्री आफ एनशिएंट इंडिया, कलकत्ता, 1944।

1. भूमिका

अलफ्रेड हिलब्रांट, ब्राह्मणेन उंड शूद्राज, फेस्टस्क्रिफ्ट फुर कार्ल विनहोल्ड, पृ० 53-57, ब्रेसलौ, 1896।
आर० जी० भंडारकर, कलेक्टेड वर्क्स, संपादक एन० बी० उतिगकर और वी० जी० परांजपे, 4 जिल्द, पूना, 1927-33।
एच० टी कोलब्रुक, मिसलेनस एसेज, संपादक ई० बी० कावेल, 2 जिल्द, लंदन, 1873।
एन० बी० हैलहेड, ए कोड आफ जेंटू लाज, लंदन, 1776।
जेम्स मिल, दि हिस्ट्री आफ इंडिया, जिल्द i और ii, द्वितीय संस्करण, लंदन, 1820।
जे० सी० घोष, ब्राह्मणिज्म ऐंड दि शूद्र, कलकत्ता, 1902।
माउंट स्टुअर्ट एलफिस्टन, दि हिस्ट्री आफ इंडिया, लंदन, 1841।
राजा राममोहन राय, दि इंगलिश वर्क्स, 3 जिल्द, संपादक जे० सी० घोष, कलकत्ता, 1901।
विलियम जोन्स, इंस्टीट्यूट्स आफ हिंदू ला आर दि आर्डिनेंसेज आफ मनु, (अनुवाद) कलकत्ता, 1794।
वी० एस० भट्टाचार्य, दि स्टेटस आफ दि शूद्राज इन एनशिएंट इंडिया, विश्वभारती त्रैमासिक, 1924।
स्वामी दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश, अजमेर, संवत 1966।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

2 उत्पत्ति

मूल ग्रंथ

अथर्ववेद (पैप्पलादों का), संपादक रघुवीर, लाहौर, 1936-41।

अथर्ववेद संहिता (शौनक मतावलंबियों का), संपादक सी० आर० लनमन, अनुवाद डब्ल्यू डी० व्हिटने, हार्वर्ड ओरिएंटल सीरीज, vii और viii, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, 1905। संपादक आर० रौथ ऐंड डब्ल्यू० डी० व्हिटने, बर्लिन, 1856। सायण की टीका सहित, संपादक एस० पांडुरंग, पंडित, 4 जिल्द, बंबई, 1895-98। अनुवादक आर० टी० एच० ग्रिफिथ, 2 जिल्द, बनारस, 1916-17। जब तक अन्यथा न बताया गया हो, निर्देश शौनक संस्करण के माने जाएं।

ऋग्वेद संहिता, सायण की टीका सहित, 5 जिल्द, वैदिक संशोधन मंडल, पूना, 1933-51। प्रथम 6 मंडलों का अनुवाद, एच० एच० विलसन, लंदन, 1850-7। के० एफ० गेल्डनर, कैंब्रिज, मैच्यूसेट्स, 1951।

जे० डब्ल्यू० मैक्रिडल (i) एनशिएंट इंडिया ऐज डिस्क्राइब्ड बाई टालेमी, कलकत्ता, 1885। (ii) दि इनवेजन आफ इंडिया बाई अलेक्जांडर दि ग्रेट, वेस्टमिंस्टर, 1893।

भविष्यत्कहा, लेखक धनपाल, संपादक सी० डी० दलाल और पी० डी० गुने, गायकवाड़ ओरिएंटल सीरीज, XX, बड़ौदा, 1923।

वेदांतसूत्र बादरायणकृत, शंकराचार्य की टीका सहित, 2 जिल्द, बिब्लिओथेका इंडिका, कलकत्ता, 1863। अनुवाद जार्ज थीबो, सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, XXXIV, आक्सफोर्ड, 1890।

गौण रचनाएं

आर० ई० मार्टिमर व्हीलर, दि इंडस सिवलाइजेशन (सप्लीमेंट वाल्यूम टु कैंब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया, I), कैंब्रिज, 1953।

आर० रौथ, ब्रह्म उंड डाइ ब्राह्मनेन, साइटशिफ्ट डेर डोय्चेन मार्गेनलैंडिशेन गेजेलशाफ्ट, बर्लिन, i, 66-86।

आर० गिर्समन, ईरान (पेलिकन सीरीज), 1954।

ई० एल० स्टीवेंशन, ज्याग्रफी आफ क्लाडियस टालेमी, न्यूयार्क, 1932।

ई० मैके, अर्ली इंडस सिविलाइजेशंस, द्वितीय संस्करण, लंदन, 1948।

एन० एन० घोष, दि ओरिजिन ऐंड डेवलपमेंट आफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया, इंडियन कल्चर, कलकत्ता, xii,-177-191।

एफ० ई० पार्जिटर, इंडियन हिस्टारिकल ट्रेडीशंस, लंदन, 1922।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

जार्जेज द्युमेजिल, (i) फ्लामेन-ब्राह्मण, पेरिस, 1935।

(ii) ला प्रिहिस्ट्वायरे इंडो-इरानियेन डेस कास्ट्स जर्नल एसियाटिक (पेरिस), ccxvi, 109-130।

जार्ल चारपेंटियर, ब्राह्मण, उप्पसला, 1932।

जी० जे० हेल्ड, दि महाभारत : एन उथनलाजिकल स्टडी, लंदन और एम्स्टरडम, 1935।

जे० वैकरनेगेल, इंड्वायरेनिसेज, सिजुंगसबेरिसे डेर कानिग्लिच प्रुसिस्चेन अकाडेमी डेर विसेनशैफेन, 1918, पृ० 380-411।

टी० बरो, दि संस्कृत लैंग्वेज, लंदन, 1955।

डब्ल्यू० रूयूवेन, इंद्राज फाइट अगेंस्ट वृत्र इन दि महाभारत, एस० के० बेल्वलकर (फेलिसिटेशन वाल्यूम, बनारस, 1957), 113-26।

डी० डी० कोसंबी (i) अर्ली ब्राह्मिन्स ऐंड ब्राह्मनिज्म, जर्नल आफ दि बाम्बे ब्रांच आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी, बंबई, न्यू सीरीज, xxiii.39-46।

(ii) आन दि ओरिजिन आफ ब्राह्मिन गोत्राज, जर्नल आफ दि बाम्बे ब्रांच आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी, बंबई, न्यू सीरीज, xxvi, 21-80।

(iii) अर्ली स्टेजेज आफ दि कास्ट सिस्टम इन नार्दर्न इंडिया, जर्नल आफ दि बाम्बे ब्रांच आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी, बंबई, न्यू सीरीज, xii, 32-48।

पी० वी० काणे, दि वर्ड व्रत इन दि ऋग्वेद, जर्नल आफ दि बाम्बे ब्रांच आफ रायल एशियाटिक सोसायटी, बंबई, न्यू सीरीज, vxix, 1-28।

बी०बी० लाल, प्रोटोहिस्टारिक इनवेस्टिगेशन, एनशिएंट इंडिया, दिल्ली, सं०9।

राबर्ट शेफर, एथनोग्राफी आफ एनशिएंट इंडिया (महाभारत के आधार पर), विसबैडन, 1954।

राबर्ट हेन-गेल्डर्न, आर्कियोलाजिकल ट्रेसेज आफ दि वैदिक एरियन्स, जर्नल आफ दि इंडियन सोसायटी आफ ओरिएंटल आर्ट (कलकत्ता), iv, 87-115।

लुइ रनू, वैदिक इंडिया, कलकत्ता, 1957।

वी० एस० भट्टाचार्य शास्त्री, 'शूद्र', एनशिएंट इंडिया, दिल्ली, ii, 137-9।

वी० गौर्डन चाइल्ड, दि एरियंस, लंदन, 1926।

वी० गौर्डन चाइल्ड, न्यू लाइट आन दि मोस्ट एनशिएंट ईस्ट, लंदन, 1954।

सूर्यकांत, कीकट, फलिग ऐंड पणि, एस० के० बेल्वलकर फेलिसिटेशन वाल्यूम, 43-44।

हरमन ग्रासमन, वोर्टरबुक जुम ऋग्वेद, लिपजिग, 1873।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

3. जनजाति से वर्ण की ओर

(लगभग 1000 ई० पू० से लगभग 600 ई० पू० तक)*

मूल स्रोत

आपस्तंब श्रौतसूत्र, रुद्रदत्त की टीका सहित, संपादक रिचर्ड गार्बे, 3 जिल्द, कलकत्ता, 1882-1902। संपादक और अनुवादक डब्ल्यू० कैलेंड, 3 जिल्द, गौटिंजेन- लिपजिग-एम्सटर्डम, 1921-1928।

ऋग्वेद ब्राह्मणाज : ऐतरेय ऐंड कौशीतकि ब्राह्मणाज, अनुवादक ए० बी० कीथ, हार्वर्ड ओरिएंटल सीरीज, xxv, हावर्ड, 1920।

ऐतरेय ब्राह्मण, सायण की टीका सहित, संपादक टी० वेबर, बान, 1879 अनुवादक मार्टिन हाग, बंबई, 1863।

कण्व संहिता, शुक्ल यजुर्वेदीय, संपादक माधव शास्त्री, बनारस, 1915।

कपिष्ठल-कठ संहिता, संपादक रघुवीर, लाहौर, 1932।

काठक संहिता, संपादक लियोपाल्ड फान श्रोडर, लिपजिग, 1900-1910।

कात्यायन श्रौतसूत्र, कर्काचार्य की टीका सहित, संपादक मदनमोहन पाठक, बनारस 1904।

कृष्ण यजुर्वेदीय तैतिरीय ब्राह्मण, सायण की टीका सहित, संपादक आर० एल० मित्र, 3 जिल्द, कलकत्ता, 1859-70।

गोपथ ब्राह्मण, संपादक डिएंके गास्ट्रा, लेडेन, 1919।

छांदोग्य उपनिषद, मूल, अनुवाद और टीका, एमिल सेनार्ट, पेरिस, 1930।

जेंद अवेस्ता, खंड I वेंदीदाद, अनुवादक जेम्स डर्मेस्टेटर, सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, iv, आक्सफोर्ड, 1880।

जैमिनीय या तलवकार उपनिषद ब्राह्मण, संपादक रामदेव, लाहौर, 1921।

जैमिनीय श्रौतसूत्र, संपादक और जर्मन भाषा में अनुवाद, डी० गास्ट्रा, लेडेन, 1906।

तैतिरीय संहिता, संपादक ए० वेबर, इंडिश्चेन स्टुडियेन, बैंड 11 और 12, लिपजिग 1871-2। अनुवादक ए० बी० कीथ, हावर्ड ओरिएंटल सीरीज, xviii और xix, हावर्ड, 1914।

दि थर्टीन प्रिंसिपल उपनिषद्स, अनुवादक आर० ई० ह्यूम, आक्सफोर्ड, 1931।

डस जैमिनीय ब्राह्मण इन औसवाल, संपादक और जर्मन भाषा में अनुवादक, डब्ल्यू० कैलेंड, एम्सटर्डम, 1919।

---

* जो रचना किसी खास काल के सिलसिले में बताई गई है, आवश्यक नहीं कि वह उसी काल की हो अथवा केवल उसी काल का विवरण प्रस्तुत करती हो.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

द्राह्यायण श्रौतसूत्र, धनविन की टीका सहित, संपादक जे० एन० र्‌यूटर, लंदन, 1904।

निघंटु ऐंड निरुक्त, संपादक और अनुवादक लक्ष्मण सरूप। मूल, पंजाब विश्वविद्यालय, 1927, अंग्रेजी अनुवाद और टिप्पणियां, आक्सफोर्ड 1921।

वृहदारण्यक उपनिषद, शंकराचार्य की टीका सहित, अनुवादक स्वामी माधवानन, अल्मोड़ा, 1950।

वृहद्‌देवता, संभवतः शौनककृत, संपादक और अनुवादक ए०ए० मैकडानल, हावर्ड ओरिएंटल सीरीज, v और vi, हावर्ड, 1904।

मैत्रायणी संहिता, संपादक लियोपाल्ड फान श्रोडर, लिपजिग, 1923।

लाट्‌यायन श्रौतसूत्र, अग्निस्वामी की टीका सहित, संपादक आनंद चंद्र वेदांतरागेश, बिब्लिओथेका इंडिका, कलकत्ता, 1872।

वाजसनेयि संहिता (माध्यंदिन पाठ) उवट और महीधर की टीका सहित, संपादक वासुदेव लक्ष्मण शास्त्री पंसिकर, बंबई, 1912।

वाराह श्रौतसूत्र, संपादक डब्ल्यू० कैलेंड ऐंड रघुवीर, लाहौर, 1933।

शतपथ ब्राह्मण, (माध्यंदिन पाठ), संपादक वी० शर्मा गौड़ एवं सी० डी० शर्मा, काशी, संवत 1994-7।

शांखायन ब्राह्मण, आनंदाश्रम संस्कृत सीरीज, सं० 35, 1911।

शांखायन श्रौतसूत्र, संपादक ए० हिलब्रांट, बिब्लिओथेका इंडिका, कलकत्ता, 1888।

सत्याषाढ़ (हिरण्यकेशिन) श्रौतसूत्र, महादेव की टीका सहित, आनंदाश्रम संस्कृत सीरीज, 1907।

सामवेदीय जैमिनीय ब्राह्मण, संपादक रघुवीर एवं लोकेश चंद्र, नागपुर, 1954।

गौण रचनाएं

आर० जी० फौबिस, मेटलर्जी इन एनटिक्वीटी, लेडेन, 1950।

ए० ए० मैकडानल, ए वेदिक ग्रामर फार स्टूडेंट्स, आक्सफोर्ड, 1916।

एच० एम० चैडविक, दि हिरोइक एज, कैंब्रिज, 1912।

एम० ब्लूमफील्ड, दि अथर्ववेद, स्ट्रैसबर्ग, 1899।

ए० वेबर, (i) कलेक्टानिया उबर डी वस्टेनवेर हालनिसे इन डेन ब्राह्मण उंड सूत्र, इंडिस्चे स्टूडियेन, X, 1-160।

(ii) डेर अर्स्ट्रे अध्याय डेस अर्सटेन बुचेस डेस शतपथ ब्राह्मण, त्साइटशिफ्ट डेर डोय्‌चेन मेर्गेनलैंडिशे गेजेलशाफ्ट, बर्लिन, iv, 289-304।

ए० सी० बनर्जी, स्टडीज इन दि ब्राह्मणाज, पी-एच० डी० थीसिस, लंदन विश्वविद्यालय, 1952।

ए० हिलब्रांट, जूर वेडिस्चेन माइथालजी उंड वाल्करबेवेगुंग, लिपजिग, बैंड-3,

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

लिपजिग, 1925।
जार्ज टामसन, स्टडीज इन एनशिएंट ग्रीक सोसायटी, i, लंदन, 1949।
जी० सी० पांडे, स्टडीज इन दि ओरिजन्स आफ बुद्धिज्म, इलाहाबाद, 1957।
जे० म्यूर, रिलेशन आफ दि प्रिस्ट्स टु दि अदर क्लासेज आफ इंडियन सोसायटी इन दि वेदिक एज, जर्नल आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी आफ ग्रेट ब्रिटेन ऐंड आयरलैंड, लंदन, न्यू सीरीज, ii (1866), 257-302।
विलहेम गाइगर, सिविलाइजेशन आफ दि ईस्टर्न इरानियन्स इन एनशिएंट टाइम्स, डी० डी० पोसोटन संजाना द्वारा जर्मन भाषा से अनूदित, जिल्द i, लंदन, 1885।
हेनरिक त्सिम्मर, अल्टिंडिस्चेस लेवेन, बर्लिन, 1879।

4. दासता और अशक्तता

(लगभग छः सौ ई० पू० से लगभग तीन सौ ई० पू० तक)

मूल ग्रंथ

अ. ब्राह्मण

आपस्तंब धर्मसूत्र, संपादक जी० बुहलर, बंबई, 1932।
आश्वलायन गृह्यसूत्र, हरदत्ताचार्य की टीका सहित, संपादक टी० गणपति शास्त्री, त्रिवेंद्रम, 1923।
गौतम धर्मसूत्र, संपादक ए० एस० स्टेंजलर, लंदन, 1876, मस्करिन् की टीका सहित, संपादक एल० श्रीनिवासाचार्य, मैसूर, 1917।
पाणिनि-सूत्र-पाठ ऐंड परिशिष्टाज, शब्द सूची सहित, संकलनकर्ता एस० पाठक और एस० चितराव, पूना, 1935।
पारस्कर गृह्यसूत्र, बंबई, 1917।
बौधायन गृह्यसूत्र, संपादक आर० शामा शास्त्री, मैसूर, 1927।
बौधायन धर्मसूत्र, संपादक ई० हुल्श, लिपजिग, 1884।
वसिष्ठ धर्मशास्त्र, संपादक ए० ए० फुहरर, बंबई, 1916।
शांखायन, आश्वलायन, पारस्कर, खदिर, गोभिल, हिरण्यकेशिन् और आपस्तंब के गृह्यसूत्र का अनुवाद, एच० ओल्डेनबर्ग, सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, xxix और xxx, आक्सफोर्ड, 1886-92।
शांखायन गृह्यसूत्र, संपादक एच० गोल्डेनबर्ग, इंडिस्चे स्टूडियेन, XV, पृ० 13 आदि।
आपस्तम्ब, गौतम, वसिष्ठ और बौधायन के धर्मसूत्र का अनुवाद, जी० बुहलर,

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, ii और xiv, आक्सफोर्ड, 1879-82।

आ. बौद्ध

अंगुत्तर निकाय, संपादक आर० मौरिस एवं ई० हार्डी, 5 जिल्द, पाली टेक्स्ट सोसायटी, लंदन, 1885-1900 i जिल्द i, ii और v का अनुवाद एफ० एल० उडवर्ड द्वारा और iii एवं iv का अनुवाद ई० एम० हेअर द्वारा, पाली टेक्स्ट सोसायटी, लंदन, 1932-36।

जातक-टीका सहित, संपादक वी० फासबाल, 7 जिल्द, (जिल्द 7, अनुक्रमणी, डी० ऐंडरसन द्वारा) लंदन, 1877-97, अनुवाद विभिन्न व्यक्तियों द्वारा, 6 जिल्द, लंदन, 1895-1907।

दीघ निकाय संपादक टी० डब्ल्यू० रीज डेविड्स और जे० ई० कारपेंटर, 3 जिल्द, पाली टेक्स्ट सोसायटी, लंदन, 1890-1911, अनुवादक टी० डब्ल्यू० रीज़ डेविड्स, 3 जिल्द, सेक्रेड बुक्स आफ दि बुद्धिस्ट्स, लंदन, 1899-21।

मज्झिम निकाय, संपादक वी० ट्रैंकनर एवं आर० चामर्स, पाली टेक्स्ट सोसायटी, 3 जिल्द, लंदन, 1888-1896, अनुवाद लार्ड चामर्स, 2 जिल्द, सेक्रेड बुक्स आफ दि बुद्धिस्ट्स, 1926-27।

विनयपिटक, संपादक एच० ओल्डेनबर्ग, 5 जिल्द, लंदन, 1879-83। अनुवाद आई० बी० हौर्नर, 5 खंड, सेक्रेड बुक्स आफ दि बुद्धिस्ट्स, लंदन, 1938-52।

इ. जैन

आयारंगसुत्त श्वेतांबर जैन, संपादक एच० जैकोबी, पाली टेक्स्ट सोसायटी, लंदन, 1882।

उत्तराध्ययनसूत्र, संपादक जार्ल चारपेंटियर, उप्पसला, 1922।

उवासगदसाव, संपादक ए० एफ़० रुडाल्फ हार्नले, कलकत्ता, 1890।

ओवाइय (या औपपातिक सूत्र) अभयदेव की टीका सहित, संपादक मुनि हेमसागर, आगमोदय समिति प्रकाशन।

अंतगड-दसाव ऐंड अणुत्तरोववाइय-दसाव, संपादक पी० एल० वैद्य, बंबई, 1932 अनुवादक एल० डी० बार्नेट, लंदन, 1907।

कल्पसूत्र, भद्रबाहु का, संपादक एच० जैकोबी, लिपजिग, 1879।

सूयगडम्, संपादक पी० एल० वैद्य, बंबई, 1928।

स्थानांग सूत्र, अभयदेव की टीका सहित, संपादक वेणिचंद्र सुरचंद्र, 2 जिल्द, बंबई, 1918-20।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

गौण रचनाएं

आइवर फाइजर, दि प्राब्लम आफ दि सेटि्ठ इन बुद्धिस्ट जातकाज़, आर्किव ओरिएंटलानी, प्राग, xxii, 238-265।
आर० एन० मेहता, प्री-बुद्धिस्ट इंडिया, बंबई, 1939।
ए० एल० बैशम, हिस्ट्री ऐंड डाक्ट्रिन्स आफ दि आजीविकाज, लंदन, 1951।
एन० सी० बैनर्जी, स्लेवरी इन एनशिएंट इंडिया, दि कलकत्ता रिव्यू (अगस्त, 1930), पृ० 249-265।
एफ० मैक्सम्यूलर, दि हिब्बर्ट लेक्चर्स 1878, लंदन, 1880।
जे० जे० मेयर, उबर डस वेसेन डर अल्टिन डिस्चेन रेख्टसक्रिफ्टेन उंड जेर वरहाल्टनिस सू आइनैन्डर उंड सू कौटिल्य, लिपजिग, 1927।
टी० डब्ल्यू० रीज़ डेविड्स, बुद्धिस्ट इंडिया, लंदन, 1903।
डब्ल्यू० एल० वेस्टरमन्न, दि स्लेव सिस्टम्स आफ ग्रीक ऐंड रोमन एंटीक्विटी, फिलाडेलफिया, 1955।
डी० डी० कोसम्बी, एनशिएंट कोशल ऐंड मगध, जर्नल आफ दि बांबे ब्रांच आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी, बंबई, न्यू सीरीज, xxvii।
बी० सी० ला, इंडिया ऐज डिस्क्राइब्ड इन अर्ली टेक्स्ट्स आफ बुद्धिज्म ऐंड जैनिज्म, लंदन, 1941।
यू० एन० घोषाल, दि स्टेटस आफ शूद्राज इन दि धर्मसूत्राज, इंडियन कल्चर, कलकत्ता, xiv, 21-27।
रिचर्ड फिक, दि सोशल आरगेनाइजेशन इन नार्थ-ईस्ट इंडिया इन बुद्धाज टाइम, कलकत्ता, 1920।
रोडाल्फ मांडाल्फो, ग्रीक ऐटिच्यूड टु मैनुअल लेबर, पास्ट ऐंड प्रेजेंट, सं० 6।
वी० एम० आप्टे, सोशल ऐंड रेलिजस लाइफ इन दि गृह्यसूत्राज, बंबई, 1954।
वी० एस० अग्रवाल, इंडिया ऐज नोन टु पाणिनि, लखनऊ, 1953।
शिवनाथ वसु, स्लेवरी इन दि जातकाज, जर्नल आफ दि बिहार ऐंड उड़ीसा रिसर्च सोसायटी, पटना, ix, 369-375।

4 मौर्यकालीन राज्य-नियंत्रण और सेविवर्ग

(लगभग तीन सौ ई० पू० से लगभग 200 ई० पू० तक)

मूल स्रोत

ग्रंथ

कौटिल्य का अर्थशास्त्र, संपादक आर० शामा शास्त्री, तृतीय संस्करण, मैसूर,

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

1924 (जब तक अन्यथा न बताया गया हो, इस पुस्तक में जो निर्देश आए हैं, वे इसी ग्रंथ के हैं) अनुवादक आर० शामा शास्त्री, तृतीय संस्करण, मैसूर, 1929। टीका सहित संपादित टी० गणपति शास्त्री, 3 जिल्द, त्रिवेंद्रम, 1924-25। संपादक जे० जाली और आर० स्मिद्त, जिल्द i, लाहौर, 1924। अनुवादक आर० शामा शास्त्री, तृतीय संस्करण, मैसूर, 1929। अनुवादक डस अल्टिनडिस्चे बुक फाम वेल्ट उंड सटैटस्लेबेन, जे० जे० मेयर, लिपजिग, 1926।

टीकाएं

जयमंगला (अर्थशास्त्र के खंड I के अंत तक है, पर कहीं कहीं कुछ छूटा भी है), संपादक जी० हरिहर शास्त्री, जर्नल आफ ओरिएंटल रिसर्च, मद्रास, xx-xxiii।

नय चंद्रिका, माधव यज्व (खंड VII-XII पर) संपादक उदयवीर शास्त्री, लाहौर 1924।

प्रतिपद पंचिका, भट्टस्वामिन् रचित (खंड II पर प्रकरण 8 से), संपादक के० पी० जायसवाल और ए० बनर्जी-शास्त्री, जर्नल आफ दि बिहार ऐंड उड़ीसा रिसर्च सोसायटी, पटना, xi-xii।

उत्कीर्ण लेख

अशोक के शिलालेख, संपादक ई० हुल्श, cii, i, आक्सफोर्ड, 1925।

विदेशियों के विवरण

जे० डब्ल्यू० मैक्रिंडल, (i) एनशिएट इंडिया ऐज डिस्क्राइब्ड इन क्लासिकल लिटरेचर, वेस्टमिंस्टर, 1901।
(ii) एनशिएंट इंडिया ऐज डिस्क्राइब्ड बाई मेगस्थनीज ऐंड एरियन, कलकत्ता, 1926।
(iii) एनशिएंट इंडिया ऐज डिस्क्राइब्ड बाई टेसियाज दि निडियन, लंदन, 1882।

गौण रचनाएं

आई० जे० सोराबजी, सम नोट्स आन दि अध्यक्ष प्रचार, कौटिल्य अर्थशास्त्रम का खंड II, इलाहाबाद, 1914।

एन० सी० बंद्योपाध्याय, कौटिल्य आर एन एक्सपोजिशन आफ हिज सोशल ऐंड पोलिटिकल थ्योरी, कलकत्ता, 1927।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

के० वी० रंगस्वामी अय्यंगर, इंडियन कैमरैलिज्म, मद्रास, 1949।
पी० एल० नरसू, दि इसेन्स आफ बुद्धिज्म, मद्रास, 1912।
बर्नहार्ड ब्रोलर, कौटिल्य स्टुडियेन, 3 जिल्द, बान, 1927-34।

6. प्राचीन व्यवस्था का कमजोर पड़ना

(लगभग दो सौ ई० पू० से लगभग दो सौ ई० सन तक)

मूल स्रोत

ग्रंथ

ड्रामाज आफ भास : अविमारक, बालचरित, पंचरात्र और प्रतिमानाटक, संपादक, टी० गणपति शास्त्री, त्रिवेंद्रम, 1912-15।
दिव्यावदान, संपादक ई० बी० कौवेल और एफ० ए० नील, कैंब्रिज, 1886।
पन्नवणा सूत्र (मलयगिरि की टीका सहित), 2 जिल्द, बनारस, 1884।
मनुस्मृति या मानव धर्मशास्त्र, संपादक वी० एन० मांडलिक, बंबई, 1886, अनुवादक जी० बुहलर, सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, xxv, आक्सफोर्ड, 1886।
महाभाष्य आफ पतंजलि, संपादक एफ० किलहार्न, 3 जिल्द, बंबई, 1892-1909।
महावस्तु, संपादक ई० सेनार्ट, 3 जिल्द, पेरिस, 1882-97।
मिलिंदपंहो, संपादक वी० ट्रेंकनर, लंदन, 1928; अनुवादक टी० डब्ल्यू० रीज़ डेविड्स, सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, xxxv-xxxvi, आक्सफोर्ड, 1890-4।
युगपुराण, संपादक डी० आर० मनकद, वल्लभविद्यानगर, 1951।
ललितविस्तर, संपादक एस० लेफमन्न, 2 जिल्द, हैले, 1902-1908।
सद्धर्मपुंडरीकसूत्र, जिसमें सेंट्रल एशिया की पांडुलिपियों के पाठ भी हैं, एन० डी० मिरोनोव के, संपादक एन० दत्त, कलकत्ता, 1952 अनुवादक एच० कर्न, सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, xxi, आक्सफोर्ड, 1884।

उत्कीर्ण लेख

ल्यूडर की उत्कीर्ण लेखों की सूची, एपिग्राफिया इंडिका, X।

गौण रचनाएं

आर० ई० एम० व्हीलर, रोम बियांड दि इंपीरियल फ्रंटियर्स, पेलिकन

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

सीरीज, 1955।

ई० एच० वार्मिगटन, दि कामर्स बिटविन दि रोमन एंपायर ऐंड इंडिया, कैंब्रिज, 1928।

ई० डब्ल्यू० हापकिंस, दि म्युचुअल रिलेशंस आफ दि फोर कास्ट्स एकार्डिग टु दि मानव धर्मशास्त्र, लिपजिग, 1881।

ए० डी० पुसलकर, भास—ए स्टडी, लाहौर, 1940।

के० पी० जायसवाल, हिस्ट्री आफ इंडिया, ई० सन 150 से ई० सन 350, लाहौर, 1933।

के० वी० रंगस्वामी अय्यंगर, (i) आस्पेक्ट्स आफ दि सोशल ऐंड पालिटिकल सिस्टम आफ मनुस्मृति, लखनऊ, 1949।

(ii) राजधर्म, मद्रास, 1941।

जी० एफ० इलयिन, शूद्राज उंड स्क्लेवेन इन डेन अल्टि डिस्चेन गेसेत्सबुचर्न, साउजे त्विसेनशैफ्ट (बर्लिन), 1952, सं० 2, पृ० 94-107।

डब्ल्यू० डब्ल्यू० टार्न, दि ग्रीक्स इन बैक्ट्रिया ऐंड इंडिया, कैंब्रिज, 1938।

डी० ए० सुलेकिन, फंडामेंटल प्राब्लम्स आफ दि पीरियडाइजेशन आफ एनशिएंट इंडिया, मेडीइवल इंडिया क्वार्टर्ली (अलीगढ़), i, सं० 53-4, 46-58।

बी० एन० पुरी, सम आस्पेक्ट्स आफ इकनामिक लाइफ इन दि कुषाण पीरियड, इंडियन कल्चर, कलकत्ता, xii।

7. रूपांतरण की प्रक्रिया

(लगभग दो सौ से पांच सौ ई० सन)

मूल स्रोत

ग्रंथ

अमरकोश या अमरकृत नामलिंगानुशासन, भट्ट क्षीरस्वामी की टीका सहित, संपादक ए० डी० शर्मा और एन० जी० सरदेसाई, पूना, 1941।

कात्यायन स्मृति, व्यवहार, विधि एवं प्रक्रिया संबंधी नए पाठ सहित, संपादन, अनुवाद, टिप्पणी और प्रस्तावना, पी० वी० काणे, बंबई, 1933।

कामंदकीय नीतिसार, संपादक आर० एल० मित्र, बिब्लिओथेका इंडिका, कलकत्ता, 1884, अनुवादक एम० एन० दत्त, कलकत्ता 1896।

कामसूत्र, वात्स्यायनकृत. यशाधर की जयमंगला टीका सहित, संपादक गोस्वामि दामोदर शास्त्री, बनारस, 1929।

जंबूद्वीप पन्नप्तिः, शांतिचंद्र की टीका सहित, बंबई, 1920।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

जयाख्य संहिता, संपादक एंबर कृष्णाचार्य, गायकवाड़ ओरिएंटल सीरीज, Liv, बड़ौदा, 1931।

थेरगाथा अट्ठकथा (परमत्थदीपनी), धर्मपाल की टीका, संपादक एफ० एल० वुडवार्ड, 2 जिल्द, पाली टेक्स्ट सोसाइटी, लंदन, 1940-52।

नरसिंह पुराण, द्वितीय संस्करण, बंबई, 1911।

नाट्यशास्त्र, भरत मुनि कृत, अभिनव गुप्त की टीका सहित, संपादक मनवल्लि रामकृष्ण कवि, 3 जिल्द, गायकवाड़ ओरिएंटल सीरीज, बड़ौदा, 1926-54, अनुवादक मनमोहन घोष, कलकत्ता, 1950।

नारद स्मृति, असहाय की टीका के उद्धरण सहित, संपादक जे० जाली, कलकत्ता, 1885, अनुवाद, जे० जाली, सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, xxxiii, आक्सफोर्ड, 1889।

पंचतंत्र, प्राचीनतम पाठ, कश्मीरी, जिसका शीर्षक है तंत्राख्यायिका, संपादक जे० हर्टेल, हार्वर्ड ओरिएंटल सीरीज, xiv, हार्वर्ड, 1915। ग्रंथ अपने प्राचीनतम रूप में, एफ० एडगर्टन, पूना, 1930 (निर्देश इसी ग्रंथ के दिए गए हैं)।

पिंडनिर्युक्तिः, भद्रबाहु स्वामी कृत, बंबई, 1918।

वृहत् कल्पसूत्र और स्थविर आर्य भद्रबाहु स्वामिन् की मूल निर्युक्ति तथा संघदास गणि क्षमाश्रमण का भाष्य, और टीका, जिसका आरंभ मलयगिरि ने और समापन क्षेमकीर्ति ने किया, 6 जिल्द, भावनगर, 1933-42।

वृहत् संहिता, वराहमिहिरकृत, हिंदी अनुवाद सहित, दुर्गाप्रसाद, लखनऊ, 1884।

वृहत् संहिता, वराहमिहिरकृत, भट्टोत्पल की टीका सहित, 2 खंड, संपादक सुधाकर द्विवेदी, बनारस, 1895-7।

वृहस्पति स्मृति (इस ग्रंथ का अनुसरण किया गया है), संपादक के० वी० रंगस्वामी अय्यंगर, गायकवाड़ ओरिएंटल सीरीज, Lxxxv, बड़ौदा, 1941 अनुवादक, जे० जाली, सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, xxxiii, आक्स-फोर्ड, 1889।

मालविकाग्निमित्र, कालिदासकृत, संपादक पी० एस० सने, जी० एच० गोडबोले ऐंड एच० एस० उरसेकर, बंबई, 1950।

मृच्छकटिक, शूद्रक कृत, संपादक और अनुवादक, आर० डी० करमारकर, पूना, 1937। अनुवादक आर० पी० आलिवर, एलिनाय, 1938।

याज्ञवल्क्य स्मृति, वीरमित्रोदय एवं मिताक्षरा सहित, चौखंबा संस्कृत सीरीज, बनारस, संवत 1986।

रघुवंश कालिदासकृत, संपादक रघुनाथ नंदरगिकर, बंबई, 1891।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

लंकावतार सूत्र, संपादक बुनियु नानजियो, क्योटो, 1923। अनुवादक डी० टी० सुजुकी, लंदन, 1932।
वज्रसूची, अश्वघोषकृत, संपादक और अनुवादक, सुजितकुमार मुखोपाध्याय, शांतिनिकेतन, 1950।
विमानवत्थु अट्ठकथा (धम्मपालकृत परमत्थदीपनी का खंड IV), संपादक ई० हार्डी, पाली टेक्स्ट सोसायटी, लंदन, 1901।
विष्णुधर्मोत्तर महापुराण, बंबई, विक्रम संवत, 1969।
विष्णुस्मृति या वैष्णव धर्मशास्त्र (नंद पंडित की टीका के उद्धरण सहित), संपादक जे० जाली, बिब्लिओथेका इंडिका, कलकत्ता, 1881; अनुवादक जे० जाली, सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, vii, आक्सफोर्ड, 1880।

चीनी ग्रंथ

एच० ए० जाइलस, दि ट्रैवेल्स आफ फाहियान आर ए रेकार्ड आफ बुद्धिस्टिक किंगडम्स (अनुवाद), कैंब्रिज, 1923।
जेम्स लेगि, ए रेकार्ड आफ बुद्धिस्टिक किंगडम्स (चीनी भिक्खु फाहियान की यात्रा का विवरण), (अनुवाद) आक्सफोर्ड, 1886।
टी० वाल्टर्स, आन युएन सांग्स ट्रैवेल्स इन इंडिया, संपादक टी० डब्ल्यू० रीज डेविड्स एवं एस० डब्ल्यू० बुशेल, 2 जिल्द, लंदन, 1904-5।
सैमुअल बील, ट्रैवेल्स आफ फाहियान ऐंड सुंग-यंग (अनुवाद), लंदन, 1869।

अन्य ग्रंथ

एडवर्ड सी० सचौ, अलबेरुनीज इंडिया (अनुवाद एवं संपादन), लंदन, 1888।

उत्कीर्ण लेख

जे० एफ० फ्लीट, इंसक्रिप्शंस आफ दि अर्ली गुप्त किंग्स, cii, iii, लंदन, 1888।

गौण रचनाएं

आर० एन० सेलेटोर, लाइफ इन दि गुप्त एज, बंबई, 1943।
आर० जी० बसाक, इंडियन सोसायटी ऐज पिक्चर्ड इन दि मृच्छकटिक, इंडियन हिस्टारिकल क्वार्टर्ली, कलकत्ता, V।
आर० जी० भंडारकर, वैष्णविज्म, शैविज्म ऐंड माइनर रेलिजस सेक्ट्स, स्ट्रैसबर्ग, 1913।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

आर० सी० मजुमदार एवं ए० एस० अल्टेकर, दि गुप्त-वाकाटक एज, लाहौर, 1946।

आर० सी० मजुमदार एवं ए० डी० पुसलकर, दि क्लासिकल एज, बंबई, 1954।

ई० डब्ल्यू० हापकिंस, (i) दि रेलिजन्स आफ इंडिया, लंदन, 1895। (ii) दि ग्रेट एपिक आफ इंडिया, न्यू हैवेन, 1901।

ई० पी० ओ० मरे, दि एनशिएंट वर्क्स आफ वेस्टर्न घालभूम, जर्नल आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल, कलकत्ता, III क्रम, vi, 79-104।

एच० सी० चकलादार, सोशल लाइफ इन एनशिएंट इंडिया, कलकत्ता, 1929।

एच० सी० रायचौधरी, अर्ली हिस्ट्री आफ वैष्णव सेक्ट, कलकत्ता, 1920।

ए० बी० कीथ, दि सांख्य सिस्टम, आक्सफोर्ड, 1919।

एम० ए० मरे, दि स्प्लेंजर दैट वाज इजिप्ट, लंदन, 1949।

एस० के० मैती, दि इकनामिक लाइफ आफ नार्दर्न इंडिया इन दि गुप्ता पीरियड, कलकत्ता, 1957।

के० एस० रामस्वामी शास्त्री, स्टडीज इन रामायण, बड़ौदा, 1944।

के० जे० विरजी, एनशिएंट हिस्ट्री आफ सौराष्ट्र, बंबई, 1952।

जी० एफ० इलयिन, ओसोबेन्नोस्टी राबस्त्वा ड्रेवनीयइंडीये, वेस्तनिक ड्रेवनीय इस्तोरी, (मास्को-लेनिनग्राद), 1951, सं० I, पृ० 33-52।

जे० एन० बनर्जी, दि डेवलपमेंट आफ हिंदू आइकोनोग्राफी, कलकत्ता, 1941।

डी० आर० पाटिल, कल्चरल हिस्ट्री फ्राम दि वायु पुराण, पूना, 1946।

डी० डी० कोसंबी, दि वर्किंग क्लास इन दि अमरकोश, जर्नल आफ ओरिएंटल रिसर्च, मद्रास, xxiv, पृ० 57-69।

रामशरण शर्मा, भारतीय सामन्तवाद, राजकमल, दिल्ली, 1973।

बी० एस० उपाध्याय, इंडिया इन कालिदास, इलाहाबाद, 1947।

बी० सी० ला, हैवेन ऐंड हैल इन बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव, कलकत्ता एवं शिमला, 1925।

वी० आर० आर० दीक्षितार, दि गुप्त पालिटी, मद्रास, 1952।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

अनुक्रमणी

(संस्कृत, पालि और प्राकृत शब्द)

अंतराल 162
अंतस् 58
अंतावसायिन (अंत्यावसायिन) 116, 156, 163, 195, 197, 247, 249
अंत्यजन 185, 197, 247
अंत्ययोनि 115
अंत्यव 115, 197, 238
अक्रतुन 9
अग्निचयन 66
अग्निहोत्र 66, 69, 199, 255
अन्तनो पुरिस 93
अदेवीः विशः 10, 11
अदास 159
अधम 237
अध्वर्यु 49, 51
अनंगदानव्रत 253
अनामय 103
अनास 11
अनुलोम 225
अनुष्टुभ् 51, 57, 64
अनृतदूत 47
अन्यव्रत 10, 18
अन्यस्य प्रेष्यः 54
अपृणतः 13
अपकृष्ट 180
अपकृष्टजः 186
अपपात्र 104, 197
अपव्रत 10, 18
अभिजन 154
अमात्य 154, 163, 164
अयाज्य 164
अरुणि 59
अर्थवाद 179
अराधसम् 13
अर्य 63
अर्या 246
अवकृष्ट 251
अवर 152, 160, 190, 205
अवर वर्णप्राय 146
अव्रत 10
अश्वमेध 43, 45, 50, 51, 55, 183
आश्रद्धान 9
अश्रम 59, 110, 251, 252
अष्टदश श्रेणि 177
असंवृत 199
असिक्नीविशः 10
असुर 26
अस्पृश्य 237
आगहि 58
आद्रव 58
आधाव 58
आपदधर्म, 175

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

अर्द्धिक 204, 228
आर्यकृत 97
अयाज्यायजनाध्यापने 164
आरोग्य 103
आर्यत्वम् 158, 159
आर्यप्राण 157, 158
आर्ष 193
आसुर 161, 193
'आहतक' 92
आहितक 158, 160
इतिहास 60
इषुकार 65
उत्कृष्ट 180, 186
उत्थापन 54
उदीच्य 82
उणादि-सूत्र 29
उपक्रुष्ट 62
उपनयन 26-7, 59-61, 108, 115, 250
'उपनीत' 61, 67
उपपातक 239
उपरिकर 229
उषासक 122
एकजाति 198
एकाह 45
एथमानद्विट् 13
एहि 58
ऐद्रलोक 253
ऐंद्राग्नि 251
ओदनसव 63
ऋत्विज् 199, 254
कबालभयग 93
कपूयाम् 57
कम्मकार 121
करीसा (करीष) 89, 227
कल्प 143
कर्णवेधन 251
कर्म (सिद्धांत) 282
कर्मकर्ता 43
कर्मार 21, 47, 48, 65
कर्षक 146, 148, 153
कल्याणीवाक् 58
कामोत्थाप्यः 54
कारूक 148, 228
कार्षापण 181
काष्ठ 254
कीनाश 228, 235
कुंभकार 111
कुंभदासी 246
कुटुम्बिन 148, 229
कुड्य 182
कुल 24, 231
कुलाल 65
कुलिक 235, 255
कुलीन 234
कुल्यवाप 227
कौटतक्ष 86
कृछ्र 192
कृष्ण (काला) 10, 11
कृष्ण ऋषि 16
कृष्णगर्भा 11
कृष्णयोनिः दासीः 11
कृष्ण रूपा 11
कृष्णल 181, 232
कैवर्त 235
कोटि 255
खत्तिय 95, 104
गण 9
गणिका 57
गर्भदास 46
गांधर्व (विवाह) 161, 194
गांधर्व लोक 253
गाथा 83, 87, 91-3, 245
गामभोजक 88
गायत्री 51, 239

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

गोप 149
गोरक्षक 148
गोविकर्तन 47, 65
गोत्र 140, 242
गृहदास 112
ग्रामतक्ष 86
ग्रामणी 21
ग्रामभृतक 146, 152
ग्रामशिल्पिन् 86
ग्राम्य-कुटुम्बिनः 148
चंडालिका 248
चकवा 244
चम्मकार 111, 115, 247
चर्मम् 21
चर्मवर्कातिना 192
चांद्रायण 193, 199, 211, 239, 244, 251
चूड़ाकरण 251, 254
चोरघातक 113
जगति 51
जन 14
जनपद 147, 161
जनपदनिवेश 146, 147, 159
जनपदोभिजातः 154
जन्म हानि 253
जन्य 52
जन्यमित्र 52
जनंगम 247
जात्तभयग 93
जाति 282
जेत्यक 86
तंतवाय 111
तक्मन् 24
तच्छक 114
तप 44
तप्तकृच्छ् 193
तक्षक 62
तक्षन् 21, 46-48, 67, 69
तुन्नकार 86
त्वचमसिक्नीम 10
दंड 174, 241, 254
दंडसमता 161
दरिद्रवीथी 182
दर्भ 22
दश् 17
दस्युहत्या 18
दशपूर्णमास 52
दक्षिणा 14
दान 251
दाशीवश 18
दासकम्मकर 125
दासकम्मकरपोरिस 93
दासधर्म 224
दासपरिभोग 90
दासप्रवर्ग 18
दासभोग 96
दास हत्या 8, 18
'दासी' 24, 44, 56, 121, 189, 194, 198
दासीपुत्र 63
दासीसभम 225
दिग्विजय 25
दिवसभयग 93
दिवाकीर्ति 247
दुर्गनिवेश 48
'द्र' 28
'द्रु' 29
द्रोणवाप 227
द्वंद्व 146
द्विज 256, 281
द्विजाति 185, 188
धनिनः 9
धनुकार 65
धर्मप्रवक्ता 183
नमस्कार मंत्र 251
नमः 110

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

नलकार 111
नहापित 111
न्यायवर्तीक 252
नागरक 230
नामधेय 205
नायक 225
निकृष्टजातिः …आसुरिः सेनाः 11
नियोग 194, 245
निर्वाण 117
निर्वासिन 54
निवर्तन 228
निषाद स्थपति 62
निषादाधिपति 62
निष्क 181, 187
निष्कासन 54
नीचकुल 112
पंचजनाः 62
पंचमहायज्ञ 251
पतित 103, 104, 107, 155, 235, 243, 253
पदावनेकता 87
पण 91, 163, 165, 180-81, 185, 187-88, 189, 238, 241
पर्ण-मणि 21
पराक 239
परिचरणकर्माणः 44
परिचारक 158
पल 177
पालागल 47
पालगली 57
पाकयज्ञ 110, 199, 251
पापिष्ठ 115
पाणिग्रहण 161
पितर 253
पुरिस 93, 95
पुरुषमेघ 44, 45, 57
पुष्टम् 49
पूर्णपात्र 251
पेसकार 111, 117
पेस्स 91, 95, 100
पैशाच 161, 193
पोषयिष्णुः 43
पौर 98
प्रचलाक 102
प्रतिलोम 225, 238
प्रथमकुलिक 234
प्रवर 253
प्रवर्ग्य 67
प्राण 60
प्राणायाम 105
प्रेष्य 100
प्लव 247
फल 49
वलि 20
बहुपशुः 43
वाह्य 116, 195, 197
बेकनाट 14
ब्रह्मचर्याश्रम 59
ब्रह्मचादिन् 56, 199
ब्रह्मचारिन् 59
ब्राह्म 193
भद्रिकाः प्रजाः 241
भटक 92, 95, 176
भटमयेसु 155
भांडागारिक 97
भागदुघ 64
भागिल्लभागिक 100
भुज्जीस्स 159
भूमिपुरुषवर्जम् 45
भूमिशूद्रवर्जम् 45
भृतक 92, 181-2, 222
भृतकवीथी 182

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

भृति 92
भृत्य 222, 224
भोग 146
मंत्र 251, 253
मंत्री 153, 234
मज्झिमपटिपदा 144
मधुपर्क 61, 109
मध्यमा तामसी गतिः 203
महाव्रत 63-4, 239
महासाल 95
मातंग 113, 118
मानुसी प्रजा 10
मारुत (स्वर्ग) 253
मासक 91-2
मुंज 254
मुनिश्रेष्ठ 57
मृगयों 65
मृतप 112, 197
मृध्रवाक 11
यथाकामप्रयाप्य 53
यथाकामवध्यः 54
यज्ञ 251
यज्ञदीक्षा 251
युगांत 206
रजस् 203
रत्नहवीषि 48, 64, 65
रत्निन् 47-9, 68
राजकुंभकार 86
राजकुलाल 86
राज-नापित 86
राजमालाकार 86
राजवल्लभ 87
राजसूय 25, 47, 48, 51-5
राजशासन 145
राक्षस 161, 193
लुद्दाचार खुद्दाचारति 29, 112
लोकायत 143
वक 244
वर्गिन् 225
वर्चस् 49
वध 55
वध्य 239
वर्द्धकि 152
'वर्ण' 14
वर्णाविराणाम् 148
वर्णसंकर 248
वसोर्धारा 51
वाधक 235
वायु 60
वारिक 230
वालखिल्य 18
विदथ 9
विप्र 240
विमान 254
विश् 8, 10, 12, 14-5, 17, 21, 27, 44, 46, 48-9, 52, 64, 66, 115
विश्वजित् 62
विष्टि 149, 230, 280
विष्टिवंधक 153
वीणा 230
वृद्धि 253
वृषल 67, 112, 163, 182, 191, 197-8, 202-3, 234, 241
वृषली 194-5
वृषशिप्र 11
वेदी 63
वेण 114, 117
वेणुकार 114
वैर 54
वैरदेय 54
वैर हत्या 55
वैश्वदेव 103, 105
व्याकरण 51
व्यवहार-समता 161

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

व्रत 10, 13
व्रात 10
शतरुद्रीय 65
शिल्प 46
शिवमंदिर 253
शील 256
शुक 28
शुच 29
शुचम् अभिदुद्राव 29
शुचावा अभिद्रुवे 29
शुचा वा रैक्वम् अभिदुद्राव 29
शुल्क 158
शुश्रूषु 198
शूद्रकर्षप्रायम 146
शूद्रपुत्र 56
शूद्र भूयिष्ठ 202
शूद्रयोनि 56
शूद्रवर्जम 104
शूद्रा 24, 246, 282
शौण्डिक 192
श्यावाय 16
श्राद्ध 82, 192, 253-4
श्रेणि 231
श्रेणिधर्म 231
श्रेष्ठः 186
श्वनियों 65
श्वीन्द्रु 30
संग्रहीतृ 64
संघगण 98
संध्या 111
सजात 48
सत्व 203
सन्तति 256
सन्निधाता 148
सपिंड 110, 157
सभा 9
सभासद 50
सभ्य 234
समान स्थानवासी 98
समाहर्ता 153
समिति 9
सर्पग्राहादिकाः 147
सर्पविद्या 61
सर्वमेध 45
साधारण 253
सीता 224
सीताध्याय 150
सीर 224
सीरवाहक 223
सुकालिन 253
सुद् 29, 117
सुवर्ण 237
सूद्दो वा सुद्द दासो बा 88
सूत्राध्यक्ष 150
सेट्ठिछत्त 97
सेनानि 47
सोम-याग 66
सोवाग 118
स्त्रीधन 193
स्थपति 62
स्थली 66
स्नातक 61, 103, 182, 191-2, 197-8, 234, 243-4
स्वयंवर 245
स्वाहाकार 251
हविष् 63
'हविष्कृत' 58
हीनकर्मजातिम् 164
हीन जाति 47, 112
क्षत्ता 156
क्षुद्र 29
त्रैवर्णिक 62, 101

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

सामान्य अनुक्रमणी

(इस सूची में भी संस्कृत और पालि भाषा के शब्द, विशेषकर साधारणतया प्रयुक्त होने वाले ग्रंथों, जातियों और व्यक्तियों के नाम शामिल किए गए हैं.)

अंग (राजा) 44
अंगिरस 17, 58
'अंगुत्तर निकाय' 83
अंगुलिमाल 117
अंध्र 58, 195-6
अंबष्ठ 23, 28, 195, 247
अंबष्ठ राजा 23
अंशुमती (यमुना नदी) 10
'अ कोड आफ जेंटू लाज' 1
अग्नि 11-3, 50-1, 66
अग्निवैश्वानर 10
अजातशत्रु (मगध) 119, 160
अजीगर्त 58
अतुक 228
अत्तिक 89
अथर्वन (पुजारी) 13, 16
अथर्ववेद 8, 10, 17, 20-5, 29, 43, 47-9, 59, 60, 69, 108
अथ्रवन (ईरान) 16
अनु 13
अनुशासन पर्व 220, 222, 225, 238, 241, 243, 245, 246, 248
अफ्रीका 8
अवस्तनोई 23
अमरकोश 221, 225, 227, 229-30, 235, 240, 247-8, 281
अमरसिंह 221, 230, 244, 253
अरस्तू 154
अर्थशास्त्र (कौटिल्य) 5, 143-5, 149-51, 153-4, 156-7, 161, 163-5, 177, 181, 204, 223, 226, 229, 231, 233, 280
अर्बुद 234
अलिन 13
अवंति 234
अशोक 121, 145, 160, 163, 174, 200-1, 280
अशोक के ताम्रपत्र 155
अश्वघोष 221
अश्वपति कैकेय 27
अश्वमेधिक पर्व (महाभारत) 241
अश्विनी 16, 64-5
'असम' 227
असुर 9, 11, 60
अस्पृश्य 5, 58, पूर्व मौर्यकाल में 108, 112-3, 115-7, मौर्यकाल में 154, 163, मौर्योत्तर काल में 195-7, गुप्त काल में 249-51
अहुर 26
अहुर मज्द 59

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

अत्रि 194
आजीवक संप्रदाय 121, 163
आदिपर्व (महाभारत) 192
आनंद 177
आपस्तंब 82, 87, 90, 93, 97, 99, 102-4, 107, 109, 112, 116, 180
आपस्तंब धर्मसूत्र 60, 89, 104, 108, 115, 144
आपस्तंब श्रौतसूत्र 42, 62, 66
आभीर (शासक) 24-5, 194, 234
आभीरी (आर्श बोली) 25
आयोगव (संकर जाति) 50-1, 156, 162, 195, 197
आरुणि 44, 59, 61
आर्य (आर्यजन) 8-25, 27-8, 30, 50, 56, 59, 63-6, 69, 82, 92, 96-7, 103, 106, 111, 152, 158-60, 177, 198, 202, 224, 279-80
आर्यदेश 25
आर्यभाषा 19, 25
आर्यशूद्र 22
आर्य समाज 2
आर्य समुदाय 13, 20-1, 62, 198, 279
आर्यावर्त 82, 196
'आश्वलायन गृह्यसूत्र' 109
'आश्वलायन श्रौतसूत्र' 42, 45, 62
आह्निक 195
आत्रेय 44
इंगलैंड 1
इंदौर 231
इंद्र 8, 10-12, 14, 16-7, 64
इगलिंग, जे० 56
इतरा 56
इल्यिन, जी० एफ० 4
इशिंग 221
ईरान (ईरानी) 26, 59, 61
इसिदासी 88
ईश्वरचंद्र विद्यासागर 2
ईस्ट इंडिया कंपनी 1
'ईस्वी सन्' 25, 205, 220, 281
'एज आफ कंसेन्ट बिल' (1891) 2
एरियन 23, 147, 155, 160, 162
एलिफिस्टन 1
एशिया 8
ऐतरेय 56
'ऐतरेय ब्राह्मण' 23, 42, 44, 46, 50, 53-6
उग्र 108, 115, 195, 247
उत्तर पश्चिमी भारत 24, 26, 28
उत्तरपूर्वी भारत 24, 27, 85-6
उत्तरी भारत 12, 84, 113, 145, 205, 226, 229, 247, 254, 281
'उत्तराध्ययन' 118
उदय 104
उपनिषद 42-3, 46, 69
उपपुराण 253
उपाल 112
उवट 50
उशिज 17, 56
उशीनर 246
ऊपरी गंगा 19
ऋग्वेद 8, 9, 11-3, 16-24, 26, 30, 43, 60, 63-4, 68
ऋग्वैदिक आर्यसमाज 20
ऋग्वैदिक जनजाति 62
कक्षीवंत 17
कक्षीवत 56
कछार जिला 227
कण्व 16
कपिंजलाद 57
कपिलवस्तु 124-25
'कपिष्ठल संहिता' 66
कर्मकर 43, 88, 92, 95, 102, 117, 122, 147-49, 152, 164, 176, 178, 181, 221, 229-30, 280

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

करण 108, 246
कलिंग 112, 246
कलि (शासक) 183
कलियुग 175, 183, 200-3
कवष ऐलूष (पुजारी) 56, 63
कसाइट 18
कश्मीर 234
कांबोज 97, 246
कात्यायन (स्मृति) 220, 223, 225-6, 228, 235-7, 240, 253
कात्यायन श्रौतसूत्र 42, 45
काठक विद्यालय 63
'काठक संहिता' 63, 66
काने, पी० वी० 16, 82
कामंदक 221, 235
'कामसूत्र' 221, 224, 230, 246
कारावर (जाति) 195-6
'कारुकर रक्षणम' 150.
कालिदास 221, 248, 251
काशी 89, 90
किरात 44, 281
कीकट 9
कीथ, ए० बी० 15-6, 45, 47, 54, 68
कुक्कुटक (कुटक, कौक्कुटिक) 108, 162, 195-6
कुमारामात्य 234
कुरु 174
कुरु पंचाल 42
कुर्माली (भाषा) 19
कुल्लूक 175-6, 184-5, 189, 193, 194, 197-9
कुषाण 175, 182, 201, 205, 220
कुद्र 26
कूद्रोस 26
'कूर्मपुराण' 200-1
कृष्ण (असुर) 11, 221, 255
केतकर, एस० वी० 4
केल्टस 47
कैवर्त (मल्लाह) 195-6, 254
कैंब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया 84
कोटिवर्ष 234
कोल (जनजाति) 228
कोलब्रुक 1
कोलिक (जनजाति) 228
कोलिसर्प 246
कोशल 95
कौटिल्य 5, 83, 95, 143-9, 151-65, 180-1, 188-9, 202-3, 223, 235, 238, 241, 280, 282
कौशिक (ऋषि) 256
कौषीतकी ब्राह्मण 42
क्रीतवासी 160
गंगा 125
गंगा घाटी 15
गंगामाल (हजाम) 104
'गंगामाल जातक' 91
गंधर्व 60
गणपति 255
गणपति शास्त्री, टी० 148-9, 228
गणपठ (पाणिनीकृत) 115
गहपति 3, 86-7, 89, 95-8, 122, 124, 149, 181
गांधार (जनजाति) 112
गाइगर, डब्ल्यू० 60
गुजरात 227
गृह्यसूत्र 70, 82, 84, 108, 114, 251, 253
गेल्डनर, के० एफ० 11, 13
'गोपथ ब्राह्मण' 44
गौतम (धर्मसूत्र, विधिविषयक ग्रंथ) 82, 85, 89, 92, 94, 98, 101-104, 107-8, 110-11, 113, 115-6, 123, 144, 180, 182, 185
गौतम बुद्ध 27, 29, 85, 88-90, 112, 118-23, 144, 196, 254

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

गौतमी शातकर्णी 183, 205
गौड़ 112
ग्रीक 205
ग्रीक नगर राज्य 96
ग्रीक शासक 182
ग्रीस 26, 46, 87, 95-8, 101, 147, 281
घुर्ये, जी० एस० 3
घोषाल, यू० एन० 4, 50, 53, 147
चंद्रगुप्त द्वितीय 242
चंद्रगुप्त मौर्य 143, 153, 282
चंडाल, परवर्ती वैदिक समाज में 57-8, 68-9, 83, 103, 108-9, मौर्यपूर्व समाज में उनकी स्थिति 112, उत्पत्ति 112, ब्राह्मण समाज में उनकी स्वीकृति 114, निषादों के साथ तुलना 115, 117-8, जैन ग्रंथों में उनका स्थान 118, कौटिल्य की दृष्टि में 153, 155-6, 162, मौर्योत्तर समाज में 193, 194-7, 198, गुप्तकाल में 235, 238, 241, 243-5, 246-250, 255
चारुदत्त 246
चिल्डर्स 89
चीन 25
चुंद 85
चैलाशक 202
च्यवन (ऋषि) 245
'छांदोग्य उपनिषद' 46, 59-61, 69
जक्ख (देखिए 'यक्ष')
जगन्नाथ तर्कपंचानन 220
जनक 27
'जयाख्य संहिता' 255
जातक 82-3, 86, 88-90, 106, 109, 113-15, 118, 121-5, 177
जानश्रुति 29, 48, 60, 90-1
जायसवाल, के० पी० 48-9, 51, 98, 179, 185, 250
जैमिनी 109
'जैमिनीय ब्राह्मण' 42-3, 51
जैनशूद्र 185
जोगली, जे० 194
झल्ल 196
डियोडोरस 2
डोम, 247, 248
तंत्रवाद 255
तक्षशिला 109
तरुक्ष 17, 19
तिलक, बी० जी० 2
तुखार 25
तुर्वश 13
'तैत्तिरीय ब्राह्मण' 42, 52, 60, 64, 66
'तैत्तिरीय संहिता' 51, 65-6
तोशली 245
थेर 25
'थेरिगाथा' 25
दंभोद्भव (राजा) 50
दकन 177
दृषद्वति 25, 174
दक्ष-शिव 255
दत्त, एन० के० 3
दभीति 9
दरप 25
दर्भ शातानीकि 51, 64
'दस राजाओं का युद्ध' 13
दस्यु 8-13, 15-6, 18, 24, 58, 195, 240-1
दहे 14, 18, 26
दामोदर पुर के ताम्र शिलालेख 234
दास 8-13, दास और दस्यु 11, 14-16, ऋग्वेद में दास 22-4, 26, 30, ऋग्वेद में दास (गुलाम) 18, 31, परवर्ती वैदिक काल में 44, पूर्व मौर्य काल में 88-92, 95, 97, 100, 117, 122, मौर्य काल में 147, 149, 152, आहितक और दस्यु में

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

अंतर 157-9, मौर्योत्तर काल में 178, 190, 195-6, गुप्त काल में 20-6, 241-2
'दासकर्मकरकल्प' 158
दिवोदास (आर्य प्रमुख) 19
दिवोदास (पुजारी) 17
दिव्यावदान 174
'दीघनिकाय' 83, 112, 119, 121, 178
दीर्घतमस 17, 18, 56
द्रविड़ 25, 112, 116, 247
द्राह्यायण श्रौतसूत्र 42
द्रुह्यु 13
'धनुर्वेद संहिता' 240, 250
धिग्वण 195-6
धर्मकीर्ति 221
धर्मशास्त्र 2, 4, 5, 21, 24, 52, 82, 84, 87, 101, 104, 226
धर्ममूर्ति 253
धर्मसूत्र 4, 51, 54-5, 62, 70, 82, 84-5, 87, 89, 94, 98, 102-3, 105-6, 107-9, 112-116, 121, 143-5, 147, 152, 154-5, 157, 160-2, 165, 198, 205, 220, 242
धृतिमित्र 234
नंद 97, 112
नंदराज (टीकाकार) 245
नकुल 25
नट-नर्तक 196
'नयचंद्रिका' 146
'नरसिंह पुराण' 229
'नाट्यशास्त्र' 221, 242-3, 249, 250
नारदस्मृति 220, 222-3, 225-7, 232, 235-6, 238, 240-1, 245, 250
नारायण 255
नासिक शिलालेख 178
निग्रो 3
निघंटु 44
निरुक्त 54, 62, 143
निषाद 44, 60, 62, 65, 67, 95, 108, 109, 114, समाज में उनका स्थान 114-5, निषाद गोत्र 115, 117, कौटिल्य की दृष्टि में 157, अन्य जातियों के साथ तुलना 162, 195-6, 246
नीतिसार (कामंदक) 221
नेपाल 221, 222
'पंचतंत्र' 244
'पंचाल' 51, 64, 174
'पंचविंश ब्राह्मण' 42, 56
पंजाब 25, 82
पक्थ 13
पतंजलि 112, 174, 176, 178, 181, 182, 190-2, 194, 197
पन्नवणा 174
पणि 14
पर्जिटर, एफ० ई० 234
परवर्ती वैदिक साहित्य 42, 43
परशुराम 27
पराशर 57, 157, 195
परुष्णि (नदी) 13
पर्णक 44
पर्थियन 174, 182, 205
पल्लव भूमिदान 228, 230
पश्चिमी एशिया 19
पश्चिमी भारत 230, 237, 240, 254
पह्लव 25
पांडुसोपक 195-6
पाणिनी का व्याकरण 29, 50, 82, 86, 90, 97, 112, 115, 163, 190-1, 281
पारशव 108, 165
पालि-अंग्रेजी शब्दकोश 92
पालिग्रंथ 21, 65, 87-8, 91, 95, 104, 106, 113, 115, 147, 159, 228
पुंजिष्ठ 62
पुंद्र 58
पुराण 21, 29, 57, 200, 221, 233, 249,

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

254, 256, 258, 281
पुरुकुत्स 13, 17
पुरु 13
'पुरुष-सूक्त' 17, 22-3, 55
पुरोहित 153
पुलिंद 25, 58, 155, 246-7
पूर्व-आर्य जनता 25
पूर्व-बौद्ध काल 43
पूर्वी नेपाल 246
पूषण 44 51, 64-5
पृषध्र 245
पैजवन 4, 27-8, 251
पैप्पलाद 24
पौल्कस (पुलकश, पुलकुस, पुक्कुस, पुक्कस) 44, 58, 71, 108, 112, 114-5, 117, 157, 177, 195-7, 248, 250
प्रजापति 43, 59, 63, 64, 224
प्रतर्दन दैवोदासि 17
प्रमति 202
प्रवाहण जैवलि 27
प्राकृत 250
फरोह 257
फारस 18
फाहियान 238, 240, 244, 246-7
फिक, आर० 3, 114, 119
फ्रीसियन 47
फ्लामेन 16
बंगाल 1, 226-7, 235
बनारस 113
बर्नेल, ए० सी० 101
बलि 56
बलबूथ 17, 19
बल्हिक 24
बादरायण 29
बादरी (प्राचीन शिक्षक) 109
बिंबसार 119
बिहार 19, 82
बुहलर, जी० 105
बृहत संहिता 221, 228
बृहदारण्यक उपनिषद 67, 69
बृहद्देवता 56
बृहस्पति स्मृति 10, 220-6, 228-30, 232-9, 244-5, 247, 251, 253, 254
बेबीलोनिया 18
बैंद 44
बैक्ट्रियन ग्रीक 174
बोधिसत्त्व 85, 91, 118, 121
बौद्धधर्म 117-22
बौद्धसंघ 179, 254
बौद्ध शूद्र 185
बौधायन 83, 94, 98, 101-2, 105-7, 110, 111, 114, 116
बौधायन धर्मसूत्र 108, 144
बौधायन श्रौतसूत्र 42
ब्रह्म 49, 52-3
ब्रह्मदत्त 104
ब्रह्मर्षि देश 174
ब्रह्मांड पुराण 201, 242
ब्रह्मा 19
ब्रह्मावर्त 174
ब्राह्मण (पुजारी) 4, पूर्व वैदिक काल में 15, 16, 21, 22, 26, 27, 30, उत्तर वैदिक काल में 48, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 70, पूर्व मौर्य काल में 84, 87-9, 95-9, 102-8, 110-25, मौर्य काल में 154-8, 161-3, 165, मौर्योत्तर काल में 174-5, 177, 179, 180-205, गुप्त काल में 220, 222, 225, 227-8, 231, 233-4, 236-57, 280, शूद्रों से विरोध 282
ब्राह्मणवाद 16, 205
ब्राह्मण साहित्य 42, 57
ब्रिटेन 1
भंडारकर, डी० आर० 198
भंडारकर, सर आर० जी० 2

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

भृगु 194
भगवान 255
भट्टस्वामिन (व्याख्याकार) 148-9
भरहुत 83
भलानस (जाति) 13
'भविष्य पुराण' 57, 221, 249
'भागवत पुराण' 221, 249
भारत 13, 28
भारत का इतिहास (जे० मिल) 1
भारत युद्ध 25
भास 174
भिक्षु 254
मंदसोर 231
मंस 246
मक्खलि गोसाल 125
मगध 89, 95, 119
'मज्झिम निकाय' 83, 87, 99
मत्स्य 174
'मत्स्य पुराण' 211, 221
मथुरा 177, 179
मदनपाल 57
मदनिका (दास युवती) 246
मद्गु (संकर जाति) 195-6
मध्यभारत 227-8, 240
'मध्यांत-विभंग' 144
मद्रनाभस (जाति) 246
मनिसक 196
मनु 83, 108, 156, 174-8, 200-22, 225-7, 232, 235-7, 239, 241-2, 244, 247, 249, 251, 254, 280
मनु वैवश्वत 245
'मनुस्मृति' 94, 221
मन्यु 12
मरुत 10, 46, 50, 64
मरुत्त श्रविक्षित (राजा आयोगव) 50-1
मल्ल 196
मस्करिन 98, 109
महाकाव्य 21, 28, 249, 258
महादेव 255
महाभारत 19, 24, 27, 28, 43, 50, 56, 62-4, 68, 220, 249, 254
महाभाष्य (पातंजलि) 174, 197-8
महाराजा विष्णुदास 242
महावृष 24, 28, 60
'महावस्तु' 174, 176, 178, 186
महिष 247
महावीर 84, 119
महीदास 56
महीधर 50
मागध (संकर जाति) 108, 156, 195, 197, 247
मागधी (प्राकृत बोली) 250
मातंग (चंडाल पुत्र) 118
मातंग (अस्पृश्य) 249
माधव 202
'माध्यंदिन' 67
मामतेय 17
'मार्कंडेय पुराण' 221, 228, 249, 250
मार्गव (जाति) 195-6
मालवा 83, 234
मितन्नी 19
मिथिला 27, 220, 256
मिल, जे० 1
मिस्र 145, 201, 257
मिस्र का मध्य राज्य 239, 245, 257
मुइर, जे० 2, 3, 13, 14
मुक्त आर्य 80
मुजवंत 24
मुतिब 58
'मृच्छकटिक' 242, 244, 246, 249, 250
मेगस्थनीज 143, 145, 147, 148, 154-6, 160

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

मेद 195-6
मेधातिथि (व्याख्याता) 56, 176
मेसोपोटामियन 15
मैत्रक शासक 227
'मैत्रायणि संहिता' 67
मैत्रेयक 195-6
मोरिय 153
मौर्य 280
मौष्टिक 196
मौसिकन 160
म्लेच्छ शासक 201-3, 234, 237, 241, 247
'यजु' (ग्रंथ) 48-51, 55, 63, 65, 66
'यजुर्वेद' 60
यदु 13
यमुना 10
यवन 82, 97, 108, 159, 246
यक्ष 248
यादव 11
याष्क 62-3
याज्ञवल्क्य स्मृति 220-3, 225-7, 233-7, 239, 241, 243-5, 247, 249, 251-2 254
'युग पुराण' 175, 201
युधिष्ठिर 25, 44, 49, 61
योरोप 84
योरोपवासी 3, 8, 23
रजक 253
रथकार 21, 47, 49, 51, 61-3, 65-7, 69, 108, समाज में उनका स्थान 114, 117, 158, अन्य जातियों से तुलना 162, 230, 247
राघवानंद 187, 196
राजा 20-1, 23, 46-52, 55, 57, 68, 86-7, 91, 93, 97-8, 101, 111, 114, 117-21 145, 147, 150, 152-3
राजुक 160
राम 251
राम मार्गवेय 53
रामायण 249
राय, राममोहन 2
राक्षस 10, 12, 19
रीज डेविड्स (श्रीमती) 125
रीज डेविड्स, टी० डब्ल्यू० 85, 113
रुद्र 65
रुद्रदमन 204
रुद्र-पशुपति 62
रुद्रलोक 255
रैक्व 46
रोथ, आर०
रोम 87, 96, 97, 147, 177, 205, 281
रोमक 83
रोम के सम्राट 16
रोम साम्राज्य 202
'लंकावतार सूत्र' 221
'लाट्यायन श्रौतसूत्र' 42
लीलावती 253
लैसिडिमोनिया 160
वज्रसूची 221, 250, 254, 256
वत्स (ऋषि) 56
वन पर्व 256
वराहदास 242
वराहमिहिर 221, 233
वरुण 12-3, 24, 58
वर्गेल्ड 20, 54, 187, 190
वर्धमान महावीर 27-8
वर्ण 21, 22, 63, 85
वर्णाश्रम 221
वलभी 227
वसंतसेना 246, 256
वसिष्ठ 13, 57, 82, 94, 98, 101, 110, 115, 123-5, 161-2, 188, 198-9, 205, 230, 242, 256
वसिष्ठ धर्मशास्त्र 241

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

वसिष्ठ धर्मसूत्र 144
वागुरिक 155
वाजसनेयि संहिता 51, 58, 63, 66
वात्स्यायन 221, 246
'वायु पुराण' 201-2, 242, 245
वासुदेव 255
विनय पिटक 83, 90, 92, 112, 124, 188
विलियम जोन्स, सर 1
विल्सन, एच० एच० 11-2
विश्वंतर सौषद्मन 53
विश्वरूप 245
विश्वदेव 50, 64
विश्वामित्र 13, 27, 58, 192, 256
विष्णु (देवता) 255-6
विष्णु पुराण 62, 183, 203, 206, 221
विष्णु स्मृति 221, 227, 230, 232, 236-7, 239, 245, 250
विष्णुधर्मोत्तर पुराण 221
विज्ञानेश्वर 244
वृद्ध मनु 19
वृत्र 16
वेद 19, 58, 61, 104, 164, 198-200, 235, 249, 251, 255, 258
'वेदांतसूत्र' 28
वेण (जाति) 117, 162, 194, 196
वेण (राजा) 114
वेवर, ए० 2, 19, 65
वैदेहक 195, 197, 247
वैद्य 246
वैदिक आर्य 26
वैदिक ग्रंथ 24, 107-8
वैदिक देवता 64
वैदिक भारतीय 15-6, 57, 60
वैदिक इंडेक्स 14, 44, 56, 69, 279
वैशाली 235, 255
वैश्य, प्रारंभिक वैदिक काल में 21-2, परवर्ती वैदिक काल में 25, 44, 46, 48-58, 60-1, 63-8, मौर्यपूर्व काल में 85, 87, 94-97, 99, 101, 104, 105-108, 110, 114, 122-3, मौर्य काल में 154-157, 161, मौर्योत्तर काल में 175-6, 178-181, 183-5, 187-8, 190-4, 199, 200, गुप्त काल में 225, 227-8, 233-6, 238-243, 245-6, 252-6
वैश्यवर्ग 228, 248
वैश्वदेव समारोह 243
वैष्णववाद 182, 254-6, 282
व्यापारी 85, 93, 151, 240-1
व्यास 57, 256
व्रात्य, गैर ब्राह्मण आर्य के रूप में 59, 65, संकर जाति के रूप में 156, 246, 250
शंकर 29, 67
शंकरिक 196
शंबूक 251
शक 25, 174, 182, 201, 205, 246
शकार (मृच्छकटिक का एक पात्र) 249
'शतपथ ब्राह्मण' 42, 47, 50, 52, 53, 56, 58, 60, 67
शबर 25, 59, 112, 155, 248
शर्विलक (ब्राह्मण) 246
'शांखायन श्रौतसूत्र' 42, 45, 64
शांति पर्व 4, 27-8, 221-4, 230, 233, 235, 239-41, 244, 249, 251-2, 257
शाक्य 124
शाम शास्त्री 148, 158, 162
शास्त्री, वी० एस० 4
शिवि 28
शिल्पी, ऋग्वैदिक काल 20-1, परवर्ती वैदिक काल 44, 46, 48, 64, 68, पूर्व मौर्यकाल 85-6, 93, 95, 99, 101, 110, 121, 124, मौर्यकाल 145, 147-9, 151-3, मौर्योत्तर काल 177-8, 204, गुप्तकाल में 228, 230-1, 244
शिव 13

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

शिव (जाति) 253, 255
शुनः शेप 58
शूद्र 1-8, 16-9, शूद्र जनजाति 22-27, शूद्र जनजाति के सैनिक कार्य 28, शूद्रों की स्थिति 42-6, 47-51, 60-82, 84-5, जनसंख्या 87-9, 91-2, सेवा नहीं करने वाले शूद्र, शूद्र पुत्रों तथा अन्यों में भेद 87-95, उनकी विभिन्न भूमिकाएं 95-6, पूर्व मौर्य काल में उनकी राजनीतिक-कानूनी स्थिति 96 101, उनकी सामाजिक अयोग्यता 102, उनका पेशा और भोजन 103-6, विवाह के नियम 106-8. उनकी शिक्षा के प्रकार 109, 110, उनके श्राद्धकर्म 110, पांच प्रकार के निम्न पेशे 111, पांच हीन जातियां 112, शूद्र और अंत्ययोनि 115, बौद्ध धर्म में उनका प्रवेश 117-120, जैन लोगों का दृष्टिकोण 120-1, वैश्य और शूद्रों को समान मानना 123, निचले तबके का विरोध 125, कौटिल्य की दृष्टि में 145, शूद्र किसान 146, कौटिल्य की मान्यता 147-53, 155-6, मौर्य काल में उनकी स्थिति में मुख्य परिवर्तन 152-5, शूद्र और गुलाम 157-161, मौर्योत्तर काल में उनकी स्थिति 174-6, 178-80, 181-194, 197-205, गुप्त काल में उनकी स्थिति 220-222, 224-5, 227-247, 249-257
शूद्रक 221
शूद्र वर्ग 222, 230, 235, 240, 244, 247-8
शूद्रशासक 234
शूर सेन 28, 174
शैववाद 255, 282
शौनक 194
श्यापर्ण 53
श्रमिक 4, परवर्ती वैदिक काल 68, पूर्व मौर्य काल 87, 89, 90-3, 95, 104, 106, 122 124, मौर्य काल में 146-9, 151-3, 155, मौर्योत्तर काल 181-2, गुप्त काल में कृषि श्रमिक 222-4, 232-3
श्री शातकर्णि 177
श्रौतसूत्र 42, 45-6, 61, 67
श्वपक 196, 243
श्वपाक 57, 156, 162, 195, 247, 248, 255
श्वेतकेतु 44, 59
संबस्तई 23
'संयुत्त निकाय' 83
संस्कृत 23, 250
संहिता (वेद संबंधी) 14, 43, 46
सतलज 19
सती 2
'सत्यार्थ प्रकाश' 2
'सत्याषाढ़ श्रौतसूत्र' 42
सदाना 19
सद्दालपुत्त 85
सद्धर्म पुंडरीक 174, 186
सनकानीक 242
सरस्वती 19, 25, 174, 187
सांची 83
सातवाहन 83, 179, 190, 205, 236
सामविधान ब्राह्मण 101
सामवेद 60
सायण 10-1, 23-4, 47, 54, 56, 58, 65
सावत्थि (श्रावस्ती) 83
सिकंदर 23
सिंद (सिंध) 23, 160, 234
सिंधु की राजनीतिक व्यवस्था 15
सिंहवर्मन 201
सीथियन जाति 14, 18
सुकरात 46
सुकालिन 199
सुद् 29
सुदर्शन भील 204
सुदक्षिण क्षैमि 56

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

सुदास 12-3, 29
सुमेर 15
सूत 21, 65, 156, 195, 197, 235, 247
सूयगढ़म 100
सूर्य 50
सेट्ठि 3, 86, 88-9, 95, 97
सेनार्ट, ई० 3, 14, 61
सेलग 60
सैरंध्र 195-6
सोद्रई 23
सोम 10, 11, 46, 63, 66, 67
सौंडिक 196
सौगंध (संकर जाति) 246
सौरसेनी 250
सौराष्ट्र 234
स्ट्रैबो 144-5, 147, 155, 160
स्पार्टन 60
स्पार्टा 46, 279
स्फैमियोतई 160
स्वामी दयानंद 2
हम्मुखी संहिता 102
हड़प्पा 18
हयशीर्ष पंचतंत्र 221
हरदत्त 102, 104, 110, 112
हविष्क 179
हरि 255
हरिसेन 118
ह्रापकिंस, ई० डब्ल्यू० 3, 63, 203, 220, 251, 279
हिमालय 82
हिट्टाइट 19
हिरण्यकेशिन गृह्यसूत्र 90
हिल्लब्रांट, ए० 3, 14
हूइतिवर्ग (ईरान) 61
हूण 25
हेग, एम० 54
हेलट 48
हेसियड 48
ह्वेन-सांग 229
होमर 26
होमरकालीन ग्रीस 26
ह्विट्ने, डब्ल्यू० डी० 23
ह्वीलर, आर० ई० एम० 15
क्षत्ता (क्षत्तृ) 47, 162, 195-7, 247
क्षत्र 49, 52-3
क्षत्रिय (योद्धा) 3, पूर्व वैदिक काल में 14, 21, 23, 27, उत्तर वैदिक काल में 30, 45, 50, 52, 61, 66, 68, पूर्व मौर्य काल में 84, 87, 93-5, 98, 101-8, 110-11, 122-3, मौर्य काल में 154-7, मौर्योत्तर काल में 174, 180-4, 187-9, 191-4, 200, 202, गुप्त काल में 225, 233-6, 238-42, 250-2, 255
क्षुद्रक 190
क्षौद्र 246
त्रसदस्यु 11, 17
त्रेतायुग 20

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh